



आगरानिवासी पण्डित रामेश्वरभट्ट.

॥ श्रीः ॥


मनुस्मृतिः



आगरापत्तनस्थराजकीयमुख्यपाठशालीय-
भूतपूर्वप्रधानसंस्कृतोध्यापक

पण्डित रामेश्वरभट्टकृतया

भाषाटीकया समा-



(द्वितीयावृत्ति)

सा च

मुम्बय्यां

पाण्डुरङ्ग जावजी

इत्येतैः स्त्रीये निर्णयसागराख्ययन्त्रालयेऽङ्कयित्वा प्रकाशिता ।

संवत् १९७८, सन् १९२२.

Published by Pandurang Javaji, and Printed by
Ramohandia Yesu Shedge, at the
Nirnaya Sagar Press, 23 Kolbhat Lane, Bombay.

श्रीः

भूमिका

प्रिय पाठकगण

जीजिये यह मनुस्मृतिका भाषाऽनुवाद आपलोगोंके करकमलोंमें सादर समर्पित है। यह ग्रथ धर्मशास्त्रके सब ग्रन्थोंका शिरोमणि है कारण कोई स्मृति इसके विरुद्ध नहीं है जैसा कहा है कि “मनुस्मृतिविरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते। वेदार्थोपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि मनो स्मृतम्” अर्थात् जो स्मृति मनुस्मृतिके विरुद्ध है उसकी प्रशंसा नहीं होती। वेदार्थके अनुसार होनेसे मनुस्मृतिही प्रधान है ॥

इस ग्रन्थमें चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके धर्म कर्म उत्पत्ति आदि ऐसे विस्तारपूर्वक लिखे गये हैं कि वे सूचीपत्रके देखनेसे विदित होसके हैं यहां भूमिकामें उनका लिखना कोरा पिष्टपेण करना होगा। मनुस्मृतिका कई भाषाओंमें अनुवाद होचुका और सबत्र उसकी मान्यता है और हिन्दी भाषाऽनुवादोंका तो कहनाही क्या है अनेक यंत्रालयाधीन छाप २ कर लाभ उठा रहे हैं। इसप्रकार निर्णयसागर यंत्रालयमेंसी इसग्रन्थके भाषाऽनुवाद सहित छपनेकी आवश्यकता देख वहांके अध्यक्ष श्रीयुत महाशय तुकाराम जावजीने मुझसे भाषाऽनुवाद करनेका अनुरोध किया इसलिये इसे पूर्ण कर इसका सब अधिकार सदाके लिये उन्हेंको सौंपताहूं। योंतो मनुस्मृतिपर अनेक ऋषियोंकी संस्कृतमें विस्तृत टीकायें प्रस्तुत हैं परंतु यह अनुवाद श्रीयुत कुल्लूकभट्टजीकी टीकाके आधार पर किया गया है क्योंकि विद्वानोंमें उस टीकाकी बड़ी मान्यता है। मेरी इच्छा थी कि श्लोकोंका अन्वयनी साथ २ देदियाजाता परंतु ग्रन्थका मौल्य बढ जानेके भयसे यंत्रालयाध्यक्षोंने अन्वय रखनेकी अनुमति नहीं दी।

मनुस्मृतिके अनेक अनुवाद होनेपरभी अपने किये अनुवादकी प्रशंसा लिख औरोंकी भाति आलापना मुझे अभिमत नहीं है इसलिये विनय करताहूं कि मेरे प्रमादसे अथवा यंत्रालयके दोषसे जहा कहीं जो कुछ रह गयाहो उसे पाठकजन क्षमा करें।

आगरा चैत्र शुद्ध ३ बुधे
संवत् १९७३

कृपाकाङ्क्षी
रामेश्वरभट्ट.

मनुसंहितास्थविषयानुक्रमः ।

प्रथमोध्यायः ।

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
मनुं प्रति मुनीनां धर्मप्रश्नः	१	१	वनस्पतिवृक्षभेदः	... ४७	७
तान् प्रति मनोरुत्तरम्	४	१	गुच्छगुल्मादयः	... ४८	७
जगदुत्पत्तिकथनम्	... ५	१	एवं सृष्ट्वा ब्रह्मणोऽन्तर्धानम्	५१	७
जलसृष्टिक्रमः	... ८	२	महाप्रलयस्थितिः	... ५४	८
ब्रह्मोत्पत्तिः	... ९	२	जीवस्योत्क्रमणम्	... ५५	८
नारायणशब्दार्थकथनम्	१०	२	जीवस्य देहान्तरग्रहणम्	५६	८
ब्रह्मस्वरूपकथनम्	... ११	२	जाप्रस्त्रमाभ्यां ब्रह्मा सर्वं		
स्वर्गभूम्यादिसृष्टिः	... १३	२	सृजति	... ५७	८
महदादिक्रमेण जगदुत्पत्तिः	१४	३	एतच्छास्त्रप्रचारमाह...	५८	८
देवगणादिसृष्टिः	... २२	४	मृगुरेतच्छात्रं युष्मार्कं		
वेदत्रयसृष्टिः	... २३	४	कवयिष्यति	... ५९	८
कालादिसृष्टिः	... २४	४	मृगुस्तान्मुनीनुवाच	... ६०	९
कामक्रोधादिसृष्टिः	... २५	४	मन्वन्तरकथनम्	... ६१	९
धर्माधर्मविवेकः	... २६	४	अहोरात्रनानादिकथनम्	६४	९
सूक्ष्मस्थूलाद्युत्पत्तिः	... २७	५	पित्र्याहोरात्रकथनम्	... ६६	९
कर्मसापेक्षासृष्टिः	... २८	५	देवाहोरात्रकथनम्	... ६७	९
ब्राह्मणादिवर्णसृष्टिः	... ३१	५	चतुर्युगप्रमाणम्	... ६९	९
स्त्रीपुरुषसृष्टिः	... ३२	५	दैवयुगप्रमाणम्	... ७१	१०
मनोरूपत्तिः	... ३३	५	ब्राह्माहोरात्रप्रमाणम्	... ७२	१०
मरीच्याद्युत्पत्तिः	... ३४	५	ब्रह्मण सृष्ट्यर्थे मनोनिवो-		
यक्षगन्धर्वाद्युत्पत्तिः	... ३७	६	जनम्	... ७३	१०
नेपादिसृष्टिः	... ३८	६	मनस आकाशप्रादुर्भावः	७५	१०
पशुपद्यादिसृष्टिः	... ३९	६	आकाशाद्वायुप्रादुर्भावः	७६	१०
छमिकीटाद्युत्पत्तिः	... ४०	६	वायोस्तेज प्रादुर्भावः	... ७७	११
अरायुजगणना	... ४३	७	तेजसो जलं जलात्पृथ्वी	७८	११
अण्डजादयः	... ४४	७	मन्वन्तरप्रमाणम्	... ७९	११
स्वेदजादयः	... ४५	७	मस्ये चतुष्पादमः	... ८१	११
उद्भिजादयः	... ४६	७	अन्ययुगे धर्मस्य पादपादहातिः	८२	११

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम् *	श्लोकाः	पृष्ठम्
युगेयुगे आयुःप्रमाणम्	८३	११	मध्यदेशमाह	... २१	१९
युगेयुगे धर्मवैलक्षण्यम्	८५	१२	आयांघर्षमाह	... २२	१९
ब्राह्मणस्य वर्गाह	... ८८	१२	यक्षिणदेशमाह	... २३	१९
क्षत्रियकर्माह	... ८९	१०	वर्णधर्मादिकमाह	... २५	१९
वैश्यकर्माह	... ९०	१२	द्विजानां वैदिकमर्त्यर्गर्भा-		
शूद्रकर्माह	... ९१	१२	धानादिकं कार्यम्...	२६	१९
ब्राह्मणस्य श्रेष्ठत्वम्	... ९२	१३	गर्भाधानाद्ये पापक्षयहेतु-		
ब्राह्मणेपु ब्रह्मवेदिनः श्रेष्ठाः	९७	१३	त्वमाह	... २७	१९
एतच्छ्राद्धं ब्राह्मणेनाप्येतव्यम्	१०३	१४	स्वाध्यायउत्सर्गहेतुत्वमाह	२८	१९
एतच्छ्राद्धाभ्ययनफलम्	१०४	१४	जातकर्माह	... २९	२०
आचारो धर्मप्रधानः	... १०८	१५	नामकरणमाह	... ३०	२०
ग्रन्थार्थानुक्रमणिका	... १११	१५	स्त्रीणां नामकरणमाह...	३३	२०

द्वितीयोऽध्यायः ।

वर्मेसामान्यलक्षणम्	... १	१६	चूडाकरणम्	... ३५	२०
कामात्मतानिषेधः	... २	१६	उपनयनम्	... ३६	२०
व्रतादयः सकल्पजा	... ३	१६	उपनयनकालविचार	... ३८	२१
अकामस्य न कापि क्रिया	४	१६	प्रास्ता	... ३९	२१
वर्मेप्रमाणान्याह	... ६	१७	कृष्णाजिनादिधारणम्	... ४१	२१
वर्मेस्य वेदमूलतामाह...	७	१७	मौड्यादिधारणम्	... ४२	२१
श्रुतिस्मृत्युदितधर्मोऽनुष्ठेय.	९	१७	मौड्यश्लोके कुशादिमे-		
श्रुतिस्मृत्योः परिचयः...	१०	१७	रला कार्यो	... ४३	२१
नास्तिकनिन्दा	११	१७	उपवीतमाह	... ४४	२२
चतुर्धा धर्मप्रमाणमाह	१२	१७	अथ दण्डा	... ४५	२२
श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे श्रुतिर्व-			अथ भिक्षा	... ४९	२२
लवती	... १३	१८	प्राप्सुरादिकाम्यभोजनफलम्	५२	२२
श्रुतिद्वैधे उभयं प्रमाणम्	१४	१८	भोजनादावन्ते चाचमनम्	५३	२३
श्रुतिद्वैधे दृष्टान्तमाह...	१५	१८	श्रद्धयार्थं सुशीत	... ५४	२३
दशकर्मोपितस्यात्राधिकार	१६	१८	अथद्वया भोजनं निषिद्धम्	५५	२३
धर्माद्युष्ठानयोग्यदेशकथनम्	१७	१८	भोजने नियमा	... ५६	२३
ब्रह्मावर्तदेशीयः सदाचार	१८	१८	अस्तिभोजननिषेध	... ५७	२३
कुरुक्षेत्रादिब्रह्मविदेशानाह	१९	१८	ब्राह्मादितीर्थानाचमनं न		
तद्देशीयब्राह्मणादात्वार			पितृतीर्थेन	... ५८	२३
शिखीन्	... २०	१९	ब्राह्मादितीर्थान्याह	... ५९	२३
			आचमनविधिः	... ६०	२३

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्-	श्लोका	पृष्ठम्
सव्यापसव्यमाह ...	६३	२४	संध्यात्रयवन्दनम् ...	१०१	२९
विनष्टे पूर्वदण्डादौ द्वितीया-			संध्याहीनः शूद्रवत् ...	१०३	२९
दिग्रहणम् ...	६४	२४	वेदपाठाशाक्तौ सावित्रीमा-		
केशान्ताह्वयसंस्कारः...	६५	२४	त्रजय. . .	१०४	२९
स्त्रीणां सस्कारायमन्त्रकम्	६६	२४	नित्यकर्मादौ नानध्याय. . .	१०५	२९
स्त्रीणां वैवाहिकविधिविदि-			जपयज्ञफलम् ...	१०६	२९
कमन्त्रैरेव ...	६७	२४	समावर्तनान्तं होमादि क-		
उपनीतस्य कर्माह ...	६९	२५	र्तव्यम् ...	१०८	२९
वेदाध्ययनविधिमाह ...	७०	२५	कीदृशः शिष्योऽध्याप्य इ-		
गुरुवन्दनविधिः ...	७२	२५	त्याह ...	१०९	३०
गुरोराज्ञयाऽध्ययनविरामी	७३	२५	अपृष्टो वेदं न ब्रूयात् ..	११०	३०
अध्ययनादावन्ते च प्रणवः	७४	२५	निषेधातिक्रमे दोषः ...	१११	३०
प्राणायाम ...	७५	२५	असच्छिष्याय विद्या न		
प्रणवाद्युत्पत्ति. . .	७६	२६	वक्तव्या . . .	११२	३०
सावित्र्युत्पत्ति. . .	७७	२६	सच्छिष्याय वक्तव्या... . .	११५	३०
सावित्रीजपफलम् ..	७८	२६	अध्ययनं विना वेदग्रहण-		
सावित्रीजपाकरणे प्रायश्चित्तं	८०	२६	निषेध. . .	११६	३०
प्रणवव्याहृतिसावित्री-			अध्यापकानां मान्यत्वमाह	११७	३१
प्रशंसा . . .	८१	२६	अविदिताचरणनिन्दा...	११८	३१
प्रणवप्रशंसा ...	८४	२६	गुरोरभिवादनदौ ...	११९	३१
मानसजपस्याधिक्यम्	८५	२७	वृद्धाभिवादाने ...	१२०	३१
इन्द्रियसंयमः ...	८८	२७	अभिवादनफलम् ...	१२१	३१
एकादशेन्द्रियाणि ...	८९	२७	अभिवादनविधिः . . .	१२२	३१
इन्द्रियसंयमेन सिद्धिर्न तु			प्रत्यभिवादाने ...	१२५	३२
भोगै. . .	९३	२८	प्रत्यभिवादानाहाने दोषः	१२६	३२
विषयोपेक्षकः श्रेष्ठ. . .	९४	२८	कुण्डप्रश्नादौ . . .	१२७	३२
इन्द्रियसंयमोपायमाह	९६	२८	दीक्षितादेर्नामग्रहणनिषेधः	१२८	३२
कामासक्तस्य यागाद्यो न			परकथादेर्नामग्रहणनिषेधः	१२९	३२
फलदा. . .	९७	२८	कनिष्ठमातुलादिवन्दननिषेधः	१३०	३२
जितेन्द्रियस्वरूपमाह...	९८	२८	मातृष्वसादयो गुरुस्वीव-		
एकेन्द्रियास्यसोऽपि नि-			त्पूज्याः ...	१३१	३२
वार्याः ...	९९	२८	आतृभार्याद्यभिवादाने	१३२	३२
इन्द्रियसंयमस्य पुरुषार्थहे-			ज्येष्ठभगिन्याद्यभिवादाने	१३३	३२
मुत्वम् ...	१००	२८	पौरसत्यादौ . . .	१३४	३३

प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्
दशवर्षोऽपि ब्राह्मण. क्षत्रि-		गोदानादौ नव्यदण्डादयः १७४	३७
यादिभिः पितेव बन्धः १३५	३३	एते नियमा लुष्टेयां.	१७५ ३७
वित्तादीनि मान्यत्वकार-		मित्यज्ञानतर्पणहोमादि . १७६	३८
णानि १३६	३३	ब्रह्मचारिणो नियमा. ... १७७	३८
रघारूढादे पन्था देयः १३८	३३	कामाद्रेत- पातनिषेधः... १८०	३८
ज्ञातकस्य पन्था राह्या प्रदेय. १३९	३३	स्वप्ने रेत'पाते ... १८१	३८
अथाचार्य. १४०	३३	आचार्यार्थं जलकुशाद्याह-	
अथोपाध्यायः ... १४१	३३	रणम् १८२	३८
अथ गुरुः १४२	३४	वेदयज्ञोपेतग्रहाङ्घ्रिका क-	
अथत्विक् १४३	३४	र्तव्या ... १८३	३८
अध्यापकप्रशंसा . . १४४	३४	गुरुकुलादिभिक्षायाम्... १८४	३८
मात्रादीनामुत्कर्ष. ... १४५	३४	अभिशस्त्रसिद्धानिषेध. १८५	३९
आचार्यस्य श्रेष्ठत्वम् ... १४६	३४	सायंप्रातर्होमसमिध १८६	३९
वाल्लोऽप्याचार्य. पितेव १५०	३४	होमाद्यकरणे ... १८७	३९
अत्र दृष्टान्तमाह ... १५१	३५	एकग्रहभिक्षानिषेध ... १८८	३९
वर्णक्रमेण ज्ञानादिना ज्यै-		निमन्त्रितस्यैकान्नभोजने १८९	३९
ष्ठम् १५५	३५	क्षत्रियवैश्ययोर्नैकान्नयोज-	
मूर्त्तिनिन्दा १५७	३५	नम् १९०	३९
शिष्याय मधुरा वाणी प्र-		अध्वयने गुरुहिते च अल	
योक्तव्या ... १५९	३६	कुर्यात् १९१	३९
नरस्य वाङ्मन.सयममाह १६०	३६	शुर्वाज्ञाकारित्वमाह ... १९२	३९
परद्रोहादिनिषेधः ... १६१	३६	शुरौ छत्ते शयनादि ... १९४	४०
परैणावमाने कृतेऽपि क्षमा		शुर्वाज्ञाकरणप्रकार ... १९५	४०
कार्या १६२	३६	शुरुसमीपे चाबल्यनिषेधः १९८	४०
अवमनुदोष. ... १६३	३६	शुरोर्नोमग्रहणादिकंनकार्यम् १९९	४०
अनेन विधिना वेदोऽप्ये-		शुरनिन्दाश्रवणनिषेधः २००	४०
तव्य १६४	३६	शुरुपरिवादकरणफलम्... २०१	४०
वेदान्तासस्य श्रेष्ठत्वम् १६६	३६	समीपं गत्वा शुर्षं पूजयेत् २०२	४१
वेदान्त्यामस्तुति' ... १६७	३६	शुर्वादिपरोक्षे न किञ्चित्क-	
वेदमनधीस्य वेदाज्ञान्यवि-		श्चेत् २०३	४१
द्याप्ययननिषेध ... १६८	३७	यानादौ शुरुणा सहोपवे-	
द्विजतनिरुपणार्थमाह १६९	३७	क्षाने २०४	४१
अनुपनोतम्यानश्चिद्धारः १७१	३७	परमशुरी शुरुवद्भृति ... २०५	४१
दृष्टोपनयनस्य वेदाप्ययनम् १७३	३७	विद्याशुरुपिये ... २०६	४१

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
गुरुपुत्रविषये	...	२०७ ४१	कृतसमावर्तनो विवाहं कुर्यात्	४	४७
गुरुस्त्रीविषये	...	२१० ४२	असपिण्डाया विवाहाः	५	४७
स्त्रीस्वभावकथनम्	...	२१३ ४२	विवाहे निन्दितकुलानि	६	४७
मात्रादिभिरैकान्तवासि-			कन्यादोषाः	...	८ ४७
पेधः	...	२१५ ४२	कन्यालक्षणम्	...	१० ४७
सुवतीगुरुस्त्रीवन्दने	...	२१६ ४२	पुत्रिकाविवाहनिन्दा	...	११ ४८
गुरुशुश्रूषाफलम्	...	२१८ ४२	सवर्णा स्त्री प्रशस्ता	...	१२ ४८
ब्रह्मचारिण प्रकारत्रयमाह	२१९	४३	चातुर्वर्ण्यस्य भार्यापरिग्रहः	१३	४८
सूर्योदयास्तकालस्वापे	२२०	४३	ब्राह्मणक्षत्रयोः शूद्रास्त्रीनि-		
संध्योपासनमवश्यं कार्यम्	२२२	४३	पेधः	...	१४ ४८
ख्यादे श्रेयःकरणे	...	२२३ ४३	हीनजातिविवाहनिषेधः	१५	४८
त्रिवर्गमाह	...	२२४ ४३	शूद्राविवाहविषये	...	१६ ४८
पित्राचार्यादयो नावमन्तव्याः	२२५	४३	अष्टौ विवाहप्रकाराः	...	२० ४९
तेषां शुश्रूषाकरणादौ	...	२२८ ४४	वर्णानां धर्म्यविवाहानाह	२२	४९
तेषामनादरनिन्दा	...	२३४ ४४	पैशाचासुरविवाहनिन्दा	२५	५०
मात्रादिशुश्रूषाया प्राधान्यम्	२३५	४४	ब्राह्मविवाहलक्षणम्	...	२७ ५०
नीचादेरपि विद्यादिग्रहणम्	२३८	४५	दैवविवाहलक्षणम्	...	२८ ५०
आपदि क्षत्रियादेरप्यधे-			आर्षविवाहलक्षणम्	...	२९ ५०
तव्यं तेषां पादप्रक्षाल-			प्राजापत्यविवाहलक्षणम्	३०	५०
नादि न कार्यम्	...	२४१ ४५	शासुरविवाहलक्षणम्	...	३१ ५०
क्षत्रियादिगुरावतिवासनि-			गान्धर्वविवाहलक्षणम्	...	३२ ५०
पेधः	...	२४२ ४५	राक्षसविवाहलक्षणम्	...	३३ ५०
यावज्जीवं गुरुशुश्रूषणे	२४३	४५	पैशाचविवाहलक्षणम्	...	३४ ५१
गुरुदक्षिणादौ	...	२४५ ४६	उदकदानाद्ब्राह्मणस्य वि-		
आचार्ये मृते तत्पुत्रादिसे-			वाहः	...	३५ ५१
वनम्	...	२४७ ४६	ब्राह्मादिविवाहफलम्	...	३७ ५१
यावज्जीवं गुरुकुलसेवा-			ब्राह्मादिविवाहे सुप्रजोत्पत्तिः	३९	५१
फलम्	...	२४९ ४६	निन्दितविवाहे निन्दितप्र-		
			जोत्पत्तिः	...	४१ ५२
			सवर्णाविवाहविधिः	...	४३ ५२
			असवर्णाविवाहविधिः	...	४४ ५२
			दारोपगमने	...	४५ ५२
			ऋतुकालावधिः	...	४६ ५२
			दारोपगमे निन्दितकालाः	४७	५२

तृतीयोऽध्यायः ।

ब्रह्मचर्यावधिः	...	१ ४६
गृहस्थाश्रमवासमाह	...	२ ४६
गृहीतवेदस्य पित्रादिभि-		
पूजनम्	...	३ ४७

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
दशवर्षोऽपि प्राप्नोत क्षत्रि-			गोदानादी नव्यदण्डादयः	१७४	३७
यादिभिः पितेव चन्धः	१३५	३३	एते नियमा सुष्टेयाः	१७५	३७
वित्तादीनि मान्यत्वकार-			नित्यज्ञानतर्पणहोमादि ..	१७६	३८
णानि	१३६	३३	मार्गचारिणो नियमाः ...	१७७	३८
रथारूढादे पन्था देयः	१३८	३३	कामाद्रेतः पातनिषेधः...	१८०	३८
स्रातफल्य पन्था राणा प्रदेयः	१३९	३३	स्वप्ने रेतपाते ...	१८१	३८
अथाचार्यः	१४०	३३	आचार्यार्थं जलकुशाद्याह-		
अथोपाध्यायः	१४१	३३	रणम्	१८२	३८
अथ गुरुः	१४२	३४	वेदयज्ञोपेतगृह्याङ्गिज्ञा क-		
अथाधिष्ठा	१४३	३४	र्तव्या	१८३	३८
अध्यापकप्रशंसा ..	१४४	३४	गुरुकुलादिभिक्षायाम्...	१८४	३८
मात्रादीनामुत्कर्षः ...	१४५	३४	अभिशास्तभिक्षानिषेध	१८५	३९
आचार्यस्य श्रेष्ठत्वम् ...	१४६	३४	सायंप्रातर्होमसमिध	१८६	३९
वालोऽभ्याचार्यः पितेव	१५०	३४	होमाद्यकरणे ...	१८७	३९
अत्र दृष्टान्तमाह ...	१५१	३५	एकगृहभिक्षाविषेधः ...	१८८	३९
वर्णक्रमेण ज्ञानादिना ज्यै-			निमन्त्रितस्यैकाग्रभोजने	१८९	३९
ष्ठयम्	१५५	३५	क्षत्रियवैश्ययोर्नैकाग्रभोज-		
मूर्खनिन्दा	१५७	३५	नम्	१९०	३९
शिष्याय भगुरा वाणी प्र-			अध्ययने गुरुहिते च यत्नं		
योक्तव्या	१५९	३६	कुर्यात्	१९१	३९
नरस्य वाक्यन.सयममाह	१६०	३६	गुर्याङ्गाकारित्वमाह ...	१९२	३९
परद्रोहादिनिषेधः ...	१६१	३६	गुरौ सुप्ते शयनादि ...	१९४	४०
परैणावमाने कृतेऽपि क्षमा			गुर्याङ्गाकरणप्रकारः ...	१९५	४०
कार्या	१६२	३६	गुरुसमीपे चाश्लयनिषेधः	१९८	४०
अवमन्तुदोषः	१६३	३६	गुरोर्नामग्रहणादिकंनकार्यम्	१९९	४०
अनेन विधिना वेदोऽप्ये-			गुरुनिन्दाश्रवणनिषेधः	२००	४०
तव्यः	१६४	३६	गुरुपरिवादकरणफलम्...	२०१	४०
वेदाभ्यासस्य श्रेष्ठत्वम्	१६६	३६	समीपं गत्वा गुरुं पूजयेत्	२०२	४१
वेदाभ्यासस्तुति .	१६७	३६	गुरोदिपरोक्षे न किञ्चित्क-		
वेदमनधीत्य वेदाङ्गान्यवि-			थयेत्	२०३	४१
द्याध्ययननिषेधः ...	१६८	३७	यानादौ गुरुणा सहोपवे-		
द्विजत्वनिरूपणार्थमाह	१६९	३७	दाने	२०४	४१
अनुपनीतस्यानङ्गिकारः	१७१	३७	परमगुरौ गुरुवद्वृत्ति ...	२०५	४१
कृतोपनयनस्य वेदाध्ययनम्	१७३	३७	विद्यागुरुविषये ...	२०६	४१

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
शुरुपुत्रविषये	...	२०७	४१	कृतसमावर्तनो विवाहं कुर्यात्	४७
शुरुस्त्रीविषये	...	२१०	४२	असपिण्डाद्या विवाहाः	५
स्त्रीस्वभावकथनम्	...	२१३	४२	विवाहे निन्दितकुलानि	६
भान्नादिभिरेकान्तवासनि- षेधः	...	२१५	४२	कन्यादोषाः ...	८
सुवतीशुरुस्त्रीवन्दने	...	२१६	४२	कन्यालक्षणम्	१०
शुरुश्रूपाफलम्	...	२१८	४२	पुत्रिकाविवाहनिन्दा	११
ब्रह्मचारिण प्रकारत्रयमाह	२१९	४३	सवर्णा स्त्री प्रशस्ता	१२	४८
सूर्योदयास्तकालखापे	२२०	४३	चातुर्वर्ण्यस्य भार्यापरिग्रहः	१३	४८
संश्रयोपासनमवदयं कार्यम्	२२२	४३	ब्राह्मणक्षत्रयोः श्रद्धास्त्रीनि- षेधः	१४	४८
क्यादेः श्रेयःकरणे	...	२२३	४३	हीनजातिविवाहनिषेधः	१५
त्रिवर्गमाह	...	२२४	४३	श्रद्धाविवाहविषये	१६
पित्राचार्यादयो नावमन्तव्याः	२२५	४३	अष्टौ विवाहप्रकाराः	...	२०
तेषां श्रूपाकरण्यादौ	...	२२८	४४	वर्णानां धर्म्यविवाहानाह	२२
तेषामनादरनिन्दा	...	२३४	४४	पैशाचासुरविवाहनिन्दा	२५
भान्नादिश्रूपाया प्राधान्यम्	२३५	४४	ब्राह्मणविवाहलक्षणम्	...	२७
नीचादेरपि विद्यादिग्रहणम्	२३८	४५	दैवविवाहलक्षणम्	...	२८
आपदि क्षत्रियादेरप्यप्ये- तव्यं तेषां पादप्रक्षाल- नादि न कार्यम्	...	२४१	४५	आर्षविवाहलक्षणम्	...
क्षत्रियादिशुरावतिवासनि- षेधः	...	२४२	४५	प्राजापत्यविवाहलक्षणम्	३०
यावज्जीवं शुरुश्रूपणे	...	२४३	४५	आसुरविवाहलक्षणम्	...
शुरुदक्षिणादौ	...	२४५	४६	गान्धर्वविवाहलक्षणम्	...
आचार्ये मृते तत्पुत्रादिसे- वनम्	...	२४७	४६	राक्षसविवाहलक्षणम्	...
यावज्जीवं शुरुकुलसेवा- फलम्	...	२४९	४६	पैशाचविवाहलक्षणम्	...
				उदकदानाद्ब्राह्मणस्य वि- वाहः	...
				ब्राह्मादिविवाहफलम्	...
				ब्राह्मादिविवाहे सुप्रजोत्पत्तिः	...
				निन्दितविवाहे निन्दितप्र- जोत्पत्तिः	...
				सवर्णाविवाहविधिः	...
				असवर्णाविवाहविधिः	...
				दारोपगमने	...
				ऋतुकालावधिः	...
				दारोपगमे निन्दितकालाः	...

तृतीयोऽध्यायः ।

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
युग्मतिथौ पुत्रोत्पत्तिः	४८	५२	अपात्रदानफलम् ...	९७	५८
स्त्रीपुंनपुंसकोत्पत्तौ हेतुमाह	४९	५३	सत्पात्रे दानफलम् ...	९८	५९
दानप्रस्थस्यापि ऋतुगमनमाह	५०	५३	अतिथिसत्कारे ...	९९	५९
कन्याविक्रये दोषः ...	५१	५३	अतिथ्यनर्चननिन्दा ...	१००	५९
स्त्रीघनग्रहणे दोषः ...	५२	५३	त्रियवचनजलासनदानादौ	१०१	५९
वरादल्पमपि न ग्राह्यम्	५३	५३	अतिथिलक्षणमाह ...	१०२	५९
कन्यायै धनदानमाह...	५४	५३	परपाकवृत्तिवनिषेध ...	१०४	५९
वस्त्रालंकारादिना कन्या			नातिथिः प्रत्याख्यातव्यः	१०५	५९
भूषयितव्या ...	५५	५३	अतिथिमभोजयित्वा स्वयं		
कन्यादिपूजनापूजनफलम्	५६	५४	न भोक्तव्यम् ...	१०६	६०
उत्सवेषु विशेषत पूज्या	५९	५४	बहुध्वतिथिषु यथायोग्यं		
दम्पत्यो संतोषफलम्	६०	५४	परिचर्या ...	१०७	६०
स्त्रियोऽलंकरणादिदानादाने	६१	५४	अतिथ्यर्थं पुनः पाकेन		
कुलापकर्षकर्माणि ...	६३	५४	बलिकर्म ...	१०८	६०
कुलोत्कर्षकर्माह ...	६६	५५	भोजनार्थं कुलघोत्रकथन-		
पद्महायज्ञानुष्ठानमाह	६७	५५	निषेधः ...	१०९	६०
पद्मसूनाः ...	६८	५५	ब्राह्मणस्य क्षत्रियादयो ना-		
पद्मयज्ञानुष्ठानं नित्यं कर्त-			तिथय ...	११०	६०
व्यम् ...	६९	५५	पश्चात् क्षत्रियादीन् भोज-		
पद्मयज्ञानाह ...	७०	५५	येत् ...	१११	६०
पद्मयज्ञाकरणनिन्दा ...	७१	५५	सख्यादीनपि सत्कृत्य भो-		
पद्मयज्ञानां नामान्तराण्यहाह	७३	५६	जयेत् ...	११३	६१
अदाकां ब्रह्मयज्ञहोमौ क-			प्रथमं गर्भिण्यादयो भोज-		
तैत्र्यौ ...	७५	५६	नीयाः ...	११४	६१
होमाद्ब्रह्मायुत्पत्तिः ...	७६	५६	गृहस्थस्य प्रथमं भोज-		
गृहस्थाश्रमप्रशंसा ..	७७	५६	ननिषेधः ...	११५	६१
श्रुत्याचारंननवदस्य अर्तव्यम्	८०	५६	दम्पत्योः सर्वदोषेण भोजनम्	११६	६१
नित्यश्राद्धमाह ...	८२	५७	आत्मार्थपाकनिषेधः ..	११८	६१
पित्रर्थब्राह्मणभोजने ...	८३	५७	गृहागतराजारिपूजामाह	११९	६१
बन्धिविभेदव्यक्तकर्माह ...	८४	५७	राजक्रातकयो पूजासंक्रो-		
बन्धिविभेदव्यक्तकर्माह ...	९३	५८	चमाह ...	१२०	६१
भिक्षादानम् ...	९४	५८	त्रियाऽमन्त्रं बलिहरणं		
भिक्षादानफलम् ...	९५	५८	धार्यम् ...	१२१	६१
राष्ट्रस्य भिक्षादिदानम्	९६	५८	अमावास्यायां पार्वणम्	१२२	६२

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
मांसेन श्राद्धं कर्तव्यम्	१२३	६२	अन्धाद्यसंनिहिते ब्राह्मण-		
पार्वणादौ भोजनीयव्राह्मण-			भोजनम्	१७७	६९
णसंख्या	१२५	६२	शुद्धयाजकनिषेधः ...	१७८	६९
ब्राह्मणविस्तारं न कुर्यात्	१२६	६२	शुद्धयाजकप्रतिग्रहनिषेधः	१७९	६९
पार्वणस्यावश्यकर्माणि...	१२७	६२	सोमविक्रयादिभोजनदाने-		
देवपित्रमानि श्रोत्रियाय दे-			ऽनिष्टफलम् ...	१८०	६९
यानि	१२८	६२	पङ्क्तिपावनानाह ...	१८३	७०
श्रोत्रियप्रशस्ता	१२९	६२	ब्राह्मणनिमन्त्रणे ...	१८७	७०
अमन्त्रब्राह्मणनिषेधः...	१३३	६२	निमन्त्रितस्य नियमाः ..	१८८	७०
ज्ञाननिष्ठादिषु कव्यादिदा-			निमन्त्रणं स्वीकृत्याभोजने		
नम्	१३५	६३	दोषः	१९०	७१
श्रोत्रियस्य पुत्रस्य प्रा०	१३६	६३	निमन्त्रितस्य स्त्रीगमने	१९१	७१
श्राद्धे मित्रादिभोजननिषेधः	१३८	६४	क्रोधादिकं भोगा कर्त्ता च		
अविदुषे श्राद्धदानमफलम्	१४२	६४	न कार्यम्... ..	१९२	७१
विदुषे दक्षिणादानं फलदम्	१४३	६४	पितृगणोत्पत्तिः ...	१९३	७१
विद्वद्ब्राह्मणाभावे मित्रं भो-			पितृणां राजतं पात्रं प्र०	२०३	७२
जयेत् शत्रुम्	१४४	६४	देवकार्यात्पितृकार्यं विशिष्टम्	२०३	७२
वेदपारणादीन् यत्नेन भोज			देवकार्यस्य पितृकार्याङ्गत्वम्	२०४	७२
येत्	१४५	६५	द्वैवाद्यन्तं पितृकार्यम्...	२०५	७२
मातामहादीनपि श्राद्धे भो-			श्राद्धदेशाः	२०६	७२
जयेत्	१४८	६५	निमन्त्रितानामासनादिदा-		
ब्राह्मणपरीक्षणे	१४९	६५	नम्	२०८	७३
स्तेनपतितादयो निषिद्धाः	१५०	६५	गन्धपुष्पादिना तेषामर्च०	२०९	७३
श्राद्धे निषिद्धब्राह्मणः...	१५१	६५	तैरनुह्रातो होमं कुर्यात्...	२१०	७३
अव्ययनशुभ्यब्राह्मणनिन्दा	१६८	६८	अभ्यभावे निप्रस्य पाणौ		
अपाङ्गुषे दाने निषिद्धफलम्	१६९	६८	होमः	२१२	७३
परिवेष्ट्रादिलक्षणमाह...	१७१	६८	अपसव्येन अमौकरणादि	२१४	७३
परिवेदनसंबन्धिनां फल-			विष्वदानादिविधिः ...	२१५	७३
माह	१७२	६८	कुशामूले करावघर्षणम्	२१६	७४
विधिपूर्वतिलक्षणमाह...	१७३	६८	ऋतुनमस्कारादि ...	२१७	७४
धुण्डगोलक्रावाह	१७४	६८	प्रस्यवनेजनादि ...	७१८	७४
तयोर्दाननिषेधः	१७५	६९	पित्रादिब्राह्मणादीन्भोजयेत्	२१९	७४
स्तेनारिष्यथा न पश्यति तथा			जीवति पितरि पितामहा-		
ब्राह्मणभोजनं कार्यम्	१७६	६९	दिपार्वणम्... ..	२२०	७४

मनुस्मृतिः ।

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
मृते पितरि जीवति पिता-			स्वधास्त्विति ते ब्रह्म्युः	२५२	७८
महे पार्वणम् ... २२१	७४		शेषार्थं तदनुज्ञातो विनि-		
पित्रादिब्राह्मणभोजनविधिः २२३	७५		सुधीत ... २५३	७८	
परिवेषणविधिः ... २२४	७५		एकोद्दिष्टादिविधिमाह...	२५४	७८
व्यञ्जनादिदाने ... २२६	७५		अपराह्णादयः...	२५५	७८
रोदनक्रोधादिकं न कार्यम् २२९	७५		श्राद्धविहिताशादयः ... २५७	७९	
विप्रेप्सितव्यञ्जनादिदानम् २३१	७६		ब्राह्मणान्विसृज्य वरप्रार्थ-		
वेदादीन्ब्राह्मणाय श्रावयेत् २३२	७६		नम् ... २५८	७९	
ब्राह्मणान्परितोषयेत् ... २३३	७६		पिण्डान् गवादिभ्यो दद्यात् २६०	७९	
दौहित्रं श्राद्धे यज्ञतो भो-			सुतार्थिन्या स्त्रिया पिताम-		
जयेत् ... २३४	७६		हृपिण्डो भक्षण्यः... २६२	७९	
दौहित्रतिलकृतपादयः प्र-			ततो ज्ञात्यादीन् भोजयेत् २६४	८०	
शस्ताः ... २३५	७६		अवशिष्टान्नेन गृह्वलि-		
उष्णान्नभोजनं हविर्गुणाय-			कार्यं ... २६५	८०	
कथनम् ... २३६	७६		तिलादयः पितृणा मासं तृ-		
भोजने उष्णीषादिनिषेधः २३८	७६		सिदाः ... २६७	८०	
भोजनकाले ब्राह्मणान् चा-			मासादिविशेषेण तृप्तिकालः २६८	८०	
ण्डालादयो न पश्येयुः २३९	७७		मधुदाने मघादिश्राद्धे... २७३	८१	
स्वदृष्ट्यादिनिषेधः ... २४१	७७		गजच्छायादौ... २७४	८१	
तद्देशात् स्वज्ञादयोऽपनेयाः २४२	७७		श्रद्धया दानम् ... २७५	८१	
भिक्षुकादिभोजने ... २४३	७७		पितृपक्षे प्रशास्त्रतिययः २७६	८१	
अभिदरघान्नदाने .. २४४	७७		युग्मतिथिनक्षत्रादिप्रश-		
अच्छेषण भूमिगतं दास-			स्तम् ... २७७	८१	
स्यांशः ... २४६	७७		कृष्णपक्षापराह्णप्राशस्त्यं २७८	८१	
सपिण्डपर्यन्तं विश्वेदेवा-			अपसव्यकुशादयः ... २७९	८१	
दिरहितं श्राद्धम् ... २४७	७७		रात्रिश्राद्धनिषेधः ... २८०	८२	
सपिण्डीकरणापूर्वं पार्वण-			प्रतिमास श्राद्धकरणाशक्तौ २८१	८२	
विधिना श्राद्धम् ... २४८	७८		सामेरमौकरणे... २८२	८२	
श्राद्धे उच्छिष्टं शूद्राय न			तर्पणफलम् .. २८३	८२	
देयम् ... २४९	७८		पितृणा प्रशंसा ... २८४	८२	
श्राद्धभोजिनः स्त्रीगमननि-			विधिसामृतभोजने ... २८५	८२	
षेधः ... २५०	७८				
कृतभोजनान् द्विजानाचा-					
मयेत् ... २५१	७८				

चतुर्थोऽध्यायः ।

ब्रह्मचर्यगार्हस्थ्यकालमाह १ ८३

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
शिलोच्छादिना जीवेत्	२	८३	सूर्यदर्शननिषेधः ...	३७	८७
उनिताभ्यर्चनं पुनान्	३	८३	पत्तारञ्जलक्षणे जले प्रति-		
धनापदि जीवन्तर्माह	४	८३	विम्बनिरीक्षणे दीप.	३८	८८
कृतापदंभनम् ...	५	८३	मार्गे गवादीन् दक्षिणतः		
केन्द्रेणमर्जवैराप्राह ...	७	८३	कुर्यात् ...	३९	८८
सभ्रस्वानिकप्रसंसा ...	८	८४	रजस्वलागमनादिनिषेधः	४०	८८
याजनाध्यापनादिजीयते	९	८४	भार्यया सह भोजनादिनिषेधः	४३	८८
शिलोच्छाभ्यां जीयते	१०	८४	कालविशेषे स्त्रीदर्शननिषेधः	४४	८८
असनीयिकां न कुर्यात्	११	८४	नम्रसानादिनिषेध-	४५	८८
संनोपस्य प्रसंसा ...	१२	८४	मार्गादीं विष्णूनादिनिषेधः	४६	८८
मनकरणे ...	१३	८४	मूत्रादीं सूर्यादिदर्शननिषेधः	४८	८९
वेदोदितं कर्म कर्तव्यम्	१४	८४	त्रिष्णूत्रोत्सर्गविधिः ...	४९	८९
शीतादिना घनार्जननिषेधः	१५	८४	दिवादासुदहसुरादि ...	५०	८९
इन्द्रियार्थासक्तिनिषेधः	१६	८५	अन्धकारादौ खेच्छामुख.	५१	८९
वेदार्थविरोधिकर्मत्यागः	१७	८५	मन्त्रादीं अध्यादिसंमुत्पति-		
यसः कुलानुरूपेणाचरेत्	१८	८५	पेध-	५२	८९
निर्लं धास्यवेक्षणम्	१९	८५	अग्नी पादप्रतापनादिनिषेधः	५३	८९
पञ्चयज्ञान् गयाशक्तिं न			अग्नेर्लक्षुनादिनिषेधः ...	५४	८९
त्यजेत् ...	१९	८५	सध्याभोजनभूमिलिखनादौ	५५	८९
कंचिदिन्द्रियसयमं कुर्वन्ति	२२	८५	जले मूत्रादिप्रक्षेपनिषेध.	५६	९०
कंचिद्वाचा यजन्ति ...	२३	८५	शून्यशृङ्खलापसुसोत्पापनादौ	५७	९०
कंचित् ज्ञानेन यजन्ति	२४	८५	भोजनादौ दक्षिणहस्त	५८	९०
संख्याद्वयद्वौमदर्शपूर्णमासाः	२५	८६	जलार्थिनी गां न वारयेत्	५९	९०
सोमयागादयः ...	२६	८६	इन्द्रधनुर्न दर्शयेत् ...	५९	९०
नवालश्राद्धाकरणे ...	२७	८६	अधार्मिकप्रामवासा एका-		
दाकितोऽतिथिपूजयेत्	२८	८६	कीयमने ...	६०	९०
पापण्ड्याद्यर्चननिषेधः	३०	८६	शूद्रराज्यवासादिनिषेधः	६१	९०
श्रोत्रियादीन्पूजयेत् ...	३१	८६	अतिभोजनादिनिषेध.	६२	९०
ब्रह्मचर्यादिभ्योऽभ्रदानम्	३२	८७	अञ्जलिना जलपानादिनिषेधः	६३	९०
क्षत्रियादेर्धनग्रहणे ...	३३	८७	शृत्यादिनिषेध-...	६४	९१
गति विभवे क्षुधा न सीदेत्	३४	८७	कासे पादप्रक्षालनभिन्ना-		
शुचि. स्वाध्यायादियुक्तः			दिभाण्डे भोजननिषेध.	६५	९१
त्यात् ...	३५	८७	यज्ञोपवीतादि परशृतं न		
दण्डकमण्डलवादिधारणम्	३६	८७	धारयेत् ...	६६	९१

मनुस्मृतिः ।

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
अविनीतयानवृषादिनि- षेध. ६७	६७	९१	पादनिशान्ते स्वापनिषेधः	९९	९५
धुर्यलक्षणमाह ... ६८	६८	९१	निस्यं गायत्र्यादि पठेत्	१००	९५
प्रेतधूमनस्त्रादिच्छेदननिषेधः ६९	६९	९१	अनध्यायानाह ... १०१	१०१	९५
नृणच्छेदनादिनिषेधः ... ७०	७०	९१	वर्षाकालिकानध्यायमाह १०२	१०२	९५
लोष्ठमर्दनादेर्मन्दफलम् ७१	७१	९२	अकालिकानध्यायमाह १०३	१०३	९६
मालाधारणगोयानादौ... ७२	७२	९२	सार्वाकालिकानध्यायमाह १०५	१०५	९६
अद्वारे गृहगमनादौ ... ७३	७३	९२	संख्यागर्जनादौ ... १०६	१०६	९६
अक्षशयनस्थादिभोजननि ०७४	७४	९२	नगरादौ नित्यानध्यायः १०७	१०७	९६
रात्रौ तिलभोजने नमश्चयने ७५	७५	९२	श्राद्धभोजनग्रहणादौ त्रिरा- त्रम् ११०	११०	९६
दुर्गगमनमलदर्शनेनदीतरणे ७६	७६	९२	गन्धलेपयुक्तो नाधीयीत १११	१११	९७
आर्द्रपाद एव भुञ्जीत ... ७७	७७	९२	शयनादौ नाधीयीत ... ११२	११२	९७
केशमस्मादौ न तिष्ठेत् .. ७८	७८	९२	अमावास्यादयोऽध्ययने नि- षिद्धा. ११४	११४	९७
पतितादिभिर्न संवसेत्... ७९	७९	९३	सामध्वनौ सति वेदान्तर नाधीयीत ... १२३	१२३	९८
शूद्राय व्रतकथनादिनिषेधः ८०	८०	९३	वेदत्रयदेवताकथनम् १२४	१२४	९८
शिरः कण्डूयनप्लानादौ ८२	८२	९३	गायत्रीजपानन्तरं वेदपाठ १२५	१२५	९८
कोपेन शिरः प्रहारकेशप्र- हणे ८३	८३	९३	गवायनन्तरागमने ... १२५	१२५	९८
सैलेन स्नातस्य पुनस्त्रैलस्प- र्शने ८३	८३	९३	शुचिदेशे शुचिनाभ्येयम् १२७	१२७	९९
अक्षत्रियराजादिप्रतिग्रहे ८४	८४	९३	ऋतावप्यभावास्यादौ न सौगमनम् ... १२८	१२८	९९
तैलिकादिप्रतिग्रहे ... ८५	८५	९३	रागक्षानाशकक्षाननिषेधः १२९	१२९	९९
शाश्वोद्दुकञ्जराप्रतिग्रहे ८७	८७	९४	शुर्वादिच्छायालक्ष्णनिषेध १३०	१३०	९९
तामिघ्रायेकविंशतिनरपा- नाह ८८	८८	९४	श्राद्धभोजन. चतु पथग- मने १३१	१३१	९९
ब्राह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठेत् ... ९२	९२	९४	रक्तश्लेष्मादौ न तिष्ठेत् १३२	१३२	९९
प्रातः कृत्वादि ... ९३	९३	९४	शत्रुचोरपरश्रीसेवानिषेधः १३३	१३३	१००
अन्यायुः क्तीर्णादिवर्धकृत्यम् ९४	९४	९४	परदारनिन्दः ... १३४	१३४	१००
श्रावणामुषार्धे कार्यम् ९५	९५	९४	धात्रियगर्भपिप्रा नागम- न्यव्याः १३५	१३५	१००
पुष्ये अन्वर्जनागर्भे कर्मे ९६	९६	९५	शागमावमाननिषेध ... १३६	१३६	१००
इत्ते इत्सर्जने पतिर्णा ना- प्येतस्यम् ९७	९७	९५	प्रियमलकथनम् ... १३८	१३८	१००
रतौ वेदं शुभेऽज्ञानि शुभे पठेत् ९८	९८	९५			

प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्
धृया वादं न कुर्यात्...	१३९ १००	एतैर्विवादोपेक्षायां फलमाह	१८१ १०६
उपःकालादावज्ञातेन सह न		प्रतिग्रहनिन्दा	... १८६ १०६
गन्तव्यम् ...	१४० १००	विधिमज्ञात्वा प्रतिग्रहो न	
हीनाज्ञायाक्षेपनि० ...	१४१ १०१	कार्यः ...	१८७ १०७
उच्छिष्टस्पर्शसूर्यादिदर्शने	१४२ १०१	मूर्खस्य स्वर्णादिप्रतिग्रहे	१८८ १०७
स्वकीयेन्द्रियस्पर्शादौ...	१४४ १०१	वैडालव्रतिकादौ दाननि-	
मङ्गलान्चारयुक्तः स्यात्	१४५ १०१	षेधः ...	१९२ १०७
वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम्	१४६ १०१	वैडालव्रतिकलक्षणम् ..	१९५ १०८
अष्टकाश्राद्धाद्यवश्यं का-		वक्रव्रतिकलक्षणम् ...	१९६ १०८
र्यम् ...	१५० १०२	तयोर्निन्दा ...	१९७ १०८
अग्निष्टहदरतो मूत्राद्युत्सर्गः	१५१ १०२	प्रायश्चित्ते वञ्चना न कार्या	१९८ १०८
पूर्वाह्नि स्नानपूजादि ...	१५२ १०२	छलेन व्रतचरणे ...	१९९ १०८
पर्वेण्यु देवादिदर्शनम् ...	१५३ १०२	छलेन कमण्डलवादिधारणे	२०० १०८
आगतपृष्ठादिसत्कारे...	१५४ १०२	परकृतपुष्कारिण्यादिज्ञाने	२०१ १०८
श्रुतिस्पृष्ट्युदिताचारः कार्यं	१५५ १०२	अदत्तयानादिभोगनिषेधः	२०२ १०९
आचारफलम्...	१५६ १०२	नद्यादिषु स्नानं कर्तव्यम्	२०३ १०९
दुराचारनिन्दा ...	१५७ १०३	यमनियमौ ...	२०४ १०९
आचारप्रशंसा ...	१५८ १०३	अश्रोत्रिययज्ञादिभोजननि-	
परवशकर्मस्वगादौ ...	१५९ १०३	षेधः ...	२०५ १०९
नित्तपारितोषिकं कर्म का०	१६० १०३	श्राद्धाद्यन्नं केशादिसंसृष्टं न	
आन्वार्यादिहिंसा निषेधः	१६१ १०३	भुञ्जीत ...	२०७ १०९
नास्तिक्यादिनिषेधः ...	१६२ १०३	रजस्वलासृष्ट्राद्यन्ननिषेधः	२०८ ११०
परताडनादिनिषेधः ...	१६३ १०३	गवाप्रातं गणिकाद्यन्नं च नि-	
ब्राह्मणताडनोद्योगे ...	१६४ १०३	षिद्धम् ...	२०९ ११०
ब्राह्मणताडने ...	१६५ १०४	अभोज्यानि स्त्रीनाद्यन्नानि	२१० ११०
ब्राह्मणस्य शोणितोत्पादे	१६६ १०४	राजाद्यन्नभोजने मन्दफ-	
अधार्मिकादीना न सुत्तम्	१७० १०४	लम् ...	२१८ १११
अधर्मे मनो न निदध्यात्	१७१ १०४	तेषामन्नभोजने प्रायश्चित्तम्	२१२ १११
शनैरधर्मफलोत्पत्तिः ...	१७२ १०४	शूद्रपक्वान्ननिषेधः ...	२२३ १११
शिष्यादिशासने ...	१७५ १०५	कदर्यश्रोत्रियवार्धुपिकान्ने	२२४ ११२
अर्थकामत्यागे ...	१७५ १०५	श्रद्धादत्तवदान्यवार्धुपिकान्ने	२२५ ११२
पाणिपादचोपल्यनि०	१७७ १०५	श्रद्धया यागादिकं कुर्यात्	२२६ ११२
कुलमार्गगमनम् ...	१७८ १०५	श्रद्धादानफलम् ...	२२७ ११३
ऋत्विगादिभिर्वादं न कुर्यात्	१७९ १०६	जलभूमिदानादिफलम्	२२८ ११३

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
वेददानप्रशंसा	..	२३३ ११३	सौनशुष्कमांसादयः	... १३	११८
काम्यदाने	२३४ ११३	प्राग्न्यसूकरमत्स्यादयः	१४	११८
विधिवद्दानग्रहणयो	प्र०	२३५ ११३	मत्स्यभक्षणनिन्दा	... १५	११८
द्विजनिन्दादानकीर्तनादि-			भक्ष्यमत्स्यानाह	... १६	११९
निषेध.	२३६ ११३	सर्पदानरादिनिषेध	... १७	११९
अनृतादिफलम्	२३७ ११३	भक्ष्यपश्वनखानाह	. १८	११९
शनैर्धर्ममनुतिष्ठेत्	२३८ ११३	लज्जनादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्	१९	११९
धर्मप्रशंसा	२३९ ११४	यागार्थपशुहिंसाविधि.	२२	११९
उत्कृष्टे संवन्धः कार्यो न			पर्युषितान्यपि भक्ष्याणि	२४	१२०
हीनै.	२४४ ११४	मासभक्षणे	२७ १२०
फलमूलादिग्रहणे	२४७	११५	प्रोक्षितमासभक्षणनियमः	३१	१२१
दुष्कृतकर्मणो भिक्षाग्रह-			वृथामासभक्षणनिषेध	३३	१२१
णम्	२४८ ११५	श्राद्धे मासभोजननिन्दा	३५	१२१
भिक्षाया अप्रहणे	२४९ ११५	अप्रोक्षितमास न भक्षयेत्	३६	१२१
अयाचितभिक्षायाम्	२५० ११५	यज्ञार्थवधप्रशंसा	... ३९	१२३
कुटुम्बार्था भिक्षा	२५१ ११५	पशुहननकालनियम	... ४१	१२२
स्वार्थ साधुभिक्षा	२५२ ११५	वेदाविहितहिंसानिषेध.	४३	१२२
भोज्यान्नशुद्धाः	२५३ ११५	आत्मशुखेच्छया हनने...	४५	१२२
शुद्धैरात्मनिवेदन कार्यम्	२५४	११५	वधवन्धनं न कर्तव्यम् ..	४६	१२२
असत्यकथने निन्दा	२५५ ११६	मासवर्जने	४८ १२३
योग्यपुत्राय कुटुम्बभारदा-			अथ घातका	५१ १२३
नम्	२५७ ११६	मासवर्जनफलम्	... ५३	१२३
ब्रह्मचिन्ता	२५८ ११६	सर्पिडाना दशाहाथाशौ-		
उत्कस्य फलक्रयनम्...	२६०	११६	चम्	५८ १२४
पञ्चमोऽध्यायः ।			अथ सपिण्डता	... ६०	१२४
मनुष्याणां कथं मृत्युरिति			जनने मातुरस्त्रयत्वम्	६२	१२४
प्रश्नः	... १..	२ ११७	शुक्रपाते परपूर्वापत्यभरणे	६३	१२५
मृत्युप्रापकानाह	३ ११७	शवस्पर्शे समानोदकभरणे	६४	१२५
लज्जनाद्यभक्ष्याप्याह	५ ११७	गुरोर्मरणाशौचम्	... ६५	१२५
वृथामासादिनिषेध.	७ ११७	गर्भस्त्रावे रजस्वलाशुद्धौ	६६	१२५
अभक्ष्यक्षीराणि...	८ ११७	वालाद्यशौचम्	६७ १२५
शुक्तेषु दध्यादयो भक्ष्याः	१०	११८	ऊनद्विवापिकस्य भूमिखन-		
अधामक्ष्यपक्षिणः	... ११	११८	नम्	६८	१२५
			नास्यामिसंस्कारादि	... ६९	१२५

प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्
घालस्योदकदाने	... ७० १२५	ज्ञानादीनि शुद्धिसाधनानि	१०५ १३०
सहाध्यायिभरणे	... ७१ १२६	अर्थशौचप्रशंसा	... १०६ १३०
बाग्दत्तकृतशौचम्	... ७२ १२६	क्षमादानजपतपासि शोध-	
हृदयप्यभक्षणदि	... ७३ १२६	कानि	... १०७ १३१
विदेशस्याशौचम्	... ७५ १२६	समलनदीर्घाद्विजशुद्धौ	१०८ १३१
आचार्यतरपुत्रादिभरणे	८० १२७	गात्रभनसात्मवृद्धिशुद्धौ	१०९ १३१
श्रोत्रियभानुलादिभरणे	८१ १२७	द्रव्यशुद्धिमाह...	... ११० १३१
राज्याभ्यापकादिभरणे	८२ १२७	सुवर्णादिभणिशुद्धौ	... १११ १३१
संपूर्णाशौचमाह	... ८३ १२७	घृतादिशय्यादिकाष्ठशुद्धौ	११५ १३२
अभिहोत्रार्थं स्नानाच्छुद्धिः	८४ १२७	यक्षपात्रशुद्धौ	... ११६ १३२
स्पर्शनिमित्ताशौचम्	... ८५ १२८	धान्यवन्नशुद्धौ	... ११८ १३२
अशौचदर्शने	... ८६ १२८	चर्मवशापात्राकाफलमूल-	
मनुष्यास्थिस्पर्शे	... ८७ १२८	शुद्धौ...	... ११९ १३२
ब्रह्मचार्यामृतसमापनात्प्रेतो-		कम्बलपटवस्त्रादिशुद्धौ	१२१ १३२
दकदानादि न कुर्यात्	८८ १२८	तृणकाष्ठगृहसूत्राण्डशुद्धौ	१२२ १३२
न पतितादीनामुदकदाना	८९ १२८	शोणिताद्युपहतसूत्राण्डस्या	१२३ १३३
व्यभिचारिण्यादीनां नोद-		भूमिशुद्धौ	... १२४ १३३
कदानम्	... ९० १२८	पक्षिजग्धगवाप्रातादौ	१२५ १३३
ब्रह्मचारिणः पित्रादिनिर्ह-		गन्धलेपयुक्तद्रव्यशुद्धौ	१२६ १३३
रणे	... ९१ १२८	पवित्राण्याह	... १२७ १३३
शूद्रादीन्दक्षिणादितो निर्ह-		जलशुद्धौ	... १२८ १३३
रेत्	... ९२ १२८	नित्यशुद्धानाह	... १२९ १३३
राजादीनामशौचाभावे	९३ १२९	स्पर्शे नित्यशुद्धानि	... १३२ १३४
राक्षः सद्यः शौचम्	... ९४ १२९	मूत्राद्युत्सर्गशुद्धौ	... १३४ १३४
वज्रादिहृतानां सद्यः शौचम्	९५ १२९	द्वादश मला...	... १३५ १३४
राहोऽशौचाभावस्तुतिः	९६ १२९	सृष्टारिग्रहणे नियमः...	१३६ १३४
क्षान्नधर्महतस्य सद्यः शौ-		ब्रह्मचार्यादीनां द्विशुणाया-	
चम्	... ९८ १२९	चमनानन्तरमिन्द्रिया-	
अशौचान्तकृत्यम्	... ९९ १२९	दिस्पर्शाः	... १३७ १३४
असपिण्डाशौचमाह	... १०० १३०	आचमनविधिः	... १३९ १३५
असपिण्डनिर्हरणे	... १०१ १३०	शूद्राणां सासि वपनं द्विजो-	
अशौच्यन्नभक्षणे	... १०२ १३०	च्छिद्यभोजनम्	... १४० १३५
निर्हारकानुगमने	... १०३ १३०	विमुद्गमभ्नादिकं नोच्छि-	
प्राक्षणं शूद्रैर्न निर्हारयेत्	१०४ १३०	ष्टम्	... १४१ १३५

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
पादे गण्डपजविन्दव	शुद्धा	१४२ १३५	भोजनकालादयः	...	१९ १४१
ब्रह्महस्तस्योच्छिष्टस्पर्श	१४३	१३५	भूमिपरिवर्तनादि	...	२२ १४२
वसनविरेकमैधुनशुद्धौ	१४४	१३५	ग्रीष्मादिऋतुकृत्यम्	...	२३ १४२
निद्राधुद्रोजनादिशुद्धौ	१४५	१३५	खदेहं शोपयेत्...	...	२४ १४२
अथ स्त्रीधर्मानाह	...	१४६ १३५	अग्निहोत्रसमापनादय	२५	१४२
स्त्रिया स्वातन्त्र्यं न कार्यम्	१४७	१३६	वृक्षमूलभूष्यादयः	...	२६ १४२
कस्य वशे तिष्ठेदित्यत्राह	१४८	१३६	भिक्षाचरणे	...	२७ १४२
असन्ना गृहकर्म कुर्यात्	१५०	१३६	वेदादिपाठ	...	२९ १४३
स्वामिशुश्रूषा	१५१ १३६	महाप्रस्थानम्	...	३१ १४३
स्वाम्यहेतुमाह	...	१५२ १३६	परिव्राजककालमाह	...	३३ १४३
स्वामिप्रशंसा	१५३ १३६	ब्रह्मचर्यादिक्रमेण परिव्रजेत्	३४	१४३
स्त्रीणा पृथग्यज्ञनिषेधः	१५५	१३७	ऋणमशोध्य न परिव्रजेत्	३५	१४३
स्वामिनोऽप्रियं नाचरेत्	१५६	१३७	पुत्रमनुत्पाद्य न परिव्रजेत्	३६	१४३
मृतपतिकाधर्मा	...	१५७ १३७	प्राजापत्येष्टि कृत्वा परि-		
परपुरुषगमननिन्दा	...	१६१ १३७	व्रजेत्	...	३८ १४४
पातिव्रत्यफलम्	...	१६५ १३८	अभयदानफलम्	...	३९ १४४
मार्याया मृताया श्रौताग्निना			निस्पृह परिव्रजेत्	...	४१ १४४
दाह	...	१६७ १३८	एकाकी भोक्षार्थं चरेत्	४२	१४४
पुनर्दारग्रहणे	...	१६८ १३८	परिव्राजकानियमा	...	४३ १४४
गृहस्थस्य कालावधिः	१६९	१३९	शुक्लक्षणम्	...	४४ १४५
			जीवनादिकामनाराहित्यम्	४५	१४५
			परिव्राजकाचारः	...	४६ १४५
			भिक्षाग्रहणे	...	५० १४६
			दण्डकमण्डत्वादय	...	५२ १४६
			भिक्षापात्राणि	...	५३ १४६
			एककाले भिक्षाचरणम्	५५	१४६
			भिक्षाकाल	...	५६ १४६
			लाभालाभे हर्षविषादौ न		
			कार्यौ	...	५७ १४७
			पूजापूर्वकभिक्षानिषेध	५८	१४७
			इन्द्रियनिग्रह	...	५९ १४७
			ससारगतिकथनम्	...	६१ १४७
			सुखदुःखयोर्धर्माधर्मा हेतु	६४	१४७
			न लिङ्गमात्रं धर्मकारणम्	६६	१४८

षष्ठोऽध्यायः ।

वानप्रस्थाश्रममाह	...	१ १३९
समार्याग्निहोत्रो वने वसेत्	३	१३९
फलमूलेन पश्वयज्ञकरणम्	५	१३९
क्षमैचरिजटादिधारणम्	६	१३९
अतिथिचर्या	...	७ १४०
वानप्रस्थनियमा	...	८ १४०
मधुमांसादिवर्जनम्	...	१४ १४१
आग्निने सन्वितनीवारादि-		
त्याग	...	१५ १४१
फलाकृष्टाद्यननिषेध	...	१६ १४१
अस्पृकुष्टादयः	...	१७ १४१
नीवारादिसचयने	...	१८ १४१

प्रकरणम्	श्लोका.	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोका.	पृष्ठम्
भूमि निरीक्ष्य पर्यटेत्	६८	१४८	दण्डेषु दण्डाकरणे निन्दा	२०	१५४
धुन्द्रजन्तुर्हिसा प्रायश्चित्तम्	६९	१४८	पुनर्दण्डप्रशंसा ...	२२	१५५
प्राणायामप्रशंसा ...	७०	१४८	दण्डप्रणेता कीदृश इत्यत्राह	२६	१५५
ध्यानयोगेनात्मानं पश्येत्	७३	१४९	अधर्मदण्डे राजादीना दोषः	२८	१५६
मक्षसाक्षात्कारेषु मुक्तिः	७४	१४९	मूर्खादीनां न दण्डप्रणय-	-	-
भोक्षसायककर्माणि ...	७५	१४९	नम्... ..	३०	१५६
देहस्वरूपमाह ...	७६	१४९	सत्यसंधादिना दण्डप्रणय-	-	-
देहत्यागे दृष्टान्तमाह ...	७८	१४९	नम्... ..	३१	१५६
त्रियात्रियेषु पुण्यपापत्यागः	७९	१४९	क्षत्रुमित्रविप्रादिषु दण्ड-	-	-
विषयानभिलाषः ...	८०	१५०	विवि-	३२	१५६
आत्मनो ध्यानम् ...	८२	१५०	न्यायवार्तिनो राह प्रशंसा	३३	१५६
परिमज्ज्याफलम् ...	८५	१५०	दुर्दृष्टराज्ञो निन्दा ...	३४	१५६
वेदसंन्यासिकर्माह ...	८६	१५०	राजकृत्ये दृढसेवा ...	३७	१५७
अन्तार आश्रमाः ...	८७	१५०	विनयग्रहणम् ...	३९	१५७
सर्वाश्रमफलम् ...	८८	१५१	अविनयनिन्दा... ..	४०	१५७
गृहस्थस्य श्रेष्ठत्वम् ...	८९	१५१	अत्र दृष्टान्तमाह ...	४१	१५७
दशविधो धर्मः सेवितव्यः	९१	१५१	विनयौद्राज्यादिप्राप्ति-	-	-
दशविधधर्मानाह ...	९२	१५१	ष्टान्तः	४२	१५७
दशविधधर्माचरणफलम्	९३	१५१	विद्याग्रहणम्	४३	१५७
वेदमेवाभ्यसेत्... ..	९५	१५२	इन्द्रियजयः	४४	१५८
वेदसंन्यासफलम् ...	९६	१५२	कामक्रोधजव्यसनत्यागः	४५	१५८
			कामजदशव्यसनान्याह	४७	१५८
			क्रोधजाष्टव्यसनान्याह	४८	१५८
			सर्वमूलोभत्यागः ...	४९	१५८
			अतिदु खदव्यसनानि ...	५०	१५८
			व्यसननिन्दा	५३	१५९
			अथ सचिवाः	५४	१५९
			सधिविग्रहादिचिन्ता ...	५६	१५९
			मन्त्रिभिर्विचार्य हितं का-	-	-
			र्यम् -	५७	१५९
			ब्राह्मणमन्त्रिणः - ...	५८	१६०
			अन्यानप्यमात्यान् कुर्यात्	६०	१६०
			आकरान्त पुराभ्यक्षा.	६२	१६०
			दूतलक्षणम्	६३	१६०

सप्तमोऽध्यायः ।

राजधर्मानाह	१	१५२
कृतसंस्कारस्य प्रजोरक्षणम्	२	१५२
रक्षार्थमिन्द्राद्यंशाद्राजो-	-	-
त्पतिः	३	१५२
राजप्रशंसा	६	१५३
राजद्वेषनिन्दा	१२	१५३
राजस्थापितधर्मं न चालयेत्	१३	१५४
दण्डोत्पत्तिः	१४	१५४
दण्डप्रणयनम्	१६	१५४
दण्डप्रशंसा	१७	१५४
अपथादण्डनिषेधः ...	१९	१५४

प्रकरणम्	श्लोका	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
सेमापत्यादि कार्यम् ...	६५	१६१	सामदण्डप्रशंसा ...	१०९	१६७
दूतप्रशंसा ...	६६	१६१	राजरक्षा ...	११०	१६७
प्रतिराजेप्सितं दूतेन जा- नीयात् ...	६७	१६१	प्रजापीडने दोष- ...	१११	१६७
जाङ्गलदेशाश्रयणे ...	६९	१६१	प्रजारक्षणे सुखम् ...	११३	१६७
अथ दुर्गप्रकारा ...	७०	१६१	ग्रामतप्याधिपत्यादयः	११४	१६७
अन्नान्नादिपूरितं दुर्ग कु- यात् ...	७५	१६२	ग्रामदोषनिवेदनम् .	११६	१६८
सुन्दरीं भार्यासुद्वहेत् ...	७७	१६२	ग्रामाधिकृतस्य वृत्तिमाह	११८	१६८
पुरोहितादयः ...	७८	१६२	ग्राम्यकार्याण्यन्येन कर्त- व्यानि ...	१२०	१६८
यज्ञादिकरणम् ...	७९	१६२	अर्थचिन्तक- ...	१२१	१६८
करग्रहणे ...	८०	१६३	तच्चरितं स्वयं जानीयात्	१२२	१६८
अथाम्यक्षा ...	८१	१६३	उत्कोचादिप्राहकशासनम्	१२३	१६९
प्राक्षणानां वृत्तिदानम्	८२	१६३	प्रेष्यादिवृत्तिकल्पनम्...	१२५	१६९
प्राक्षणानां वृत्तिदानप्रशंसा	८३	१६३	वणिककरग्रहणे ...	१२७	१६९
पात्रदानफलमाह ...	८५	१६३	अल्पाल्पकरग्रहणे ...	१२९	१६९
संप्रामे माहूतो न निव- र्तत ...	८७	१६४	धान्यादीनां करग्रहणे	१३०	१६९
संसुखमरणे स्वर्ग- ...	८९	१६४	श्रोत्रियात्करं न गृह्णीयात्	१३३	१७०
कूटास्त्रादिनिषेधः ...	९०	१६४	श्रोत्रियवृत्तिकल्पने ...	१३४	१७०
संप्रामेऽवध्यानाह ...	९१	१६४	शाकादिव्यवहारिण स्व- ल्पकरः ...	१३७	१७१
भीतादिहने दोषः ...	९४	१६५	शिल्प्यादिकं कर्म कारयेत्	१३८	१७०
संप्रामे पराश्रुत्तहतस्य दोषः	९५	१६५	स्वल्पादिप्रचुरकरग्रहणनि- षेधः ...	१३९	१७१
येन यजितं तद्धनं तस्यैव	९६	१६५	तीक्ष्णमृदुताचरणम् ...	१४०	१७१
राज्ञः श्रेष्ठवस्तुदानम् ..	९७	१६५	अमात्येन सह कार्यचिन्त- नम् ...	१४१	१७१
हस्त्यश्वादिवर्धनम् ...	९९	१६५	दस्त्युनिग्रहणम् ...	१४३	१७१
अठन्घं लघुमिच्छेत्	१०१	१६६	प्रजापालनस्य श्रेष्ठत्वम्	१४४	१७१
नित्यनश्रपदालादिशिक्षा	१०२	१६६	समाकालः ...	१४५	१७१
नित्यमुपतदण्ट- स्वात्	१०३	१६६	एकान्ते गोव्यमश्रणम्	१४७	१७२
अमालादियु माया न कार्या	१०४	१६६	मश्रणकाले ह्याद्यपसार- णम् ...	१४९	१७२
प्रवृत्तिभेदादिगोपनीयम्	१०५	१६६	घर्मकामादिचिन्तनम्	१५१	१७२
अर्थादिचिन्ता ...	१०६	१६६	दूतसंप्रेषणादय- ...	१५३	१७२
मिजयविरोधिनां वशीकर- णम् ...	१०७	१६६			

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
अथ प्रकृतिप्रकाराः ...	१५६	१७४	ततो रात्रिभोजनादयः	२२४	१८४
अरिप्रकृतयः ...	१५८	१७४	अस्वस्थः श्रेष्ठामालेषु निः-		
अथ पट्टगुणाः ...	१६०	१७५	क्षिपेत् ...	२२६	१८४
संख्यादिप्रकारः ...	१६२	१७५	अष्टमोऽध्यायः ।		
संधिविग्रहादिकालाः...	१६९	१७६	व्यवहारान् दिदृक्षुः सभां प्र-		
बलिनृपसंभयणे ...	१७५	१७७	विशेत् ...	१	१८५
आत्मानमधिकं कुर्यात्	१७७	१७७	कुलशालादिभिः कार्यं प-		
आगामिगुणदोषचिन्ता	१७८	१७७	श्येत् ...	३	१८५
राजरक्षा ...	१८०	१७७	अष्टादश विवादानाह ...	४	१८५
अरिराज्ययानविधिः ...	१८१	१७८	धर्ममाश्रित्य निर्णयं कुर्यात्	८	१८५
शत्रुसेविलिन्नादौ सावधानम्	१८६	१७८	स्वयमशक्तौ विद्वांसं नियु-		
व्यूहकरणे ...	१८७	१७८	ज्यात् ...	९	१८६
जलादौ युद्धप्रकारः ...	१९२	१८०	स त्रिभिर्माह्वणैः सह कार्यं		
अभ्रानीकयोग्यानाह ...	१९३	१८०	पश्येत् ...	१०	१८६
सैन्यपरीक्षणम् ...	१९४	१८०	तत्समाप्रशंसा ...	११	१८६
परराष्ट्रपीडने...	१९५	१८०	अधर्मं सभासदा दोषः	१२	१८६
परप्रकृतिभेदादि ...	१९७	१८०	सदसि सत्यमेव वक्तव्यम्	१३	१८६
उपायामात्रे युष्येत् ...	२००	१८१	अधर्मवादिशासनम् ...	१४	१८६
जित्वा ब्राह्मणादिपूजनं प्र-			धर्मातिक्रमणे दोषः ...	१५	१८६
जानामभयदानं च	२०१	१८१	दुर्व्यवहारे राजादीनामधर्मैः	१८	१८७
तद्वंश्याय तद्राज्यदाने	२०२	१८१	अर्थिभ्रत्यर्थिपापे ...	१९	१८७
करग्रहणादि ...	२०६	१८१	कार्यदर्शने शत्रुनिषेधः	२०	१८७
मित्रप्रशंसा ...	२०७	१८२	राष्ट्रनास्तिकदुर्भिक्षादिनि-		
शत्रुगुणाः ...	२१०	१८२	पेव ...	२१	१८७
उदासीनगुणाः ...	२११	१८२	लोकपालान्प्रणम्य कार्यद-		
आत्मार्थं भूम्यादित्यायः	२१२	१८२	र्शनम् ...	२३	१८७
आपदि उपायचिन्तनम्	२१४	१८३	ब्राह्मणादिक्रमेण कार्यं प-		
अथ राहो भोजने ...	२१६	१८३	श्येत् ...	२४	१८७
अन्नादिपरीक्षा ...	२१७	१८३	स्वरवर्णादिना अर्प्यादि प-		
विहारादौ ...	२२१	१८४	रीक्षेत् ...	२५	१८८
आयुधादिदर्शनम् ...	२२२	१८४	वाल्धनं राहो रक्षणीयम्	२७	१८८
संभ्यामुपास्य प्रणिधिचेष्टि-			प्रोषितपतिकादिधनरक्षणम्	२८	१८८
तादि ...	२२३	१८४	अपुत्राधनहारकशासनम्	२९	१८८

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
अस्वामिकधनरक्षणे कालः	३०	१८८	एकोऽपि धर्मवित्साक्षी	७७	१९५
द्रव्यरूपसख्यादिकथनम्	३१	१८८	स्वामाश्रयचनं साक्षिणो गृ-		
अकथने दण्डः....	३२	१८९	हीयुः	७८	१९५
प्रणष्ट्रव्यात् पद्भागग्रहणम्	३३	१८९	साक्षिप्रश्ने	७९	१९५
चौरघातनम् .	३४	१८९	साक्षिभिः सत्यं वक्तव्यम्	८१	१९५
निध्यादौ पद्भागग्रहणम्	३५	१८९	रहःकृतं कर्म आत्मादि-		
परनिधौ अनृतकथने ...	३६	१८९	जीनाति	८४	१९६
ब्राह्मणनिधिविषये ...	३७	१८९	ब्राह्मणादिसाक्षिप्रश्ने ...	८७	१९६
राज्ञा निधिं प्राप्यार्धं वि-			असत्यकथने दोष ...	८९	१९६
प्राय देयम् ...	३८	१८९	सत्यप्रशसा	९२	१९७
चौरहतधनं राज्ञा दातव्यम्	४०	१९०	असत्यकथनफलम् . .	९३	१९७
जातिदेशधर्मो विरोधेन क-			पुनः सत्यकथनप्रशंसा	९६	१९७
रणीयम्	४१	१९०	विषयभेदेन सत्यफलम्	९७	१९७
राज्ञा विवादोत्थापनादि न			निन्दितब्राह्मणान् शङ्खवत्सु-		
कार्यम्	४३	१९०	च्छेत्	१०२	१९८
अनुमानेन तत्त्वं निश्चिन्-			विषयभेदेऽसत्यकथने दोषः	१०३	१९८
यात्	४४	१९०	अनृतकथने प्रायश्चित्तम्	१०५	१९९
सत्यादिना व्यवहारं पश्येत्	४५	१९०	त्रिपक्षं साक्ष्यकथने परा-		
सदाचार आचरणीयः	४६	१९०	जयः	१०७	१९९
ऋणादाने	४७	१९१	साक्षिभक्ते	१०८	१९९
अथ हीना	५३	१९२	असाक्षिविवादे शपथः	१०९	१९९
अभियोक्तुर्दण्डादिः ...	५८	१९२	वृथाशपथे दोष ...	१११	१९९
धनपरिणाममिथ्याकथने	५९	१९२	वृथाशपथप्रतिप्रसवमाह	११२	२००
साक्षिबिभावनम् ..	६०	१९२	विप्रादेः सत्योच्चारादिशप-		
अथ साक्षिणः	६१	१९३	थम्	११३	२००
साक्ष्ये निषिद्धा ...	६४	१९३	शङ्खशपथे	११४	२००
रुष्यादीना रुष्यादयः साक्षिणः	६८	१९३	शपथे शुचिमाह ...	११५	२००
वादिसाक्षिणः	६९	१९४	अथ पुनर्वादः....	११७	२००
बालादिसाक्ष्यादौ . .	७०	१९४	लोभादिना साक्ष्ये दण्डवि-		
साहसादौ न साक्षिपरीक्षा	७२	१९४	शेषः	११८	२००
साक्षिद्वैधे	७३	१९४	दण्डस्यहस्तादिदशस्थानानि	१२४	२०१
साक्षिणः सत्यकथनम्	७४	१९४	अपराधमपेक्ष्य दण्डकर-		
मिथ्यासाक्ष्ये दोष ...	७५	१९४	णम्	१२६	२०२
श्रुतसाक्षिणः	७६	१९५	अधर्मदण्डमिन्दा	१२७	२०२

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
दण्डपरित्यागे ...	१२८	२०२	धनाभावे कर्मणा ऋणशो-		
दानदण्डभ्रिगदण्डादि...	१२९	२०२	धनम् ...	१७७	२०९
त्रसरेण्वादिपरिमाणान्याह	१३१	२०२	अथ निक्षेपे ...	१७९	२०९
प्रथममध्यमोत्तमसाहसः	१३८	२०३	साध्यभावे निक्षेपनिर्णयः	१८२	२०९
ऋणादाने दण्डनियमः	१३९	२०३	निक्षेपदाने ...	१८५	२१०
अथ वृद्धिः ...	१४०	२०३	स्वयं निक्षेपार्पणे ...	१८६	२१०
आधिस्थले ...	१४३	२०४	समुद्रनिक्षेपे ...	१८८	२१०
बलादाधिभोगनिषेधे...	१४४	२०४	चौरादिहृते निक्षेपे ...	१८९	२१०
आधिनिक्षेपादौ ...	१४५	२०४	निक्षेपापहारे शपथम्...	१९०	२११
धेन्वादौ भोगेऽपि न स्व-			निक्षेपापहारादौ दण्डः	१९१	२११
त्वहानिः ...	१४६	२०४	छलेन परधनहरणे ...	१९३	२११
आधिषीमादौ न भोगे स्व-			निक्षेपे मिथ्याकथने दण्डः	१९४	२११
त्वहानिः ...	१४७	२०५	निक्षेपदानप्रहणयोः ...	१९५	२११
बलादाधिभोगेऽर्धवृद्धिः	१४९	२०५	अस्वामिविक्रये ...	१९६	२११
द्वैगुण्यादधिकवृद्धिर्न भवति	१५१	२०५	सागमभोगप्रमाणम् ...	२००	२१२
वृद्धिप्रकाराः ...	१५२	२०५	प्रकाशकथे मूल्यधनलामे	२०१	२१२
पुनर्लैल्यकरणे ...	१५४	२०६	ससृष्टवस्तुविक्रये ...	२०२	२१२
देशकालभृदौ . . .	१५६	२०६	अन्या कन्यां दर्शयित्वा-		
दर्शनप्रतिभूस्थले ...	१५८	२०६	न्याविवाहे ...	२०४	२१२
प्रातिभाव्यादि ऋणं पुत्रैर्न			उन्मत्तादिकन्याविवाहे	२०५	२१३
देयम् ...	१५९	२०६	पुरोहितदक्षिणादाने ...	२०६	२१३
दानप्रतिभूस्थले ...	१६०	२०६	अध्वर्वादिदक्षिणा	२०९	२१३
निरादिष्टधने प्रतिभुवि	१६२	२०७	संभूयसमुत्थाने ...	२११	२१३
कृतनिवृत्तौ ...	१६३	२०७	दत्तादानप्रक्रिया ...	२१२	२१३
कुट्टम्भार्थकृतर्ण देयम्	१६६	२०७	वृत्तिस्थले ...	२१५	२१४
चलकृतं निचर्यम् ...	१६८	२०८	संविद्व्यतिक्रमे ...	२१८	२१४
प्रातिभाव्यादिनिषेधः	१६९	२०८	क्रीतानुग्रयोः ...	२२२	२१५
अप्राह्यमर्थं न गृहीयात्	१७०	२०८	अनाद्वयय दोषवृत्तिकन्या-		
प्राह्यस्यागे दोषः ...	१७१	२०८	दाने ...	२२४	२१५
अवलरक्षणदादौ ...	१७२	२०८	मिथ्याकन्यादूषणकथने	२२५	२१५
अचर्मकार्यकरणे दोषः	१७४	२०८	दूषितकन्यानिन्दा ...	२२६	२१५
अर्मेण कार्याकरणम् ...	१७५	२०८	अथ सप्तपदी ...	२२७	२१५
अनिकेन धनसाधने ...	१७६	२०९	अथ स्वामिपालविवादः	२२९	२१६
			क्षीरवृत्तिस्थले ...	२३१	२१६

प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्
पालदोषेण नष्टस्थले	२३२ २१६	निष्ठीवनादौ ...	२८२ २२३
चौरहृते ...	२३३ २१६	केशत्रहणादौ...	२८३ २२३
शुद्धादिदर्शनम्	... २३४ २१६	त्वगास्थिभेदादौ	... २८४ २२३
वृक्कादिहतस्थले	... २३५ २१७	वनस्पतिच्छेदने	... २८५ २२३
सस्यघातकदण्डे	... २३७ २१७	मनुष्याणां दुःखानुसारेण	-
सीमाविवादस्थले	... २४५ २१८	दण्डः ...	२८६ २२३
सीमावृक्षावयः	... २४६ २१८	समुत्थानव्ययदाने	... २८७ २२३
उपच्छन्नानि सीमालिङ्गानि २४९	२१८	द्रव्याहिसायाम्	... २८८ २२३
भोगेन सीमां नयेत्	२५२ २१९	चार्मिकभाण्डादौ	... २८९ २२४
सीमासाक्षिणः	... २५३ २१९	यानादेर्देशातिवर्तनानि	२९० २२४
साक्ष्युक्ता सीमा वध्नीयात् २५५	२१९	रथस्वाम्यादिदण्डने	... २९३ २२४
साक्ष्युदानविधिः	... २५६ २१९	भार्यादिताडने	... २९९ २२५
अन्यथा कथने दण्डः	- २५७ २१९	अन्यथा ताडने दण्डः	३०० २२५
साक्ष्यभावे, ग्रामसाम-	-	स्तेननिग्रहणे ३०१ २२५
न्तादयः	... २५८ २२०	चौरादितोऽभयदानफलम्	३०३ २२५
सामन्तानां मृपाकथने	-	राजा धर्माधर्मपञ्चाशभागी	३०४ २२६
दण्डः	... २६३ २२०	अरक्षया करग्रहणनिन्दा	३०७ २२६
शुद्धादिहरणे दण्डः	... २६४ २२०	पापनिग्रहसाधुसग्रहणे	३१० २२६
राजा स्वयं-सीमानिर्णयं	-	वालवृद्धादिषु क्षमा	... ३१२ २२७
कुर्यात्	... २६५ २२०	ब्राह्मणसुवर्णस्तेने	... ३१४ २२७
अथ वाक्पाहन्यदण्डः	२६६ २२१	अशासने राज्ञो दोषः	... ३१६ २२७
ब्राह्मणाद्याक्रोशे	... २६७ २२१	परपापसंश्लेषणे	... ३१७ २२७
समवर्णाक्रोशे	... २६९ २२१	राजदण्डेन पापनाशे	... ३१८ २२७
शत्रुस्य द्विजाक्रोशे	... २७० २२१	कूपघटादिहरणप्रपामेदने	३१९ २२८
धर्मोपदेणकर्तुः शुद्धस्य	-	धान्यादिहरणे...	... ३२० २२८
दण्डः	... २७२ २२१	सुवर्णादिहरणे...	... ३२१ २२८
शुतदेशजात्याक्षेपे	... २७३ २२१	स्त्रीपुरुषादिहरणे	... ३२३ २२८
काणाद्याक्रोशे	... २७४ २२२	महापश्वादिहरणादौ	... ३२४ २२८
मानाद्याक्रोशे	... २७५ २२२	सूत्रकार्पासादिहरणे	... ३२६ २२९
परस्परपतनीयाक्रोशे	२७६ २२२	हरितधान्यादौ	... ३२७ २२९
अथ दण्डपाहन्यम्	... २७८ २२२	निरन्वयसान्त्वयध्वान्यादौ	३३१ २२९
शत्रुस्य ब्राह्मणादिताडने	२७९ २२२	स्तेयसाहसलक्षणम्	... ३३२ २२९
भाटादिप्रदारे	... २८० २२२	त्रैतामिस्तेये	... ३३३ २२९
गहता सद्योपवेसाने	... २८१ २२२	चौरहस्तच्छेदादि	... ३३४ २२९

अकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्
पित्रादिदण्डे	३३५ २३०	सामाजिकाद्यभोजने ...	३९१ २३७
राज्ञो दण्डे	३३६ २३०	अथ आकराः ...	३९४ २३८
विजयद्रादेरशुणादिदण्ड	३३७ २३०	रजकस्य वस्त्रप्रक्षालने...	३९५ २३८
अस्तेयान्याह	३३९ २३०	तन्तुवायस्य सूत्रहरणे	३९७ २३८
चौरयाजनादौ	३४० २३०	पण्यमूल्यकरणे ...	३९८ २३८
पथि स्थितेषु द्वयग्रहणे	३४१ २३०	राज्ञा प्रतिपिदाना निर्हरणे	३९९ २३८
दासाश्वादिहरणादौ ...	३४२ २३०	अकालविक्रयादौ ...	४०० २३८
साहसमाह	३४४ २३१	विदेशविक्रये	४०१ २३९
साहसक्षमानिन्दा	३४६ २३१	अर्घस्थापने	४०२ २३९
द्विवाते शस्त्रग्रहणकाल-	३४८ २३१	तुलादिपरीक्षा ...	४०३ २३९
आततायिहनने	३५० २३२	तरिशुल्कम्	४०४ २३९
प्रदाराभिमर्शने दण्डः	३५२ २३२	गर्भिण्यादीनां न तरिशुल्कम्	४०७ २३९
परस्त्रिया रहसमापणे	३५४ २३२	नानिकदोषेण वस्तुनाशे	४०८ २३९
स्त्रीसग्रहणे	३५८ २३३	वैद्यादेर्वाणिज्याकरणे	४१० २४०
भिक्षुकादीनां परस्त्रीसंभा-		क्षत्रियवैद्यां न दासकर्माहौ	४११ २४०
पणे	३६० २३३	शूद्रं दासकर्म कारयेत्	४१३ २४०
परस्त्रिया निषिद्धसंभापणे	३६१ २३३	शूद्रो दास्यान् मुच्यते...	४१४ २४०
नटारिस्त्रीषु संभापणे न-		सप्तदश दासप्रकाराः...	४१५ २४०
दोषः	३६२ २३३	भार्यादासादयोऽधनाः...	४१६ २४०
कन्यादूषणे	३६४ २३३	वैद्यशूद्रौ स्वकर्मकारधि-	
अदुःखिप्रक्षेपादौ	३६७ २३४	तय्यौ	४१८ २४१
व्यभिचरितस्त्रीजारयोर्दण्डे	३७१ २३४	दिनेदिने आयव्ययनिरीक्ष-	
संवत्सराभिशास्तादौ ...	३७३ २३५	णम्	४१९ २४१
शूद्रादेररक्षितोत्कृष्टादिगमने	३७४ २३५	सन्यग्व्यवहारदर्शनफलम्	४२० २४१
ब्राह्मणस्य गुप्ताविप्रागमने	३७८ २३५		
ब्राह्मणस्य न वधदण्डः	३८० २३६		
गुप्तावैश्यक्षत्रिययोर्गमने	३८२ २३६		
अगुप्ताक्षत्रियादिगमने	३८४ २३६		
साहसिकादिक्षन्यरास्त्रप्र-			
शंसा	३८६ २३६		
शुक्लपुरोहितादित्यागे ..	३८८ २३७		
मात्रादित्यागे	३८९ २३७		
विभ्रयोर्वदि राज्ञा न धर्म-			
कथनम्	३९० २३७		

नवमोऽध्यायः ।

स्त्रीपुंघर्मा	१ २४१
स्त्रीरक्षा	२ २४१
जायागब्दाधिक्यनम् ...	८ २४२
स्त्रीरक्षणोपायाः	११ २४३
स्त्रीसमाव	१४ २४३
स्त्राणा मन्त्रैर्न क्रिया ...	१८ २४४
व्यभिचारप्रायश्चित्ते ...	१९ २४४
स्त्री स्वामिगुणा भवति	२३ २४४

प्रकरणम्	श्लोका	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
स्त्रीप्रशंसा	२६ २४५	ऋतुमतीविवाहे न शुल्क-		
अव्यभिचारफलम्	२९ २४५	दानम्	९३ २५४
व्यभिचारफलम्	३० २४५	कन्यावरयोर्वचोनियम-	...	९४ २५४
वीजक्षेत्रयोर्वलावले	३२ २४५	विवाहस्यावश्यकत्वम्	...	९५ २५४
परस्त्रीषु वीजवपननिषेध	...	४१ २४७	दत्तशुल्काया वरमरणे	...	९७ २५४
स्त्रीपुंसयोरेकत्वम्	४५ २४७	शुल्कग्रहणनिषेध	९८ २५४
सकृदंशभागादय	४७ २४७	वाचा कन्या दत्त्वान्यस्मै		
क्षेत्रप्राधान्यम्	४८ २४८	न दानम्	९९ २५४
स्त्रीधर्म	५६ २४३	स्त्रीपुंसयोरव्यभिचार	१०१ २५५
भ्रातृ स्त्रीगमने पातित्यम्	...	५७ २४९	दायभाग	१०३ २५५
अथ नियोग	५९ २४९	विभागकाल	१०४ २५५
न नियोगे-द्वितीयपुत्रोत्पादनं	...	६० २४९	सहावस्थाने ज्येष्ठस्य प्राधा-		
कामतो गमननिषेध	६३ २५०	न्यम्	१०५ २५५
नियोगनिन्दा	६४ २५०	ज्येष्ठप्रशंसा	१०६ २५५
वर्णसंकरकाल	६६ २५०	अज्येष्ठवृत्तौ ज्येष्ठे	११० २५६
वाग्दत्ताविषये	६९ २५०	विभागे हेतुमाह	१११ २५६
कन्याया पुनर्दाननि०	...	७१ २५१	ज्येष्ठादेशोद्धारै	११२ २५६
सप्तपदीपूर्वं स्त्रीत्यागे	७२ २५१	एकमपि श्रेष्ठं ज्येष्ठस्य	...	११४ २५६
दोषवतीकन्यादाने	७३ २५१	दशवस्तुषु समाना नोद्धार	...	११५ २५६
स्त्रीवृत्तिं प्रकल्प्य प्रवसेत्	...	७४ २५१	समभागविषमभागौ	११६ २५७
प्रोपितभर्तृकानियमाः	७५ २५१	स्वस्वाशेभ्यो भगिन्यै देयम्	...	११८ २५७
सवत्सर स्त्रियं प्रतीक्षेत	...	७७ २५१	विषममजाविकं ज्येष्ठस्यैव	...	११९ २५७
रोगार्तस्वाम्यतिक्रमे	७८ २५२	क्षेत्रजेन विभागे	१२० २५७
स्त्रीवादेन स्त्रीत्याग	७९ २५२	अनेकमातृकेषु ज्यैष्ठ्ये	...	१२२ २५७
अधिवेदने	८० २५२	जन्मतो ज्यैष्ठ्यम्	१२५ २५८
स्त्रिया मद्यपाने	८४ २५२	पुत्रिकाकरणे	१२७ २५८
सजात्या स्त्रिया धर्मकार्य ना-			पुत्रिकाया धनप्राहित्वम्	...	१३० २५९
न्यया	८६ २५३	मातु स्त्रीधनं दुहितु	...	१३१ २५९
शुणिने कन्यादानं न निर्यु-			पुत्रिकापुत्रस्य धनप्राहित्वम्	...	१३२ २५९
र्णाय	८८ २५३	पुत्रिकौरसयोर्विभागे	१३४ २५९
स्वयंवरकाल	९० २५३	अपुत्रपुत्रिकाधने	१३५ २५९
स्वयंवरे पितृदत्तालंकार-			पुत्रिकाया द्वैविध्यम्...	...	१३६ २५९
स्यागः	९२ २५३	पौत्रपौत्रयोर्धनभागादि	...	१३७ २६०
			पुत्रशब्दार्थः	१३८ २६०

प्रकरणम्	श्लोका	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोका	पृष्ठम्
पुत्रिकापुत्रकर्तृकश्राद्धे	१४०	२६०	अप्रजस्त्रीधनाधिकारिण	१९६	२६७
दत्तकस्य धनप्राहकत्वे	१४१	२६०	साधारणात्स्त्रीधनं न कुर्यात्	१९९	२६८
कामजादेर्न धनप्राहकत्वम्	१४३	२६०	स्त्रीणामलकरणमविभाज्यम्	२००	२६८
क्षेत्रजस्य धनप्राहकत्वे...	१४५	२६१	अनंशा	२०१	२६८
अनेकमातृकविभाग ...	१४९	२६१	स्त्रीवादिक्षेत्रजा अंशभागिन	२०३	२६८
अनुदृश्यद्वापुत्रस्य भागनि- येषः	१५५	२६२	अविभक्ताभिर्जितधने ...	२०४	२६८
सजातीयानेकमातृकविभागे	१५६	२६२	विद्यादिधने	२०६	२६९
शूद्रस्य सम एव भागः	१५७	१६२	शाक्तस्याशोपेक्षणे ...	२०७	२६९
दायादादायादवान्धवत्त्वम्	१५८	२६२	अविभाज्यधने	२०८	२६९
कुपुत्रनिन्दा	१६१	२६३	नष्टोद्धारं	२०९	२६९
गौरसक्षेत्रविभागे	१६२	२६३	सष्टधनविभागे	२१०	२६९
क्षेत्रजानन्तरगौरसोत्पत्तौ	१६३	२६३	विदेशादिगतस्य नमागलोप	२११	२६९
दत्तकादयो गौररिक्थभा- गिन	१६५	२६३	ज्येष्ठो गुणशून्य समभाग	२१३	२७०
गौरसादिद्वादशपुत्रलक्षणम्	१६६	२६३	विकर्मस्था धन नार्हन्ति	२१४	२७०
दासीपुत्रस्य समभागित्वं	१७९	२६५	ज्येष्ठस्यासाधारणकरणे	२१४	२७०
क्षेत्रजादय पुत्रप्रतिनिधयः	१८०	२६५	जीवत्पितृकविभागे ...	२१५	२७०
सस्यौरसे दत्तकादयो न क- र्तव्याः	१८१	२६५	विभागान्तरोत्पन्नस्थले	२१६	२७०
पुत्रित्वातिदेश	१८२	२६५	अनपत्यधने मातुरधिकार	२१७	२७०
द्वादशपुत्राणा पूर्वपूर्वं श्रेष्ठ	१८४	२६६	ऋणधनयो. समं विभाग	२१८	२७०
क्षेत्रजादयो रिक्थहरा.	१८५	२६६	अविभाज्यमाह	२१९	२७०
क्षेत्रजादीना पितामहधने	१८६	२६६	द्यूतसमाह्वय	२२०	२७१
सपिण्डादयो धनहरा.	१८७	२६६	द्यूतसमाह्वयनिषेध ..	२२१	२७१
ब्राह्मणाधिकार.	१८८	२६६	द्यूतसमाह्वयार्थं	२२३	१७१
राजाधिकार	१८९	२६६	द्यूतादिकारिणां दण्ड.	२२४	२७१
मृतपतिकानियुक्तापुत्रा- धिकार	१९०	२६७	पाषण्डादीन्देशाभिर्वासयेत्	२२५	२७१
गौरसर्पानर्भविभागे	१९१	२६७	दण्डदानाशक्तौ	२२९	२७२
मातृधनविभागे	१९२	२६७	स्त्रीवालादिदण्डे	२३०	२७२
स्त्रीधनान्याह	१९४	२६७	नियुक्तकार्यहनने ...	२३१	२७२
अप्रजस्त्रीधनाधिकारिणः	१९५	२६७	कूटशासनवालवधादिकरणे	२३२	२७२
			धर्मकृतं व्यवहारं न निव- र्तयेत्	२३३	२७२
			अधर्मकृतं निवर्त्यम् ...	२३४	२७३
			प्रायश्चित्तप्रकरणे महापात- किदण्डः	२३५	२७३

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
प्रायश्चित्तकरणे नाङ्गना	२४०	२७३	प्राकारभेदादौ	... २८९	२८०
महापातके ब्राह्मणस्य दण्ड	२४१	२७४	अभिचारकर्मणि	... २९०	२८०
क्षत्रियादेर्दण्ड	.. २४२	२७४	अवीजविक्रयादौ	... २९१	२८०
महापातकिघनग्रहणे	... २४३	२७४	स्वर्णकारदण्डने	... २९२	२८०
ब्राह्मणपीडने दण्ड	... २४८	२७४	हलोपकरणहरणे	... २९३	२८०
बन्धमोक्षणे दोष	... २४९	२७५	सप्तप्रकृतय	... २९४	२८०
राजा कण्टकोद्धरणे यज्ञं			स्वपरशक्तिवीक्षणम्	... २९८	२८१
कुर्यात्	... २५२	२७५	कर्मारम्भे	... २९९	२८१
आर्यरक्षाफलम्	... २५३	२७५	राज्ञो युगत्वकथनम्	... ३०१	२८१
तस्कराद्यशासने दोष	२५४	२७५	इन्द्रादीना तेजो वृषो वि-		
निर्मथराज्यवर्धनम्	... २५५	२७५	भर्ति	... ३०३	२८२
प्रकाशाप्रकाशतस्करज्ञानम्	२५६	२७५	एतैरुपायै स्तेननिग्रहणम्	३१२	२८३
प्रकाशाप्रकाशतस्करानाह	२५७	२७६	ब्राह्मणं न कोपयेत्	... ३१३	२८३
तेषां शासनम्	... २६२	२७६	ब्राह्मणप्रशसा	... ३१४	२८३
चौराणां निग्राहको दण्ड			श्मशानाभिर्न दुष्ट एवं ब्रा-		
एव	... २६३	२७६	ह्यण	... ३१८	२८४
तस्करान्वेषणम्	... २६४	२७६	ब्रह्मक्षत्रयो परस्परसाहि-		
लोप्टादर्शने	... २७०	२७७	स्यम्	... ३२२	२८४
चौराश्रयदायकदण्ड	.. २७१	२७७	पुत्रे राज्यं दत्त्वा रणे प्राण-		
स्वधर्मच्युतदण्डने	... २७३	२७८	त्याग	... ३२३	२८४
चौराद्युपद्रवे अधावातो			वैश्यधर्मानाह...	... ३२६	२८५
दण्ड	... २७४	२७८	शूद्रधर्मानाह...	... ३३४	२८६
राज्ञ कोशाहारकादयो द-					
ण्ड्या	... २७५	२७८			
सधिच्छेदे	... २७६	२७८			
ग्रन्थिभेदने	... २७७	२७८			
चौरलोप्टधारणादौ	... २७८	२७८			
तडागागारभेदने	... २७९	२७८			
राजमार्गे यलादित्यागे	२८२	२७९			
मिथ्याचिकित्सने दण्ड	२८४	२७९			
प्रतिमादिभेदने	... २८५	२७९			
मणीनामपवेधादौ	... २८६	२७९			
विषमव्यवहारे	... २८७	२७९			
बन्धनस्थानम्	... २८८	२८०			

दशमोऽध्यायः ।

अध्यापनं ब्राह्मणस्यैव	१	२८६
वर्णानां ब्राह्मण प्रभु	३	२८७
द्विजवर्णकथनम्	४	२८७
सजातीयं	... ५	२८७
पितृजातिसदृशा	... ६	२८७
वर्णसंकराः	... ८	२८७
ब्राह्म्या.	... २०	२८९
ब्राह्म्योत्पन्नादिसकीर्णाः	२१	२८९
उपनेयाः	... ४१	२९२
ते सुकर्मणा उत्कर्षं गच्छन्ति	४२	२९२

प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः पृष्ठम्
क्रियालोपात् वृषलत्वं ग- च्छन्ति ४३ २९२		वृद्धिजीवननिषेध ... ११७ ३०३	
दृश्यव. ४५ २९३		राज्ञाम्नापद्धर्ममाह ... ११८ ३०३	
वर्णसंकराणा कर्माण्याह ४७ २९३		शूद्रस्य आपद्धर्मः ... १२१ ३०३	
चण्डालकर्माह ... ५१ २९४		शूद्रस्य ब्राह्मणाराधनं श्रे- ष्ठम् १२२ ३०३	
कर्मणा पुरुषज्ञानम् ... ५७ २९४		शूद्रवृत्तिकल्पनम् .. १२४ ३०३	
वर्णसकरनिन्दा ... ५९ २९५		शूद्रस्य न सत्कारादि... १२६ ३०४	
एया विप्राद्यथै प्राणत्याग. श्रेष्ठः ६३ २९५		शूद्रस्यामश्रकं धर्मकार्यम् १२७ ३०४	
साधारणधर्माः ... ६३ २९५		शूद्रस्य धनसंचयनिषेध. १२९ ३०४	
सप्तमे जन्मनि ब्राह्मण्यं शू- द्रत्वं च ६४ २९५		एकादशोऽध्यायः ।	
वर्णसंकरे श्रेष्ठ्यम् ... ६७ २९६		ज्ञातकस्य प्रकाराः ... १ ३०५	
बीजक्षेत्रयोर्वलावले ... ७० २९६		नवज्ञातकेभ्योऽन्नदाने ३ ३०५	
पदकर्माण्याह ७५ २९७		वेदविज्ञो दानम् ... ४ ३०५	
ब्राह्मणजीविका ... ७६ २९७		भिक्षया द्वितीयविवाहनि- षेधः ५ ३०५	
क्षत्रियवैश्यकर्माह ... ७७ २९७		कुटुम्बब्राह्मणाय दानम् ६ ३०५	
द्विजानां श्रेष्ठकर्माह ... ८० २९७		सोमयागाधिकारिण. ... ७ ३०५	
आपद्धर्ममाह... .. ८१ २९८		कुटुम्बाभरणे दोष ... ९ ३०६	
विक्रये वर्ज्यानि ... ८६ २९८		यज्ञशोषार्थं वैश्यादेर्धनग्रह- णम् ११ ३०६	
धोरादिक्रियफलम् ... ९२ २९९		पशुपवासे आहारग्रहणे १६ ३०७	
ज्यायसीवृत्तिनिषेधः ... ९५ २९९		ब्रह्मस्वादिहरणनिषेधः १८ ३०७	
परधर्मजीवननिन्दा ... ९७ ३००		असाधुधनं हत्वा साधुभ्यो दाने १९ ३०७	
वैश्यशूद्रयोरापद्धर्म. ... ९८ ३००		यज्ञशीलादिधनप्रदांसा २० ३०८	
आंपदि विप्रस्य हीनयाच- नादि १०२ ३०१		यज्ञार्थं विप्रस्य स्तेनादौ न दण्ड २१ ३०८	
प्रतिग्रहनिन्दा .. १०९ ३०१		शुभ्रावसनस्य वृत्तिकल्पने २२ ३०८	
याजनाभ्यापने द्विजानाम् ११० ३०१		यज्ञार्थं शूद्रभिक्षानिषेधः २४ ३०८	
प्रतिग्रहादिपापनाशे ... १११ ३०१		यज्ञार्थं धनं भिक्षित्वा न रक्षणीयम् ... २५ ३०८	
शिलोच्छ्रजीवने ... ११२ ३०२		देवब्रह्मस्वरहणे ... २६ ३०८	
धनयाचने ११३ ३०२		सोमयागाश्चर्तवैश्वानरयागः २७ ३०८	
क्षस विप्रागमा ... ११५ ३०२			
दश जीवनहेतवः ... ११६ ३०२			

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
समर्थयानुकल्पनिषेध	२८	३०९	क्षत्रियादिवधप्रायम्	१२६	३२२
द्विजस्य स्वशक्त्या वैरिजय	३१	३०९	मार्जारदिवधप्रायश्चित्तम्	१३१	३२३
क्षत्रियादिवधहवीर्येणारिजय	३४	३१०	हयादिवधप्रायश्चित्तम्	१३६	३२३
ब्राह्मणस्यानिष्ट न म्रूयात्	३५	३१०	व्यभिचरितस्त्रीवधे ...	१३८	३२४
अल्पविद्याख्यादेर्होतृत्वनि- षेध	३६	३१०	सर्पादिवधे दानाक्षपौ	१३९	३२४
अश्वदक्षिणादाने ...	३८	३१०	क्षुद्रजन्तुसमूहवधादी	१४०	३२४
अल्पदक्षिणयज्ञनिन्दा	३९	३१०	वृक्षादिच्छेदनादौ ...	१४२	३२४
अग्निहोत्रिणस्तदकरणे	४१	३११	अन्नजादिसन्ववधे ...	१४३	३२४
शूद्रासधनेनाग्निहोत्रनिन्दा	४२	३११	वृथौपध्यादिच्छेदने ...	१४४	३२५
विहिताकरणदौ प्रायश्चित्तं	४५	३११	अमुख्यसुरापानप्रायश्चित्तं	१४६	३२५
कामाकामकृतपापे ...	४५	३११	सुरामाण्डस्थजलपाने	१४७	३२५
प्रायश्चित्तिससर्गनिषेध	४७	३१२	शूद्रोच्छिष्टजलपाने ..	१४८	३२५
पूर्वपापेन कुल्यन्धादय	४८	३१२	सुरामन्धाप्राणे ...	१४९	३२५
प्रायश्चित्तमवश्यं कर्तव्यम्	५३	३१३	विष्णुमूत्रसुराससृष्टभोजने	१५०	३२५
पञ्चमहापातकान्याह ...	५४	३१३	पुनःसस्कारे दण्डादिनि- वृत्ति	१५१	३२६
ब्रह्महत्यादिसमान्याह	५४	३१३	अभोज्याभस्त्रीशूद्रोच्छिष्टा- भक्ष्यमासभक्षणे ...	१५२	३२६
उपपातकान्याह ..	५९	३१३	शुचादिभक्षणे ...	१५३	३२६
जातिभ्रंशकराण्याह ..	६७	३१४	सूकरादिविष्णुमूत्रभक्षणे	१५४	३२६
सकरीकरणान्याह ...	६८	३१४	शुष्कसूनास्थाज्ञातमासभ- क्षणे	१५५	३२६
अपात्रीकरणान्याह ..	६८	३१५	कुक्कुटनरसूकरादिभक्षणे	१५६	३२६
मलिनीकरणान्याह ...	७०	३१५	मासिकाभभक्षणप्रायश्चि- त्तम्	१५७	३२६
ब्रह्मवधप्रायश्चित्तम् ...	७२	३१५	ब्रह्मचारिणो मधुमांसादिभ. १५८	३२६	
गर्भात्रेयीक्षत्रवैश्यवधे	८७	३१७	विडालाद्युच्छिष्टादिभक्षणे	१५९	३२६
स्त्रीसुहृद्बध्निक्षेपहरणादौ	८८	३१७	अभोज्यान्नमुत्तार्यम् ...	१६०	३२७
सुरापानप्रायश्चित्तम्	९०	३१७	सजातीयधान्यादिस्तेये	१६२	३२७
सुराप्रकारा	९४	३१८	मनुष्यादिहरणप्रायश्चित्तम्	१६३	३२७
सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ...	९९	३१९	त्रपुसीसकादिहरणे ...	१६४	३२७
गुरुस्त्रीगमनप्रायश्चित्तम्	१०३	३१९	भक्ष्ययानशय्यादिहरणे	१६५	३२७
गोधधातुपपातकप्रायश्चि- त्तम्	१०८	३२०	शुष्कान्नगुहादिहरणे ..	१६६	३२७
अवकीर्णप्रायश्चित्तम्	११८	३२१	अणिमुक्कारजतादिहरणे	१६७	३२७
जातिभ्रंशकरप्रायश्चित्तम्	१२४	३२२			
सकरीकरणादिप्रायश्चित्तम्	१२५	३२२			

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
कार्पासाशुकादिहरणे...	१६८	३२८
अगम्यागमनप्रायश्चित्तम्	१७०	३२८
बडवारजखलादिगमने	१७३	३२८
दिवाभैशुनादाँ ...	१७४	३२८
चाण्डाल्यादिगमने ...	१७५	३२८
व्यभिचारे स्त्रीणां प्रायश्चि- त्तम्	१७६	३२९
चाण्डालीगमने ...	१७८	३२९
पतितसंसर्गप्रायश्चित्तम्	१७९	३२९
पतितस्य जीवत एव प्रेत- क्रिया ।	१८२	३२९
पतितस्यांशादिनिवृत्तिः	१८५	३३०
कृतप्रायश्चित्तसंसर्गः ...	१८६	३३०
पतितस्त्रीणामन्नादिदेयम्	१८८	३३०
पतितसंसर्गनिषेधादि	१८९	३३०
बालघ्नदिव्याग. ...	१९०	३३१
ब्राह्मवेदलक्ष्मप्रायश्चित्तम्	१९१	३३१
गर्हितार्जितधनत्याग.	१९३	३३१
असत्प्रतिग्रहप्रायश्चित्तम्	१९४	३३१
कृतप्रायश्चित्तं साम्यं पृच्छेत्	१९५	३३१
गोभ्यो घासदान तत्र संसर्गं	१९६	३३१
ब्राह्मयाजनपतितक्रियाकृ- त्यादौ	१९७	३३१
वेदशरणगतत्यागे ...	१९८	३३१
श्वादिर्दशनप्रायश्चित्तम्	१९९	३३१
अपाह्नघप्रायश्चित्तम् ...	२००	३३२
लघ्नादियानप्रायश्चित्तम्	२०१	३३२
जले जलं विना वा मूत्रा- दित्यागे	२०२	३३२
वेदोदितकर्मादित्यागे	२०३	३३२
ब्राह्मणस्य धिक्कारे ...	२०४	३३२
ब्राह्मणावशुरणे ...	२०५	३३२

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
अनुक्तप्रायश्चित्तस्थले	२०९	३३३
प्राजापत्यादिब्रतनिर्णयः	२११	३३३
व्रताङ्गानि	२२२	३३५
पापं न गोपनीयम् ...	२२७	३३५
पापास्तुतापे	२३०	३३६
पापवृत्तिनिन्दा ...	२३२	३३६
मनस्सुष्टिपर्यन्तं तप- , कुर्यात्	२३३	३३६
तप प्रशंसा	२३४	३३६
वेदाभ्यासप्रशंसा ...	२४५	३३८
रहस्यप्रायश्चित्तम् ...	२५७	३३९

द्वादशोऽध्यायः ।

शुभाशुभकर्मफलम् ...	३	३४१
कर्मणो मनः प्रवर्तकम्	४	३४१
त्रिविधमानसकर्माणि ...	५	३४१
चतुर्विधवाचिककर्माणि	६	३४१
त्रिविधशारीरकर्माणि ...	७	३४१
मनोवाङ्मयकर्मभोगे .	८	३४१
त्रिदण्डपरिचय ...	१०	३४२
क्षेत्रज्ञपरिचय-	१२	३४२
जीवात्मपरिचय ...	१३	३४२
जीवानामानन्त्यम् ...	१५	३४३
परलोके पाश्चमौतिकशरीरम्	१६	३४३
भोगानन्तरमात्मनि लीयते	१७	३४३
धर्माधर्मबाहुल्याद्भोग	२०	३४३
त्रिविधगुणकथनम् ...	२४	३४४
अधिकगुणप्रधानो देहः	२५	३४४
सत्त्वादिलक्षणमाह ...	२६	३४४
सात्त्विकगुणलक्षणम् ...	३१	३४५
राजसगुणलक्षणम् ...	३२	३४५
तामसगुणलक्षणम् ...	३३	३४५
सक्षेपतस्त्वामसादिलक्षणम्	३५	३४५
गुणत्रयात्रिविधा गति ...	४०	३४६

प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्	प्रकरणम्	श्लोकाः	पृष्ठम्
त्रिविधगतिप्रकाराः ...	४१	३४६	वेदज्ञप्रशंसा ...	१०१	३५३
पापेन कुत्सिता गति	५२	३४७	वेदव्यवसायिन श्रेष्ठत्वम्	१०३	३५४
पापविशेषेण योनिविशेषो- त्पत्ति ...	५३	३४७	तपोविद्याभ्या मोक्ष ...	१०४	३५४
पापप्रावीण्यान्नरकादि ...	७३	३५०	प्रत्यक्षानुमानशब्दा प्रमा- णानि ...	१०५	३५४
मोक्षोपायषट्कर्माप्याह	८३	३५१	घर्मज्ञलक्षणम् ...	१०६	३५४
आत्मज्ञानस्य प्राधान्यम्	८५	३५१	अकथितघर्मस्थले ...	१०८	३५४
वेदोदितकर्मण श्रेष्ठत्वम्	८६	३५२	अथ शिष्टाः ...	१०९	३५५
वैदिकं कर्म द्विविधम् ...	८८	३५२	अथ परिषत् ...	११०	३५५
प्रवृत्तनिवृत्तकर्मफलम्	९०	३५२	मूर्खाणां न परिषत्त्वम्	११४	३५५
समदर्शनम् ...	९१	३५२	आत्मज्ञानं पृथक् स्याह	११८	३५६
वेदाभ्यासादौ ...	९२	३५२	वाग्वाकावादीना लयमाह	१२०	३५६
वेदवाद्यस्मृतिनिन्दा	९५	३५३	आत्मस्वरूपमाह ...	१२२	३५६
वेदप्रशंसा ...	९७	३५३	आत्मदर्शनमवश्यमनुष्ठेयम्	१२५	३५७
वेदज्ञस्य सेनापत्यादि...	१००	३५३	एतत्सहितापाठफलम्	१२६	३५७

संपूर्णेयं मनुस्मृतिविषयानुक्रमणी ।



प्रथमोऽध्यायः १

श्रीगणेशाय नमः ।

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः ।

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ॥ १ ॥

एकाग्रचित्त और सुखसे बैठे हुए मनुजीकेपास जाकर, महर्षि उनका रीति-पूर्वक पूजन करके यह वचन बोले ॥ १ ॥

भगवन्सर्ववर्णानां यथावद्ब्रुपूर्वशः ।

अन्तरप्रभवाणां च धर्मानो व कुमर्हसि ॥ २ ॥

हे भगवन् ! आप सब वर्णोंके और संकीर्ण जातियोंके ठीक २ धर्मोंको आदिसे अततक हमसे कहने योग्य है (इसलिये उनको कहिये) ॥ २ ॥

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः ।

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥ ३ ॥

हे भगवन् ! जिसका न चिंतवन होसके, न परिमाण-होसके ऐसे इस स्वयं उत्पन्न हुए, संपूर्ण वेदके अग्निष्टोमादि यह और ब्रह्मको जाननेवाले केवल आप ही हैं ॥ ३ ॥

स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः ।

प्रत्युवाचाचार्य्य तान्सर्वांन्महर्षींश्श्रूयतामिति ॥ ४ ॥

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविक्षेयं प्रस्तुतमिव सर्वतः ॥ ५ ॥

जब उन महात्माओंने इसभाति पूछा तब महातेजस्वी मनुजी, उन सब महर्षियोंका सत्कार करके उनसे बोले कि-सुनिये ॥ ४ ॥ यह जगद् (प्रलय-कालमें) अंधकारसे व्याप्त, अच्छे प्रकारसे जाननेके अयोग्य, चिन्हरहित, जिसमें तर्कना न होसके और (इस कारण) जिसका विशेष ज्ञान न होसके ऐसा सर्वत्र सोते हुएके समान था ॥ ५ ॥

ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।

महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोऽनुदः ॥ ६ ॥

तब जो इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न हों ऐसे, सृष्टिकी रचना करनेमें समर्थ, अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेवाले और प्रकृतिके प्रेरक भगवान्, आकाश आदि महाभूतोंको प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए ॥ ६ ॥

योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।

सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवौ ॥ ७ ॥

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिद्ध्युर्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥ ८ ॥

जो यह परमात्मा इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेके अयोग्य शरीर रहित, सूक्ष्म-रूप, नित्य, सब प्राणियोंका आत्मा, और चिन्तन करनेके अयोग्य है वही अपने आप प्रगट हुआ ॥ ७ ॥ उस (परमात्मा) ने अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छासे ध्यान करके अपने शरीरसे पहिले जलको उत्पन्न किया और उस (जल) में (शक्तिरूप) बीज डाला ॥ ८ ॥

तदण्डमभवद्द्वैमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।

तस्मिञ्ज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ ९ ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥

शुक्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।

तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

तस्मिन्मण्डे स भगवानुषित्वा परिचत्सरम् ।

स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्धिधा ॥ १२ ॥

वह (बीज) सूर्यके समान कान्तिवाला सुवर्णका अडा हो गया और उसमें सब लोकोंका कर्ता ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ जलको “नार” कहते हैं क्योंकि जल नर (रूप परमात्मा) से उत्पन्न हुआ है । वही जल इस परमात्माका प्रथम वासस्थान है इस कारण परमात्मा “नारायण” कहा गया है ॥ १० ॥ लोक और वेदमें प्रतिष्ठ, अव्यक्त (अर्थात् नेत्रादि इन्द्रियोंसे ग्रहणके अयोग्य) नित्य, और सत् असत्की आत्मा ऐसा, कारणसे उत्पन्न हुआ वह पुरुष “ब्रह्मा” इस नामसे संसारमें विख्यात है ॥ ११ ॥ उस भगवान्ने, अडेमें एक वर्षतक रहकर आपही अपने ध्यानसे उसके दो टुकड़े कर दिये ॥ १२ ॥

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।

मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावर्षां स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ॥

उन (टुकड़ों) से स्वर्ग और पृथ्वीको बनाया और बीचमें आकाश, आठों दिशा, और जलका स्थिर स्थान अर्थात् समुद्र बनाया ॥ १३ ॥

उद्वयर्हात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् ।
मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४ ॥
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ।
विषयाणां ग्रहीतृणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ १५ ॥

फिर ब्रह्माने परमात्मासे सत् असत् (संकल्पविकल्प) रूप मनको और मनकी उत्पत्तिके पहिले "मै" इस अभिमानसे युक्त, काम करनेमे समर्थ ऐसे अहंकारको उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ फिर (अहंकारसे पूर्व) आत्माके सहायक महत्तलको, फिर सब (सत्, रज, तम) तीनों गुणोंको, फिर धीरे २ (रूप रस गंध आदि) विषयोंके ग्रहण करनेवाली पाचो इन्द्रियोंको उत्पन्न किया ॥ १५ ॥

तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान्प्रणामप्यमितौजसाम् ।
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥

इन असीम बलवाले (अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, सार्व इन) छठोंके छोटे २ अवयवोंको उनकेही विकारोंमें (अर्थात् तन्मात्राका विकार और आकाश आदि पंच महाभूत और अहंकार इनके विकारोंको आपसमें) मिलाकर सब प्राणियोंको (अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष इनको) रचा ॥ १६ ॥

यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रन्ति पद् ।
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः ॥ १७ ॥

उस (प्रकृति सहित ब्रह्म)की मूर्तिके (शब्दादि तन्मात्रा और अहंकार) ये छठों अवयव सूक्ष्म हैं और उसके आश्रित हैं (अर्थात् पाचभूत और इन्द्रियोंको रचते हैं) इसी लिये उस ब्रह्मकी मूर्तिको पण्डित जन शरीर कहते हैं—(सांख्यके अनुसारमी सृष्टिका यही क्रम प्रतीत होता है कि प्रकृतिसे महत्तल, महत्तलसे अहंकार, अहंकारसे पाच मात्रा, दश इन्द्रिय और एक मन, और इन सोलहोंसे पाच भूत उत्पन्न होते हैं) ॥ १७ ॥

तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः ।
मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम् ॥ १८ ॥

फिर उस अविनाशी, सब भूतोंके बनानेवाले ब्रह्मसे अपने २ कर्मोंके साथ (आकाश आदि) महाभूत और सूक्ष्म अवयवोंके साथ मन उत्पन्न हुआ (आकाशका काम अवकाश देना, वायुका गति, तेजका पाक, जलका पिंढीकरण, पृथ्वीका धारण, और मनका शुभ अशुभ कामकी इच्छा करना है) १८

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम् ।
सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्ययम् ॥ १९ ॥

फिर उस अविनाशी परमात्माके द्वारा इन महाबली (महत्तल, अहंकार, शब्द, सार्व, रूप, रस और गंध) सात प्रकृतियोंके छोटे २ मूर्तिके अंशोंसे, विनाश होनेवाला जगत् उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥

आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवामोति परः परः ।

यो यो यावत्तिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥ २० ॥

इन (आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी) पाच भूतोंके (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) गुणको (वायु आदि) आगेके तत्व पाते हैं और इनमें जिसकी जो सख्या है उसमें उतनेही गुण कहे गये हैं—अर्थात् आकाशमें एक शब्दगुण, वायुमें शब्द, स्पर्श दो गुण, तेजमें शब्द, स्पर्श रूप तीन गुण, जलमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस चार गुण हैं और पृथ्वीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये पाच गुण हैं ॥ २० ॥

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१ ॥

उस परमात्माने सर्वोंके नाम (जैसे गौजातिका गौ इत्यादि) और जुदे २ कर्म (जैसे ब्राह्मणका वेद पढना इत्यादि) वेदके शब्दोंसेही जानकर सृष्टिकी आदिमें भलग २ बनाये ॥ २१ ॥

कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः ।

साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् ॥ २२ ॥

उस ब्रह्माने देवताओंका गण, प्राणियोंका गण, कर्मही है स्वभाव जिनका ऐसे अप्राणी पाषाणादिकोंका गण, और सूक्ष्म साध्योंका अर्थात् देव विशेषोंका गण और सनातन (ज्योतिष्टोम आदि) यज्ञ इनको उत्पन्न किया ॥ २२ ॥

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोहं यज्ञसिद्धयर्थंमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥ २३ ॥

ब्रह्माने यज्ञकी सिद्धिके लिये ऋक्, यजु, और साम इन सनातन वेदोंको अग्नि, पवन, और सूर्यसे क्रमपूर्वक प्रकट किया ॥ २३ ॥

कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ।

सरितः सागराञ्छैलान्समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥

फिर काल और कालके विभाग (ऋतु मास आदि) नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंचे नीचे स्थानोंको बनाया ॥ २४ ॥

तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च ।

सृष्टिं ससर्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥ २५ ॥

ब्रह्माने इस प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे तप, वाणी, रति, काम और क्रोधकी यह सृष्टि करी ॥ २५ ॥

कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत् ।

इन्द्रैरयोजयञ्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥

ब्रह्माने कर्मोंके ज्ञानके लिये (अर्थात् यज्ञ आदि) धर्म और (ब्रह्मवध आदि) अधर्मको जुदा २ किया और इस प्रजाको सुख दुःख आदिके फलको प्रजाओंके पीछे लगा दिया ॥ २६ ॥

अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः ।

ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः ॥ २७ ॥

पंच भूतोंकी जो विनाश होनेवाली (शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श) सूक्ष्म मात्रा कही गई हैं उन्हींकी सहायतासे यह संपूर्ण जगत् क्रमसे अर्थात् सूक्ष्मसे स्थूल और स्थूलसे अत्यंत स्थूल उत्पन्न होता है ॥ २७ ॥

यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः ।

स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८ ॥

उस ब्रह्माने प्रथम जिसको जिस कर्ममें लगाया वह बार २ उत्पन्न होकर उसे आपही करने लगा ॥ २८ ॥

हिंसाहिंसे मृदुकूरे धर्माधर्मावृत्तानृते ।

यद्यस्य सोऽदधात्सर्गं तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥ २९ ॥

हिंसा, अहिंसा, कोमलता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य और झूठ इनमेंसे पूर्व कल्पमें ब्रह्माने जो जिसका कर्म बनाया था वही कर्म आपसे आप उस जीवको प्राप्त हो गया (जैसे सिंहको हाथी मारना हिंसक कर्म, मृग किसीको नहीं मारता यह अहिंसक कर्म है, ब्राह्मणका कर्म कोमल दयायुक्त है, क्षत्रीका कठोर कर्म है, ब्रह्मचारीको गुस्की सेवाधर्म है, ब्रह्मचारीको मांस मैथुन आदि अधर्म है, देवताओंका सत्य कथन और मनुष्योंका कथन असत्य है) ॥ २९ ॥

यथर्तुलिङ्गान्युतवः स्वयमेवर्तुपर्यये ।

स्वानि स्वान्याभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥

लोकानां तु विद्युद्भयं मुखयाङ्गरूपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥ ३१ ॥

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजन्प्रभुः ॥ ३२ ॥

जैसे (वसंतादि) ऋतु, ऋतु पलटने पर, आपही अपने २ ऋतुके तिहोंको प्राप्त हो जाती हैं वैसेही देहधारीमी स्वयमेव अपने २ कर्मोंको प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ ब्रह्माने लोकोंकी वृद्धिके लिये मुख, बाहु, जंघा और चरणसे ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र इनको क्रमसे बनाया ॥ ३१ ॥ वह प्रभु (ब्रह्मा) अपने देहके दो खंड करके आधेसे पुरुष और आधेसे स्त्री होगया और उसने स्त्रीमे विराट पुरुषको उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥

तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट् ।

तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥

हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! उस विराट् पुरुषने तप करके जिसको उत्पन्न किया ऐसा इस सब जगतका रचनेवाला मुझे जानो ॥ ३३ ॥

अहं प्रजाः सिंसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् ।

पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥

मैने प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे बड़ा कठिन तप करके पहिले प्रजा-
पति दश महर्षियोंको उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥

मरीचिमध्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं ऋतुम् ।

प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ ३५ ॥

मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु और
नारद ॥ ३५ ॥

एते मनुंस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः ।

देवान्देवनिकायांश्च महर्षींश्चामितौजसः ॥ ३६ ॥

इन महातेजस्वी महर्षियोंने अन्य सात मनुओको, देवताओंको तथा देवता-
ओंके रहनेके योग्य स्थानोंको और बड़े तेजस्वी महर्षियोंको उत्पन्न किया ॥ ३६ ॥

यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् ।

नागान्सर्पान्सुपर्णांश्च पितृणां च पृथग्गणान् ॥ ३७ ॥

फिर इन्होंने यक्ष, राक्षस, पिशाच, गधर्व, अप्सरा, असुर, हाथी, सर्प,
सुपर्ण तथा पितृओंके गणोंको अलग २ उत्पन्न किया ॥ ३७ ॥

विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनुषि च ।

उल्कानिर्घातकेतूश्च ज्योतींष्युश्चावचानि च ॥ ३८ ॥

बिजली, वज्र, मेघ, रोहित, (सीधे धनुष) और टेढ़े इन्द्रधनुष, उल्का,
निर्घात (उत्पात शब्द) केतु (पुच्छल तारे) तथा छोटे बड़े तारोंको
रचा ॥ ३८ ॥

किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान् ।

पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥ ३९ ॥

और किन्नर, वानर, मत्स्य और अनेक भातिके पक्षी, पशु, मृग, मनुष्य,
सर्प और दोनों ओर दातवाले पशु इनको पैदा किया ॥ ३९ ॥

कृमिकीटपतङ्गांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम् ।

सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ॥ ४० ॥

कृमि, कीट, पतंग, जूँ, मक्खी, खटमल, सब ढास और मच्छर और
अनेक प्रकारके स्थावर (लता वृक्ष आदि)को पैदा किया ॥ ४० ॥

एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः ।

यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥ ४१ ॥

इस भाति इस सब स्थावर जंगमको मेरी आज्ञासे इन महात्माओंने तपके
योगसे कर्मके अनुसार उत्पन्न किया ॥ ४१ ॥

येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् ।

तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥

इन जीवोंम जिसका जैसा कर्म इस सप्ताहमें पूर्वाचार्योंने कहा है उसे और
जन्मके क्रमको मैं तुमसे कहूँगा ॥ ४२ ॥

पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ ॥

अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः ।

यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ ॥

स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् ।

ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किंचिदीदृशम् ॥ ४५ ॥

पशु, मृग, सर्प, दोनो, और दांतवाले, राक्षस, पिशाच और मनुष्य ये सब जरायुज हैं अर्थात् शिलीसे उत्पन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ पक्षी, साप, मगर, मछली और कछुए अंडज हैं और जितने ऐसे जीव जल और स्थलमें पैदा होते हैं वे सबगी अंडज हैं ॥ ४४ ॥ बास, मच्छर, जूं, मक्खी, खटमल और अन्य ऐसेही जो गरमीसे उत्पन्न होते हैं वे स्वेदज हैं ॥ ४५ ॥

उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ।

ओपध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥

बीजसे पृथ्वी फोड़कर वा टैनी लगानेसे जो सब वृक्ष उगते हैं उनको उद्भिज कहते हैं और फल पकनेपर जो सूख जाते हैं और जिनमें बहुतसे फल और फूल लगते हैं उन्हें ओपधि कहते हैं ॥ ४६ ॥

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।

पुष्पिणः फलिन्श्चैव वृक्षास्तुभयतः स्मृताः ॥ ४७ ॥

जिनमें फूल तो लगे नहीं पर फल लगे उन्हें वनस्पति कहते हैं । जिनमें फूल और फल दोनों लगे उन्हें वृक्ष कहते हैं ॥ ४७ ॥

गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः ।

बीजकाण्डरूहाण्येव प्रताना घल्लघ एव च ॥ ४८ ॥

अनेक प्रकारके गुच्छे, गुल्म (जो एक जडसे बहुतसे उग आते हैं) अनेक भांतिके तृण, प्रतान, और लता बीजबोने या टैनी लगानेसे उग आते हैं ॥ ४८ ॥

तमसा चहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना ।

अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥

ये पूर्वजन्मके कर्मके कारण बहुतसे तमोगुणसे घिरे हुए हैं, सुख दुःखसे युक्त हैं और इनके भीतर चेतना है ॥ ४९ ॥

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः ।

घोरेऽसिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥

इस घोर और सदा विनाशी भयंकर संसारमें ब्रह्मासे आदि लेकर यहाँ (स्थावर) तककी उत्पत्तियां कहीं हैं ॥ ५० ॥

एवं सर्वे स खट्वेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः ।

आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् ॥ ५१ ॥

वह अचिन्त्य पराक्रमवाला भगवान् (ब्रह्मा) मुझे और इस सबको दन्

भांति उत्पन्न करके फिर प्रलयकालके द्वारा सृष्टिकालका नाश करता हुआ अपने आपने अंतर्धान होगया ॥ ५१ ॥

यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति ॥ ५२ ॥

जब वह देव (ब्रह्मा) जगता है तब यह संसार चेष्टा करता है और जब यह शांतिरूप होकर सोता है तब जगत् प्रलयको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥

तस्मिन्स्वपति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः ।

स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ५३ ॥

उसके स्वस्थ होकर सोनेपर कर्मानुसारी प्राणी अपने कर्मोंसे निवृत्त हो जाते हैं और उनका मनभी ग्लानिको प्राप्त होता है अर्थात् चेष्टारहित हो जाता है ॥ ५३ ॥

युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि ।

तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः ॥ ५४ ॥

एक साथ जब सब प्राणी उस परमात्मामें लय होजाते हैं तब यह सब भूतोंका आत्मा निर्वृत होकर सुखसे सोता है ॥ ५४ ॥

तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः ।

न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्कामति मूर्तितः ॥ ५५ ॥

जब यह जीव अज्ञानका आश्रय लेकर इन्द्रियोंसे युक्त बहुत कालतक रहता है और (श्वास लेनाआदि) अपना कर्म नहीं करता तब देहसे निकल जाता है ॥ ५५ ॥

यदाणुमात्रिको भूत्वा वीजं स्थालु चरिण्यु च ।

समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति ॥ ५६ ॥

जब यह जीव अणुमात्रिक (अर्थात् भूत, इन्द्रिय, मन आदिसे युक्त) होकर स्थिररूप (वृक्षआदि) और चररूप (मनुष्यादि)के बीजमें प्रवेश करता है तब यह उत्पन्न होकर, स्थूल शरीर धारण करता है ॥ ५६ ॥

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम् ।

संजीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७ ॥

वह अविनाशी (ब्रह्मा) इसप्रकार इस सब चराचरको जाग्रत् और स्वप्नावस्थासे सदा जिलाता और मारता है ॥ ५७ ॥

इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिचङ्गाहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥ ५८ ॥

उस ब्रह्मने उस शास्त्रको बनाकर आदिसे स्वयं मुझेही विधिपूर्वक पढ़ाया और मैंने मरीचि आदि मुनियोंको पढ़ाया ॥ ५८ ॥

एतद्गोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।

एतद्धि मत्तोऽधिजने सयमेवोऽखिलं मुनिः ॥ ५९ ॥

यह भृगु, उन संपूर्ण शास्त्रको तुमको मुनावेगे धर्मोंके इन मुनिने यह गद्य सुनते पढ़ा है ॥ ५९ ॥

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः ।

तानब्रवीद्वृषीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० ॥

जब उन मनुजीने इसभांति उनसे कहा तब वे महर्षि मनुजी, प्रसन्न चित्त होकर उन सब ऋषियोंसे बोले कि तुम सुनों ॥ ६० ॥

स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्विंशत्या मनवोऽपरे ।

सृष्टवन्तः प्रजाः स्वा स्वाः महात्मानो महौजसः ॥ ६१ ॥

इन स्वायंभु मनुके वंशके औरनी महात्मा तथा बड़े पराक्रमी छः मनुओंने अपनी २ प्रजाको उत्पन्न किया ॥ ६१ ॥

स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा ।

चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२ ॥

स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, और महा तेजस्वी विवस्वत (ये नाम उन मनुओंके हैं) ॥ ६२ ॥

स्वायंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः ।

स्वै स्वैऽन्तरे सर्वे मिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम् ॥ ६३ ॥

बड़े तेजस्वी इन स्वायंभुववादि सात मनुओंने अपने २ समयमें इस सब चराचरको उत्पन्न करके इसका पालन किया ॥ ६३ ॥

निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्सु ताः कला ।

त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावत् ॥ ६४ ॥

धठारह पलकोंकी एक काष्ठा और तीस काष्ठोंकी एक कला होती है । तीस कलाओंका एक मुहूर्त और तीस मुहूर्तोंका एक रात दिन होता है ॥ ६४ ॥

अहोरात्रे विभजते सूर्या मानुषदैविके ।

रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ ६५ ॥

सूर्यने देवता और मनुष्योंके दिन रातका विभाग किया है, और प्राणियोंके सोनेके लिये रात्रि और कर्मोंके करनेके लिये दिन है ॥ ६५ ॥

पित्र्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ।

कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ६६ ॥

मनुष्योंका एक मास पित्रोंका रातदिन होता है और उसके दोनों पक्षोंका विभाग यों है कि काम करनेके लिये जो कृष्णपक्ष वह दिन और सोनेके लिये जो शुक्ल पक्ष है वह रात्रि है ॥ ६६ ॥

दैवे राज्यहनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुनः ।

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम् ॥ ६७ ॥

मनुष्योंका एक वर्ष, देवताओंका रात्रिदिन होता है । उन दोनोंका विभाग यों है कि उत्तरायणतो देवताओंका दिन और दक्षिणायन रात है ॥ ६७ ॥

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः ।

एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् ।

तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ ६९ ॥

ब्रह्माके रातदिनको और प्रत्येक युगके प्रमाणको तुम संक्षेपसे क्रमपूर्वक सुनो ॥ ६८ ॥ चार हजार वर्षका सतयुग कहा गया है, उसकी चार सौ वर्षकी संध्या (युगकी आदि) और चारसौ वर्षका संध्याश (युगका अंत) होता है ॥ ६९ ॥

इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु ।

एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥

संध्या और संध्याशो सहित अन्य (त्रेता आदि) तीनों युगोंके प्रमाण एक सहस्र और एक शत क्रमपूर्वक घटानेसे होते हैं अर्थात् ३००० वर्षका त्रेतायुग ३०० वर्षकी उसकी संध्या और तीनसौवर्षका संध्याश । द्वापर २००० वर्षका उसकी संध्या दो सौ वर्षकी और दो सौ वर्षका संध्याश कलियुग एक हजार वर्षका, उसकी संध्या सौ वर्षकी और सौ वर्षका संध्याश होता है ॥ ७० ॥

यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम् ।

एतद्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥

पहिले जो (मनुष्योंके) चार युगका (चारह हजार वर्षका) परिमाण गिनाया है यही चारह हजार वर्षका देवताओंका एक युग कहाजाता है ॥७१॥

दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया ।

ब्राह्ममेकमहर्षेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥

देवताओंके एक हजार युगोंके परिमाणके बराबर ब्रह्माका एकदिन और उतनी ही रात जाननी चाहिये ॥ ७२ ॥

तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः ।

रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥

ब्रह्माके हजार युगोंका है परिमाण जिसका ऐसे पवित्र दिनको और उतनी ही रातको जो जानते हैं वेही रात्रि दिनके ज्ञाता हैं ॥ ७३ ॥

तस्य सौऽहर्निशस्यान्ते प्रसृप्तः प्रतिबुध्यते ।

प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ॥ ७४ ॥

वह ब्रह्मा सोरुह उस रातदिनके अंतमें जागता है और जागकर सत् असत् रूप मन (महत्तल) को उत्पन्न करता है ॥ ७४ ॥

मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया ।

आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५ ॥

(परमात्माकी) रचनेकी इच्छासे प्रेरित हुआ मन (महत्तल) सृष्टिमें रचता है उससे (प्रथम) आकाश उत्पन्न होता है जिसका गुण शब्द है ऐमा (ऋषि) कहते हैं ॥ ७५ ॥

आकाशात्तु विकुर्याणात्सर्वगन्धवहः शुचिः ।

घलचाखायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः ॥ ७६ ॥

विकार उत्पन्न करनेवाले आकाशसे सब गंधोंकी लेजानेवाली पवित्र बल-
वान् पवन उत्पन्न होती है जिसका गुण स्पर्श कहा गया है ॥ ७६ ॥

वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोऽनुदम् ।

ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ७७ ॥

विकार उत्पन्न करनेवाली पवनसे प्रकाशमान, अंधकारका नाशक प्रकाश
रूप तेज उत्पन्न होता है जिसका गुण रूप है ॥ ७७ ॥

ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः ।

अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥

विकार उत्पन्न करनेवाले तेजसे जल पैदा होता है जिसका गुण रस कहा
गया है । जलसे भूमि उत्पन्न होती है जिसका गुण गंध है । ऐसे आदि सृष्टि
है ॥ ७८ ॥

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् ।

तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥

पहिले जो बारह हजार वर्ष मनुष्योंके चारों युगोंका प्रमाण देवताओंका
युग एक कहा है उसका इकत्तर गुना एक युग इस ग्रंथमें मन्वन्तर कहागया
है (उस मन्वन्तरमें एक मनुको सृष्टि आदि रचनेका अधिकार होता है) ॥ ७९ ॥

मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च ।

श्रीद्धिचैतत्कुर्वते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥

मन्वन्तर सृष्टि और प्रलय अनगिनती हैं जिन्हें परमात्मा मानों खेलता
हुआ सहजमें वारंवार रचता है ॥ ८० ॥

चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे ।

नाधर्मणागमः कश्चिन्मनुष्यान्प्रति वर्तते ॥ ८१ ॥

सतयुगमें सब धर्म और सत्य, पूर्ण रूपसे था । अधर्मसे किसी प्रकारका
(धनवादि) आगमन मनुष्योंके पास नहीं होता था ॥ ८१ ॥

द्वारेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः ।

चौरिकानृतमायामिर्धर्मश्चापैति पादशः ॥ ८२ ॥

(त्रेता आदि) अन्य युगोंमें (अधर्मसे धन आदिके उपार्जनसे) धर्मका
(चार चरणोंमेंसे) एक २ चरण घटता जाता है और (धन तथा विद्यासे संभित
किये) धर्मकामी चोरी, झंठ और छलसे एक २ चरण घट जाता है ॥ ८२ ॥

अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः ।

कृते त्रेतादिषु होषामायुर्हसति पादशः ॥ ८३ ॥

सतयुगमें मनुष्य नीरोग, सब सिद्धियोंसे युक्त, और चारसौ वर्षकी आयु-
वाले होतेथे, परंतु त्रेता आदि युगोंमें इनकी आयु सौ २ वर्ष कम होती है
अर्थात् त्रेतामें तीन सौ, द्वापरमें दोसौ और कलियुगमें सौ वर्षकी आयु होने
लगती है ॥ ८३ ॥

(यह यह शंका होती है कि यदि त्रेतामें ३०० वर्षकी अवस्था होतीयी तो रामचन्द्रजीने दस हजार वर्ष राज्य कैसे किया इसका समाधान यह है कि अधिक पुण्यके उदयसे अधिक अवस्था नी होती थी और (शतायुषं पुन्यः) इस श्रुतिमें शत शब्द अनेकका बोधक है)

वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिपश्चैव कर्मणाम् ।

फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावाश्च शरीरिणाम् ॥ ८४ ॥

वेदमें कही हुई मनुष्योंकी आयु, कर्मोंका फल और मनुष्योंका लोकमें प्रभाव ये युगोंके अनुसार होते हैं ॥ ८४ ॥

अन्ये कृतयुगे धर्मास्तेतायां द्वापरेऽपरे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ ८५ ॥

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ध्यानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ ८६ ॥

युगोंके घटनेके अनुसार मनुष्योंके धर्म सतयुगमें अन्य, त्रेतामें अन्य, द्वापरमें अन्य और कलियुगमें शून्य होते हैं ॥ सतयुगमें तप प्रधान है, त्रेतामें ध्यान कहा है, और द्वापरमें यज्ञ कहा है परंतु कलियुगमें केवल दानही मुख्य कहा गया है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुह्यर्थं स महाद्युतिः ।

मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत् ॥ ८७ ॥

महातेजस्वी उस परमात्माने इस सब सृष्टिकी रक्षाके लिये मुख, बाहु, जंघा और चरणोंसे उत्पन्न वर्णोंके लिये अलग २ कर्म बनाए ॥ ८७ ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ ८८ ॥

पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना ये छ कर्म ब्राह्मणोंके रचे ॥ ८८ ॥

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥

प्रजाकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विषयोंमें न लगना ये क्षत्रीके कर्म संक्षेपसे बनाए ॥ ८९ ॥

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ९० ॥

पशुओंकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार, व्याज और खेती ये कर्म वैश्यके बनाए ॥ ९० ॥

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ ९१ ॥

प्रभुने शूद्रका एकही कर्म कहा है कि वह इन चारों वर्णोंकी निष्कपट होकर सेवा करे ॥ ९१ ॥

ऊर्ध्वं नामेमेंध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः ।

तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥ ९२ ॥

मनुष्य नामिसे ऊपर अत्यन्त पवित्र कहा गया है । उस भागमें भी ब्रह्माने इसका मुख अत्यंत पवित्र कहा है ॥ ९२ ॥

उत्तमाद्गोद्गवाङ्गयैश्च्यद्ब्राह्मणश्चैव धारणात् ।

सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ९३ ॥

तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत् ।

हव्यकव्यामिवाहाय सर्वस्यास्य च गुप्तये ॥ ९४ ॥

उत्तम अंग (अर्थात् मुख) से उत्पन्न होनेसे, (क्षत्रिय आदिसे) पहले उत्पन्न होनेसे, और वेदके धारण करनेसे ब्राह्मण इस सब जगतका धर्मसे स्वामी होता है ॥ ९३ ॥ ब्रह्माने तपकरके हव्य कव्य पहुंचानेके लिये और इस संपूर्ण जगतकी रक्षाके लिये अपने मुखसे सबसे पहिले ब्राह्मणको उत्पन्न किया ॥ ९४ ॥

यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।

कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ ९५ ॥

जिसके मुखसे देवता हव्य और पितर कव्य सदा खाते हैं उससे बड़ा कौनसा प्राणी हो सक्ता है ॥ ९५ ॥

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ९६ ॥

जीवोंमें प्राणधारी, प्राणधारियोंमें बुद्धिमान्, बुद्धिमानोंमें मनुष्य और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गये हैं ॥ ९६ ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥

ब्राह्मणोंमें पण्डित, पण्डितोंमें कृतबुद्धि (अर्थात् शास्त्रोक्त कर्ममें जिनकी बुद्धि है) कृतबुद्धियोंमें (शास्त्रोक्त कर्मके) कर्ता, और उन कर्ताओंमें ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥ ९७ ॥

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।

स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ९८ ॥

ब्राह्मणकी उत्पत्तिही धर्मका अविनाशी शरीर है । वह धर्मके लिये उत्पन्न हुआ है और आत्मज्ञानसे मोक्ष पाता है ॥ ९८ ॥

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधि जायते ।

ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ९९ ॥

उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पृथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह सब प्राणियोंके धर्म समूहकी रक्षाके लिये ससर्ग होता है ॥ ९९ ॥

सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चिज्जगतीगतम् ।

श्रेष्ठयेनामिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥ १०० ॥

जो कुछ पृथ्वीपर धन है वह सब ब्राह्मणका है । (ब्रह्माके मुखसे)
उत्पत्तिके कारण श्रेष्ठ होनेसे यह सब ब्राह्मणके ही योग्य है ॥ १०० ॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।

आनुशंस्याद्ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥

ब्राह्मण जो कुछ खाता, पहिनाता और देता है वह सब उसकाही है और
लोग ब्राह्मणकी कृपासेही भोजन आदि करते हैं ॥ १०१ ॥

तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः ।

स्वार्यंभुवो मनुर्धामानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १०२ ॥

बुद्धिमान् स्वार्यंभुव मनुने ब्राह्मणके और अन्यवर्णोंके कर्मोंको क्रमपूर्वक
जाननेके लिये इस शास्त्रको बनाया ॥ १०२ ॥

विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यद्भान्येन केनचित् ॥ १०३ ॥

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः ।

मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥ १०४ ॥

पण्डित ब्राह्मणको यह यत्नसे पढ़ना चाहिये तथा शिष्योंको पढ़ाना चाहिये
और कोई (क्षत्री आदि) इसे न पढ़े पढ़ावे ॥ १०३ ॥ नियमपूर्वक नित्य
इस शास्त्रका पढ़नेवाला ब्राह्मण मन, वाणी, और शरीरसे उत्पन्न हुए कर्मोंके
पापोंसे लिप्त नहीं होता है ॥ १०४ ॥

पढ़ाने और व्याख्यानको छोड़कर केवल पढ़ना क्षत्रिय और वैश्यकोभी
“निषेकादि श्मशानान्तैः” इत्यादि २ अ० १६ श्लो० से आगे विधान करेगे ॥

पुनाति पङ्क्तिं वैश्यांश्च सप्त सप्त परावरान् ।

पृथिवीमपि चैत्रेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोर्हति ॥ १०५ ॥

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् ।

इदं यदास्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् ॥ १०६ ॥

और वह पत्तिको और ऊपर नीचेके सात २ वंशवालोंको पवित्र करता है
और वह एकही इस सय पृथ्वीको लेनेकेभी योग्य है ॥ १०५ ॥ यह शास्त्र
श्रेष्ठ वाञ्छित वस्तुका देनेवाला, बुद्धिका बढ़ानेवाला, यश और आयुका दाता
और परम मोक्षदायक है ॥ १०६ ॥

अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् ।

चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्च द्वाश्वतः ॥ १०७ ॥

इसमें सपूर्ण रूपसे धर्म कहागया है और धर्मोंके गुण दोष कहे गये हैं
और चारों वर्णोंका मनातनका आचार वदा है ॥ १०७ ॥

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ।
 तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्निजः ॥ १०८ ॥
 आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुने ।
 आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ १०९ ॥
 एवमाचारतो हृष्टा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।
 सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहः परम् ॥ ११० ॥

वेद तथा स्मृति दोनोंमें कहा हुआ आचारही परम धर्म है इसलिये आत्म-
 ज्ञानी ब्राह्मण इसमें सदा युक्त रहै ॥ १०८ ॥ आचारसे रहित ब्राह्मण वेदके
 फलको नहीं पाता और आचारसे युक्त सपूर्ण फलको पाता है ॥ १०९ ॥
 इसभाति आचारसे धर्मकी गतिको देखकर मुनि जनोने सपूर्ण तपकी मुख्य
 जड़ आचारको माना है ॥ ११० ॥

जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारविधिमेव च ।
 व्रतचर्योपचारं च ज्ञानस्य च परं विधिम् ॥ १११ ॥
 दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम् ।
 महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम् ॥ ११२ ॥

जगतकी उत्पत्ति, संस्कारविधि, व्रतोंका उपचार, ज्ञानकी उत्तम विधि
 ॥ १११ ॥ विवाह, विवाहोंका लक्षण, महायज्ञोंका विधान, नित्य श्राद्धका
 प्रकार ॥ ११२ ॥

वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च ।
 भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥ ११३ ॥
 स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च ।
 राक्षश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥ ११४ ॥

वृत्तियोंका लक्षण, गृहस्थके नियम, भक्ष्य अभक्ष्य, शौच, द्रव्योंकी शुद्धि
 ॥ ११३ ॥ स्त्रियोंके धर्मके उपाय, वानप्रस्थके धर्म, मोक्ष, संन्यास, राजाके
 सब धर्म, कार्योंका विशेष निर्णय ॥ ११४ ॥

साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि ।
 विभागधर्मं धृतं च कण्टकानां च शोधनम् ॥ ११५ ॥

गवाहोंके पूछनेकी विधि, स्त्री पुरुषोंके धर्म, हिस्सा बाटना, जुआ और
 चौर आदिका दूर करना ॥ ११५ ॥

वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् ।
 आपद्धर्मं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधि तथा ॥ ११६ ॥

वैश्य और शूद्रोंके धर्म, वर्णसंस्कारोंकी उत्पत्ति, चारों वर्णोंके आपत्ति
 समयके धर्म, प्रायश्चित्तकी विधि ॥ ११६ ॥

संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्मसंभवम् ।
 निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७ ॥

संसारगमन, चैव त्रिविधं कर्मसंभवम् ।
 निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७ ॥

कर्मोंसे उत्पन्न तीन प्रकारकी संसारकी गति, आत्मज्ञान, (विहित और निषिद्ध) कर्मोंके गुण और दोषोंकी परीक्षा ॥ ११७ ॥

देशधर्माज्ञातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान् ।

पाषण्डगणधर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥ ११८ ॥

देश, जाति और कुल इनके परंपराके धर्म और पाखंडियोंके समूहके धर्म इस शास्त्रमें मनुने कहे हैं ॥ ११८ ॥

यथेदमुक्तवान्छास्त्रं पुरा पृथो मनुर्मया ।

तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥ ११९ ॥

पूर्वकालमें मेरे पूछनेसे जिस प्रकार मनुजीने इस शास्त्रको मुझसे कहा उसी प्रकार तुमभी इसे आज मुझसे सुनों ॥ ११९ ॥ इति—

पं. रामेश्वरभट्टकृत सरलाटीकासहित मनुस्मृतिका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ—शुभम् ॥

अथ द्वितीयोध्यायः ।

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिमिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १ ॥

द्वेष राग रहित धार्मिक पण्डितोंने जिसको सदा किया और हृदयसे मुख्य जाना उस धर्मको तुम सुनों ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥

फलकी इच्छा अच्छी नहीं होती परंतु इससे इच्छा मात्रका त्याग नहीं है क्योंकि वेदका स्वीकार और वैदिक कर्मोंका सबन्धभी इच्छासे ही है ॥ २ ॥

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।

व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पदाः स्मृताः ॥ ३ ॥

इच्छाकी जड़ संकल्प है, यज्ञ संकल्पोंसे उत्पन्न होते हैं । और व्रत, नियम और धर्म ये सब संकल्पसेही उत्पन्न कहे गये हैं ॥ ३ ॥

अकामस्य क्रिया काचिद्द्रव्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्भिः कुरुते किञ्चित्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥

इस समारमें बिना इच्छा किसी मनुष्यका कोई काम कभी नहीं दीरता । जो कुछ वह करता है सब इच्छासे करता है ॥ ४ ॥

तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् ।

यथा संकल्पितांश्चैह सर्वान्कामान्समश्नुते ॥ ५ ॥

उन (जागोक्त) कामोंमें अच्छे प्रकारसे लगा हुआ मनुष्य मोक्षको पाता है और द्रव्य संसारमें सब वांछित कामनाओंकी भोगता है ॥ ५ ॥

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥

संपूर्ण वेद, (मनुआदि) वेदके जाननेवालोंकी स्मृति और उनका (१३ प्रकारका) शील धार्मिकोका आचार और (जिस विषयको स्मृतिमें विकल्पसे लिखा है उसमें) अपने मनकी प्रसन्नता ये धर्मके मूल हैं ॥ ६ ॥

यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ ७ ॥

मनुजी सर्वज्ञ हैं इससे जो कुछ जिसका धर्म वेदमें कहा गया है वही उन्होंने कहा है ॥ ७ ॥

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मं निविशेत् वै ॥ ८ ॥

इस सबको ज्ञानरूपी नेत्रोंसे देखकर और वेदके प्रमाणसे कर्तव्य जानकर निश्चयकरके पण्डित अपने धर्ममें स्थित रहै ॥ ८ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्निह मानवः ।

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ९ ॥

मनुष्य, वेद और स्मृतिमें कहे हुये धर्मको करता हुआ इस ससारमें कीर्ति और मरकर निश्चय करके परमोत्तम सुख पाता है ॥ ९ ॥

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥ १० ॥

वेदको श्रुति और धर्म शास्त्रको स्मृति जानना चाहिये । ये दोनों सब विषयोंमें तर्कना रहित हैं क्योंकि इनसेही धर्मकी उत्पत्ति है ॥ १० ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राभयाद्भिजः ।

स साधुभिर्विद्विष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥

जो द्विज उन दोनों धर्मके मूलोंका तर्क शास्त्रके सहारेसे अपमान करता है वह नास्तिक और वेदनिन्दक है और साधु जनोंको उसे (समाजसे) निकाल देना चाहिये ॥ ११ ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

वेद, स्मृति, सदाचार और (जो विषय विकल्पसे कहा गया है उसमें) अपनी रचिके अनुसार करना—यह चार प्रकारका धर्मका साक्षात् लक्षण है १२

१ प्रक्षण्य होना, देवपितृभक्ति, सौम्यता, किस्तीकी दुःख न देना, कपटरहित होना, फोमलता, कठोर न होना, मित्रता, नीठी वाणी बोलना, कृतज्ञता, शरणागतकी रक्षा, करुणा और शांति—

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥

अर्थ और काममें जो आसक्त नहीं हैं उनको धर्म ज्ञान उपदेश किया जाता है और धर्मको जाननेकी इच्छा करनेवालोको वेदही उत्तम प्रमाण है ॥ १३ ॥

श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र वर्माजुभौ स्मृतौ ।

उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ १४ ॥

जहा दो श्रुतिका भाषणमें विरोध हो वहा मनुकरके दोनो ही धर्म कहे गये हैं क्योंकि बुद्धिमान् पिछले ऋषियोनेभी उन दोनोंको श्रेष्ठ कहा है ॥ १४ ॥

उदितेऽनुदिने चैव समयाध्युषिते तथा ।

सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥

सूर्योदयमें, सूर्य उदय नहो उस समयमें, और जब न तारे दीखते हों न सूर्य निकला हो तब सर्वथा यज्ञ होता है यह वेदकी श्रुति है (साराश यह है कि वेदमें तीन प्रकारका विरोध है, यहा तीनोंही मानने चाहियें और जिन समय सुभीता हो उसी समय यज्ञ करै) ॥ १५ ॥

निषेकादिः शानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।

तस्य शास्त्रेऽधिकारेऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ १६ ॥

जिस (वर्ण) की गर्भसंस्कारसे लेकर मरणतककी विधि वैदिक मंत्रोंसे कही है उसीका इस शास्त्रमें अधिकार जानना चाहिये, औरका नहीं ॥ १६ ॥

सरस्वतीद्विपद्भ्योर्देवनद्योर्दन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ १७ ॥

सरस्वती और द्विपद्गी देवनदियोंके मध्यका जो देवताओंका रचाहुआ देश है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं ॥ १७ ॥

तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः ।

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८ ॥

उस देशमें सब वर्णों और वर्णसंस्कारोंका जो आचार परंपरासे चला आया है वह सदाचार कहाता है ॥ १८ ॥

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ १९ ॥

कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल (पंजाब) और शूरसेन (मथुराका प्रांतभाग) यह ब्रह्मर्षियोंके निवास योग्य देश ब्रह्मावर्तके पास हैं ॥ १९ ॥

१ इस शास्त्रका पठनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनोंको ही पण्डु पढ़ानेका और ध्यालयान करनेका अधिकार तो ब्राह्मणको ही है । यह मान "विदुषा ब्राह्मणेन" इन १ अध्यायके १०१ वें श्लोकमें कर आये है ।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ २० ॥

इन देशोंमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणसे पृथ्वीपर सब मनुष्य अपना २ आचार सीखें ॥ २० ॥

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादपि ।

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥

आ समुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥ २२ ॥

हिमवान् और विन्ध्याचलके मध्य, कुरुक्षेत्रके पूर्व और प्रयागके पश्चिमका देश मध्य देश कहा गया है ॥ २१ ॥ पूर्व समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्रतक और विन्ध्याचल तथा हिमाचल पर्वतोंके बीचके देशको पण्डित आर्यावर्त कहते हैं ॥ २२ ॥

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २३ ॥

जहा कृष्णसार (अर्थात् कालामृग) स्वभावसे विचरता है वह देश यज्ञके योग्य जानना चाहिये, अन्य म्लेच्छ देश हैं ॥ २३ ॥

एतान्द्विजातयो देशान्संश्रयेन्प्रयत्नतः ।

शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्वृत्तिकर्षितः ॥ २४ ॥

द्विजाति इनही देशोंमें यत्पूर्वकसे और जीविकासे दुखी शूद्र तो जिस देशमें चाहे उसमें रहें ॥ २४ ॥

एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता ।

संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत ॥ २५ ॥

यह धर्मकी जड़ और सब जगन्की उत्पत्ति सक्षेपसे तुमसे कही अब वर्णोंके धर्मोंको सुनो ॥ २५ ॥

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यैः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ २६ ॥

द्विजातियोंके इस लोक और परलोकमें पवित्र करनेवाले गर्भाधान आदि शरीरसंस्कार, वेदोंके पवित्र मंत्रोंकी विधिसे करने चाहियें ॥ २६ ॥

गार्भैर्होमैर्जातकर्मचौडमौज्जीनिबन्धनैः ।

वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ २७ ॥

गर्भ शूद्र करनेवाले हवनोंसे और जातकर्म, मुडन और यज्ञोपवीत इन संस्कारोंसे द्विजातियोंके गर्भ और बीजका दोष मिट जाता है ॥ २७ ॥

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैश्चैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८ ॥

वेदके पढनेसे, व्रतोंसे, हवनोंसे, त्रैविध्य नाम व्रतसे, देव-ऋषि-पितृ-तर्पणसे, पुत्रोंसे, महायज्ञ और यज्ञोंसे यह शरीर मोक्ष पानेके योग्य हो जाता है ॥ २८ ॥

प्राङ्गामिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते ।

मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥ २९ ॥

पुरुषका जातकर्म नाल काटनेमें पहिले करना कहा है और इस (बालक) को मंत्रोंसे सुवर्ण, शहद, और धीका प्राशन कराया जाता है ॥ २९ ॥

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां चास्य कारयेत् ।

पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ३० ॥

मनुष्यका नामकरण दशमे या बारहवें दिन, अथवा पुण्य तिथि वा सुहूर्तमे वा गुणयुक्त नक्षत्रमें करावै ॥ ३० ॥

मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम् ।

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥ ३१ ॥

ब्राह्मणका नाम मंगल युक्त, क्षत्रियका बल युक्त, वैश्यका धन युक्त और शूद्रका निंदा युक्त होना चाहिये ॥ ३१ ॥

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्ब्राह्मो रक्षासमन्वितम् ।

वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥ ३२ ॥

ब्राह्मणका शर्मा युक्त, राजाका रक्षा (बर्मा) युक्त, वैश्यका पुष्टि (गुप्त) युक्त और शूद्रका दास युक्त नाम रखना चाहिये ॥ ३२ ॥

स्त्रीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् ।

मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादामिधानवत् ॥ ३३ ॥

स्त्रियोंका नाम सुखसे कहने योग्य, कोमल, जिसका अर्थ स्पष्ट हो, सुन्दर, मांगलिक, जिसके अंतमें दीर्घ वर्ण हो, और जो आशीर्वादका वाचक हो ऐसा होना चाहिये ॥ ३३ ॥

चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् ।

पष्टेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मङ्गलं कुले ॥ ३४ ॥

चौथे मासमें लड़केको घरसे बाहर निकालना चाहिये । छठे मासमें अन्न-प्राशन वा जो मंगल कार्य करना हो उसे अपने कुलकी रीतिके अनुसार करना चाहिये ॥ ३४ ॥

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः ।

प्रथमेऽव्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥ ३५ ॥

सब द्विजातियोंका मुंडन, पहिले वा तीसरे वर्षमें धर्म और वेदकी आज्ञानुसार करना चाहिये ॥ ३५ ॥

गर्भाष्टमेऽव्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भाद्वेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणका जनेऊ गर्भसे आठवें वर्षमें, क्षत्रियका गर्भसे ग्यारहवेंमें और वैश्यका गर्भसे बारहवें वर्षमें करै ॥ ३६ ॥

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राक्षो घलार्थिनः पट्टे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७ ॥

ब्रह्म तेजकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण पाचवें वर्षमें, बलके चाहनेवाले क्षत्रीका छठेमें और धन चाहनेवाले वैश्यका आठवें वर्षमें यज्ञोपवीत करना चाहिये ॥ ३७ ॥

आषोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।

आद्वाविंशत्क्षत्रवन्धोराचतुर्विंशतेर्विंशः ॥ ३८ ॥

सोलह वर्षतक ब्राह्मणकी, बाईस वर्षतक क्षत्रीकी और चौबीस वर्षतक वैश्यकी सावित्रीका अतिक्रमण नहीं होता अर्थात् इस अवस्थातक उनका जनेऊ हो सका है ॥ ३८ ॥

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।

सावित्रीपतिता ब्राह्म्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥ ३९ ॥

यदि उचित समयपर इनका संस्कार न हो तो उस कालके अनंतर ये तीनों सावित्रीसे पतित, शिष्ट जनोंसे निन्दित और ब्राह्मसन्न हो जाते हैं ॥ ३९ ॥

नैतैरपृतैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित् ।

ब्राह्मण्यौनांश्च संवन्धानाचरेद्ब्राह्मणः सह ॥ ४० ॥

ब्राह्मण, इन अपवित्र ब्राह्मणोंके साथ आपत्तिमेंभी नियमानुसार पठन पाठन और विवाह आदि न करै ॥ ४० ॥

कार्णारौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः ।

वसीरभ्रानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥ ४१ ॥

(ब्राह्मण आदि) ब्रह्मचारीको चाहिये कि काला मृग, रुव मृग और बकरा इनके चर्म (दुपट्टेकी जगह) और सन, रेशम और ऊन इनके वस्त्र क्रमसे धारण करै ॥ ४१ ॥

मौक्षी-त्रिवृत्समा श्रुक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला ।

क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य क्षणतान्तवी ॥ ४२ ॥

ब्राह्मणको मेखला मूंजकी, तीन लडकी और चिकनी हो, क्षत्रीकी मूर्वानाम रुखवीकी जिसकी धनुषकी प्रत्यक्षा बनती है उसकी और वैश्यकी सनके सूतकी बनानी चाहिये ॥ ४२ ॥

मुञ्जालामे तु कर्तव्याः कुशाश्मन्तकवल्बजैः ।

त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिमिः पञ्चमिरेव वा ॥ ४३ ॥

मूंज न मिले तो क्रमसे कुशा, अश्मात और वल्बज (तुण) की मेखला बनानी चाहिये और उसे तीन लडकी, एक गांठ, तीन गांठ वा पांच गांठकी बनावे ॥ ४३ ॥

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योर्ध्ववृत्तं त्रिवृत् ।

शणसूत्रमयं राहो वैश्यस्याविकसंत्रिकम् ॥ ४४ ॥

ब्राह्मणका जनेऊ कपासके सूतका, ऊपरको बटा हुआ और तीन लड्का, क्षत्रीका सनके सूतका और वैश्यका भेबकी ऊनके सूतका होना चाहिये ॥ ४४ ॥

ब्राह्मणो वैल्वपालाशौ क्षत्रियो घाटखादिरौ ।

पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ।

ललाटसंमितो राहः स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥ ४६ ॥

ब्राह्मणको बेल वा ढाकका, क्षत्रीको वड वा खैरका, वैश्यको पीलू वा गूलरका दंड धर्मानुसार धारण करना चाहिये ॥ ४५ ॥ ब्राह्मणका केशतक, क्षत्रीका मस्तकतक और वैश्यका नासिकातक प्रमाणसे दंडबनाना चाहिये ॥ ४६ ॥

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः ।

अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥ ४७ ॥

सब दंड सीधे, बिना गाठके, देखनेमें सुंदर, मनुष्योंको बुरे न लगे, अभिमें जले हुए नहीं ऐसे छालयुक्त होने चाहिये ॥ ४७ ॥

प्रतिशृङ्गेप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् ।

प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद्भैक्षं यथाविधि ॥ ४८ ॥

ब्राह्मण आदि इच्छित दंडको लेकर, सूर्यके सामने खड़ा होकर और अभिकी परिक्रमा करके विधिपूर्वक भिक्षा मागे ॥ ४८ ॥

भवत्पूर्वं चरेद्भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः ।

भवन्मर्ध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥

यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मण “भवत्” शब्दको पहिले कहकर, क्षत्री “भवत्” शब्दको मध्यमे और वैश्य “भवत्” शब्दको अतमें कहकर भिक्षा मागे अर्थात् ब्राह्मण कहै “भवति भिक्षा देहि” क्षत्री कहै “भिक्षां भवति देहि” और वैश्य कहै “भिक्षा देहि भवति ॥ ४९ ॥

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम् ।

मिक्षेत भिक्षां प्रथमं या जैनं नाचमानयेत् ॥ ५० ॥

ब्रह्मचारी पहिले मातासे वा बहिनसे वा सगी मौसीसे अथवा जो हो मने कर उसका अपमान न करै उससे ही भिक्षा मागे ॥ ५० ॥

समाहृत्य तु तद्भैक्षं याचदन्नममायया ।

निवेद्य गुरवेऽश्रीयादाचम्य प्राञ्जुखः शुचिः ॥ ५१ ॥

उस भिक्षाको जितनी चाहिये उतनी लाकर, निष्कपट हो गुरुके समर्पण करै और फिर आचमन करके पवित्र हो पूर्वको मुखकर भोजन करै ॥ ५१ ॥

आयुष्यं प्राञ्जुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः ।

धियं प्रत्यञ्जुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युदञ्जुखः ॥ ५२ ॥

पूर्वकी ओर मुख करके खाय तो आयु भोगे, दक्षिणकी ओर मुख करके खाय तो यश भोगे, पश्चिमकी ओर मुख करके खाय तो लक्ष्मी पावै और उत्तरकी ओर मुखकर खाय तो सत्यका फल (मोक्ष) मिले ॥ ५२ ॥

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः ।

भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यग्द्विः खानि च संस्पृशेत् ॥ ५३ ॥

द्विज, नित्य आचमन करके सावधान हो अन्नका भोजन करै और भोजनके अनंतर अच्छी भाति आचमन करै और छ छिद्रोंका (अर्धात् नाक, कान, नेत्र का) जलसे स्पर्श करै ॥ ५३ ॥

पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वेशः ॥ ५४ ॥

भोजनका नित्य आदर करै और इसकी निन्दा न करता हुआ भोजन करै, उसे देख हर्ष करै और प्रसन्न हो सर्वदा मिलनेके लिये प्रार्थना करै ॥ ५४ ॥

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

अपूजितं तु तद्भुक्तमुभयं नाशयेदिदम् ॥ ५५ ॥

नित्य आदरपूर्वक भोजन करनेसे वह बल और वीर्यको देता है और अनादरसे वह खायगयामी दोनोंका नाश करता है ॥ ५५ ॥

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा ।

नचैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिद्भजेत् ॥ ५६ ॥

किसीको उच्छिष्ट न दे और न खाय, दिन तथा सप्याके भोजनके बीचमें न खाय (इससे तीनवार भोजनका निषेध हे) अति भोजन न करै और खाकर जूटे मुंह कहीं न जाय ॥ ५६ ॥

अनारोग्यमनायुष्यमस्त्रर्ग्यं चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ५७ ॥

अधिक भोजन करना, आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्यका नाशक और लोकनिन्दित है इस लिये उसे त्याग दे ॥ ५७ ॥

ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् ।

कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५८ ॥

ब्राह्मणको ब्राह्म, प्रजापति वा दैव तीर्थसे नित्य आचमन करना चाहिये, पित्र्य तीर्थसे कभी न करै ॥ ५८ ॥

आङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते ।

कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥

अङ्गुठीके जङ्घके नीचे ब्राह्मतीर्थ, कनिष्ठा अङ्गुलीके मूलमें प्रजापति तीर्थ, अङ्गुलियोंके अग्रभागमें दैव तीर्थ और अङ्गुठे और प्रदेशिनीके बीचमें पित्र्य तीर्थ कहा है ॥ ५९ ॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

खानि चैव स्पृशेदङ्गिरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥

पहिले, जलका तीनबार आचमन करै, फिर मुखको दो बार घोवै और (नाक, कान, नेत्र इन) छिद्रोंको, हृदयको और शिरको जलसे स्पर्श करै ॥ ६० ॥

अनुष्णामिरफेनामिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् ।

शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६१ ॥

पवित्रताको चाहनेवाला धर्मात्मा मनुष्य एकान्तमें पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके जो गरम न हो और झागरहित हो ऐसे जलसे (ब्रह्म आदि) तीर्थसे सदा आचमन करै ॥ ६१ ॥

हृद्रामिः पूयते विप्रः कण्ठगामिस्तु भूमिपः ।

वैश्योंऽङ्गिः प्राशितामिस्तु शूद्रः स्पृष्टामिरन्ततः ॥ ६२ ॥

ब्राह्मण हृदयमें गए हुए, क्षत्री कंठमें गये हुए, वैश्य मुखमें गए हुए और शूद्र होठोंसे स्पर्श हुए जलसे पवित्र होता है ॥ ६२ ॥

उद्धृते दक्षिणे पाणानुपवीत्युच्यते द्विजः ।

सव्ये प्राचीनधावीती निवीती कण्ठसज्जने ॥ ६३ ॥

जब यज्ञोपवीत वा वस्त्र दाहिने हाथको बाहर निकालकर बायें कन्धेपर रक्खा जाय तब द्विज उपवीती (सव्य) कहाता है । जब बायें हाथको बाहर निकालकर दाहिने कंधेपर रक्खा जाय तब प्राचीनधावीती (अपसव्य) कहाता है और जब कंठमें पहिना जाय तब निवीती कहाता है ॥ ६३ ॥

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम् ।

अप्सु प्रादय विनष्टानि गृहीतान्यानि मन्त्रवत् ॥ ६४ ॥

जो मेखला, मृगचर्म, दंड, जनेऊ और कमंडल कामके न रहैं तो उन्हें पानीमें पधराकर मंत्रसहित दूसरे धारण करै ॥ ६४ ॥

केशान्तः पौडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यवन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वाधिके ततः ॥ ६५ ॥

केशान्त कर्म (शर्धात् ढोड़ी बनवाना) ब्राह्मणको सोलहवें, क्षत्रीको बाईसवें और वैश्यको चौबीसवें वर्षमें कहा है ॥ ६५ ॥

अमन्त्रिका तु कार्ययं स्त्रीणामावृदशेषतः ।

संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥ ६६ ॥

स्त्रियोंको ये सब कर्म शरीरके संस्कारके लिये उचित समयपर संपूर्णरितिते तमपूर्वक मंत्रसहित करने चाहियें ॥ ६६ ॥

धैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ ६७ ॥

स्त्रियोंके विवाहकी विधि वैदिकः स्मृतः (यज्ञोपवीत) कहा गया है । पत्नीकी सेवाही गुरुजन्ममें काम और परका कामही अग्निकी सेवा है ॥ ६७ ॥

एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः ।

उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥ ६८ ॥

द्विजातियोंके दूसरे जन्मकी जतानेवाली यह यज्ञोपवीतकी पवित्र विधि, मैंने कही, अब उसके बादके कृत्योंको सुनो ॥ ६८ ॥

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः ।

आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च ॥ ६९ ॥

गुरुको चाहिये कि शिष्यका जनेऊ करके आदिसे शौच, आचार अग्निसेवा (हवन) तथा संध्योपासन सिखलावै ॥ ६९ ॥

अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदञ्चुखः ।

ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुचासा जितेन्द्रियः ॥ ७० ॥

सीखनेवाला जब शास्त्रकी रीतिसे आचमन कर, उत्तरामिमुख हो, ब्रह्माञ्जलि चाधकर कोपीन धारण कर जितेन्द्री हो तब पढ़ानेके योग्य होता है ॥ ७० ॥

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ब्राह्मौ गुरोः सदा ।

संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥ ७१ ॥

वेद पढ़नेके आरंभ और अंतमें सदा गुरुके चरण छुए और हाथ जोड़कर पढ़नाही ब्रह्माञ्जलि कहाती है ॥ ७१ ॥

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः ।

सव्येन सव्यः स्पष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२ ॥

हाथोंको एर फेर करके गुरुके चरण छूने चाहिये—बायें हाथसे बाया और दाहिने हाथसे दाहिना चरण छूना चाहिये ॥ ७२ ॥

अध्येष्यमाणं तु गुरुर्वित्यकालमतन्द्रितः ।

अधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोऽस्त्वि चारमेत् ॥ ७३ ॥

गुरु, निराप्रति आलसहीन होकर पढ़नेवालेसे “भो (शिष्य) पढ़” यह कहै और “विराम हो” ऐसे कहकर पढ़ना बंद कर दे ॥ ७३ ॥

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा ।

स्रवत्यनोकृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ७४ ॥

वेद पाठके आदि और अंतमें सदा ओंकारका उच्चारण करै क्योंकि पूर्वमें ओंकार न कहनेसे धीरे २ और पीछे न कहनेसे उर्ची समय पाठ विसरण हो जाता है ॥ ७४ ॥

प्राकूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः ।

प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्तत ओंकारमर्हति ॥ ७५ ॥

द्विज, पूर्वकी ओर जिनका अग्रभाग हो ऐसे कुशाओंके आसनपर बैठे हुआ (कुशाओंके धने हुए) पवित्रोंसे पवित्र और तीन प्राणायामोंसे पवित्र हो तब ओंकारके उच्चारणके योग्य होता है ॥ ७५ ॥

अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः ।

वेदत्रयाग्निरदुहृद्भुवःस्वरितीति च ॥ ७६ ॥

ब्रह्माने तीनों वेदोंसे अकार उकार और मकार और भूर्भुवःस्वः (इन तीन व्याहृतियों) को क्रमसे निकाला है ॥ ७६ ॥

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदुहृत् ।

तदित्युचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ७७ ॥

परमेष्ठी ब्रह्माने तीनों वेदोंसेही “ तत् ” इस सावित्रीकी ऋचाका एक पाद निकाला है ॥ ७७ ॥

एतदक्षरमेतां च जपन्त्याहृतिपूर्विकाम् ।

संध्योर्वेदविद्धिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥

इस (ओं) अक्षर और इस व्याहृतिपूर्वक (सावित्री) को दोनों सन्ध्या-ओंमें जपता हुआ वेदपाठी ब्राह्मण वेदपाठके पुण्यके फलका भागी होता है ॥ ७८ ॥

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतन्निकं द्विजः ।

महतोऽप्येनसो मासास्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ ७९ ॥

ब्राह्मण इन तीनोंको धाहर (एकान्त स्थानमें) सहस्रवार जपकर एक मासमें बड़े भारी पापसे भी ऐसे छूट जाता है जैसे साप काचलीसे ॥ ७९ ॥

एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ।

ब्रह्मक्षत्रियविद्योनिर्गर्हणां याति साधुषु ॥ ८० ॥

इस ऋचासे और समयपर अपने कर्मोंसे हीन ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य ये सज्जनोमें निन्दित होते हैं ॥ ८० ॥

ओंकारपूर्विकास्तिष्ठो महाव्याहृतकोऽव्ययाः ।

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ ८१ ॥

जिनके पहिले ओंकार है ऐसी अविनाशिनी (भूः भुवः स्वः इन) तीन महाव्याहृति और तीन पदवाली सावित्रीको ब्रह्मका मुख जानना चाहिये ॥ ८१ ॥

योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि चर्षाप्यतन्द्रितः ।

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान् ॥ ८२ ॥

जो आठस्य छोड़कर इसे नित्य प्रति तीन वर्षतक पढ़ता है वह पवनरूप और आकाशरूप होकर परब्रह्मके पास जाता है ॥ ८२ ॥

एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ।

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३ ॥

एकाक्षर (ओं) परब्रह्म है, प्राणायामही परम तप है, सावित्रीसे बद्धकर श्रुत नहीं है और मौनसे सत्य बंध कर है ॥ ८३ ॥

क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः ।

अक्षरं दुष्करं श्रेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः ॥ ८४ ॥

संपूर्ण वेदकी, हवन, यज्ञ (आदि) किया नाशमान है ? अविनाशी तो केवल " ओं " अक्षर और प्रजापति ब्रह्मको जानना चाहिये ॥ ८४ ॥

विधियज्ञाज्जपयज्ञौ विशिष्टो दशमिर्गुणैः ।

उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ८५ ॥

विधियज्ञ (अमावास्या पूर्णिमादि) से जपयज्ञ दशगुना बढ़कर है और उपांशु (अर्थात् मौन) जप, जपयज्ञसे सौगुना और मानसजप हजार गुना बढ़कर कहा गया है ॥ ८५ ॥

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः ।

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ ८६ ॥

जो विधियज्ञ सहित चार पाकयज्ञ (वैश्वदेव, होम, बलिकर्म नित्यश्राद्ध और अतिथिभोजन) हैं वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके योग्यभी नहीं हैं ॥ ८६ ॥

जप्येनैव तु संसिद्ध्येद्ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७ ॥

ब्राह्मण जपसे सब सिद्धि पाता है इसमें संदेह नहीं है और वह कुछ करे वा न करे, वह ब्रह्ममें लीन और सबका मित्र कहाता है ॥ ८७ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां विपयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम् ॥ ८८ ॥

पण्डितको चाहिये कि मनके हरनेवाले विपयोंमें विचरनेवाली इन्द्रियोंके टोकनेमें ऐसा यत्न करे कि जैसा घोड़ेके रोकनेमें सारथी करता है ॥ ८८ ॥

एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वं मनीषिणः ।

तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ८९ ॥

पहिले पण्डितोंने जो ग्यारह इन्द्रिया कही हैं उनको ठीक २ क्रमसे मनीषी माति कहता हूँ ॥ ८९ ॥

श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।

पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥ ९० ॥

कान, ललाचा, दोनों नेत्र, जीभ, पाचवीं नाक, गुदां, लिंग, हाथ, पैर और दशमी वाणी ये दश इन्द्रियां कहीं हैं ॥ ९० ॥

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः ।

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाश्चादीनि प्रवक्षते ॥ ९१ ॥

इनमें पहिली कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं और पिछली गुदा आदि पांच कर्मेन्द्री हैं ऐसा कहा है ॥ ९१ ॥

एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ।

यस्मिञ्चिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥ ९२ ॥

मनको ग्यारहवा इन्द्रिय जानना चाहिये यह अपने गुणसे कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनोंकाही आत्मा स्वरूप है । इसके जीतनेसे उपरोक्त दशो इन्द्रियां जय हो जाती हैं ॥ ९२ ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ९३ ॥

मनुष्य इन्द्रियोंके प्रसंगसे नि.सन्देह दोषको प्राप्त होता है और उनहीको रोककर सिद्धि पाता है ॥ ९३ ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवामिवर्धते ॥ ९४ ॥

इच्छा, विषयोंके उपभोगसे कभी शांत नहीं होती घृतसे अग्निके समान धार २ अधिक ही बढ़ती जाती है ॥ ९४ ॥

यश्चैतान्प्राभुयात्सर्वान्यश्चैतान्केवलांस्त्यजेत् ।

प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥

जो इन सब विषयोंको प्राप्त करै और जो इन सबको त्याग दे, इन दोनों-मेंसे सब विषयोंके पानेसे उनका त्याग अधिक अच्छा है ॥ ९५ ॥

न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमस्वेवया ।

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ९६ ॥

जैसे ये विषयोंमें लगी हुई इन्द्रियां ज्ञानसे निरत प्रतिरोधी जासकी हैं वैसे विषयोंकी सेवा न करनेसे नहीं ॥ ९६ ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ९७ ॥

दुष्ट स्वभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप, ये कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ९७ ॥

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा स विश्लेषो जितेन्द्रियः ॥ ९८ ॥

जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूँघकर न तो प्रसन्न होता... ह और न उदास होता है उसे जितेन्द्रिय जानना चाहिये ॥ ९८ ॥

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पादादिवोदकम् ॥ ९९ ॥

सब इन्द्रियोंमेंसे जो एक इन्द्रियभी अपने विषयमें लग जाय तो उससे मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती रहती है जैसे चर्मपात्र (मशक) मेंसे जल निकल जाता है ॥ ९९ ॥

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥ १०० ॥

इन्द्रियसमूहको वशमें करके तथा मनको रोककर और उपायोंसे शरीरको पीड़ा न देकर मनुष्यको सब अर्थोंका साधन करना चाहिये ॥ १०० ॥

पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात् ।

पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥ १०१ ॥

प्रातःकालकी संध्याके समय सूर्यके उदयतक गायत्रीको जपता रहै और सायंकालकी संध्यामें अच्छे प्रकारसे तारे निकलनेतक बैठा रहै ॥ १०१ ॥

पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठन्नैशमेनो द्यपोहति ।

पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥ १०२ ॥

प्रातःसंध्याके समय बैठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रिका पाप दूर करता है और सायंकालके समय बैठकर दिनका किया हुआ पाप नाश करता है ॥ १०२ ॥

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् ।

स शूद्रवद्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्भिज्जकर्मणः ॥ १०३ ॥

जो मनुष्य न तो प्रातःसंध्या करता है और न सायंसन्ध्या करता है वह शूद्रके समान संपूर्ण द्विज कर्मोंसे बाहर निकालनेके योग्य है ॥ १०३ ॥

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः ।

सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ १०४ ॥

वनमें जाकर जलके पास, इन्द्रियोंको रोककर, एकाम्र वित्तसे नित्यकी विधि कर चुकनेपर गायत्रीका जप करै ॥ १०४ ॥

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।

नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १०५ ॥

वेदके अंग, नित्यके स्वाध्याय, और होमके मंत्रोंमें अनध्यायकी रूकावट नहीं है अर्थात् इन्हें अनध्यायमेंभी करै ॥ १०५ ॥

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवपद्रकृतम् ॥ १०६ ॥

नित्यकर्ममें अनध्याय नहीं है क्योंकि उसे मनुजीने ब्रह्मयज्ञ कहा है । वेदकी आहुतिका हवन और अनध्यायमें किया हुआ वपद्रकारमी पुण्यरूप है ॥ १०६ ॥

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः ।

तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ॥ १०७ ॥

जो जितेन्द्री और शुद्ध होकर एक वर्षतक वेदको विधिपूर्वक पढ़ता है उसको यह दूध, दही, घृत और शहद नित्य देता है ॥ १०७ ॥

अज्ञीन्धनं भैक्षचर्यामधःशय्यां शुरोर्हितम् ।

आ समावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥ १०८ ॥

जिसका जनेज हो गया है ऐसा द्विज वेद पढ़नेकी समाप्तिक अभिसे ईधन लगाना, शिक्षा मागना, भूमिमें शयन करना और गुरुका हित ये करै ॥ १०८ ॥

आचार्यपुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः ।

आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः ॥१०९॥

आचार्यका पुत्र, सेवक, ज्ञानका दाता, धार्मिक, शुद्ध, वांछव, समर्थ धन देनेवाला, साधु और अपनी जातिका ये दश धर्मसे पढ़ाने योग्य हैं ॥ १०९ ॥

नापृष्टः कस्यचिद्भूयाञ्च चान्यायेन पृच्छतः ।

जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥ ११० ॥

गुरु विना पूछे और अन्यायसे पूछनेवाले किसीसे न बोले अर्थात् न पढ़ावै वह बुद्धिमान् जानता हुआभी लोकमें गूने के समान रहै ॥ ११० ॥

अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति ।

तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं नाधिगच्छति ॥ १११ ॥

जो अधर्मसे कहता और अधर्मसे पूछता है उन दोनोंमेंसे एक मर जाता है या आपसमें शत्रुताको प्राप्त होता है ॥ १११ ॥

धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा चापि तद्विधा ।

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं धीजमिवोषरे ॥ ११२ ॥

जिस शिष्यमें धर्म और अर्थ नहीं हों और शाल्लोक सेवामी न हो उसे विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये । उसे विद्यादान देना ऊसर भूमिमें अच्छे धीज धोनेके समान है अर्थात् निष्फल है ॥ ११२ ॥

विद्ययैव संमं कामं कर्तव्यं ब्रह्मवादिना ।

आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनाभिरिणे वषेत् ॥ ११३ ॥

वेदपाठीका विद्याके सायही अर्थात् किसीको विना पढायेही मरना मला है परंतु घोर आपत्तिमेंभी इसे ऊसरमें न बोवै अर्थात् कुपात्रको न पढावै ॥ ११३ ॥

विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेषधिष्टेऽस्मि रक्ष माम् ।

असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४ ॥

विद्याने किसी ब्राह्मणसे आकर कहा कि " मैं " तेरा खजाना हूं, मेरी रक्षा कर, मुझे निन्दा करनेवालेको मत दे, इससेही मैं वीर्यवती होऊंगी ११४

यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम् ।

तस्मै मां शूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५ ॥

जिसे जितेन्द्री, ब्रह्मचारी और पवित्र जाने उसी (विद्यारूपी) खानित्री रक्षा करनेवाले सावधान ब्राह्मणको मुझे सुना अर्थात् मुझे दे ॥ ११५ ॥

ब्रह्म यस्त्वननुहातमधीयानादवाप्नुयात् ।

स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥

ब्रह्म यस्त्वननुहातमधीयानादवाप्नुयात् ।
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥

जो मनुष्य, अभ्यासके लिये पढ़ते या किसीको पढ़ाते हुए गुरुकी विना आज्ञाके वेदको प्राप्त करता है वह वेदकी चोरीसे युक्त नरकको जाता है ॥११६॥

लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च ।

आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत् ॥ ११७ ॥

जिससे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे उसे (समानें) पहिले नमस्कार करे ॥ ११७ ॥

सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः ।

नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ ११८ ॥

केवल गायत्रीका जाननेवालाही जितेन्द्री ब्राह्मण श्रेष्ठ है पर तीनों वेदका ज्ञाताभी जो सर्वमक्षी, सब वस्तु बेचनेवाला और अजितेन्द्री हो वह श्रेष्ठ नहीं है ॥ ११८ ॥

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् ।

शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायामिवादयेत् ॥ ११९ ॥

गुरु जन करके अंगीकार किये गए अर्थात् विद्या गुरुके, खाट और आसन पर न बैठे और जो आप खाट वा आसन पर बैठा हो तो उठ कर (मातापिता आदि) गुरुको प्रणाम करे ॥ ११९ ॥

ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति ।

प्रत्युत्थानामिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ १२० ॥

बृद्धके आनेपर छोटे मनुष्यके प्राण ऊपरको चढ़ते हैं और उठकर प्रणाम करनेसे वह फिर उनको प्राप्त करता है अर्थात् ठीक करता है ॥ १२० ॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारिं तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ १२१ ॥

जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य बृद्धोंकी सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चार बढ़ते हैं ॥ १२१ ॥

अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन् ।

असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् ॥ १२२ ॥

ब्राह्मण नमस्कारके पीछे बृद्धको प्रणाम करता हुआ "अमुक नाम मैं हूँ" इस भांति अपना नाम बतावे ॥ १२२ ॥

नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते ।

तान्प्राज्ञोऽहमिति ब्रूयात्स्त्रियः सर्वास्तथैव च ॥ १२३ ॥

जो कोई नामके उच्चारणपूर्वक नमस्कारको नहीं जानते उनसे पण्डित "मैं नमस्कार करता हूँ" यह कहै और उसी प्रकार सब स्त्रियोंसे कहै ॥ १२३ ॥

भोःशब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादाने ।

नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥ १२४ ॥

नमस्कारमे अपने नामके अन्तमें "भो" शब्द कहै । "भो" का अर्थ नामोंका स्वस्म है यह ऋषियोने कहा है ॥ १२४ ॥

आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादाने ।

अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः सुतः ॥ १२५ ॥

अभिवादन करनेपर “ हे सौम्य ! आयुष्मान् हो ” यह ब्राह्मणसे कहना चाहिये । नमस्कार करनेवालेके नामके अतमें पूर्वके अक्षर अकारको सुत अर्थात् हस्वसे तिगुने जोर से कहना चाहिये ॥ १२५ ॥

यो न वैश्यमिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् ।

नामिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥ १२६ ॥

जो ब्राह्मण नमस्कारके बदलेके नमस्कारको नहीं जानता है, पण्डितको चाहिये कि उसे नमस्कार न करै क्योंकि वह शूद्रके समान हैं ॥ १२६ ॥

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रवेन्दुमनामयम् ।

वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ ॥

मिलनेपर ब्राह्मणसे कुशल, क्षत्रीसे अनामय, वैश्यसे क्षेम और शूद्रसे आरोग्य पूछै ॥ १२७ ॥

अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत् ।

भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित् ॥ १२८ ॥

जो छोटामी दीक्षित हो तो उसे नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिये । धर्मज्ञ “ भो ” या “ भवत् ” शब्दपूर्वक उससे बोले ॥ १२८ ॥

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसंवन्धा च योनितः ।

तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२९ ॥

जो स्त्री पराई हो और योनिसे संवन्ध न रखती हो (अर्थात् वहिन आदि न हो) उससे “ भवति ” “ सुभगे ” “ भगिनी ” यों बोले ॥ १२९ ॥

मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरुन् ।

असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥

मामा, चाचा, श्वशुर, ऋत्विज और गुरु इनको छोटा मनुष्य उठकर “ यह मैं हूँ ” ऐसा कहै ॥ १३० ॥

मातृष्वसा मातुलानी श्वशूरथ पितृष्वसा ।

संपूज्या गुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया ॥ १३१ ॥

माँमी, मामी, सासू और बुवा ये गुरुपत्नीके समान आदरके योग्य हैं क्योंकि ये गुरुपत्नीके समान हैं ॥ १३१ ॥

भ्रानुर्भार्यापसंभ्राह्म्या सवर्णाहन्वहन्वपि ।

विप्रोप्य दूपसंभ्राह्म्या क्षातिसंवन्धियोपितः ॥ १३२ ॥

माईकी सवर्णा भार्याके चरणोंको गिरा प्रति वंदना करे । जातिकी तथा संवन्धियोंकी स्त्रियोंके चरणोंको प्रणयसे आकर वंदना करे ॥ १३२ ॥

पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायम्यां च स्वसर्वपि ।

मातृवहृत्तिमातिष्ठेन्माता ताम्यो गरीयसी ॥ १३३ ॥

बुआ, माँसी और अपनी बड़ी बहिनके साथभी माताके समान वर्ताव करे परंतु माता उनसे बहुत बड़ी है ॥ १३३ ॥

दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम् ।

ज्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥ १३४ ॥

पुरवालोंमें दशवर्षकी, कलाओंके जाननेवालोंमें पाच वर्षकी और वेद-पाठियोंमें तीन वर्षकी छुटाई बड़ाई का विचार नहीं है परंतु अपने कुलवालोंमें थोड़ीसी छुटाई बड़ाईकाभी विचार होता है ॥ १३४ ॥

ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।

पितापुत्रौ विजानीयाद्ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३५ ॥

दश वर्षके ब्राह्मण और सौवर्षके क्षत्रियको पितापुत्र जाने । उनमें ब्राह्मण पिता है ॥ १३५ ॥

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ १३६ ॥

धन, बन्धु, आयु, कर्म और पांचवी विद्या ये मान्यताके स्थान हैं । जो जो पीछे है वही पहिलेसे बड़ा है अर्थात् धनसे बन्धु बड़ा है इत्यादि ॥ १३६ ॥

पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च ।

यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः शूद्रोऽपि दशमीं गतः ॥ १३७ ॥

तीनों वर्णोंमें पाचों गुणोंमेंसे बहुतसे गुण जिसमें हों वह सम्मानके योग्य है और नव्वे वर्षसे अधिक आयुवाला शूद्रभी माननीय है ॥ १३७ ॥

चक्रिणो दक्षमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः ।

स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो धरस्य च ॥ १३८ ॥

सवारीमें बैठे हुएको, नव्वेसे अधिक अवस्थावालेको, रोगीको, बोझवालेको, स्त्रीको, स्नातक (जिसका समावर्तन संस्कार हो चुकाहो उस) को, राजाको और दूल्हको मार्ग देना चाहिये ॥ १३८ ॥

तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ ।

राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक् ॥ १३९ ॥

उन इकट्ठे हुआँमेंसे स्नातक और राजा माननेके योग्य हैं और राजा तथा स्नातक इन दोनोंमें स्नातकही राजासे अधिक मान्य है ॥ १३९ ॥

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः ।

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥

जो ब्राह्मण शिष्यका यज्ञोपवीत कर उसे यज्ञविद्या और उपनिषद्बुक्त वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं ॥ १४० ॥

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः ।

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥

जो (ब्राह्मण) वेदके एक भाग अथवा वेदांगोंको जीविकाके लिये पढ़ाता है वह उपाध्याय कहाता है ॥ १४१ ॥

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ।

संभावयति चाग्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥

जो (ब्राह्मण) किसीके गर्माधान आदि कर्मोंको विधिपूर्वक करता है और अग्निसे पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु कहाता है ॥ १४२ ॥

अभ्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान् ।

यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विग्निहोच्यते ॥ १४३ ॥

इस जगतमें जो अभ्याधान, पाकयज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञोंको जिसकी ओरसे आचार्य होकर करता है उसका वह ऋत्विक् कहाता है १४३

य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणाबुधौ ।

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्कदाचन ॥ १४४ ॥

जो दोनों कानोंको सत्य वेदसे भरता है अर्थात् वेद सुनाता है उसे मातापिता जानना चाहिये उससे कभी द्रोह न करे ॥ १४४ ॥

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तुपितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥

उत्पादकब्रह्मदानोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १४६ ॥

ब्रह्मकपनमें, दश उपाध्यायोंसे आचार्य, सौ आचार्योंसे पिता और हजार पिताओंसे माता अधिक है ॥ १४५ ॥ जन्म देनेवाला और वेद पढ़ानेवाला इन दोनोंमें वेदका पढ़ानेवाला पितासे बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मणको ब्रह्मजन्म (उपनयन संस्कार) से परलोकमें और यहा ब्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥ १४६ ॥

कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः ।

संभूर्ति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ॥ १४७ ॥

माता पिता परस्पर कामके वश होकर इसे पैदा करते हैं जिससे यह योनिमें उत्पन्न होता है, वह केवल इसका जन्म मात्र है ॥ १४७ ॥

आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः ।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा ॥ १४८ ॥

वेदका जाननेवाला आचार्य इसको विधिपूर्वक जो गायत्रीसे जन्म देता है वही जाति सत्य, अजर और अमर है ॥ १४८ ॥

अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः ।

तमपीह गुरुं विद्याश्रुतोपक्रियया तथा ॥ १४९ ॥

जो गुरु जिसका थोड़े वा बहुत वेदके पढ़ानेसे उपकार करता हो उस वेद पढ़ानेसे उसकोभी ससारमें गुरु जाने ॥ १४९ ॥

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता ।

वाल्लोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥ १५० ॥

वेद पढ़नेके लिये जन्म देनेवाला और अपने धर्मको सिखानेवाला ब्राह्मण बालकभी क्यों न हो धर्मसे श्रद्धका पिता होता है ॥ १५० ॥

अध्यापयामास पितृञ्जिश्रुताङ्गिरसः कविः ।

पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ १५१ ॥

अंगिराके विद्वान् बालक पुत्रने अपने चाचा आदिको पढ़ाया और उनकी ज्ञान दे, दिख्य बनाकर “ हे पुत्रो ” यह कहा ॥ १५१ ॥

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः ।

देवाश्चैतान्समेत्योञ्चुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥ १५२ ॥

वे चाचा आदि क्रोधकर उस अर्थको देवताओंसे पूछने लगे और देवताओंने मिलकर उनसे कहा कि तुमसे बालकने टीक कहा है ॥ १५२ ॥

अहो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।

अहं हि बालमित्याहुः पितेत्येष तु मन्त्रदम् ॥ १५३ ॥

अज्ञ बालक होता है और मंत्र देनेवाला पिता होता है इस लिये अज्ञको बालक और मंत्रदाताको पिताही कहते हैं ॥ १५३ ॥

न हायनैर्न पलितैर्न विचेन न वन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ १५४ ॥

न बहुत वर्षोंसे, न सपेदवालोंसे, न धनसे, न भाई वन्धुओंसे कोई बड़ा होता है । ऋषिओंने यह धर्म किया है कि जो अर्गोंसहित वेद पढ़नेवाला है वही बड़ा है ॥ १५४ ॥

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः ।

वैश्यानां धान्यघनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ १५५ ॥

ब्राह्मणोंका ज्ञानसे, क्षत्रियोंका वीर्यसे, वैश्योंका धनधान्यसे और शूद्रोंका आयुसेही बढकपन होता है ॥ १५५ ॥

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममथो सृगः ।

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥ १५७ ॥

शिरके बाल सफेद होनेसे कोई बड़ा नहीं होता । जो तरुणभी पढ़ा लिखा हो तो देवता उसे बृद्ध कहते हैं ॥ १५६ ॥ काठका हाथी, चर्मके का हरिण और बिना पढ़ा ब्राह्मण ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं ॥ १५७ ॥

यथा पण्डोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला ।

यथा चाहोऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ १५८ ॥

जैसे स्त्रियोंमें नपुंसक-निष्फल है, जैसे गौ गौओंमें निष्फल है, जैसे अहमं दान निष्फल है वैसेही वेद नहीं पढ़ा ब्राह्मण निष्फल होता है ॥ १५८ ॥

अहिंसयैव भूतानां कार्यं धेयोनुदासनम् ।

वाक्चैव मधुरा श्रुष्ट्या प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५९ ॥

धर्मकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्राणियों को अहिंसापूर्वक रूप से प्रशिक्षण के लिये शिक्षा दे और मीठी तथा कोमल वाणी बोलें ॥ १५९ ॥

यस्य चाख्यानसी शुद्धे सम्यग्गुणे च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वैदान्तोपगतं फलम् ॥ १६० ॥

जिनके सदा वाणी और मन शुद्ध हैं और ये अच्छे प्रकार से रक्षित हैं वही सब वैदान्तके फलको पाता है ॥ १६० ॥

नार्यनुदः स्यादातौऽपि न परद्रोहकर्मधीः ।

ययास्योच्छिजते घाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥ १६१ ॥

दु राी होने परमी न तो दूसरेका मन दुताये और न दूसरेसे द्रोह करनेमें मन लगायें । जिससे किराकी दु.रा हो ऐसी सुरी वाणी न बोलें ॥ १६१ ॥

स्मानाद्ब्राह्मणो नित्यमुच्छिजेत विपादिव ।

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ १६२ ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि सम्मानसे विपके समान निल उरता रहें (क्योंकि गर्व हो जायगा) और अमृतके समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहें अर्थात् तिरस्कार होनेपर रोद न करें मान अपमान दोनोंको सहलें ॥ १६२ ॥

सुखं ह्यवमतः शोते सुखं च प्रतिबुध्यते ।

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥

अपमान सहलेनेवाला मनुष्य सुखसे सोता है, सुखसे जागता है और इस ससारमें सुखसे विचरता है परन्तु अपमान करनेवालेका नाश हो जाता है ॥ १६३ ॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।

गुरौ वसन्संचिनुयाद्ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ १६४ ॥

इस क्रमसे संस्कार किया हुआ द्विज, गुरुके पास रहता हुआ धीरे २ वेदके ज्ञानके लिये तपका संचय करे ॥ १६४ ॥

तपोविशेषैर्विधिधैर्वैतैश्च विधिचोदितैः ।

वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥

विधिपूर्वक वतलाए हुए तप विशेषोंसे और अनेक प्रकारके प्रतीने ब्राह्मणको उपनिषदयुक्त वेद पढना चाहिये ॥ १६५ ॥

वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्यन्द्विजोत्तमः ।

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥

ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेदकाही अभ्यास करता रहै क्योंकि इस लोकमें वेदका अभ्यासही ब्राह्मणका धर्मकारी तप कहा गया है ॥ १६६ ॥

आ ह्येष स नखाग्नेभ्यः परमं तप्यते तपः ।

यः स्वगव्यपि द्विजोऽभीते स्वाभ्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥ १६७ ॥

जो ब्राह्मण माला धारण करके (अर्थात् ब्रह्मचर्यके नियमोंमें जो माला धारण करना निषेध है उसको पहिर कर) भी निस्वप्रति शक्तिके अनुसार वेद पढता है वह चरणके नखोंतक अर्थात् सर्व देहज्यापी बड़ा भारी तप करता है ॥ १६७ ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीचन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥

जो ब्राह्मण वेदको न पढकर और शास्त्रोंमें परिश्रम करता है वह जीतेजी फुटुंव सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है ॥ १६८ ॥

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिवन्धने ।

तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ १६९ ॥

वेदकी आप्रानुसार ब्राह्मणका जन्म प्रथम मातासे, दूसरा यज्ञोपवीतमें ओर तीसरा यज्ञकी दीक्षामें होता है ॥ १६९ ॥

तत्र यद्ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जिवन्धनचिह्नितम् ।

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ १७० ॥

इन तीनों जन्मोंमें यज्ञोपवीतके चिन्हवाला जो ब्रह्मजन्म है उसमें इस (ब्राह्मण) की गायत्री माता और आचार्य पिता कहाता है ॥ १७० ॥

वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते ।

न ह्यस्मिन्पुज्यते कर्म किञ्चिदामौञ्जिवन्धनात् ॥ १७१ ॥

वेदका दान करनेसे आचार्यको पिता कहा है क्योंकि इस (ब्राह्मण) को यज्ञोपवीत होनेसे पहिले कोई कर्म करनेका अधिकार नहीं है ॥ १७१ ॥

नामिव्याहारयेद्ब्रह्म स्वधानिनयनादृते ।

शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १७२ ॥

स्वधा नियमके बिना अर्थात् श्राद्धमंत्रोंके सिवाय वेदमंत्र (यज्ञोपवीतके पहिले) नहीं उच्चारण करै क्योंकि जबतक वेदमें अधिकारी नहीं होता तबतक शूद्रके समान है ॥ १७२ ॥

कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ।

ब्रह्मणो ब्रह्मणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ १७३ ॥

यज्ञोपवीतके अर्नंतर व्रतोंका उपदेश और वेद पाठ, क्रमसे विधिपूर्वक कहे गये हैं ॥ १७३ ॥

यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला ।

यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४ ॥

सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरौ वसन् ।

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः ॥ १७५ ॥

ब्रह्मचारीको जो चर्म, सूत्र, मेखला, दंड और वस्त्र यज्ञोपवीतमें कहा है वही उसके व्रतोंमेंनी होना चाहिये ॥ १७४ ॥ ब्रह्मचारी गुरुके यहाँ रहता म. ४

हुआ अपना तप बढानेके लिये इन्द्रियोंके समूहको अच्छी भांति रोककर इन नियमोंका सेवन करै ॥ १७५ ॥

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम् ।

देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥

ब्रह्मचारी नित्य स्नानसे शुद्ध होकर देव, ऋषि, पितृतर्पण और देवताओंका पूजन तथा अभिहोत्र करै ॥ १७६ ॥

वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं भाल्यं रसान्निव्ययः ।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥ १७७ ॥

शहद, मास, सुगंधित वस्तु, फूलोंके हार, रस, ज़ी, तिरकेकी भांति बनी हुई वस्तु और प्राणियोंकी हिंसा इनको त्याग दे ॥ १७७ ॥

अभ्यङ्गमखनं चाक्षणोरुपानच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं शीतवादनम् ॥ १७८ ॥

उबटना, आखोंका आँजना, जूते, छत्री धारण करना, काम, क्रोध, लोभ, नाचना, गाना, बजाना इनकोभी त्यागदे ॥ १७८ ॥

द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥

जुआ, झगडा, निंदा तथा झूठ, स्त्रियोंको देखना, आलिंगन करना और पराया तिरस्कार करना (ये भी ब्रह्मचारीको नहीं करने चाहियें) ॥ १७९ ॥

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।

कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ १८० ॥

सब जगह अकेला सोवै, वीर्यको कभी नहीं गिरावै, कामसे वीर्यको गिराता हुआ ब्रह्मचारी अपने व्रतका नाश करता है ॥ १८० ॥

स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः ।

स्नात्वाकर्मर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यूचं जपेत् ॥ १८१ ॥

ब्रह्मचारी ब्राह्मण सुपनेमें अनजाने वीर्यको गिराकर स्नान करै और सूर्यकी पूजा कर " पुनर्गमैत्विन्द्रियं " इस ऋचाको तीनवार पढे ॥ १८१ ॥

उदकुम्भं सुमनसो गोशरुन्मृत्तिकाकुशान् ।

आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहश्चरेत् ॥ १८२ ॥

पानीका घडा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुशा इनको जितना कामके लिये चाहियें उतनाही लावै और नित्य भिक्षा मागे ॥ १८२ ॥

वेद्यज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु ।

ब्रह्मचार्याहरेद्भैक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ १८३ ॥

जो वेद और यज्ञोंसे रहित नहीं हैं और अपने कर्मोंमें सावधान हैं उनके घरोंसे ब्रह्मचारी पवित्र हो कर नित्य भिक्षा लावै ॥ १८३ ॥

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलचन्धुषु ।

अलामे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूर्वं विचर्जेत् ॥ १८४ ॥

गुरुके कुले न भिक्षा करे न ज्ञातिकुलचन्धुषु ।

गुरुके कुलमें भिक्षा न मांगै और ज्ञाति, कुल बन्धुओंमेंभी न मांगे । दूसरे घर न मिलने पर तो पहिला २ त्यागदे अर्थात् प्रथम कुलबन्धुओंमें भिक्षा मांगै, वहां न मिले तो ज्ञातिमें और जो ज्ञातिमें भी न मिले तो गुरुके कुलमेंभी मांगे ॥ १८४ ॥

सर्वे वापि चरेद्भ्रामं पूर्वोक्तानामसंभवे ।

नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तास्तु वर्जयेत् ॥ १८५ ॥

पहिले कहेहुआंका अभाव हो तो वाणीको रोककर पवित्रहो सब गांवमें (भिक्षाके लिये) फिर परंतु वहां पातकियोंको छोड़ दे ॥ १८५ ॥

दूरादाहत्य समिधः संनिदध्याद्विहायसि ।

सायंप्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥

दूरसे समिधा लकर खुलेमें रक्खै और आलस्यरहित होकर उनसे साक्ष और सबेरे अग्निमें दहन करै ॥ १८६ ॥

अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम् ।

अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णिव्रतं चरेत् ॥ १८७ ॥

भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकात्रादी भवेद्भ्रती ।

भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १८८ ॥

व्रतवद्देवदैवत्ये पित्र्ये कर्मण्यथर्षिवत् ।

काममभ्यर्थितोऽश्रीयाद्भ्रतमस्य न लुप्यते ॥ १८९ ॥

नीरोग ब्रह्मचारी भिक्षा बिना मागे और अग्निमें बिना समिधाहोमें सात रात्रितक रहै तो “अवकीर्णि” नाम व्रत करै ॥ १८७ ॥ ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा मागै, एक मनुष्यका अन्न खानेवाला न वने । ब्रह्मचारीको भिक्षामें आजीविका करना उपवासके समान कहा है ॥ १८८ ॥ ब्रह्मचारी, देवताओंके कर्ममें व्रतके समान और पितर कर्ममें ऋषिके समान, न्यौता हुआ इच्छा-पूर्वक भोजन करै इससे इसके व्रतका लोप नहीं होता ॥ १८९ ॥

ब्राह्मणस्यैव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः ।

राजन्यवैश्ययोस्त्वैव नैतत्कर्म विधीयते ॥ १९० ॥

पण्डितोंने यह कर्म (अर्थात् श्राद्ध भोजन) ब्राह्मणकोही कहाहै, क्षत्री-वैश्योंको इस प्रकारका काम-नहीं कहा है ॥ १९० ॥

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा ।

कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १९१ ॥

गुरुसे प्रेरणा किया जाय वा न किया जाय, ब्रह्मचारी पढ़नेमें और गुरुके हितमें नित्य यत्न करै ॥ १९१ ॥

शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च ।

नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्दीक्षमाणो गुरोर्मुखम् ॥ १९२ ॥

नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः ।

आस्थतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥ १९३ ॥

शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय और मन इनको रोककर हाथ जोड़े, गुरुके मुखको देखता हुआ खड़ा रहै ॥ १९२ ॥ नित्य ओढनेके बख्खसे हाथको बाहर निकाले रहै, सुन्दर आचरण रखै, बख्खसे देहको ढके रहै और जब गुरु “वैठ जाओ” कहँ तब उनके सामने बैठै ॥ १९३ ॥

हीनाभ्रवस्त्रवेपः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥ १९४ ॥

गुरुके सामने सदा सामान्य अन्न, बख्ख और वेशसे रहै और गुरुके पहिले उठै और पीछे सोवै ॥ १९४ ॥

प्रतिश्रवणसंभापे शयानो न समारचरेत् ।

नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ॥ १९५ ॥

गुरुकी आज्ञाका स्वीकार और उनसे वार्तालाप ये सोता, बैठ, भोजन करता, खड़ा और मुह फेरें हुए नहीं करै ॥ १९५ ॥

आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ।

प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्भावंस्तु धावतः ॥ १९६ ॥

बैठे हुए गुरुको खड़े होकर, खड़े हुएको सामने जाकर, आते हुएके कुछ पद आगे जाकर, दौड़ते हुएके पीछे दौड़कर उनसे बात चीत करै ॥ १९६ ॥

पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम् ।

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥ १९७ ॥

गुरु मुंह फेरें हों तो उनके सामने जाकर, दूर हो तो पास जाकर, सोते और बैठे हों तो प्रणाम करके वार्तालाप करै ॥ १९७ ॥

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥ १९८ ॥

गुरुके समीप इसका पलंग और आसन सदा नीचा रहै और गुरुकी आँल्लोके सामने मनमाने आसनसे न बैठै ॥ १९८ ॥

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् ।

न चैवास्यनुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥ १९९ ॥

गुरुके पीठ पीछेमी उनका खाली नाम न ले और उनकी गति, बोलचाल और चेष्टाकी कदापि नकल न करै ॥ १९९ ॥

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा चापि प्रवर्तते ।

कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ २०० ॥

जहा गुरुकी बुराई वा निन्दा होती हो वहा कानोको बंद कर लेना चाहिये वा बहासे और जगह चला जाना चाहिये ॥ २०० ॥

परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः ।

परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१ ॥

शिष्य गुरुकी बुराईसे गधा, निन्दासे कुत्ता, उनके धन भोगनेसे कृमि और उनके साथ बह करनेसे कीट होता है ॥ २०१ ॥

दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाः ।

यानासनस्यश्चैवैनमवरुह्याभिवादेत् ॥ २०२ ॥

शिष्य दूरसे (किसीके द्वारा) क्रुद्ध होकर वा स्त्रीके पास बैठा हुआ गुरुका पूजन न करे और जो सवारी पर बैठा हो तो उतर कर गुरुको प्रणाम करे ॥ २०२ ॥

प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत् गुरुणा सह ।

असंश्रवे चैव गुरोर्न किञ्चिदपि कीर्तयेत् ॥ २०३ ॥

जहा गुरुके बैठनेके प्रदेशसे शिष्यके बैठनेके प्रदेशको वायु चलती हो और शिष्यके बैठनेके प्रदेशसे गुरुके बैठनेके प्रदेशको चलती हो वहां गुरुके साथ न बैठे और जहा गुरु सुनने न पावे वहा कोई बात न कहै ॥ २०३ ॥

गोऽश्वोऽप्यानप्रासादस्त्रस्तरेषु कटेषु च ।

आसीत् गुरुणा सार्धं शिलाफलकनौषु च ॥ २०४ ॥

बैल, घोड़ा वा ऊट जुती हुई सवारी तथा महलमे विछाई चटाइयोंपर और शिला, तखत तथा नौकापर गुरुके साथ बैठ जाय ॥ २०४ ॥

गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवहृत्तिमाचरेत् ।

न चानिस्त्र्यो गुरुणा स्वान्गुरुनभिवादेत् ॥ २०५ ॥

गुरुके गुरुके पास होनेपर उनका गुरुके समान ही-वर्ताव करै और गुरुसे आज्ञा लिये बिना अपने गुरु अर्थात् माता पिता आदिको प्रणाम न करै ॥ २०५ ॥

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु ।

प्रतिपेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि ॥ २०६ ॥

विद्या पढ़ानेवालमि यही वर्ताव करना चाहिये और जो अपने वंशके हों, अधर्मको मने करै और धर्मका उपदेश करै उनमेंभी यही रीति निल चाहिये ॥ २०६ ॥

श्रेयःसु गुरुवहृत्तिं नित्यमेव समाचरेत् ।

गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्ववन्धुषु ॥ २०७ ॥

बड़े लोगोंमें, श्रेष्ठ गुरुपुत्रोंमें और गुरुके बंधुओंमें निल गुरुके समान ही वर्ताव करै ॥ २०७ ॥

वालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि ।

अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥ २०८ ॥

गुरुका पुत्र छोटा हो वा समान अवस्थाका हो अथवा यज्ञविद्यादिमें शिष्य हो यदि वह वेदके पढ़ानेमें समर्थ हो तो उसका गुरुके समान सम्मान करना चाहिये ॥ २०८ ॥

उत्सादनं च गात्राणां क्षापनोच्छिष्टभोजने ।

न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम् ॥ २०९ ॥

गुरुपुत्रके अगोमे उवटना लगाना, उसे ज्ञान कराना, उसका जूठा भोजन और उसके चरणोंका घौना इनका निषेध है ॥ २०९ ॥

गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोपितः ।

असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥ २१० ॥

सवर्ण गुरुपत्नियां, गुरुके समान पूज्य हैं और अन्य जातिकी हो तो अभ्युत्थान और प्रणामसे सत्कारके योग्य होती हैं ॥ २१० ॥

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च ।

गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥ २११ ॥

गुरुपत्नीके तैलमर्दन, स्नान, शरीरके अगोपर उवटना और बालोंपर सुगंध लगाना ये काम नहीं करने चाहिये ॥ २११ ॥

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः ।

पूर्णाविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२ ॥

इस जगतमें पूरे बीस वर्षके तथा गुण दोष जाननेवाले शिष्यको, तरुण गुरुपत्नीके चरणोंमें गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिये ॥ २१२ ॥

स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम् ।

अतोऽर्थात्त प्रमाद्यन्ति प्रमदास्तु विपश्चितः ॥ २१३ ॥

इस संसारमें पुरुषोंको दूषण लगाना स्त्रियोंका स्वभाव होता है इस लिये पण्डित जन स्त्रियोंमें असावधानतासे नहीं रहते हैं ॥ २१३ ॥

अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः ।

प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशाजुगम् ॥ २१४ ॥

संसारमें स्त्रियां भ्रूखको अथवा काम क्रोधके वशीभूत पण्डितको बुरे मार्गमें ले जानेके लिये समर्थ होती हैं ॥ २१४ ॥

मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् ।

वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ २१५ ॥

मनुष्यको चाहिये कि माता, बहिन वा लडकीके साथ एकान्तमें स्थित न हो क्योंकि बली इन्द्रियोंका समूह पण्डितकोभी धर खेंचता है ॥ २१५ ॥

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि ।

विधिवद्भन्दनं कुर्यादसावहमिति नृवन् ॥ २१६ ॥

तरुण शिष्यको चाहिये कि तरुण गुरु पत्नियोंको "यह मैं हूँ" यह कहता हुआ पृथ्वीपर अच्छी भांति विधिसहित प्रणाम करे ॥ २१६ ॥

विप्रोप्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् ।

गुरुदारेषु कुर्वति सतां धर्ममनुसरन् ॥ २१७ ॥

शिष्य, सन्निके धर्मको याद करता हुआ प्रदेशसे धाकर गुरु पत्नियोंका नरणसर्श करे और उन्हें निल प्रणाम करे ॥ २१७ ॥

यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ।

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूपुरधिगच्छति ॥ २१८ ॥

जित भांति मनुष्य फावसे खोदता हुआ जलको पाता है उसी भांति सेवा करनेवाला शिष्य गुरुके पासकी विद्या पाता है ॥ २१८ ॥

मुण्डो वा जटिलो वा स्याद्धवा स्याच्छिखाजटः ।

नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूर्यो नाभ्युदियात्कचित् ॥ २१९ ॥

ब्रह्मचारी, मूढमुड़ाए अथवा जटा रखाए हो अथवा शिखाकी ही जटा बनाये हो पर इसके गावमें रहते न तो कभी सूर्य छिपे और न उदय हो अर्थात् सूर्यास्त और सूर्योदयके पहिले यह गांवसे बाहर जाकर अपना अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करे ॥ २१९ ॥

तं चेद्भ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः ।

निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्जपनुपघसेद्दिनम् ॥ २२० ॥

जो इच्छापूर्वक सोते हुए उसको सूर्य उदय हो जाय वा भूलसे अस्त हो जाय तो गायत्रीको जपता हुआ दिनभर व्रत करे ॥ २२० ॥

सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः ।

प्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तः स्यान्महत्तैनसा ॥ २२१ ॥

जो सोते हुएको सूर्य अस्त हो जाय और उदय हो जाय तो प्रायश्चित्तके न करनेसे उसे बड़ा पाप होता है ॥ २२१ ॥

आचम्य प्रथतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः ।

शुचौ देशे जपक्षप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २२२ ॥

पवित्र और सावधान ब्रह्मचारी आचमन करके शुद्ध स्थानमें गायत्रीको विधिपूर्वक जपता हुआ दोनों सभ्याओंमें उपासना करे ॥ २२२ ॥

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत् ।

तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र घास्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥

स्त्री अथवा शूद्र जो कुछ अच्छा काम करे उस सबको अथवा जिसमें इत्तका मन लगे उसे सावधान होकर करे ॥ २२३ ॥

धर्मार्थाद्युच्यते श्रेयः कामार्थो धर्म एव च ।

अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥ २२४ ॥

इस सप्तरमें कितनेही (आचार्य) धर्म और अर्थको कल्याणरूप कहते हैं, कितनेही काम और अर्थको और कितनेही धर्मको अथवा अर्थहीको कल्याणरूप कहते हैं परंतु धर्म अर्थ और काम ये तीनों कल्याणरूप हैं यह सिद्धान्त है ॥ २२४ ॥

आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः ।

नार्तेनाप्यघमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २२५ ॥

आचार्य, पिता, माता, बड़ा भाई इनका दुखी मनुष्य भी और विशेषकर ब्राह्मणभी अपमान न करे ॥ २२५ ॥

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः ।

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ २२६ ॥

जबतक ये तीनों जिये तबतक दूसरा धर्म न करै, उनहीकी प्रीति और हित चाहता हुआ नित्य उनकीही सेवा करै ॥ २३५ ॥

तेषामनुपरोधेन पारज्यं यद्यदाचरेत् ।

तत्तन्निवेद्येत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६ ॥

•• उनके कहेसे जो जो परलोकके लिये, मनवाणी और कर्मसे करै वह उनहीके अर्थ अर्पण कर दे ॥ २३६ ॥

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते ।

पष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥

इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सब कर्म सफल होता है, यही साक्षात् परम धर्म है, इसके अतिरिक्त उपधर्म कहा गया है ॥ २३७ ॥

श्रद्धधानः शुभां विद्यामाददीताचरादपि ।

अन्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ २३८ ॥

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभापितम् ।

अभिन्नादपि सहत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ॥ २३९ ॥

श्रद्धापूर्वक नीचसेमी अच्छी विद्याको, चाण्डालसेमी परम धर्मको और नीच कुलसेमी स्त्रीरत्नको ग्रहण करै ॥ २३८ ॥ विषसेमी अमृतको, बालकसेमी सुन्दर वचनको, वैरीसेमी सुन्दर आचरणको और अशुद्ध जगहसेमी सुवर्णको ले लेना चाहिये ॥ २३९ ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभापितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ २४० ॥

स्त्रियोंको और रत्न, विद्या, धर्म, पवित्रता, सुन्दर वचन और अनेक प्रकारकी कारीगरी इनको सबसे ले लेना चाहिये ॥ २४० ॥

अब्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते ।

अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ २४१ ॥

आपत्कालमे क्षत्री आदिसेमी पढना कहा है परंतु उस गुरुका अनुगमन और सेवा जबतक पढ़ता रहै तबतक ही करै ॥ २४१ ॥

नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत् ।

ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्क्षन्गतिमनुत्तमाम् ॥ २४२ ॥

यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत् गुरोः कुले ।

युक्तः परिचरेद्देनमाशरीरविमोक्षणात् ॥ २४३ ॥

उत्तम गतिको चाहते हुए शिष्यको चाहिये कि जो ब्राह्मण न हो और जो अंगसहित वेद न जानता हो उसकेपास ब्रह्मचर्यके लिये न वसै ॥ २४२ ॥ जो ब्रह्मचारी गुरुके कुलमे अपने जीवनतक वास करना चाहै तो शरीरके अततक सावधानीसे गुरुकी सेवा करै ॥ २४३ ॥

आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम् ।

स गच्छत्यज्ञसा विप्रो ब्रह्मणः सन्न शाश्वतम् ॥ २४४ ॥

जो ब्रह्मचारी शरीरकी समाप्तिक गुरुकी सेवा करता है वह ब्रह्मके शाश्वत स्थान अर्थात् स्वर्गको शीघ्र जाता है ॥ २४४ ॥

न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित् ।

स्नास्यंस्तु गुरुणाज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥ २४५ ॥

धर्मका ज्ञाता शिष्य पहिले गुरुको कुछ दक्षिणा न दे परंतु जब गुरुकी आज्ञानुसार व्रत समाप्त करके ज्ञान करे तो गुरुके लिये यथाशक्ति भेट लावे ॥ २४५ ॥

क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम् ।

धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत् ॥ २४६ ॥

भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छत्री, जूता, आसन, धन्न, शाक और कपडे ये गुरुके लिये प्रीतिसे लावे ॥ २४६ ॥

आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ।

गुरुवारे सपिण्डे वा गुरुवहृत्तिमाचरेत् ॥ २४७ ॥

आचार्यके मरनेपर गुणवान् गुरुपुत्रमें, गुरुपत्नीमें अथवा गुरुके सपिंड लोगोंमें गुरुके समान बर्ताव करे ॥ २४७ ॥

पतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान् ।

प्रयुक्तानोऽग्निशुभ्रूषां साधयेद्देहमात्मनः ॥ २४८ ॥

इनके विद्यमान नहीं होनेपर आचार्यकी अग्निके पासही स्नान, आसन, विहार और अग्निकी सेवा करता हुआ अपनी देहको साथै ॥ २४८ ॥

एवंचरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविष्टुतः ।

स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २४९ ॥

जो ब्राह्मण अखंडित होकर इस प्रकार ब्रह्मचर्यको करता है वह उत्तम स्थानको जाता है और इस ससारमें फिर नहीं आता ॥ २४९ ॥ इति

पं. रामेश्वरभट्टकृत सरलाटीकासहित मनुस्मृतिका द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ शुभम् ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

पट्त्रिंशदाद्विकं चर्य गुरौ वैवेदिकं व्रतम् ।

तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥

ब्रह्मचारीको गुरुके पास तीनों वेदोंका व्रत अर्थात् उनका पठना ३६ वर्ष-तक वा १८ वर्षतक वा ९ वर्षतक वा ब्रह्मचर्यके अंततकही करना चाहिये ॥१॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविष्टुतब्रह्मचर्यां गृहस्थाश्रममाचरेत् ॥ २ ॥

जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ हो ऐसा ब्रह्मचारी तीनों वेदोंको वा

दो वेदोंको वा एक वेदको कमसे पढ़कर गृहस्थाश्रममें वास करै अर्थात् अपना विवाह करै ॥ २ ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्वग्विचणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ ३ ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्धहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम् ॥ ४ ॥

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५ ॥

अपने धर्म करनेसे प्रसिद्ध, पितासे (वा पिताके अभावमें गुरुसे) वेद पढ़े हुए, माला धारण किये और उत्तम आसन वा पलंगपर बैठे हुए ब्रह्मचारीका पूजन (आचार्य) पहिले गो दुग्ध आदिके मधुपर्कसे करै ॥ ३ ॥ जब द्विन विधिपूर्वक (व्रत) स्नान और समावर्तन कर चुके तब गुरुकी आज्ञासे अपने वर्णकी अच्छे लक्षणवाली कन्यासे विवाह करै ॥ ४ ॥ जो मानाकी सपिंडा (अर्थात् माताकी सातवीं पीढीमें) नहो और जो पिताके गोत्र (और सपिंड) की न हो ऐसी ही द्विजातियोंको (अश्रयाधानादि) स्त्रीकर्म और मैथुनमें श्रेष्ठ होती है ॥ ५ ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसंबन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

जो गौ, बकरी, भेड़, धन और अन्नसे (भल्लेही) बढ़े हुए और घड़े हों परन्तु इन (आगे कहे हुए) दश कुलोंके स्त्री संबन्धमें त्यागदे अर्थात् इनमें विवाह न करै ॥ ६ ॥

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्चन्दो रोमशार्शसम् ।

क्षय्यामयाव्यपसारिभ्वित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ ७ ॥

जो (जातिकर्मआदि) कियारहित हो, जिसमें पुत्र उत्पन्न न होता हो, जिसमें वेदका पठन पाठन न हो, जिस कुलके मनुष्योंके शरीरपर रोम हों, जिसमें बवासीर, क्षयी, मंदाग्नि, मिरगी, खेतदाग और कुष्ठ रोग हों (ये १० कुल हैं जिनमें विवाहका निषेध है—आगे कन्याका निषेध करते हैं) ॥ ७ ॥

नोष्ठहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोभां न चाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ८ ॥

पीले केश तथा अधिक अगवाली, रोगयुक्त, जिसके देहपर रोम न हों वा अधिक रोम हों, बहुत बकवादिन और पीले नेत्रवाली ऐसी कन्यासे विवाह न करै ॥ ८ ॥

नर्क्षवृक्षनटीनास्त्रीं नान्त्येष्वेतनामिकाम् ।

न पक्ष्यहिप्रेष्यनार्त्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ९ ॥

१ लागनेका कारण यह है कि इन वृक्षोंकी लडकियोंसे मूर्ख और रोगी नगान होगी ॥

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाङ्गीं हंसचारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशनां मृद्धङ्गीमुद्धहेत्खियम् ॥ १० ॥

नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी सर्प और दासीपर जिसका नाम हो और जिसका भयंकर नाम हो ऐसी कन्याके साथ विवाह न करे ॥ ९ ॥ जो अगहीन न हो, जिसका सुन्दर सीधा नाम हो, जिसकी हंस और हाथीके समान चाल हो और जिसके रोम, केश और दात छोटे हों ऐसी कोमल अगवाली कन्याके साथ विवाह करे ॥ १० ॥

यस्यास्तु न भवेद्भ्राता न विशायेत वा पिता ।

नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ ११ ॥

जिस (कन्या) का भाई न हो उसे पुत्रिकाकी शंकासे और जिसके पिताका निश्चय न हो उसे अधर्मकी शंकासे उसके साथ बुद्धिमानको विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥

सवर्णाग्ने द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२ ॥

द्विजातिको, पहिले विवाहमें अपने वर्णकी ही स्त्री उत्तम होती है परन्तु कामसे ये प्रवृत्त हुए द्विजातियोंको क्रमसे ये (आगे कहीं गईं) स्त्रिया श्रेष्ठ हैं १२ शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।

ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३ ॥

शूद्रकी स्त्री एक शूद्राही हो, वैश्यकी वैश्या और शूद्रा हो, क्षत्रीकी शूद्रा, वैश्या और क्षत्रिया हो और ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या तथा शूद्रा कही गई हैं ॥ १३ ॥

न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः ।

कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्यापदिश्यते ॥ १४ ॥

हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्धहन्तो द्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम् ॥ १५ ॥

आपत्तिमेंही ब्राह्मण और क्षत्रीको शूद्रा स्त्री किसीसी पुराणमें नहीं कही है ॥ १४ ॥ जो द्विजाति (प्रा० क्ष० वै०) मोहसे हीन जातिकी स्त्रीके साथ विवाह करे तो संतान सहित अपने कुलोंको शीघ्रही शूद्रताको पहुँचाता है १५ ॥

शूद्रावेदी पतत्यत्रेहृतथ्यतनयस्य च ।

शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥

शूद्राको व्याहनेवाला पतित होता है यह अत्रि ऋषि और गौतमका मत (ब्राह्मणके लिये) है । और शूद्रामें पुत्रकी उत्पत्तिसे पतित होता है यह

१ पुत्रिका उसे कहते हैं जिसका पिता कहे कि इसका ज्येष्ठ पुत्र मुझे पिंड दान देगा । २ मेधातिथि और गोविन्दराजके मतसे तो शूद्राके साथ विवाह करनेवाला पतित होताही है ।

शौनक ऋषिका मत (क्षत्रीके लिये) है । और पौत्रसे पतित होता है यह ऋगुजीका मत (वैश्यकेलिये) है ॥ १६ ॥

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ।

जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥

ब्राह्मण शूद्रको पलंगपर बैठानेसे अधोगतिको प्राप्त होता है और उसमें पुत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणतासेही नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥

दैवपिड्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु ।

नाश्नन्ति पितृदेवास्तत्र च स्वर्गं स गच्छति ॥ १८ ॥

जिसके यहा देव, पितृ और अतिथिके कर्म शूद्राकी प्रधानतासे होते हैं उसके हव्य कव्यको देव पितर नहीं खाते हैं और वह स्वर्गको नहीं जाता १८

वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च ।

तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १९ ॥

शूद्रके होंटोंका रस पीनेबाल, जिसके मुखपर शूद्राका खास लगा हो या जो शूद्रामें खरं उत्पन्न हुआहो ऐसे पुरुषका निस्तारा नहीं कहा गया है ॥ १९ ॥

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान् ।

अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निवोचत ॥ २० ॥

इस लोकमें और मरकर चारोंही वर्णोंके बुराई भलाई करनेवाले स्त्रियोंके आठ प्रकारके विवाह हैं उन्हें सप्तेपसे (कहताहू) सुनो ॥ २० ॥

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्पः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २१ ॥

ब्राह्म, दैव, आर्प, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, इनमें आठवा बहुत बुरा है ॥ २१ ॥

यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।

तद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च शुणानुणान् ॥ २२ ॥

जिस वर्णका जो (विवाह) धर्म है, जिसके विवाहके जो गुण और दोष हैं और संतानकी उत्पत्तिमें जो गुण और दोष हैं वे सब तुमसे कहूंगा ॥ २२ ॥

पद्भानुपूर्व्यां विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽचरान् ।

विद्वशूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धर्म्यान्राक्षसान् ॥ २३ ॥

ब्राह्मणको क्रमसे कहे हुए छ, क्षत्रीको पिछले चार, वैश्य और शूद्रकोभी वही धर्मके चार विवाह जानना, राक्षस विवाह नहीं (कहा) है ॥ २३ ॥

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः ।

राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्रयोः ॥ २४ ॥

विद्वानोंने ब्राह्मणको पिछले चार अच्छे, क्षत्रीको एक राक्षस अच्छा और वैश्य, शूद्रोंको एक आसुर अच्छा कहा है ॥ २४ ॥

पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यौ स्मृताविह ।

पैशाचश्चासुरश्चैव न कर्तव्यौ कदाचन ॥ २५ ॥

पिछले पाच विवाहोंमेंसे तीन अर्थात् प्राजापत्य गान्धर्व और राक्षस ये धर्मसे हैं । और दो अर्थात् आसुर और पैशाच यहां अधर्मसे कहे गये हैं । इसलिये पैशाच और आसुर विवाह कभी नहीं करने चाहियें ॥ २५ ॥

पृथक्पृथक्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यौ क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ॥ २६ ॥

गान्धर्व और राक्षस जो पहिले कहे हुए दो विवाह हैं वे दोनों अलग २ वा मिलेहुए क्षत्रीको धर्मसे कहे गये हैं ॥ २६ ॥

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ २७ ॥

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।

अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ २८ ॥

पढ़े लिखे शीलवान् बरको आप बुलाकर और (कन्यावरको) वस्त्र अलंकार पहिराकर और पूजन करके जो कन्याका दान है वह ब्राह्म धर्म कहागया है ॥ २७ ॥ प्रारभ किये हुए यज्ञमें अच्छे प्रकारसे कर्म करनेवाले ऋत्विजको वस्त्र और आभूषणसे सजाकर जो कन्यादान दिया जाता है वह दैव धर्म कहा गया है ॥ २८ ॥

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिबदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ २९ ॥

वरसे एक गाय बैलका जोड़ा वा दो गौके जोड़े धर्मसे लेकर विधिपूर्वक कन्यादान करना आप धर्म कहा जाता है ॥ २९ ॥

सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।

कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३० ॥

तुम दोनों मिलकर धर्म करो ऐसी वाणी कहकर और पूजन करके जो कन्यादान होता है वह प्राजापत्य विधि कही गई है ॥ ३० ॥

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः ।

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१ ॥

जातिके लोगोंको और कन्याको शक्तिसे अनुसार बन्देकर अपनी इच्छाके अनुसार जो कन्यादान लेना है वह आसुर धर्म कहा गया है ॥ ३१ ॥

इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः ॥ ३२ ॥

कन्या और वरकी इच्छासे मैथुन और कामके लिये जो आपसका संयोग होता है उसे गान्धर्व विवाह जानना चाहिये ॥ ३२ ॥

दत्त्वा दित्त्वा च भिरवा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।

प्रसया कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥

धरवालोंको मारकर (उनके अगोंको) छेदकर और (धर कोट आदि) तोड़ फोड़कर पुकारती हुई कन्याका घरसे हठपूर्वक हरलना राक्षसी रीति कही जाती है ॥ ३३ ॥

सुप्तां मन्त्रां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ ३४ ॥

जहां सोती हुई, (मदिरासे) मतवाली अथवा असावधान कन्याके साथ एकान्तमे सग किया जाता है वह विवाहोंमें पापी नीच आठवा पैशाची विवाह है ॥ ३४ ॥

अङ्गिरेव द्विजाभ्याणां कन्यादानं विशिष्यते ।

इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥

ब्राह्मणोंको जलमात्रसे और अन्यवर्णोंको आपसकी इच्छासे कन्यादान श्रेष्ठ कहा है ॥ ३५ ॥

यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः ।

सर्वे शृणुत तं विप्राः सर्वे कीर्तयन्तो मम ॥ ३६ ॥

हे ब्राह्मणो ! इन विवाहोंमेंसे जिस विवाहका जो गुण मनुजीने कहा है नस सबको सुझसे सुनों मैं संपूर्ण कहता हूँ ॥ ३६ ॥

दश पूर्वान्परान्वन्द्यनात्मानं चैकविंशकम् ।

ब्राह्मीपुत्रः सुकृतरुन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ ३७ ॥

ब्राह्म विवाहसे व्याही हुई कन्याका पुत्र (पुण्यात्मा) होनेसे दश आगेके (पिताआदिको) और दश पिछले (पुत्रआदिको) और इक्कीसवें अपनेको पापसे छुडाता है ॥ ३७ ॥

दैवोढाजः सुतश्चैव सप्त सप्त पराचरान् ।

आर्षोढाजः सुतस्त्रीस्त्रीन्पट्टपट्ट कायोढजः सुतः ॥ ३८ ॥

दैव विवाहवाली स्त्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र पिछले और अगले सात २ को और आर्ष विवाहवाली स्त्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र तीन २ को और प्राजापत्य विवाहसे उत्पन्न हुआ पुत्र ६।६ को पापसे छुडाता है ॥ ३८ ॥

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः ।

ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३९ ॥

ब्राह्म आदि चारोंही विवाहोंमें क्रमसे सज्जनोंके प्यारे, शास्त्रके पढनेवाले और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।

पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥

१ यद्यपि विवाहोंका गुणदोष पहिले भी कह- भाये हैं परन्तु बहुतसी विशेष बातें जतानेके लिये फिर कहते हैं ।

वे स्वरूपवान्, सत्वगुणसे युक्त, धनवान्, यशस्वी, पूर्ण भोग भोगनेवाले और धर्मात्मा होकर १०० वर्षतक जीते हैं ॥ ४० ॥

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।

जायन्ते दुर्घिवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ ४१ ॥

अन्य शेष (आसुर आदि) नीच विवाहोंमें घातक, झूठे और ब्रह्मधर्मसे वैर करनेवाले पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ४१ ॥

अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्निवर्जयेत् ॥ ४२ ॥

स्त्रियोंके निन्दारहित विवाहोंसे उत्तम संतान और निन्दित स्त्रियोंके विवाहोंसे नीच संतान होती है इसलिये निन्दित विवाहोंको त्याग दे ॥ ४२ ॥

पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते ।

असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्राहकर्मणि ॥ ४३ ॥

जातिकी स्त्रियोंसे हाथपकड़कर विवाह करनेको पाणिग्रहण संस्कार कहा है और अन्य जातिके विवाह कर्ममें (आगेकी) यही रीति जाननी चाहिये ॥ ४३ ॥

शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया ।

वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

अपनेसे ऊंची जाती (ब्राह्मण) के साथ विवाहकरनेमें क्षत्रिया शरको, वैश्यकी कन्या (ब्राह्मण क्षत्रीके साथ विवाहमें) प्रतोद (बैल हांकनेकी चाबुक आदि) को ग्रहण करै और शूद्रकी कन्या (तीनों जातियोंके साथ विवाहमें) बछकी दशा ग्रहण करै ॥ ४४ ॥

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

पर्वचर्जं ब्रजेच्चैनां तद्गतौ रतिकाम्प्रया ॥ ४५ ॥

अपनी स्त्रीमें अनुरक्त मनुष्यको चाहिये कि ऋतुकालमें अवश्य उसके साथ गमन करै और उसीके पास रतिकी इच्छासे पर्वदिन छोड़कर जाय ॥ ४५ ॥

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।

चतुर्भिरतिरतैः सार्धमहोभिः सद्भिर्गर्हितैः ॥ ४६ ॥

सज्जनोंसे निन्दित रुधिर रीखनेके चार दिनों समेत स्त्रियोंके सोलह रात्रि दिन स्वाभाविक ऋतुकाल कहा है ॥ ४६ ॥

तासामाद्याश्रतस्त्रस्तु निन्दितैर्वादशी च या ।

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७ ॥

उनमें भादिकी चार और ग्यारहवीं तथा तेरहवीं रात्रिया निन्दित हैं और शेष १० रात्रियां अच्छी हैं ॥ ४७ ॥

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।

तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ४८ ॥

युग्म (छटी आठवीं आदि) रात्रियोंमें संगम करनेसे पुत्र होते हैं और अयुग्म (पाचवीं सातवीं आदि) रात्रियोंमें संगम करनेसे कन्याएं उत्पन्न होती हैं इसलिये पुत्र चाहनेवालेकी ऋतुके समय स्त्रीकेपास युग्म रात्रियोंमें जाना चाहिये ॥ ४८ ॥

पुमान्पुंसोऽधिके शुके स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।

समेऽपुमान्पुंसियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥ ४९ ॥

पुरुषका वीर्य अधिक हो तो पुरुष होता है, स्त्रीका वीर्य अधिक हो तो स्त्री होती है, समान वीर्य होनेसे नपुंसक होता है अथवा लड़का लड़की जुटे होते हैं, क्षीण तथा थोड़ा वीर्य हो तो विपरीत होता है अर्थात् गर्भही नहीं रहता ॥ ४९ ॥

निन्द्यास्वप्नासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्येव भवति यत्रतत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥

जो मनुष्य निन्दित छ और अन्य (विषम) आठ रात्रियोंमें स्त्रीसर्पणको त्यागता है वह चाहे जिस आश्रममें वास करे ब्रह्मचारी होता है ॥ ५० ॥

न कन्यायाः पिता विद्वान्गृहीयाच्छुल्कमण्वपि ।

शुक्लंशुल्कं हि लोमेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥

बुद्धिमान् पिताको चाहिये कि कन्याका योडासा भी शुल्क (मोल) न ले । लोमसे शुल्क लेनेवाला मनुष्य संतान बेचनेवाला होता है ॥ ५१ ॥

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः ।

नारी धानानि बह्वं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥ ५२ ॥

जो भाई बन्धु भ्रजानसे स्त्रीधनको वा स्त्रियोंकी सवारीको वा बह्वको लेकर जीते हैं वे पापी दुरीगति पाते हैं ॥ ५२ ॥

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत् ।

अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥

कितनेही ऋषियोंने आर्षे विवाहमें गौका जोडा अर्थात् एक गाय एक बैल कन्याके पल्लेमें लेना कहा है सो झूठ ही है क्योंकि इसप्रकार थोड़ा या बहुत लेना निश्चय करके बेचनाही कहा है ॥ ५३ ॥

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः ।

अहर्णं तत्कुमारीणामानुशंस्यं च कैवलम् ॥ ५४ ॥

जातिवाले जिन कन्याओंपर शुल्क नहीं लेते वह बेचना नहीं है वह (न लैना) तो कन्याओंका पूजन और हिसारहित कर्म है अर्थात् दयाका काम है ॥ ५४ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैश्चैस्तथा ।

पूज्या भूपथितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ ५५ ॥

अधिक कल्याण चाहें तो पिता, भाई, पति तथा देवर इनको चाहिये कि वे स्त्रियोंका आदर करें और उनकी आभूषण पहिरावें ॥ ५५ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥

जहाँ स्त्रियोंका आदर किया जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं और जहाँ इनका अनादर होता है वहाँ सब काम निष्फल होते हैं ॥ ५६ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्भिर् सर्षदा ॥ ५७ ॥

जिस कुलमें जामि (स्त्री, पुत्रवधू) स्त्रियाँ शोक करती हैं वह कुल शीघ्रही नष्ट होजाता है और जहाँ यह शोक नहीं करती वह कुल निश्चय करके बढ़ता है ॥ ५७ ॥

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥

जिन स्त्रियोंका आदर नहीं होता है वे जिन कुलोंको शाप देती हैं वे मारणसे मारेजानेके समान चारों ओरसे नाश होजाते हैं ॥ ५८ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥

इसलिये सपति चाहनेवाले मनुष्योंको चाहिये कि आदरके अवसरोंपर और उत्सवोंमें वस्त्राभूषण और भोजनोंसे सदा स्त्रियोंका आदर करे ॥ ५९ ॥

संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥

जिस कुलमें स्त्रीसे पति प्रसन्न रहता है और उसी प्रकार पतिसे स्त्री प्रसन्न रहती है वहाँ निश्चय करके अचल कल्याण होता है ॥ ६० ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥

स्त्री (वस्त्राभूषणोंसे) शृंगार विनाकिये पुरुषको प्रसन्न नहीं करसकती और पुरुषके प्रसन्न न करनेसे (अच्छी) सतान नहीं होती है ॥ ६१ ॥

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥

कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च ।

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥

शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च केवलैः ।

गोमिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥

स्त्रीके शृंगार करनेसे सब कुल सुन्दर लगता है और उसके शृंगार न करनेसे सब फीका लगता है ॥ ६२ ॥ निन्दित (धातुर आदि) विवाहोंसे, (जातिकर्म आदि) क्रियाओंके लोप होनेसे, वेदके न- पढ़नेसे और ब्राह्मणके अपमानसे अच्छे कुल भी नीच होजाते हैं ॥ ६३ ॥ शिल्प अर्थात् बल्लके

बुनने आदि कर्मसे (धनके लैन दैनके) व्यापारसे, केवल छूटा लीकी सतानोंसे, गौ, घोड़े, सवारीके मोल लेने देनेसे, खेतीसे और राजाकी सेवासे अच्छे कुलभी नीच होजाते हैं ॥ ६४ ॥

अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणाम् ।

कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ६५ ॥

जिन (ब्राह्म आदिलोगों) को यह करानेका अधिकार वा योग्यता नहीं है उनके द्वारा यह करानेसे, कर्मोंकी नास्तिकतासे, और वेदमन्त्रसे रहित होनेसे कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ ६५ ॥

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि ।

कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ ६६ ॥

जिनके पास थोडा धन है ऐसे कुल भी वेदाध्ययनसे बढे और उत्तम कुलोंकी गिनतीमें होजाते हैं और बढे यशको पाते हैं ॥ ६६ ॥

चैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृहं कर्म यथाविधि ।

पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ॥ ६७ ॥

गृहस्थीको चाहिये कि गृहस्थका कर्म, पंच यज्ञविधान, नित्यका भोजन और पाक इनको विवाहकी अभिमे विधिपूर्वक करे ॥ ६७ ॥

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेपण्युपस्करः ।

कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन् ॥ ६८ ॥

गृहस्थीके यहां चूल्हा, चखी, बुहारी, ओखली और जलका घटा ये पाच हिंसाके स्थान हैं इनको काममें लानेवाला गृहस्थी पापसे बंधता है ॥ ६८ ॥

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।

पञ्च कृता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ६९ ॥

उन सबोंके निस्तारके लिये बढे २ ऋषियोंने गृहस्थियोंके लिये नित्यके पाच यज्ञ क्रमसे बनाये हैं ॥ ६९ ॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो दैवो बलिर्मातो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ७० ॥

पढना, पढ़ाना, ब्रह्मयज्ञ है (अन्न वा जलसे) तर्पण पितृयज्ञ है, हवन देवयज्ञ है, बलिवैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथिपूजन मनुष्ययज्ञ है ॥ ७० ॥

पञ्चेतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तिः ।

स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोपैर्न लिप्यते ॥ ७१ ॥

जो द्विज इन पंच महायज्ञोंको शक्तिके अनुसार नहीं ख्यागता है वह घरमें रहता हुआ भी नित्यकी हत्याके दोषोंसे लिप्त नहीं होता ॥ ७१ ॥

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

न निर्वपति पञ्चानामुच्छसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥

जो देवता, अतिथि, सेवक, पितर और आत्मा इन पाचोंको अन्न नहीं

देता है वह खास लेता हुआ भी नहीं जीता है अर्थात् वह मरे समान है ॥ ७२ ॥

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च ।

ब्राह्म्यं हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥

अहुतं, हुतं, प्रहुतं, ब्राह्महुतं और प्राशितं यह पांच यज्ञ कहते हैं ॥ ७३ ॥

जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः ।

ब्राह्म्यं हुतं द्विजाश्यार्चा प्राशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥

जप अहुतयज्ञ है, हवन हुतयज्ञ है, प्रहुत भूतयज्ञ है श्रेष्ठ ब्राह्मणों-मेंसे श्रेष्ठका पूजन ब्राह्मयज्ञ है और पितरोंका तर्पण प्राशितयज्ञ है ॥ ७४ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्देवे वैवेह कर्मणि ।

दैवकर्मणि युक्तो हि विभर्तादं चराचरम् ॥ ७५ ॥

इसलिये इस जगतमें द्विजको चाहिये कि वेदपाठमें और देवकर्ममें नित्य लगा रहे क्योंकि देवकर्ममें लगा हुआ मनुष्य इस चराचरको पालता है ॥ ७५ ॥

अन्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥

अग्निमें अच्छे प्रकारसे धी हुई आहुति सूर्यको जाती है, सूर्यसे वृष्टि होती है वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है ॥ ७६ ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ ७७ ॥

जैसे सब प्राणी वायुका सहारा लेकर जीते हैं वैवेही सब आश्रम गृह-स्थाश्रमके आश्रयसे निर्वाह करते हैं ॥ ७७ ॥

यस्माद्भयोऽप्यश्रमिणो ज्ञानेनाग्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥

तीनोंही आश्रमी अर्थात् ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और मिथुन ये गृहस्थोंके द्वारा नित्य विद्या और ब्रह्म आदिसे प्रतिपालित होते हैं इसलिये गृहस्था-श्रमही सबसे बड़ा आश्रम है ॥ ७८ ॥

स संघार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुरां चेष्टेच्छता नित्यं योऽघार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ ७९ ॥

जो (मत्सेयर) अविनाशी स्वर्गकी और जगतमें जीतेजी सुरा भोगनेकी इच्छा करे उनको नित्य यज्ञपूर्वक गृहस्थाश्रम पालन करना चाहिये उन आश्रमको दुर्बल इन्द्रियोंवाले धारण नहीं कर सकें ॥ ७९ ॥

ऋषयः पितरो देवा भूतान्प्रतिधयस्तथा ।

आदासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥ ८० ॥

ऋषि, पितर, देवता, भूत और अग्नि ये कुटुम्बिकोंकी आशा करते हैं इन्हींमें बुद्धिमान् गृहस्थोंकी सहायता करना चाहिये ॥ ८० ॥

स्वाध्यायेनार्चयेत्पर्वान्होमैर्देवान्यथाविधि ।

पितृन्श्राद्धैश्च नृनत्रैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ८१ ॥

वेदपाठसे ऋषियोंको, होमसे देवताओंको, श्राद्धसे पितरोंको, अन्नसे मनुष्योंको और बलिकर्मसे भूतोंको विधिपूर्वक पूजा चाहिये ॥ ८१ ॥

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा ।

पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ ८२ ॥

गृहस्थीको चाहिये कि अन्न आदिसे वा जलसे वा दूध मूल और फलोंसे पितरोंके अर्थ प्रीतिपूर्वक नित्य श्राद्ध करे ॥ ८२ ॥

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्रर्थे पाञ्चयज्ञिके ।

न चैवान्नाशयेत्कञ्चिद्वैश्वदेवं प्रति द्विजम् ॥ ८३ ॥

पंचयज्ञमें पितरोंके निमित्त एकही ब्राह्मणको जिमावे इसमें वैश्वदेवके निमित्त किसी ब्राह्मणकोभी न जिमावै ॥ ८३ ॥

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहोऽग्नौ विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ ८४ ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि घरकी अग्निमें बनाये हुए वैश्वदेवके अन्नका हवन आगे कहे देवताओंके लिये नित्य विधिपूर्वक करे ॥ ८४ ॥

अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः ।

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥

पहिले अग्निके अर्थ, फिर सोमके अर्थ, फिर उन दोनोंके लिये फिर विश्वे देवाओंके लिये और फिर धन्वन्तरके लिये हवन करे ॥ ८५ ॥

कुह्वै चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च ।

सहृद्यावृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥

कुह्व, अनुमति, प्रजापति, द्यावा, पृथिवी और स्विष्टकृत इनके अर्थ खाहा शब्द जोबकर हवन करे ॥ ८६ ॥

एवं सम्यग्घविर्हुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम् ।

इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत् ॥ ८७ ॥

इस प्रकार अच्छीतरह हवन करके अनुचरोंसहित इन्द्र, यम, वरुण और चन्द्रमाके निमित्त सब दिशाओंमें परिक्रमा देकर बलि देना चाहिये ॥ ८७ ॥

मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यपि ।

वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलीलूखले हरेत् ॥ ८८ ॥

मरुतको द्वारदेशमें, जलको जलोंमें, वनस्पतिको मूसल और उद्धखल में बलि देना चाहिये ॥ ८८ ॥

उच्छीर्षके अग्नौ कुर्याद्भद्रकाल्यै च पादतः ।

ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत् ॥ ८९ ॥

“अग्नौ नमः” इसमेंअग्ने वास्तु पुरुषके, बिरपर “भद्रकाल्यै नमः” इससे

गृहस्थीको चाहिये कि सायंकालको सूर्यास्तके समय आये हुए अतिथिको मनें न करै क्योंकि समय वा कुसमय आया हुआ अतिथि गृहस्थीके घर विना भोजनके नहीं रहना चाहिये ॥ १०५ ॥

न वै स्वयं तदश्रीयादतिथिं यन्न भोजयेत् ।

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं चातिथिपूजनम् ॥ १०६ ॥

जिस पदार्थको अतिथिको भोजन न करावे उसे आपसी न खाय, (यदि अतिथि नहीं कर दे तो भले ही खाले) क्योंकि अतिथिका पूजन धन, यश, आयु और स्वर्गको देनेवाला है ॥ १०६ ॥

आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम् ।

उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम् ॥ १०७ ॥

आसन, रहनेकी जगह, पलंग, पीछे गमन, और सेवा इनको (यदि बहुत अतिथि हो तो) उत्तमोंमें उत्तम हीनोंमें हीन और समानवालोंमें समानका आदर करै अर्थात् जिसको जैसा योग्य देखे वैसा करै ॥ १०७ ॥

वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत् ।

तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत् ॥ १०८ ॥

बलि वैश्वदेव हो नुकनेपर जो दूसरा अतिथि आजाय तो उसको भी क्षतिके अनुसार फिर पाक करके अन्न देना चाहिये—बलि न करै ॥ १०८ ॥

न भोजनार्थं स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत् ।

भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥ १०९ ॥

ब्राह्मण, भोजनके लिये अपने कुल और गोत्रको न जतलावे क्योंकि भोजनके लिये कुल और गोत्रकी जतलानेवाले ब्राह्मणकी पण्डित जन उगली हुई वस्तुका खानेवाला कहते हैं ॥ १०९ ॥

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजन्य उच्यते ।

वैश्यशूद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० ॥

ब्राह्मणके घर क्षत्री, वैश्य, शूद्र, मित्र, जातिवाले और गुरु अतिथि नहीं होते (अतिथि अपनेसे ऊंची या समान जातिका होना चाहिये) ॥ ११० ॥

यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत् ।

भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत् ॥ १११ ॥

जो क्षत्री अतिथिधर्मसे आवे तो न्योते हुए ब्राह्मणोंको भोजन करानेके उपरांत उसको भी इच्छापूर्वक जिमा देना चाहिये ॥ १११ ॥

वैश्यशूद्रावपि प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ ।

भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन् ॥ ११२ ॥

और कुटुम्बमें अतिथिधर्मसे आए हुए वैश्यशूद्रोंको भी सेवकोंके साथ दया करके भोजन करा दे ॥ ११२ ॥

इतरानपि सख्यादीन्संप्रीत्या गृहमागतान् ।

सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३ ॥

और बचे प्रेमसे घरपर आएहुए अन्य मित्रोंको भी सत्कारपूर्वक लीके भोजन समय शक्तिके अनुसार भोजन खिला देना चाहिये ॥ ११३ ॥

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः ।

अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेद्विचारयन् ॥ ११४ ॥

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भुङ्क्तेऽविचक्षणः ।

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृध्रैर्जग्धिमात्मनः ॥ ११५ ॥

भुक्तवत्स्वयं विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि ।

भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥ ११६ ॥

नई बहू, लडकी, रोगी और गर्भिणी ली इन सबको अतिथियोंसे पहिलेही विना विचारे भोजन करादे ॥ ११४ ॥ जो मूर्ख इनको विनादिये भोजन कर-लेता है वह मरनेपर कुत्ते और गीधोंसे अपने मक्षणको नहीं जानता अर्थात् उसके शरीरको कुत्ते और गीध खाते हैं ॥ ११५ ॥ जब ब्राह्मण और अपने सेवक भोजन करचुके उसके पीछे बचे खुचे अन्नको ली पुरुष भोजन करें ॥ ११६ ॥

देवानुपीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्च देवताः ।

पूजयित्वा ततः पश्चाद्गृहस्थः शेषभुग्मवेत् ॥ ११७ ॥

गृहस्थको चाहिये कि देवता, ऋषि, मनुष्य और पितृ तथा घरके देवता इनका पूजन करके पीछे बचे हुए अन्नका आप भोजन करें ॥ ११७ ॥

अद्यं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् ।

यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥

जो मनुष्य अपनेही लिये भोजन पकाता है वह केवल पापको खाता है, क्योंकि यज्ञका शेष भोजनही सज्जनोंका अन्न कहा गया है ॥ ११८ ॥

राजर्त्विक्क्यातकगुरुन्प्रियश्वशुरमातुलान् ।

अर्हयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥

राजा, ऋत्विक्, क्वातक, गुरु, प्रिय (जामाता) श्वशुर और मामा इनका वर्षभरके दिन मधुपर्कसे पूजन करना चाहिये ॥ ११९ ॥

राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्युपस्थितौ ।

मधुपर्केण संपूज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य प्रह्वयमन्नं बलिं हरेत् ।

वैश्वदेवं हि नामैतत्सायंप्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥

राजा तथा वेदपाठी यज्ञ कर्ममें भावें तो ये मधुपर्कसे पूजने योग्य हैं परंतु यज्ञके अभावमें पूजे यही रीति है ॥ १२० ॥ ली संध्याको बनाए अन्नसे विनाही मंत्रपढ़े बलि दे दे क्योंकि यह वैश्वदेव नाम कर्म सायंकाल और प्रातःकाल करना कहा गया है ॥ १२१ ॥

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विप्रश्चेन्दुक्षयेऽग्निमान् ।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ १२२ ॥

पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्बुधाः ।

तच्चाभियेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३ ॥

अभिहोत्री ब्राह्मणको चाहिये कि पितृयज्ञको करके महीने २ अमावास्याके दिन "पिण्डान्वाहार्यक" श्राद्ध करे ॥ १२२ ॥ पण्डित लोग पितृयोंके मासिक श्राद्धको अन्वाहार्य कहते हैं वह यज्ञपूर्वक सबसे श्रेष्ठ मांससे करना चाहिये ॥ १२३ ॥

तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः ।

यावन्तश्चैव यैश्चाश्नेस्तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥

उसमें जो उत्तम ब्राह्मण जिमाने योग्य हैं और जो वर्जने योग्य हैं और जिन अन्नसे जिमाने चाहियें तथा गिनतीमें जितने जिमाने चाहियें उन्हें मैं पूर्ण रीतिसे कहूंगा ॥ १२४ ॥

द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा ।

भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥

नामर्घवान् भी देवकार्यमें दो, पितृकार्यमें तीन वा दोनोंकार्योंमें एक एकको जिमावै और विस्तारमें न लगे अर्थात् अधिक ब्राह्मण जिमानेका उद्योग न करे ॥ १२५ ॥

सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदः ।

पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥ १२६ ॥

सत्कार, देश, काल, पवित्रता और सुपात्र ब्राह्मणोंका मिलना इन पांचो बातोंको (ब्राह्मणोंका) विस्तार नाश कर देता है इसलिये अधिक ब्राह्मण जिमानेकी चेष्टा न करे ॥ १२६ ॥

प्रथिता प्रेतकृत्यैषा पित्र्यं नाम विभुक्षये ।

नस्मिन्पुक्तस्यैति नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥ १२७ ॥

अमावास्याके दिन पितरोंके निमित्त किये गए श्राद्धको प्रेतकृत्या कहते हैं और उसमें लगे हुएको लौकिक प्रेतकृत्या नित्य प्राप्त होती है अर्थात् श्राद्ध कर्ताको पुत्रपौत्र धनधान्यादि रूपसे प्राप्त होती है ॥ १२७ ॥

ध्रोत्रियाथैव देयानि हव्यकव्यानि दातुमिः ।

अर्हन्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥ १२८ ॥

दाता लोगोंको चाहिये कि वेदपाठी और पूजने योग्य ब्राह्मणकोही हव्य-कव्य दे अर्थात् उसको देनेसे बड़ा फल होता है ॥ १२८ ॥

एकैकमपि विद्वान्सं दैवे पित्र्ये च भोजयेत् ।

पुण्डरं फलमाप्नोति नामग्नान्प्रान्यद्गुणपि ॥ १२९ ॥

जो देवता और पितर रुद्रमें एक २ भी ब्राह्मणको जिमाता है वह बहुतसे

फलको पाता है और वेदहीन बहुतसोंको जिमानेसेभी कुछ फल नहीं होता ॥ १२९ ॥

दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् ।

तीर्थं तद्व्यकल्याणां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३० ॥

→संपूर्ण वेद पढ़े ब्राह्मणकी दूरसेही परीक्षा करे क्योंकि वह उन हव्य-कव्योंके देनेमें तीर्थरूप अतिथि कहा गया है ॥ १३० ॥

सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्जते ।

एकस्तान्मन्त्रवित्प्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः ॥ १३१ ॥

जहा वेदके न जाननेवाले दसलाख ब्राह्मण भोजन करते हैं वहां वेद-पाठी एकही भोजनादिसे प्रसन्न होकर दस लाख (ब्राह्मणभोजन)का फल देता है ॥ १३१ ॥

ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च ।

न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरैणैव शुद्ध्यतः ॥ १३२ ॥

बड़े ज्ञानी ब्राह्मणको हव्य और कव्यको देना चाहिये क्योंकि रुधिरसे सने हुए हाथ रुधिरसेही शुद्ध नहीं होते अर्थात् मूखोंके भोजनसे उत्पन्न हुए दोषोंको मूखोंके भोजन दूर नहीं करसके उसे तो विद्यावान्ही दूर कर-सका है ॥ १३२ ॥

यावतो प्रसते प्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित् ।

तावतो प्रसते प्रेत्य दीप्तशूलष्टर्थयोगुडान् ॥ १३३ ॥

वेद न जाननेवाला ब्राह्मण हव्यकव्योंके जितने प्राप्त खाता है श्राद्ध करनेवाला मरकर उतनेही गरम त्रिशूल ऋषि (दुधारा घास) और लोह-पिंडोंको खाता है ॥ १३३ ॥

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथाऽपरे ।

तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥

कितनेही ब्राह्मण ज्ञानमें सावधान, कितनेही प्राजापत्य आदि व्रतमें साव-धान, कितनेही यागादि कर्ममें सावधान और कितनेही तप और वेदपाठमें तत्पर होते हैं ॥ १३४ ॥

ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।

हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३५ ॥

कव्योंको तो यत्नपूर्वक ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणोंकोही देना चाहिये और देवता-ओंके लिये जो अन्न है उसे चारोंको यथायोग्य देना चाहिये ॥ १३५ ॥

अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः ।

अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः ॥ १३६ ॥

जिसका पिता वेदपाठी नहो और पुत्र सब वेद जानता हो वा पुत्र वेद-पाठी नहो और पिता वेदमें पारंगत हो ॥ १३६ ॥

ज्यायांसमनयोर्विद्याधस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता ।

मन्त्रसंपूजनार्थं तु सत्कारमितरोऽर्हति ॥ १३७ ॥

तो जिसका पिता वेदपाठी हो उसे इन दोनोंमें बड़ा जानना और दूसरा अर्थात् वेद न जाननेवालेका पुत्र वेदमंत्रोंके पूजनके लिये सत्कारके योग्य है ॥ १३७ ॥

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः ।

नारिं न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्विजम् ॥ १३८ ॥

श्राद्धमें मित्रको न जिमावे, इसकी मित्रता धनसेही निवाहनी चाहिये और जिसको जाने कि यह न वैरी है और न मित्र है उस ब्राह्मणको श्राद्धमें जिमावे ॥ १३८ ॥

यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च ।

तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च ॥ १३९ ॥

जिसके श्राद्ध और हवनमें मित्रके बिना काम नहीं चलता उसके श्राद्ध और हवनका फल परलोकमें नहीं होता ॥ १३९ ॥

यः संगतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः ।

स स्वर्गाक्यवते लोकाच्छ्राद्धमित्रो द्विजाधमः ॥ १४० ॥

जो मनुष्य अज्ञानसे श्राद्धके द्वारा अर्थात् श्राद्धमें मित्रको जिमाकर उससे मित्रता करता है तो वह श्राद्धमें जिमाकर मित्रता करनेवाला द्विजोंमें नीच स्वर्ग लोकसे गिरता है अर्थात् उसे स्वर्ग नहीं मिलता ॥ १४० ॥

संभोजनी सामिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजैः ।

इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवैकवेद्मनि ॥ १४१ ॥

मुनियोंने वह दक्षिणा (दानकी क्रिया) और संभोजनी (ज्योंनार) पिशाचोंके करने योग्य कही है और (मित्रताके लिये होनेके कारण) वह क्रिया एक घरमें रहनेवाली अधी गौके समान इसी लोकमें रहती है अर्थात् परलोकके फलको देनेवाली नहीं होती ॥ १४१ ॥

यथेरिणे बीजमुस्वा न वप्ता लभते फलम् ।

तथाऽनुचे हविर्दत्त्वा न दाता लभते फलम् ॥ १४२ ॥

जैसे बोनेवाला ऊसर भूमिमें बीज बोकर फल नहीं पाता वैसेही दाता वेद हीन ब्राह्मणको हवि देकर फल नहीं पाता ॥ १४२ ॥

दातृन्प्रतिग्रहीतृंश्च कुरुते फलभागिनः ।

विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिवत्प्रेत्य चेह च ॥ १४३ ॥

विधिपूर्वक जो दक्षिणाका दान पण्डितको दिया जाता है वह दाता और लेनेवालोंको परलोक और इस लोकमें फलका भागी करता है ॥ १४३ ॥

कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम् ।

द्विषता हि हविर्मुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥ १४४ ॥

(जो पण्डित ब्राह्मण न मिले तो) श्राद्धमें मित्रका ही इच्छापूर्वक सत्कार

करै परंतु विद्वान् वैरीका न करै क्योंकि जिस हृदिको वैरी भोजन करता है वह परलोकमें निष्फल होता है ॥ १४४ ॥

यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे बह्वचं वेदपारगम् ।

शाखान्तगमथाध्वर्युं छन्दोगं तु समाप्तिकम् ॥ १४५ ॥

श्राद्धमें ऐसे ब्राह्मणको यत्नपूर्वक जिमावे जो बहुतसी ऋचा जानताहो, वेदमें पारगत् हो वा वेदकी शाखाओंका ज्ञाता ऋत्विज हो वा जिसने वेदको समाप्तिक पदा हो ॥ १४५ ॥

एषामन्यतमो यन्य भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः ।

पितृणां तस्य तृप्तिः स्याच्छ्राश्वती साप्तपौरुषी ॥ १४६ ॥

इनमेंसे जिनके यहां कोईसा पूजित ब्राह्मण श्राद्ध वस्तुको खाता है उसके पितृयोंकी तृप्ति सात पीढ़ीतक बराबर होती है ॥ १४६ ॥

एष चै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः ।

अनुकल्पस्त्वयं ह्येयः सदा सञ्जितः ॥ १४७ ॥

हव्य कव्यके देनेमें यह मुख्य विधान कहा गया है और सत्पुरुषोंसे किया गया (जो आगेके श्लोकमें कहेंगे) इसे तो सदा गौण जानना चाहिये ॥ १४७ ॥

मातामहं मातुलं च स्वस्त्रीयं भ्वशुरं गुरुम् ।

दौहित्रं विट्पतिं बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत् ॥ १४८ ॥

नाना, मामा, भानजा, सुसर, गुरु, धेवता, जमाई, बन्धु और ऋत्विक् तथा यज्ञकर्ता इनको जिमावे ॥ १४८ ॥

न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित् ।

पित्र्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९ ॥

धर्मात्माको चाहिये कि देवताके कर्ममें ब्राह्मणको न परखे परंतु जब पितृ-कर्म आवे तब बड़े यत्ने उसकी परीक्षा करै ॥ १४९ ॥

ये स्तेनपतितहृत्वा ये च नास्तिकवृत्तयः ।

तान्हव्यकव्ययोर्विप्राननर्हान्मनुरन्नवीत् ॥ १५० ॥

सतुजीने, चौर, पातकी, नपुंसक और नास्तिकवृत्तिवाले ब्राह्मणोंको देव-पितृकर्मके अयोग्य कहा है ॥ १५० ॥

जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितव्यं तथा ।

याजयन्ति च ये पूर्णांस्तान्श्च श्राद्धे न भोजयेत् ॥ १५१ ॥

ब्रह्मचारी, मूर्ख, दुर्बल, धूर्त और जो बहुतसोंको यह कराने इनकोभी श्राद्धमें नहीं जिमावे ॥ १५१ ॥

चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा ।

विपणेन च जीवन्तो वज्याः स्युर्हव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥

वैद्य, गुजारी, मांसके बेचनेवाले और जो व्यापारसे जीविका करते हों ये भी हव्य कव्य दोनोंमें मर्ने किये गए हैं अर्थात् इनकोभी देव पितृकार्यमें न जिमावे ॥ १५२ ॥

प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः ।

प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताशिर्वाधुंविस्तथा ॥ १५३ ॥

गावका और राजाका नौकर, घुरे नाखून वा काले दातवाला, गुरुके विरुद्ध काम और अग्निहोत्र त्यागनेवाला तथा व्याजखोरमी (भ्राद्रमें वर्जित) हैं ॥ १५३ ॥

यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः ।

ब्रह्माद्विद् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥

झड़ै रोगवाला, ग्वाला, परिवेत्ता, निराकृति, ब्राह्मणका शत्रु, परिवित्ति और गणाभ्यन्तर अर्थात् चन्देके धनको खानेवाला येमी (भ्राद्रमें वर्जित) हैं ॥ १५४ ॥

कुशीलवोऽवकीर्णा च वृपलीपतिरेव च ।

पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥

नाचनेवाला, स्त्रीगमनसे अष्ट ब्रह्मचर्यवाला अथवा प्रथम आश्रममें जो संन्यासी हो गया हो, शूद्रको व्याहनेवाला, धरेचेवाली स्त्रीका पुत्र, काणा और जिसके घरमें स्त्रीका जार रहता हो (येमी भ्राद्रमें वर्जित हैं) ॥ १५५ ॥

भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा ।

शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ १५६ ॥

जो तनख्वा लेकर पढावे, जो मजदूरी देकर पढ़े, शूद्रका शिष्य, शूद्रका गुरु, कटा बोलनेवाला कुंड (असल चापके होते जो जारसे उत्पन्न हो) तथा गोलक (अर्थात् जो असल चापकी मृत्युके पीछे जारसे पैदा हो) येमी (देव-कार्य और भ्राद्रमें वर्जित हैं) ॥ १५६ ॥

अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोर्गुंरोस्तथा ।

ब्राह्मैर्यौनैश्च संबन्धैः संयोगं पतितैर्गतः ॥ १५७ ॥

माता पिता तथा गुरुको बिना कारण त्याग करनेवाला, पठन पाठन आदिसे और विवाहादि सम्बन्धसे पतितोंका संयोग येमी (भ्राद्रमें मने हैं) ॥ १५७ ॥

अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी ।

समुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ १५८ ॥

घरमें आग लगानेवाला, विप देनेवाला, जो ऊँटके बहा भोजन करे, सोम-ल्लाको बेचनेवाला, समुद्रकी राह (तिसी दूगरे द्वीपमें) जानेवाला, मा^७ नैती और झंटी गवाही देनेवाला येमी (भ्राद्रमें मने हैं) ॥ १५८ ॥

पित्रा विवदमानश्च क्रितयो मयपस्तथा ।

पापरोम्यमिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥

पितामें मंग झगडा करनेवाला, धूर्त, नराधी, कोड़ी, जिसे धाप लगा हो, जो पापदामे धर्म बंद, जो रगोरो बेच येमी मने हैं ॥ १५९ ॥

१. २. परिदंष्ट्रा धंष्टु वीरिनि कर्तुं १७१ में जोड़में देना.

२. मयप, देवताको देना अथवा दातेको देना कहते हैं ।

३. मयप १७४ में जोड़में देना.

धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्नेदिधिषूपतिः ।

मित्रशुग्धूतवृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ १६० ॥

धनुष बाण बनानेवाला और अग्नेदिधिषूः पति अर्थात् जो बड़ी बहनके विवाहके पहिले छोटी बहनको व्याहै, जो मित्रसे प्रोह करै, जुबारी, तथा अपने पुत्रका शिष्य ये भी वर्जित हैं ॥ १६० ॥

ग्रामरी गण्डमाली च श्विड्यथो पिशुनस्तथा ।

उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१ ॥

जिसे मिरगी, गंडमाला और श्वेत कुष्ठका रोग हो और जो जुगलखोर, उन्मत्त, अंधा और वेदनिन्दक हो येसी हव्यकव्यमें मने हैं ॥ १६१ ॥

हस्तिगोश्वोष्टृदमको नक्षत्रैर्यश्च जीवति ।

पद्भिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥

जो हाथी, घोडा, ऊंट, बैल इनको सिखाता हो, जो रात्रिसे प्रह बताकर जीविका करताहो, जो पक्षियोंको पाले और जो आयुधविद्याका शिक्षक हो येसी हव्यकव्यमें मने हैं ॥ १६२ ॥

स्रोतसां मेदको यश्च तेषां चावरणे रतः ।

गृहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च ॥ १६३ ॥

झरनोंके रोकने और तोड़नेवाला, घर बनानेकी जीविकावाला, दूत और धोंके (दामलेकर) लगानेवाला येसी वर्जित हैं ॥ १६३ ॥

श्वक्रीडी श्येनजीवी च कन्यादूपक एव च ।

हिंस्रो वृषलवृत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥ १६४ ॥

कुत्तोंका पालनेवाला, बाज पक्षीकी जीविका करनेवाला, कन्याके साथ भोग करनेवाला, हत्यारा, शूद्रका सेवक, बहुतसे यह अथवा विनायकशाति करानेवाला येसी हव्य कव्यमें वर्जित हैं ॥ १६४ ॥

आचारहीनः क्लीवश्च नित्यं याचनकस्तथा ।

कृपिजीवी ऋषिपदी च सद्भिर्निन्दित एव च ॥ १६५ ॥

आचाररहित, नपुंसक (धर्मकार्यमें उत्साह रहित) भिक्षुक, खेतिहार, मोटे पांवकी धीमारीवाला और सज्जन जिसकी निन्दा करते हों येसी वर्जित हैं ॥ १६५ ॥

औरम्भिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा ।

प्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥

भेड़े भैंसोंकी जीविका करनेवाला, विधवा स्त्रीका पति और मुर्दोंको (धनलेकर) उठानेवाला येसी बड़े यत्नसे वर्जित हैं ॥ १६६ ॥

एतान्विगर्हिताचारानपाङ्केयान्द्विजाधमान् ।

द्विजातिप्रचरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

एतान् विगर्हिताचारानपाङ्केयान्द्विजाधमान् ।
द्विजातिप्रचरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

द्विजातियोंमें श्रेष्ठ मनुष्यको चाहिये कि इन तुरे आचारवाले और पंगतिमें बैठानेके अयोग्य ब्राह्मणोंको दोनों (हव्य और कव्य)में विशेष कर वर्ज दे १६७

ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति ।

तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि ह्वयते ॥ १६८ ॥

विनालिखा पढा ब्राह्मण तृणोंकी अग्निके समान है जो बुझजाती है इस लिये उसे हव्य कव्य नहीं देना चाहिये क्योंकि राखमें होम नहीं होता है १६८

अपाङ्कदाने यो दातुर्मवत्यूर्ध्वं फलोदयः ।

दैवे हविषि पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥

जो पुरुष पंक्तिहीन ब्राह्मणको देव पितृ कार्यकी हवि देता है उसे जो फलका उदय परलोकमें होता है उसे संपूर्ण कहता हूं ॥ १६९ ॥

अत्रतैर्यद्विजैर्भुक्तं परिवेत्त्रादिमिस्तथा ।

अपाङ्कैर्यैर्यदन्यैश्च तत्रै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥

वेदके ऋतसे रहित और परिवेत्ता आदि अन्य पंक्तिसे निकाले हुवासे न्वाये गये अन्नको निश्चय कर्के राक्षस खाते हैं अर्थात् श्राद्ध निष्फल होता है ॥ १७० ॥

दारान्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते ।

परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥

जो ब्राह्मण बड़े भाईको (अविवाहित) होते व्याह और अग्निहोत्र करता है वह परिवेत्ता और बड़े भाईको परिविति जानना चाहिये ॥ १७१ ॥

परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते ।

सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥

परिविति, परिवेत्ता और जिस कन्याके सग विवाह किया जाता है वह और कन्यादान देनेवाला और पाचवा विवाह करानेवाला पुरोहित ये सब नरकको जाते हैं ॥ १७२ ॥

आतुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः ।

यमंणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिपूपतिः ॥ १७३ ॥

जो पुरुष वमसे (पुत्र उत्पन्न करनेके लिये) धरेचाकीगई मरे भाईकी स्त्रीमें कामसे मैथुन करता है (अर्थात् नियोग धर्म जो आगे कहेंगे उसके विरुद्ध करता है) उसे दिधिपूपति जानना चाहिये (यहनी श्राद्धमें मने है) ॥ १७३ ॥

परदारेषु जायेते द्वी सुतां कुण्डगोलकी ।

पर्या जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोलकः ॥ १७४ ॥

परार्द स्त्रीने दो पुत्र उत्पन्न होते हैं कुंड और गोलक, पतिके जीते हुए कुंड और पतिके मग्नेपर गोलक होना है ॥ १७४ ॥

तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च ।

दक्षानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम् ॥ १७५ ॥

पराईं स्त्रीमें उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी अर्थात् कुंड और गोलक दाताओंके दिये हुए हव्यकव्योंका परलोकमें और इस लोकमें नाश करते हैं इसलिये हैं हव्य कव्य न दे ॥ १७५ ॥

अपाङ्गयो यावतः पाङ्गधान्भुञ्जानाननुपश्यति ।

तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्नोति वालिशः ॥ १७६ ॥

जो पंक्ति अयोग्य ब्राह्मण है वह जितने पंक्तियोग्य ब्राह्मणोंको भोजन करते हुए देखता है उतनेहीका फल मूर्खदाता स्वर्गमें नहीं पाता है ॥ १७६ ॥

वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः पट्टेः श्वित्री शतस्य तु ।

पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम् ॥ १७७ ॥

अधा देखकर नर्वैके, काणा साठके, श्वेतकुटी सौके और राजरोगवाला हजार ब्राह्मणोंके (जिमानेवाले) दाताके फलको नाश करताहै ॥ १७७ ॥

यावतः संस्पृशेद्द्वैत्राह्मणाञ्छूद्रयाजकः ।

तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥ १७८ ॥

शूद्रको यह करानेवाला जितने ब्राह्मणोंको अंगोंसे छूता है उतनेही ब्राह्मणोंके दानका पूर्ण फल देनेवालेको नहीं होता है ॥ १७८ ॥

वेदविद्यापि विप्रोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिग्रहम् ।

विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमिचाम्भसि ॥ १७९ ॥

वेदपाठी ब्राह्मणभी इस (शूद्रके यहा यह करानेवाले) का लोभसे दान ग्रहण करके जलमें मिट्टीके कन्ने पात्रके समान शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ १७९ ॥

सोमविक्रयिणे विष्ठा मिपजे पूयशोणितम् ।

नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वार्धुपौ ॥ १८० ॥

सोमलताके बेचनेवालेको दियागया दान विष्ठा, हकीमको दियागया दान राद और लोह, पुजारीको दिया दान निष्फल और व्याजखोरको दिया दान शूया होता है ॥ १८० ॥

यस्य वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत् ।

भस्मनीच इतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ॥ १८१ ॥

व्यापार अर्थात् लैनदेन करनेवालेको दियागया दान न इस लोकके लिये और न परलोकके लिये होता है और उसी तरह पुनर्भू (घरेचेकी) स्त्रीसे उत्पन्न द्विजको दिया दानभी राखमें होमे हुए हव्यके समान (निष्फल) होता है ॥ १८१ ॥

इतरेषु त्वपाङ्गेषु यथोद्दिष्टेष्वसाधुषु ।

मेदोसृक्ष्णांसमजास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ १८२ ॥

पंक्तिमें बैठानेके अयोग्य और जैसे कह आये हैं ऐसे अन्य असाधुओंको जो अब दिया जाता है उसे पण्डितोंने मेदा, लोहू, मास, चरबी और हाइरूप कहा है अर्थात् इनको दान देनेवाले मेदा आदिके खानेवालोंकी योनिमें होने है ॥ १८२ ॥

अपाङ्गुथोपहता पङ्क्तिः पाव्यते यैर्द्विजोत्तमैः ।

तान्निबोधत कात्कर्येन द्विजाभ्यान्पङ्क्तिपावनाम् ॥ १८३ ॥

जो उत्तम द्विज, अपंगि वालोंसे नाशकी हुई पंक्तिको पवित्र करते हैं उन पंक्तिको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ द्विजोंको पूर्ण रीतिसे सुनों ॥ १८३ ॥

अध्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च ।

श्रोत्रियान्वयजाश्चैव विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ॥ १८४ ॥

जो सब वेदोंमें और उनके सब अंगोंमें मुख्य और वेद पाठियोंके वंशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं उनकोही पंक्तिपावन जानना चाहिये ॥ १८४ ॥

त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपर्णः षडङ्गवित् ।

ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥

त्रिनाचिकेत, अग्निहोत्री, त्रिसुपर्ण, छ अंगोंका जाननेवाला, ब्राह्मणविवाहसे उत्पन्न और ज्येष्ठ सामोंका गानेवाला (ये पंक्तिपावन ब्राह्मण हैं) ॥ १८५ ॥

वेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः ।

शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥ १८६ ॥

वेदके अर्थका ज्ञाता तथा कहनेवाला, ब्रह्मचारी, हजार (गौलों) का दाता, सौवर्षकी आयुवाला इनको भी पंक्तिपावन ब्राह्मण जानना चाहिये ॥ १८६ ॥

पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते ।

निमन्त्रयेत त्र्यचरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान् ॥ १८७ ॥

श्राद्ध कर्मके उपस्थित होनेपर कमसे कम तीन जैसे कहे हैं वैसे ब्राह्मणोंको पहिले दिन वा उसी दिन अच्छी तरह न्यौता दे ॥ १८७ ॥

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा ।

न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत् ॥ १८८ ॥

पितृश्राद्धमें न्यौता हुआ द्विज और जिसके यहा श्राद्ध हो वह सदा जितेन्द्री रहे अर्थात् लीसग न करे और (नियतसे अधिक) वेद न पढ़े ॥ १८८ ॥

निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान् ।

वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥

१. अध्वर्यु वेदके एक भागको जो पढ़े और उस भागके पढ़नेमें जो व्रत करना पड़ता है उस व्रतको जो करे उसे त्रिणाचिकेत कहते हैं ।

२. ऋचोंके एक वेद भागको जो पढ़े और उसके पढ़नेमें जो व्रत होता है उसे जो करे वह त्रिसुपर्ण है ।

पितर, ऐसे न्यौते हुए ब्राह्मणोंके पास आते हैं और वायुके समान पीछे २ जाते हैं तथा वैदेहुओंके पास बैठते हैं ॥ १८९ ॥

केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः ।

कथंचिदप्यतिक्रामन्पापः सूकरतां व्रजेत् ॥ १९० ॥

आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृपल्या सह मोदते ।

दातुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

.शास्त्रके अनुसार न्यौता गया उत्तम ब्राह्मण यदि किसी प्रकार भी देव और पितृकर्ममें अन्यथा आचरण करे अर्थात् भोजन न करे तो वह पापी शूकर-योनि पाता है ॥ १९० ॥ श्राद्धमें न्यौता हुआ ब्राह्मण जो शूद्रा स्त्रीके संग भोग करता है वह दाताका जो कुछ पाप है उस सबको पाता है (और जो दाता पापी न हो तो ब्राह्मण पापी होता है) ॥ १९१ ॥

अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः ।

न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥

पितर जन, क्रोधरहित, पवित्रतामें तत्पर, निम्न ब्रह्मचारी, शस्त्ररहित, महाभाग और अनादिसे देवतारूप हैं (इसलिये श्राद्धमें भोजन करनेवाले और श्राद्धकरनेवालेको इसी प्रकार होना चाहिये) ॥ १९२ ॥

यस्माद्दुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः ।

ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमैस्तान्निवोधत ॥ १९३ ॥

जिससे इन सबकी उत्पत्ति है और जो पितर हैं और जिन नियमोंसे उनकी उत्पत्ति होती है उनकी संपूर्ण रीति सुनों ॥ १९३ ॥

मनोहैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।

तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १९४ ॥

ब्रह्माके पुत्र मनु हैं और उनके जो मरीचि आदि पुत्र हैं उन सब ऋषियोंके पुत्र (सोमप आदि) पितृगण कहे गए हैं ॥ १९४ ॥

विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ।

अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५ ॥

विराटके पुत्र सोमसद साध्योंके पितर और लोकमें विख्यात मरीचिके पुत्र अग्निष्वात्त देवताओंके पितर कहे गए हैं ॥ १९५ ॥

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षंसाम् ।

सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोऽत्रिजाः ॥ १९६ ॥

सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः ।

वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ १९७ ॥ ।

अत्रिके पुत्र बर्हिषद हैं यह देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण और किन्नर इनके पितर कहे गए हैं ॥ १९६ ॥ और ब्राह्मणोंके सोमपा, क्षत्रियोंके हविर्भुज, वैद्योंके आज्यप और शूद्रोंके सुकाली पितर हैं ॥ १९७ ॥

सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः ।
 पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८ ॥
 अग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्वर्हिषदस्तथा ।
 अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् ॥ १९९ ॥
 य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः ।
 तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २०० ॥

सोमपा ऋगुके पुत्र, हविर्मेव अंगिराके पुत्र, आज्यपा पुलस्त्यके पुत्र और सुकालि वसिष्ठके पुत्र हैं ॥ १९८ ॥ अनग्निदग्ध, अग्निदग्ध काव्य, बर्हिषद तथा अग्निष्वात्ता और सौम्य ये ब्राह्मणोंकेही पितर कहे गए हैं ॥ १९९ ॥ ये जो पितरोंके मुख्य गण कहे गए हैं उनके भी इस जगतमें अनगिनती पुत्र पौत्र जानने चाहियें ॥ २०० ॥

ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।
 देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ २०१ ॥

(मरीचि आदि) ऋषियोंसे पितर उत्पन्न हुए हैं, पितरोंसे देवता और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं और देवताओंसे चराचर सपूर्ण जगत् क्रम २ से उत्पन्न हुआ है ॥ २०१ ॥

राजतैर्माजनैरेपामथो वा राजतान्वितैः ।

चार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥ २०२ ॥

इनको चादीके पात्रोंसे वा चादी कर्के युक्त (ताबेके) पात्रोंसे श्रद्धापूर्वक दिया हुआ जल अक्षय फलका देनेवाला कहा गया है ॥ २०२ ॥

देवकार्योद्भिजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते ।

दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥ २०३ ॥

द्विजातियोंको देवकार्यसे पितरकार्य अधिक कहा है क्योंकि देवकार्य पहिले होनेसे पितृकार्यका पूर्ण करनेवाला कहा गया है ॥ २०३ ॥

तेपामारक्षभृतं तु पूर्वं दैवं नियोजयेत् ।

रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥ २०४ ॥

पहिले पितरोंकी रक्षा करनेवाला दैव श्राद्ध करै क्योंकि रक्षारहित राक्षस लोप करदेते हैं ॥ २०४ ॥

दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् ।

पित्राद्यन्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नश्यति सान्त्वयः ॥ २०५ ॥

इसीलिये श्राद्धके आदिमें (आवाहन और अंतमें विसर्जन) देवकार्य होता है यह पितृश्राद्धके अंतमें न करे नहीं तो करनेवाला मनुष्य वंशसहित नष्ट हो जाता है ॥ २०५ ॥

शुचिं देशं विविकं च गोमयेनोपलेपयेत् ।

दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

पवित्र और एकत स्थानको गोबरसे लिपावै और दक्षिणकी ओर बह
यत्नसे ढलवाँ करावै ॥ २०६ ॥

अचकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि ।

विविकेपु च तुप्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥

स्वभावसे शुद्ध वन आदि देशोंमें, नदीके तीरपर और एकत स्थानोंमें दिये
हुए श्राद्धसे पितर सदा सतुष्ट होते हैं ॥ २०७ ॥

आसनेषूपकृतेषु बर्हिष्मत्सु पृथक्पृथक् ।

उपस्पृष्टोदकान्सम्यग्विप्रास्तानुपवेशयेत् ॥ २०८ ॥

पूर्वोंके देशोंमें अलग २ रखके हुए कुशाके आसनोपर ज्ञान और आचमन
किये ब्राह्मणोंको अच्छी तरह बैठावै ॥ २०८ ॥

उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वज्जुगुप्सितान् ।

गन्धमाल्यैः सुरभिभिरर्चयेद्देवपूर्वकम् ॥ २०९ ॥

उन निन्दारहित ब्राह्मणोंको बैठाकर सुगन्धित चंदन और (पुष्प)मालाओंसे
पहिले देवताओंके ब्राह्मणोंको पूजै (फिर सबका पूजन करै) ॥ २०९ ॥

तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि ।

अग्नौ कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणोः ब्राह्मणैः सह ॥ २१० ॥

ब्राह्मण, उन ब्राह्मणोंके अर्ध जलमें पवित्रियोंसहित तिलोंको मिलाकर
ब्राह्मणोंकी आज्ञासे अग्निमें होम करै ॥ २१० ॥

अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः ।

हविर्दानेन विधिवत्पश्चात्संतर्पयेत्पितॄन् ॥ २११ ॥

पहिले अग्नि, सोम और यमको विधिपूर्वक तृप्ति करके अर्थात् उनकी
हवि देकर पीछे अन्न आदिके दानसे पितरोंको तृप्ति करै ॥ २११ ॥

अभ्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत् ।

यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैर्मन्त्रदर्शिमिष्यते ॥ २१२ ॥

अग्नि न हो तो ब्राह्मणोंके हाथमें आहुति दे क्योंकि जो अग्नि है वही
ब्राह्मण है ऐसा वेदज्ञाता ब्राह्मणोंने कहा है ॥ २१२ ॥

अक्रोधनान्मुप्रसादान्चदन्त्येतान्पुरातनान् ।

लोकस्याप्यायने युक्ताञ्छ्राद्धदेवान्द्विजोत्तमान् ॥ २१३ ॥

अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम् ।

अपसव्येन हस्तेन निर्वपेद्बुदकं भुवि ॥ २१४ ॥

क्रोधरहित, प्रसन्नमुख, पुराने और लोकको तृप्त करनेमें लगेहुए उत्तम
द्विजोंको श्राद्धका देवता कहते हैं ॥ २१३ ॥ अग्नौकरण होम करनेके क्रमको,
दक्षिणकी ओर धरकर फिर अपसव्य होकर दाहिने हाथसे (जहा पिंड दो
उस) भूमिपर जल छिस्क दे ॥ २१४ ॥

अस्तु तस्माद्दविःशेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः ।

औदकेनैव विधिना निर्वपेद्दक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥

अर्थात् बचे हुए (उस अग्नि होमके) हविके तीन पिंड बनाकर दक्षिणकी ओर मुख करके सावधानीसे जल देनेकी विधिसे (कुशाओंके ऊपर) वह तीन पिंड दे ॥ २१५ ॥

न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् ।

तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम् ॥ २१६ ॥

फिर सावधान होकर (खण्डमें कही हुई विधिसे) उन कुशाओंपर उन पिंडोंको विधिपूर्वक देकर उनही कुशाओंकी जड़पर लेकर भोक्ताओंके लिये अपने हाथोंका मार्जन करै ॥ २१६ ॥

आचम्योदकपरावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून् ।

षड्भक्तंश्च नमस्कुर्यात्पितृनेच च मन्त्रवित् ॥ २१७ ॥

मंत्रोंका जाननेवाला आचमन करके और उत्तरकी ओर मुख करके तथा धीरे २ तीन बार प्राणायाम करके (वसत आदि) छठों ऋतुओंको और (“नमो व पितरो रसाय ” इस मन्त्रसे) पितरोंको नमस्कार करै ॥ २१७ ॥

उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः ।

अवजिघ्रेच्च तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥

(जल पात्रमेंके) बचे हुए जलको एक पिंडके पास फिर धीरे २ छोड़े और सावधान होकर जिस प्रकार क्रमसे धरे थे (वही प्रकार उनमेंसे एक २) उठाकर उन पिंडोंको सूषै ॥ २१८ ॥

पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः ।

तेनैव विप्रानासीनान्विधिचत्पूर्वमाशयेत् ॥ २१९ ॥

और उन पिंडोंमेंसे थोड़ासा भाग लेकर क्रमसे उनही धंटे हुए ब्राह्मणोंको भोजनसे पहिले विधिपूर्वक भक्षण करादे ॥ २१९ ॥

द्वियमाणे तु पितरि पूर्वेणामेव निर्वपेत् ।

विप्रवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत् ॥ २२० ॥

पिता यदि जीता हो तो पूरे अर्थात् दादा पददादाओंकाही श्राद्ध करे या श्राद्धमें अपने पिताको भी ब्राह्मणोंके गमान भोजन करावे ॥ २२० ॥

पिता यस्य निवृत्तः स्यात्तद्विद्यापि पितामहः ।

पितुः स नाम संकीर्त्य कीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥ २२१ ॥

जिसका पिता मरगया हो और दादा जीता हो यदि पिताका नाम लेकर पददादाको पिंड दे ॥ २२१ ॥

पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्यग्रवीन्मनुः ।

कामं वा समनुज्ञानः स्वयमेव समाचरेत् ॥ २२२ ॥

अपना दादाही उस श्राद्धके अन्नको भोजन करे यह मनुजीनें कहा है अथवा (पितामहकी) आज्ञा पाकर पौत्रही अपनी इच्छानुसार भाग खाके करै ॥ २२२ ॥

तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् ।

तत्पिण्डान्नं प्रयच्छेत स्वधैपामस्त्विति ध्रुवन् ॥ २२३ ॥

उन (ब्राह्मणों) के हाथोंमें पवित्रों सहित तिलजल देकर (पिता आदिको) स्नान हो यह कहता हुआ उस पिण्डके आगेके भागको (पिता आदि ३ ब्राह्मणों) दे ॥ २२३ ॥

पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम् ।

विप्रान्तिके पितृन्ध्यायश्शनकैरुपनिक्षिपेत् ॥ २२४ ॥

फिर अन्नके भरेहुए पात्रको हाथोंमें लेकर पितृओंका ध्यान करता हुआ ब्राह्मणोंके पास धीरे २ धरे ॥ २२४ ॥

उभयोर्हस्तयोर्भुक्तं यदन्नमुपनीयते ।

तद्विप्रलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥

दोनों हाथोंसे छुटाहुआ अर्थात् एक हाथसे लायाहुआ जो अन्न (ब्राह्मणोंके पास) लाया जाता है उसे दुष्ट चित्तवाले राक्षस जल्दीसे छीन लेते हैं (इसलिये एक हाथसे कभी न लावे ॥ २२५ ॥

गुणांश्च सूपशोकाद्यान्पयो दधि घृतं मधु ।

विन्यसेत्प्रयतः पूर्वं भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥

पहिले पवित्र और सावधान होकर दाल, तरकारी आदि व्यजनोंको और दूध, दही, घी, शहदको धरती परही रखदे ॥ २२६ ॥

भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च ।

हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥ २२७ ॥

भक्ष्य (अर्थात् लड्डु आदि) और अनेक प्रकारके भोज्य (खीर आदि) तथा मूल (जिमीकंद) फल और चित्त प्रसन्न करनेवाले मांस और सुगंधित जल (पृथ्वीपर) धरे ॥ २२७ ॥

उपनीय तु तत्सर्वं शनकैः सुसमासहितः ।

परिवेषयेत् प्रयतो गुणान्सर्वांन्प्रचोदयन् ॥ २२८ ॥

फिर सावधान होकर उस सपूर्णको धीरे २ पास लाकर सबके गुणोंको कहता हुआ परोसे ॥ २२८ ॥

नास्त्रमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् ।

न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतद्वधूनयेत् ॥ २२९ ॥

कभी भी आँसू न टपकावे, न क्रोध करे, न झूठ बोले, न पैरसे अन्नको छुए और न इस अन्नको उछालकर पात्रमें धरे ॥ २२९ ॥

अस्त्रं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननृतं शुनः ।

पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम् ॥ २३० ॥

आँसू प्रेतोंको—कोप शत्रुओंको—झूठ कृत्तोंको—पैरसे स्पर्श करना राक्षसोंको और उछालना पापियोंको पहुंचाता है ॥ २३० ॥

यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्तद्दद्यादमत्सरः ।

ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्यात्पितृणामेतदीप्सितम् ॥ २३१ ॥

ब्राह्मणोंको जो जो अच्छा लगे उसे द्वेपरहित होकर दे और परमात्माके निरूपणकी कथा कहै, पितरोको यह अच्छा लगताहै ॥ २३१ ॥

स्वाध्यायं श्रावयेत्पिप्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥ २३२ ॥

श्राद्धमें वेद, धर्मशास्त्र, व्याख्यान, (सोपणं मैत्रावरुण आदि), इतिहास, पुराण और खिल (अर्थात् श्रीसूक्त शिवसकल्प आदि) सुनावै ॥ २३२ ॥

हृष्येद्ब्राह्मणांस्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः ।

अन्नाद्येनासकृच्चैतान्गुणैश्च परिचोदयेत् ॥ २३३ ॥

प्रसन्न मनसे ब्राह्मणोंको प्रसन्न करै और धीरे २ उनके भोजन करावे और इन (ब्राह्मणों) को अन्न खीर आदि से उनके गुणोंको चारवार कहकर (भोजनकी) प्रेरणा करै ॥ २३३ ॥

व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत् ।

कुतपं चासने दद्यात्तिलैश्च विकिरेन्महीम् ॥ २३४ ॥

वेवता ब्रह्मचारी हो तो भी उसे श्राद्ध में यत्नसे भोजन करावे और आमनकी जगह नैपाली कंचल दे और तिलोंको पृथ्वीपर बिरौरे ॥ २३४ ॥

प्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ।

प्रीणि चात्र प्रजंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ॥ २३५ ॥

वेवता, नैपाली कंचल और तिल ये तीन श्राद्धमें पवित्र हैं और श्राद्धमें पवित्रता रगना तथा क्रोध और शीघ्रताका त्याग करना इन तीन बातोंकी (मनुआदि ऋषि) वचन करते हैं ॥ २३५ ॥

अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्भृजीरंस्ते च चाग्यताः ।

न च द्विजातयो ब्रह्मर्षीणां पृष्टा हविर्गुणान् ॥ २३६ ॥

यद्यन्न गरम हो उष्ण (वे ब्राह्मण) मान होकर भोजन करे और दागाने पृष्ठने पर भी ब्राह्मण, अन्नके गुणोंको न करे ॥ २३६ ॥

याद्यदुष्णं भयत्यन्नं यावदश्रन्ति चाग्यताः ।

पितरस्तावदश्रन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥

जबतक अन्न गरम होता है जबतक ब्राह्मण मान होकर भोजन करते हैं तबतक अन्नके गुण नहीं बने तबतक पितर माते हैं ॥ २३७ ॥

यद्येष्टितमिगं भुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते दक्षिणामुखः ।

श्लोषानत्कश्च यद्युङ्क्ते तद्भुङ्क्ते श्रान्तिं भुङ्क्ते ॥ २३८ ॥

दक्षिणपर तम स्पर्श कर, दक्षिणसे भुजक करने और दक्षिण मुख जो श्लोषा है उसके भोजन कर (अन्न आदि) को निम्न करके श्राद्ध माता है (इतिहास में भोजन करे) ॥ २३८ ॥

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च ।

रजस्वला च पण्डश्च नेक्षेरन्नश्चतो द्विजान् ॥ २३९ ॥

चाडाल, शूकर, मुरगा, कुत्ता, रजस्वला और नपुंसक ये खाते हुए ब्राह्मणोंको न देखें ॥ २३९ ॥

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते ।

द्वैवे कर्मणि पित्र्ये वा तद्रच्छत्ययथातथम् ॥ २४० ॥

हवनमें (गौ आदिके) दानमें, ब्रह्मभोजनमें, देवकर्ममें, वा श्राद्धमें जिस वस्तुको ये देखते हैं वह बुर्या जाती है ॥ २४० ॥

प्राणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः ।

श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शनाचरचर्णजः ॥ २४१ ॥

शूकर मूँधनेसे, मुर्गा पक्षोंकी वायुसे, कुत्ता दृष्टिके फेंकनेसे और श्वद स्पर्शसे श्राद्धकी वस्तुका नाश करता है (इसलिये ऐसी जगह श्राद्ध न करै) ॥ २४१ ॥

खज्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेप्योपि वा भवेत् ।

हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः ॥ २४२ ॥

जो ब्राह्मण लँगडा वा काना वा देनेवालेका सेवक वा छोटे बड़े अगवाला हो, उसे भी निकाल दे ॥ २४२ ॥

ब्राह्मणं मिश्रुकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम् ।

ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥

भोजनके लिये आए हुए ब्राह्मणका वा मिखारीका (श्राद्धमें आए हुए सुपात्र) ब्राह्मणोंसे आज्ञा पाकर शक्तिके अनुसार (भोजन आदिसे) आदर करै ॥ २४३ ॥

सार्ववर्णिकमन्नाद्यं सन्नीयाह्लाद्य चारिणा ।

समुत्सृजेद्भुक्तवतामग्रतो विकिरन्भुवि ॥ २४४ ॥

सब प्रकारके अन्न आदिको सानकर और पानीसे गीला करके भोजन कर चुके हुए ब्राह्मणोंको सामने भूमिमें कुशाओंपर बखेरता हुआ गेरै ॥ २४४ ॥

असंस्कृतप्रमीतानां त्याग्निनां कुलयोषिताम् ।

उच्छिष्टं भागधेयं स्याद्दर्भेषु विकिरश्च यः ॥ २४५ ॥

जो कुशाओंपर बखेरा गया है वह जूँटा अन्न, बिना अग्नि संस्कारके मरे ए बालक तथा कुलकी स्त्रियोंको त्याग्नेवालोंका भाग होता है ॥ २४५ ॥

उच्छेपणं भूमिगतमजिह्वास्याशठस्य च ।

दासवर्गस्य तत्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

श्राद्धमें जो धरतीपर पड़ा हुआ जूँटा अन्न है वह सीधे और अकुटिल दास वर्गका भाग कहा है ॥ २४६ ॥

आसपिण्डक्रियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य तु ।

अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ २४७ ॥

सर्पिणीकरण पर्यन्त भरे हुए द्विजातिका श्राद्ध वैश्वदेवरहित करना चाहिये उसमें (एक ब्राह्मण) एक पिंड (और एक पवित्रेय) होता है ॥ २४७ ॥

सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः ।

अनयैवावृता कार्ये पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८ ॥

धर्मसे इसकी सर्पिणी क्रिया हो चुकनेपर पुत्रोंको चाहिये कि इसी (पवित्रेय) की रीतिसे पिंडदान करें ॥ २४८ ॥

श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति ।

स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥ २४९ ॥

श्राद्धभुग्बृषलीतल्पं तदहुर्योऽधिगच्छति ।

तस्याः पुरीपे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥

जो मनुष्य श्राद्धमें जीमकर झूठा भोजन श्राद्धको देता है वह मूर्ख नीचा शिर किये हुए कालसूत्र नाम नरकको जाता है ॥ २४९ ॥ उस दिन जो श्राद्धमें भोजन करनेवाला श्राद्धके साथ रमण करता है उसके पितर उस स्त्रीकी विधामे एक मासतक सोते हैं ॥ २५० ॥

पृष्ठा स्वदितमित्येवं वृषानाचामयेत्ततः ।

आचान्तांश्चानुजानीयादमितो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥

“अछी तरह भोजन किया” पूछ कर और उन ब्राह्मणोंके वृत्त होने पर आचमन करावे और जब वे आचमन करचुके तब उन आचमन कियोंको यहां रहिये वा अपने घर आराम करिये यह जतलावे ॥ २५१ ॥

स्वधास्त्वित्येव तं ब्रूयुर्ब्राह्मणास्तदनन्तरम् ।

स्वधाकारः पराहाशीः सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २५२ ॥

इसके पीछे उनसे ब्राह्मण यह कहें कि “स्वधाहो” अर्थात् पितारोंका श्राद्ध प्राप्त हो क्योंकि सब पितृकर्मोंमें स्वधा कहना ही बड़ा भारी आशीर्वाद है ॥ २५२ ॥

ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत् ।

यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुष्णातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥

फिर उन भोजन किये हुआको बचा हुआ अन्न निवेदन करें फिर यजमान ब्राह्मणोंसे आज्ञा पाकर जैसे वे कहें (कि इस बचे हुए अन्नका यह करो) वैसे करें ॥ २५३ ॥

पिड्ये स्वदितमित्येव चाच्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम् ।

संपन्नमित्यभ्युदये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥

पितर (मातापिताके एकोद्दिष्ट) श्राद्धमें ब्राह्मणोंकी वृत्तिके लिये स्वदित (अर्थात् अच्छी तरह भोजन किया) यह कहें । गोष्ठ श्राद्धमें सुश्रुत, अभ्युदय (उद्भ्राद्ध) में संपन्न और दैव श्राद्धमें रुचित यह कहना चाहिये ॥ २५४ ॥

अपरारहस्तथा दर्मा वास्तुसंपादनं तिलाः ।

सृष्टिर्मृष्टिर्हिजाश्राद्ध्याः श्राद्धकर्मसु संपदः ॥ २५५ ॥

दो प्रदर पीछेया रामय, कुशा, भरकी राकार, तिल, बदर निस्तरे दान,

सफाईसे अन्न बनाना और श्रेष्ठ ब्राह्मण ये श्राद्ध कर्ममें संपत्तिया हैं अर्थात् इनसे श्राद्ध पूरा होता है ॥ २५५ ॥

दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्नो हविष्याणि च सर्वशः ।

पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ २५६ ॥

कुशा, मंत्र, पूर्वाह्न काल, सब हविष्य और जो पहिले पवित्र कह आए ये श्र (देव कर्म) की संपत्ति जाननी चाहियें ॥ २५६ ॥

मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् ।

अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥

मुनियोंके अन्न (अर्थात् नीवार आदि) दूध, सोमलताका रस, दुर्गन्ध-रहित मास और सेंधानोन ये वस्तु खभावसेही हव्य कही गई हैं ॥ २५७ ॥

विसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः ।

दक्षिणां दिशमाकाह्नन्याचेतेमान्वरान्पितृन् ॥ २५८ ॥

उन ब्राह्मणोंको विदाकरके एकाग्र चित्त मौन तथा शुद्ध होकर दक्षिण दिशाकी ओर याचना हुआ पितृयोंसे इन वरोंको मागे ॥ २५८ ॥

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च ।

श्रद्धा च नो मान्यगमद्वद्भुदेयं च नोऽस्त्विति ॥ २५९ ॥

हमारे वंशमें दाता, वेद और संतान इनकी वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा न जाय, और हमारे यहा देनेके लिये बहुत हो ॥ २५९ ॥

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदन्तरम् ।

गां विप्रमज्जमग्निं वा प्राशयेदप्सु वाक्षिपेत् ॥ २६० ॥

इस प्रकार पिंडोंका दानकरके उन पिंडोंको गाय वा ब्राह्मण वा बकरा इनको खवादे अथवा अग्नि वा जलमें फेंकदे ॥ २६० ॥

पिण्डनिर्वपणं कैचित्पुरस्तादेव कुर्वते ।

वयोमिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा ॥ २६१ ॥

कितनेही आचार्य (ब्राह्मणभोजनके) पीछे पिंडदान करते हैं कितनेही पक्षि-योंको खिलाते हैं वा अग्नि या जलमें फेंक देते हैं (यहां अपनी इच्छानुसार विकल्प जानना) ॥ २६१ ॥

पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा ।

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्सुतार्थिनी ॥ २६२ ॥

पितरोंके पूजनेमें लगी हुई, अच्छे पुत्रको चाहनेवाली ऐसी पतिव्रता धर्म-पत्नी उनमें से बीचके पिंडको भोजन करे (और उस समय यह मंत्र पढ़े "सम्य-गाधत् पितरो गर्भम्") ॥ २६२ ॥

आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम् ।

धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥

वह पत्नी वधी आयुवाला, यश और बुद्धिसे युक्त, धनवान्, संततिवाला सतोगुणी और धर्मात्मा पुत्रको जनती है ॥ २६३ ॥

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत् ।

ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानपि भोजयेत् ॥ २६४ ॥

दोनों हाथ धोकर और आचमन करके वह अन्न जातिवालोंको भोजन करादे और सत्कारपूर्वक जातिवालोंको देकर भाई बन्धुओंको भी भोजन करावे ॥ २६४ ॥

उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा विसर्जिताः ।

ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥

जबतक ब्राह्मण विदा किये जाय तबतक वह जूठन पची रहै फिर गृह बलि (वैश्वदेव) करै यह धर्म लिख्य किया गया है ॥ २६५ ॥

हविर्यच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्प्यते ।

पितृभ्यो विधिवहत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥

पितृधोंकी विधिपूर्वक दी गई जो हवि बहुतकाल और अनंत वृत्तिके लिये होती है उसे सपूर्ण रीति से कहता हूँ ॥ २६६ ॥

तिलैर्ब्राह्मिण्यवैर्माषैरङ्गिर्मूलफलेन वा ।

दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम् ॥ २६७ ॥

मनुष्योंके पितर तिल, चावल, जौ, कालेबन्ध, जल वा मूल फल इनमेंसे किसीके विधिपूर्वक देनेसे एकमास तृप्त होते हैं ॥ २६७ ॥

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणे तु ।

औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै ॥ २६८ ॥

मछलीके माससे दो महीने, हरिणके माससे तीन महीने और मैडेके (मास) से चार महीने और पक्षियोंके माससे पांच (महीने) ॥ २६८ ॥

पण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेन च सप्त वै ।

अष्टावैणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु ॥ २६९ ॥

बकरीके माससे छ. महीने और चित्र मृगके माससे सात महीने, कालेघृगके माससे आठ और पाठीन मछली तथा हरनाम हरिणके माससे नौ मास तक तृप्त होते हैं ॥ २६९ ॥

दशमासांस्तु तृप्यन्ति चराहमहिषामिषैः ।

शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥

सूकर और भैंसेके माससे दशमास, खरगोश और कछुएके माससे ग्यारह मास तक तृप्त होते हैं ॥ २७० ॥

संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च ।

वार्ध्नीणसस्य मांसेन तृप्तिर्द्वादशवर्षिकी ॥ २७१ ॥

गऊके दूध और उसकी खीरसे एक वर्षतक तृप्त होते हैं और वर्षाणसके माससे १२ वर्ष तक तृप्त होते हैं ॥ २७१ ॥

१ वर्षाणस उसे कहते हैं कि जिसके जल पीनेके समय दोनों कान और जीभ जल्का स्पर्श करते हों, जिसकी निर्बल इन्द्रिया हों शुद्ध वर्ण हो और अनेक मतान हों ॥

कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मधु ।

आनन्त्यायैव कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥ २७२ ॥

कालशाक और महाशल्क, गैडे और लालछाग इनके माससे तथा शहद और सब मुनिअन्नसे अनन्त वर्ष तक तृप्त रहते हैं ॥ २७२ ॥

यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम् ।

तदप्यक्षयमेव स्याद्वर्षासु च मघासु च ॥ २७३ ॥

जो मनुष्य गृहदसे मिलाहुआ योधासा भी अन्न वर्षाकालमें मघा नक्षत्र युक्त तेरसके दिन देता है सो भी अक्षय होता है ॥ २७३ ॥

अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यान्नयोशीम् ।

पायसं मधुसर्पिर्भ्यां प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ २७४ ॥

हमारे वंशमें भी ऐसा पैदा हो जो हमको तेरसके दिन और हस्तिकी छाया जब पूर्व दिशाको जाय उस दिन शहद और घीके साथ क्षीर देवै ॥ २७४ ॥

यद्यद्दाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।

तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥

मनुष्य अच्छी तरह श्रद्धावान् होकर जो जो पदार्थ विधिपूर्वक पितरोंको देता है वह पितृओंको परलोकमें अनन्त और अक्षय होता है ॥ २७५ ॥

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् ।

श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥

कृष्ण पक्षमें चौदसको छोड दशमीको आदि लेकर जैसी तिथियां श्राद्धमें श्रेष्ठ होती हैं वैसी (प्रतिपदा आदि) और नहीं होती हैं ॥ २७६ ॥

युधु कुर्वन्दिनक्षेषु सर्वाङ्कामान्समश्नुते ।

अयुधु तु पितृन्सर्वान्प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २७७ ॥

(द्वितीया, चतुर्थी आदि) सम दिन और (भरणी, रोहिणी आदि) सम नक्षत्र इनमें श्राद्ध करनेवाला सब कामनाओंको पाता है और (पङ्खा तृतीया आदि) विषम दिन और अश्विनी, कृत्तिका आदि विषम नक्षत्र इनमें श्राद्धसे सब पितरोंको तृप्त करनेवाला बहुतसी सत्तान पाता है ॥ २७७ ॥

यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते ।

तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्णादपराह्णे विशिष्यते ॥ २७८ ॥

जैसे शुक्ल पक्षसे कृष्ण पक्ष (श्राद्धमें) विशेष फलका दाता है वैसेही पूर्वाह्णसे अपराह्ण काल श्राद्धका अधिक फल दाता है ॥ २७८ ॥

प्राचीनवीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा ।

यिज्यमानिधनात्कार्यं विधिद्वर्भपणिना ॥ २७९ ॥

दाहिने कंधेपर जनेऊ रखकर, सावधान होकर और कुशा हाथमें लेकर मनुष्यको जीवन पर्यंत अपसव्य हो विधिपूर्वक अच्छीतरह श्राद्ध करना चाहिए ॥ २७९ ॥

रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा ।

संध्योरुभयोश्चैव सूर्ये चैवाचिरोदिते ॥ २८० ॥

रात्रिमें श्राद्ध न करै क्योकि रात्रि निश्चय करके राक्षसी कही गई है । दे संध्याओमें और सूर्यके शीघ्र उदय होते हुएमें भी श्राद्ध न करै ॥ २८० ॥

अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत् ।

हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाञ्चयज्ञिकमन्वहम् ॥ २८१ ॥

(पहिले प्रतिमास श्राद्ध करना कह आए हैं और जो वह न बने तो) इस विधिसे हेमंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुमें वर्षके तीन श्राद्ध करै और पचयज्ञके कर्मको नित्य करै ॥ २८१ ॥

न पैतृयक्षियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते ।

न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताग्नेर्द्विजन्मनः ॥ २८२ ॥

यदेव तर्पयत्यग्निः पितृन्मात्वा द्विजोत्तमः ।

तैनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥ २८३ ॥

वसुन्वदन्ति तु पितृभृद्रांश्चैव पितामहान् ।

प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छ्रुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥

लौकिक अग्निमें पितरोंके लिये यज्ञका हवन और अग्निहोत्री ब्राह्मणको अमावास्याके विना श्राद्ध नहीं कहा है ॥ २८२ ॥ श्रेष्ठ द्विज ज्ञान करके जिस जलसे पितरोंको तर्पण करता है उससेही उसे सब पितरोंकी क्रियाका फल मिलता है ॥ २८३ ॥ (मनुजी आदि) पितरोंको वसुस्वरूप, पितामहोंको रुद्रस्वरूप, प्रपितामहोंको आदित्यस्वरूप कहते हैं यही सनातनकी रीति है ॥ २८४ ॥

विधसाशी भवेन्नित्यं नित्यं वामृतभोजनः ।

विधसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथानृतम् ॥ २८५ ॥

मनुष्य नित्य विधम खानेवाला अथवा सदा अमृत भोजन करनेवाला हो, ब्राह्मणोंके भोजनसे बचा विधस और यज्ञका शेष अमृत कहा गया है ॥ २८५ ॥

एतद्द्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम् ।

द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥

यह मैंने तुमसे पंच यज्ञका संपूर्ण विधान कहा है अब द्विजातियोंकी मुख्य वृत्तियोंका विधान सुनो ॥ २८६ ॥ इति

आगरानिवासी पं. रामेश्वर भट्टकृत सरला टीकासहित

मनु० का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ—शुभम्—

अथ चतुर्थोऽध्यायः ।

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं शुरौ द्विजः ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १ ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि आयुके पहिले चौथे भागमें शुरके यहा रहकर, आयुके दूसरे भागमें छीसे विवाहकर घरमें निवास करै ॥ १ ॥

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः ।

या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि प्राणियोंके अद्रोहसे अर्थात् जिसमें किसी प्राणीकी कुछ घुराई न हो अथवा थोड़े द्रोहसे अर्थात् जिसमें प्राणीकी थोड़ी घुराई हो ऐसी अपनी (शिलोञ्छ आदि) आजीविका करके अनापदि कालमें जीवन बितावै ॥ २ ॥

यात्रामात्रप्रसिद्ध्यर्थं स्वैः कर्मभिरगार्हितैः ।

अङ्गेशेन शरीरस्य कुर्वात धनसंचयम् ॥ ३ ॥

अपने श्रेष्ठ कर्मोंसे कि जिससे शरीरको क्लेश न हो अपने कुटुंबपालन के लिये धनका संचय करै ॥ ३ ॥

ऋतामृताभ्यां जीवेतु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥ ४ ॥

ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत वा सत्यानृतसे अपना जीवन बितावै परंतु श्वान-वृत्ति अर्थात् पराई सेवा करके न जीवै ॥ ४ ॥

ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम् ।

मृतं तु याचितं मैक्षं प्रमृतं कर्पणं स्मृतम् ॥ ५ ॥

उञ्छ और शिलको ऋत जानना चाहिये, अयाचित अमृत होताहै, याचित-भिन्ना मृत कहाती है और खेतीको प्रमृत कहते हैं ॥ ५ ॥

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।

सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

वाणिज्यको सत्यानृत कहते हैं उसकी भी मनुष्य जीविका करते हैं. सेवाको श्ववृत्ति कहते हैं इसलिये उसे त्याग देना चाहिये ॥ ६ ॥

कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा ।

अथहैहिको वापि मवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७ ॥

कुसूलधान्यक अर्थात् तीन वर्ष वा इससे भी अधिक तक चलनेवाले धान्यका संग्रह करनेवाला वा कुम्भी-धान्य अर्थात् एक वर्षतक निर्वाहके योग्य धान्यसंग्रह करनेवाला वा तीन दिनके योग्य धान रखनेवाला अथवा उसी दिनके लायक धान रखनेवाला हो ॥ ७ ॥

१ खेतमें पड़े हुए अन्नके दानें जो चुटकी से धीने नाथ उनको उच्छ कहते हैं ।

२ धान्योंकी फलिया धीननेको शिल कहते हैं ।

चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम् ।

ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥

इन चारोंही गृहस्थी ब्राह्मणोंमेंसे आगे २ का श्रेष्ठ जानना चाहिये और वही धर्मसे स्वर्ग आदि लोकोंका जीतनेवाला होता है ॥ ८ ॥

षट्कर्मैको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते ।

द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥

इन गृहस्थियोंमेंसे एक छ कर्म, दूसरा तीन कर्म, तीसरा दो कर्म और चौथा वेद पढाकर जीवन विताता है ॥ ९ ॥

वर्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यामग्निहोत्रपरायणः ।

इष्टीः पार्वीयनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥ १० ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि शिल उञ्छ इन दोनोंसे निर्वह करता हुआ अग्निहोत्रमें लगा रहै और पर्व तथा अयनोंमें होनेवाले (दर्श पौर्णमास आग्रयण) यज्ञोंकोही केवल सदा करै ॥ १० ॥

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन ।

अजिह्यामशठां शुद्धां जीवेद्ब्राह्मणजीविकाम् ॥ ११ ॥

अपनी आजीविकाके लिये कभी भी ससारको प्रसन्न करनेका आचरण न करै । ब्राह्मणको चाहिये कि सीधी कि जिसमें दंभ आदि न हो, ऐसी ब्राह्मणोंकी शुद्ध आजीविका करै ॥ ११ ॥

संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२ ॥

जो सुख चाहै उसे परम संतोषी और संयमी होना चाहिये क्योंकि सुख संतोषकी जड़ है और असंतोष दुःखका मूल है ॥ १२ ॥

अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः ।

स्वर्गायुष्यशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३ ॥

इसलिये स्नातक ब्राह्मण (पूर्व कथित आजीविकाओंमें से) किसी एक आजीविकासे जीता हुवा, स्वर्ग, आयु और यशके देनेवाले इन व्रतोंको धारण करै ॥ १३ ॥

वेदोदितं स्वर्गं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।

तद्धि कुर्वन्मयाशक्तिं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १४ ॥

वेदमें कहे हुए अपने कर्मको नित्य सावधान होकर करै । जो कोई उसे शक्तिपूर्वक करता है वह परमगतिको पाता है ॥ १४ ॥

नेहेतार्थान्प्रसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥

गानेयजाने आदि शास्त्रके विरुद्ध कर्मसे धनको न चाहै और धनके होनेपर तथा आपत्तिमेंभी इधर उधरसे (झुठी जीविकाकर) धन कमानेका यत्न न करै ॥ १५ ॥

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत् ॥ १६ ॥

इच्छासे इन्द्रियोंके सब विषयोंमें आसक्त न हो इनकी अत्यंत प्रसक्तिको मनसे बिलकुल त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥

सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथातथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७ ॥

जिस प्रकार हो वेदके विरोधी सब कामोंको त्याग कर वेद पढ़ता रहै क्योंकि वेदकी तत्परताही इस ज्ञातककी सफलता है ॥ १७ ॥

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च ।

वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥

अपने आयु, कर्म, धन, वेद और कुल इनके अनुसार ही वेप वाणी और बुद्धिका वर्ताव करता हुआ संसारमें विचरता रहै ॥ १८ ॥

बुद्धिबुद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ १९ ॥

शीघ्र बुद्धिको बढ़ानेवाले, धन देनेवाले, तथा हित करनेवाले शास्त्रोंको और वेदके निरुक्तको नित्य विचारता रहै ॥ १९ ॥

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २० ॥

पुरुष जैसे २ शास्त्रको पढता जाता है वैसेही वैसे विशेष जानता जाता है । र इसीसे उसे अन्य शास्त्रका भी विशेष ज्ञान होता है ॥ २० ॥

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृत्यज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ २१ ॥

(१) ऋषियज्ञ (२) देवयज्ञ (३) भूतयज्ञ (४) नरयज्ञ और (५) पितृयज्ञ इन पांच यज्ञोंको जहातक हो सदा कमी न छोड़ना चाहिये ॥ २१ ॥

एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः ।

अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुहति ॥ २२ ॥

यज्ञशास्त्रके जाननेवाले कितनेही लोग इन महायज्ञोंको न करके पांच ज्ञानेन्द्रियोंके विषयोंका ही हवन करते हैं अर्थात् इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त नहीं होते हैं ॥ २२ ॥

वाच्येते जुहति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा ।

वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिर्वृत्तिमक्षयाम् ॥ २३ ॥

कोई २ गृहस्थी, वाणी और प्राणमें यज्ञका अक्षय फल जानकर वाणीमें प्राणको और प्राणमें वाणीको सदा होमते हैं अर्थात् वाणी और प्राणका संयम करते हैं ॥ २३ ॥

ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतैर्मनैः सदा ।

ज्ञानमूर्त्तां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥ २४ ॥

कितनेही ब्राह्मण ज्ञानरूपी नेत्रसे ज्ञान है जब जिसकी ऐसी (पाच यज्ञोंकी) इस क्रियाको देखते हुए ज्ञानसे ही सदा इन यज्ञोंको करते हैं अर्थात् यह सब जगत् ब्रह्मरूप है जब यह ज्ञान होता है तब ब्रह्मज्ञानको उत्पन्न करनेवाले इन पाँचों यज्ञोंको भी ब्रह्मरूप ही ध्यान करते हुए पंचयज्ञ करनेका फल पाते हैं ॥ २४ ॥

अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा ।

दशैन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥

द्विरात्रिके आदिअतमे सदा अग्निहोत्र करना चाहिये और अर्धमासके अतमें दश और पौर्णमास यज्ञ करे ॥ २५ ॥

सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्न्वन्ते द्विजोऽध्वरैः ।

पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकैर्मखैः ॥ २६ ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि पुराने अन्नके अंतमें नवसस्ययज्ञ, ऋतुके अतमें चातुर्मास्य, अयनोंकी आदिमें पशुयज्ञ और वर्षके अतमें अग्निष्टोमवादि यज्ञ करे ॥ २६ ॥

नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्द्विजः ।

नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ २७ ॥

जिस अग्निहोत्री द्विजको दीर्घायुतक जीनेकी इच्छा हो उसे नवसस्ययज्ञ और पशुयज्ञ बिना किये नवीन अन्न वा मांस नहीं खाना चाहिये ॥ २७ ॥

नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुहव्येन चाश्रयः ।

प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवाभ्रासिपगार्धिनः ॥ २८ ॥

यद्योकि नवीन अन्न और पशु हव्यसे बिना पूजी हुई और नये अन्न तथा मांसको चाहनेवाली अग्नि उस अग्निहोत्रीके प्राणोंकी भक्षण करना चाहती है ॥ २८ ॥

आसनाशनशय्याभिरद्भिर्मूलफलेन वा ।

नाम्य कश्चिद्वसेद्रेष्टे दक्षितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥ २९ ॥

किसी गृहस्थके परमे आसन, भोजन, शय्या, जल वा मूलफलसे दक्षिके अनुमार बिना गन्धके अगिनि पात्र न करने पाये अर्थात् गृहस्थकी दक्षिके अनुमार अग्निगिर गन्धर अवश्य करनेव्य है ॥ २९ ॥

पापण्डिनो विकर्मस्थान्यैः शान्तिप्रकाब्धुतान् ।

हेतुशान्तिप्रकाब्धुतान् वाऽप्राप्तेणापि नार्चयेत् ॥ ३० ॥

पाण्डी, गुरे तर्मे करनेवाले, बंधुत्वप्रीति, दाठ (वेदविरोधी) वेदमें लक्ष्य करनेवाले तथा वेदविरोधी इत्यादि नाशकप्रयोगों की आदर न करे ॥ ३० ॥

वेदविद्यानतज्जाताम्भोप्रियान्गृहमेतिनः ।

पुंसयेदन्नकव्येन रिपूरीनांश्च धर्त्रयेत् ॥ ३१ ॥

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना ।

संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥

वेदविद्याज्ञातक, व्रतज्ञातक, वेदविद्याव्रतज्ञातक और वेदपाठी गृहस्थियोंका ह्यकव्यसे पूजन करै और जो इनसे विपरीत हैं उन्हें त्याग दे ॥ ३१ ॥ गृहस्थीको चाहिये कि जो अपने हाथसे नहीं पका सके हैं ऐसे सन्यासी ब्राह्म-
चारी आदिको यथाशक्ति (अन्न) दे और जिसमे कुटुंबके पालनमें विरोध न पड़े इस प्रकार (वृक्षपर्यंत) सब प्राणियोंको जल अन्न आदिसे विभाग देना चाहिये ॥ ३२ ॥

राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्ज्ञातकः क्षुधा ।

याज्यान्तेवासिनोर्वापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३३ ॥

ज्ञातक यदि क्षुधासे पीडित हो तो राजासे, यजमानसे वा शिष्यसे धनकी इच्छा करै दूसरेसे नहीं यही शास्त्रकी मर्यादा है ॥ ३३ ॥

न सीदेत्ज्ञातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथंचन ।

न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति ॥ ३४ ॥

कृतकेशनखश्मश्रुदान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ।

स्वाध्याये चैवं युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३५ ॥

वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम् ।

यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥ ३६ ॥

समर्थ ज्ञातक ब्राह्मण, भूखसे कमी दुखी नहो और धन होनेपर फटे पुराने और मैले वस्त्र धारण न करे ॥ ३४ ॥ और वह (शिर न मुबवावे) केश नख और दाढ़ी इनको कटाता रहै, क्लेश सहै, श्वेत वस्त्र धारण करै, पवित्र रहै और वेद-
पाठ तथा अपने हितमें सदा लगा रहै ॥ ३५ ॥ और बासका दंड, जलभरा कमंडल, यज्ञोपवीत, वेद और सुन्दर सुवर्णके कुंडल धारक करै ॥ ३६ ॥

नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तंयन्तं कदाचन ।

नोपसृष्टं न धारिस्थं न मध्यं नभसो गतम् ॥ ३७ ॥

उदय अस्त होतेहुए, राहुसे असेहुए, जलमे प्रतिबिंब पड़े हुए और आका-
शके मध्यमें गये हुए सूर्यको कमी न देखै ॥ ३७ ॥

१ जो वेदोंको समाप्त करके और व्रतोंको समाप्त न करके शुरूके यज्ञसे गृहस्थ में आवे उसे वेदविद्याज्ञातक कहते हैं ।

२ जो व्रतोंको समाप्त करके और वेदविद्याको समाप्त न करके गृहस्थमें आवे उसे व्रतज्ञातक कहते हैं ॥

३ और जो वेद और व्रत दोनोंको समाप्त करके गृहस्थमें आवे उसे वेदविद्याव्रत-
ज्ञातक कहते हैं—यह द्वारीतका वचन है ॥

न लङ्घयेद्भत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षति ।

न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥

बछ्छे बाधनेकी रस्तीको न उल्लंघि, मेहवरसतेमें न दौड़े और पानीमें अपने रूपको न देखे यह बात याद रखनेकी हैं ॥ ३८ ॥

मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम् ।

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ ३९ ॥

खुदी हुई मट्टी, गाय, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद्ध वृक्ष (बबू पीपल आदि) सन्मुख हों तो उन्हें दक्षिण दिशामें करे अर्थात् आप वाम भागमें होकर जाय ॥ ३९ ॥

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने ।

समानशयने चैव न शयीत तथा सह ॥ ४० ॥

रजसाभिद्धतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः ।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥

कामार्त हो तो मी मासिक धर्म होनेपर अपनी स्त्रीके पास न जाय और उसके साथ एक विछौने पर न सोवे ॥ ४० ॥ जो कोई मनुष्य रजस्वला स्त्रीके पास जाता है उसके बुद्धि, तेज बल, नेत्र और आयु ये घटते हैं ॥ ४१ ॥

तां विवर्जयतस्तस्य रजसासमभिद्धताम् ।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥

नाश्रीयाद्भार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाश्रतीम् ।

ध्रुवतीं जुम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम् ॥ ४३ ॥

रज निकलती हुई स्त्रीको त्यागनेवाले मनुष्यके बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु (ये सब) बढ़ते हैं ॥ ४२ ॥ स्त्रीके संग एक थालमें भोजन न करे और भोजन करती हुई, छोकती हुई, जंभाई लेती हुई वा सुखसे बैठे हुई स्त्रीको न देखे ॥ ४३ ॥

नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यकामनावृताम् ।

न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजात्तमः ॥ ४४ ॥

तेजकी इच्छा चाहनेवाले उत्तम ब्राह्मणको चाहिये कि वह, अपने नेत्रोंमें अंजन आजती हुई, स्नान करती हुई, नंगी और सतान जनती हुई स्त्रीको न देखे ॥ ४४ ॥

नाभ्रमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत् ।

न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५ ॥

न फालकृष्टे न जले न चित्सां न च पर्वते ।

न जीर्णदेवायतने न बल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥

न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः ।

न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥

एक बल पहिरकर भ्रम न खाय, नंगा स्नान न करे और राखमें, मार्गमें तथा गौशालामें मलमूत्र न करे ॥ ४५ ॥ जुते हुए पेतमें, जऊमें, धमिकेलिये ईंटोंके समूहमें पर्वतपर, ढूटे फूटे देवताके मंदिरमें और बँबड़में कमी मलमूत्र न करे ४६

जिनमें जीव रहते हों ऐसे विलोंमें, चलता हुआ वा खाया हुआ, नदीके तीर-
पर, पर्वतके शिखरपर भी मलमूत्र न करना चाहिये ॥ ४७ ॥

चाप्यञ्जिविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः ।

न कदाचन कुर्वीत विण्मूत्रस्य विसर्जनम् ॥ ४८ ॥

वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल तथा गौ इनको देखता हुआ भी मल-
मूत्रका त्याग कभी नहीं करना चाहिये ॥ ४८ ॥

तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्ठपत्रतृणादिना ।

नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥ ४९ ॥

काठ, मटीका डेला, पत्ते, तृण आदिसे (भूमिको) ढककर, चुपका होकर
और अग तथा बिरको ढककर मलत्याग करना चाहिये ॥ ४९ ॥

मूत्रोच्चारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदबुखः ।

दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्योश्च तथा दिवा ॥ ५० ॥

दिनमें उत्तरकी ओर मुखकरके और रात्रिको दक्षिणकी ओर मुख करके
और दोनों सन्ध्याओंमें दिनके समान मलमूत्र त्याग करना चाहिये ॥ ५० ॥

छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः ।

यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणवाधाभयेषु च ॥ ५१ ॥

रातमें हो चाहे दिनमें जो बादल आदिकी छायासे अंधेरा होजाय तथा
दिक्षा विदिशाका ज्ञान न रहै और प्राणोंकी बाधा तथा सिंहादिका भय हो तो
इच्छापूर्वक जिधर चाहे उधर मुख करके मलमूत्र त्याग करै ॥ ५१ ॥

प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् ।

प्रतिगां प्रतिचातं च प्रक्षा नश्यति मेहतः ॥ ५२ ॥

अग्निके सामने, सूर्यके सामने और चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण, गाय और
हवा इनके सामने मलमूत्र करनेवाले पुरुषकी बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ५२ ॥

नाग्निं मुखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च स्त्रियम् ।

नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत् ॥ ५३ ॥

मुखसे अग्निको न फूँके, नंगी स्त्रीको न देखे, अग्निमें (विद्या आदि)
अपवित्र वस्तु न फेंके और पैरोंको न सेकना चाहिये ॥ ५३ ॥

अधस्तान्नोपदध्याच्च न चैनमभिलङ्घयेत् ।

न चैनं पादतः कुर्यान्न प्राणावाधमाचरेत् ॥ ५४ ॥

अग्निको (खाट आदिके) नीचे न धरै और न अग्निको लॉपै और न
इसे पैरोंकी ओर धरै और कोई काम ऐसा न करना चाहिये जिससे प्राणोंको
पीड़ा हो ॥ ५४ ॥

नाश्रीयात्संधिवेलायां न गच्छेन्नपि संविशेत् ।

न चैव प्रलिखेद्भूमिं नात्मनोपहरेत्सजम् ॥ ५५ ॥

सन्ध्याके समय न तो भोजन करै, न कहीं जाय, न सोवै, न मूमिको कुरेदे और आपही अपने गलेकी मालाको न उतारै ॥ ५५ ॥

नाप्सु सूत्रं पुरीषं वा धीवनं वा समुत्सृजेत् ।

अमेघ्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥ ५६ ॥

पानीमें, सूत्र, विष्ठा, थूक वा इन अपवित्र वस्तुओंसे लिप्सी हुई कोई (व आदि) अन्यवस्तु वा छोहू वा विष इनको न फेंके ॥ ५६ ॥

नैकः सुप्याच्छून्यगोहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत् ।

नोदक्ययामिभापेत यक्षं गच्छेन्न चावृतः ॥ ५७ ॥

सूने घरमें अकेला न सोवै, अपनेसे बड़े सोते हुएको न जगावै, रजखलासे न बोले और विनावरण हुए यक्षमें न जाय ॥ ५७ ॥

अश्रयगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधौ ।

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ ५८ ॥

अग्निशालामें, गोशालामें, ब्राह्मणोंके पास, वेदपाठमें और भोजनमें दाहिने हाथको बाहर करै ॥ ५८ ॥

न वारयेद्वां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित् ।

न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेद्बुधः ॥ ५९ ॥

(दृष्ट वा जल) पीती हुई गाय वा बत्सको न रोके और न किसीसे कहै और बुद्धिमान्को चाहिये कि आकाशमें इन्द्रधनुषको देखकर किसीको न दिखावै ॥ ५९ ॥

नाधार्मिके वसेन्नामे न व्याधिवहुले भुशम् ।

नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत् ॥ ६० ॥

अधर्मियोंके गावमें या जिसमें बहुतसी व्याधियां हों ऐसे गाँवमें बिलकुल वास न करै, मार्गमें अकेला न चलै और पर्वतपर बहुत कालतक न रहै ॥ ६० ॥

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृत्ते ।

न पापण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृमिः ॥ ६१ ॥

पुरुषको चाहिये कि शूद्रके राज्यमें और अधर्मी, बहुतसे पाखंडी और अंखज मनुष्योंसे भरे वा धिरे हुए गाँवमें न बसै ॥ ६१ ॥

न भुञ्जीतोद्भूतलोहं नातिसौहित्यमाचरेत् ।

नातिप्रणे नाति सार्यं न सार्यं प्रातराशितः ॥ ६२ ॥

जिसमेंसे तेल निकल आया हो उस (तिल आदि)को न खाय, अति सृत होकर भोजन न करे और बहुत सवेरे बहुत साँझको भी भोजन न करे और जो प्रात काल बहुत चालिया हो तो साँझको न खाय ॥ ६२ ॥

न कुर्वीत वृथाचैष्टां न वार्यञ्जलिना पिबेत् ।

नोत्सन्ने भक्षयेद्भक्ष्यान्नं जातु स्यात्कुवहली ॥ ६३ ॥

वृथाके कामको न करै, अंजलियोसे जल न पिए, खानेके पदार्थको गोदीमें रखकर न खाय और न कमी विना प्रयोजन किसी कामके देखने भालनेकी इच्छा करै ॥ ६३ ॥

न नृत्येदथवा गायेत्र वादित्राणि वादयेत् ।

नास्फोटयेन्न च क्षेपेन्न च रक्तो विरावयेत् ॥ ६४ ॥

“ न नाचै, न गावै, न वाजे वजावै, न ताली वजावै, न दांतोंको किङ्किडवै और न प्रेममें मगन हो कर (गधेकी भँति) रँकै ॥ ६४ ॥

न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने ।

न भिन्नभाण्डे भुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५ ॥

कासेके पात्रमें कमी पैर न धोवै और फूटे वासनमें और जिस वासनमें मन न करै उसमें भोजन न करै ॥ ६५ ॥

उपानहौ च वासश्च धृतमन्यैर्न धारयेत् ।

उपवीतमलंकारं स्पर्जं करकमेव च ॥ ६६ ॥

जूते, वस्त्र, जनेल, आभूषण, माला आर कमण्डल ये दूसरेके धारण किये धारण न करै ॥ ६६ ॥

नाभिनीतैर्ध्वजेद्भुर्यैर्न च क्षुद्याधिपीडितैः ।

न भिन्नशृङ्गाक्षिखुरैर्न घालधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥

विना सिखाये हुए, भूय तथा रोगसे पीडित, जिनके सींग, नेत्र और सुर जाते रहेहों और जिनकी पूंछ कटी हो ऐसे घोड़े बैल आदि पशुओंपर चढ़कर न जाना चाहिये ॥ ६७ ॥

विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यमाशुगैर्लक्षणाग्धितैः ।

वर्णरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्भृशम् ॥ ६८ ॥

सिखाए गये, शीघ्र जानेवाले, अच्छे लक्षणयुक्त और जो रंग रूपके सुन्दर हों ऐसे बैल घोड़े आदिपर, चातुकसे अत्यन्त न मारता हुआ नित्य जाय ॥ ६८ ॥

वालातपः प्रेतधूमो वर्ज्यं मित्रं तथासनम् ।

न छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तैर्नोत्पादयेन्नखान् ॥ ६९ ॥

वालसूर्यकी धूप, कुँकते हुए सुर्देका धुआँ और फटा आसन इनको त्याग देना चाहिये । तथा नोंह और र्खोंको न फाटै और नाखनोंको दांतसे न उखाड़ै ॥ ६९ ॥

न मृहोष्ठं च नृद्वीयात्र छिन्द्यात्करजैस्तृणम् ।

न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम् ॥ ७० ॥

गटीके डेलेको न मूँह, नलोंसे तृण न तोड़ै और निष्फल तथा आयनेको जिससे सुत्त न हो ऐसा काम न करै ॥ ७० ॥

लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ।

स विनाशं ब्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥ ७१ ॥

जो मनुष्य मर्दीके डेलेको मलता है, तृण तोड़ता है, नखोंको चावता है, जुगली खाता है और जो अपवित्र रहता है वह मनुष्य शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ ७१ ॥

न विगर्ह्य कथां कुर्याद्बहिर्मात्यं न धारयेत् ।

गवां च यानं पृष्टेन सर्वथैव विगर्हितम् ॥ ७२ ॥

विवादके आप्रहसे कथाको न कहें, वनोंके बाहर मालाको धारण न करें और बैल गायकी पीठपर बैठकर न जाय, यह सब प्रकारसे निन्दित है ॥ ७२ ॥

अद्वारेण च नातीयाद्ग्रामं वा वेश्म वावृतम् ।

रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ७३ ॥

जिसमें परकोटा बनाहो ऐसे गाँवमें वा घरमें रास्ता छोड़ लोंघकर न जाय और रात्रिको वृक्षकी जड़ोंको दूरसे त्याग दे अर्थात् वृक्षकी जड़केपास न रहें ॥ ७३ ॥

नाक्षैः क्रीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहौ हरेत् ।

शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्यं न चासने ॥ ७४ ॥

कमी पासोंसे न खेले और न कमी आप अपने हाथोंसे जुते ले चले, न कमी खादपर बैठकर भोजन करे और हाथपर खानेकी वस्तु धरकर और भ्रमके पात्रको आसनपर धरकर भी न राय ॥ ७४ ॥

सर्वे च तिलसंयुक्तं नाद्यादस्तमिते रवौ ।

न च नम्रः शयीतेह न चोच्छिष्टः फचिद्भजेत् ॥ ७५ ॥

सूर्यास्त होनेपर तिलकी कोड़े वस्तु न राय, पलंग आदिपर नंगा न सोये और मृते मुँह कहीं न जाय ॥ ७५ ॥

आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत् ।

आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥ ७६ ॥

पाद धोकर भोजन करे, थुड़े पाद न सोये, जो कोड़े पाद धोकर भोजन करता है उसकी दीर्घ आयु होती है ॥ ७६ ॥

अचक्षुर्विपयं दुर्गं न प्रपद्यन् कर्हिचित् ।

न पिण्मूत्रमुदीर्यत न यादृभ्यां नदीं तरेत् ॥ ७७ ॥

जो जगह (बुझला भारिके कारण) न रोग और जहाका मार्ग कठिन हो वह कमी न जाय । शिवा मूत्रको न देरे और न भुजाभोंसे नदीमें तरे ॥ ७७ ॥

अधिमिष्टेन फेसांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः ।

न कार्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ ७८ ॥

यहाँ अणुमूलक जीर्णिते दूध का कनेकाके मनुष्यको पादिने कि वह पाय, मूत्र, दूध, दीर्घ, कार्पास, तुषान्दीर्घ और शुक इनपर न बैठे ॥ ७८ ॥

न संबसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुलकसैः ।

न मूर्खैर्नोवलिप्तैश्च नान्यैर्नान्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥

पतित, चांडाल, पुलकस, मूर्ख, अमिमानी, अन्यज (धोबी आदि) और अन्यावसायी इनके साथ न बैठे ॥ ७९ ॥

न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥ ८० ॥

शूद्रको उपदेश, शूद्रन और हवनसे बचा हुआ शाकल्य न दे और इसे धर्मका और व्रतका भी उपदेश न करना चाहिये ॥ ८० ॥

यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम् ।

सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव मज्जति ॥ ८१ ॥

जो कोई शूद्रसे धर्म कहता है और उसे व्रतका उपदेश करता है वह उसीके साथ असंवृत नाम नरकमें गिरता है ॥ ८१ ॥

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः ।

न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्धिना ततः ॥ ८२ ॥

दोनों हाथोंसे अपना शिर न खुजावे, झूठे मुंह शिरको न छुवे, और बिना शिरके घोंए स्नान न करे ॥ ८२ ॥

केशग्रहान्प्रहारंश्च शिरस्येतान्निवर्जयेत् ।

शिरःस्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृशेत् ॥ ८३ ॥

(क्रोधमें आकर) किसीके बाल न पकड़े और शिरोंपर चोट भी न मारे और मनुष्यको चाहिये कि शिरमें तेल लगाकर स्नानके पीछे फिर किसी अंगमें तेलका स्पर्श न करे ॥ ८३ ॥

न राहः प्रतिगृहीयाद्राजन्यप्रसूतितः ।

सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम् ॥ ८४ ॥

जो क्षत्रीसे उत्पन्न न हो उस राजाका दान न ले और फसाई, तेली, कलवार और मेस बदलकर जीविका करनेवाले इनका भी दान न ले ॥ ८४ ॥

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।

दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ ८५ ॥

एक तेली दश हिंसकोंके समान है, एक कलार दश तेलियोंके समान है, एक मेस बदलनेवाला (बहुरूपिया) दश कलारोंके समान है और एक राजा दश बहुरूपियोंके समान है ॥ ८५ ॥

दश सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः ।

तेन तुल्यः स्मृतो राजा धोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥

१ जो निपादसे शूद्रमें उत्पन्न हो. २ जो निपादकी जीमें चाबूकसे उत्पन्न हो—यह बात आगे मनुजी कहेंगे—

जो कसाई दश हजार हत्या करता है अक्षत्रिय राजा उसके बराबर कहा गया है इसलिये उसका दान वना भयानक है ॥ ८६ ॥

यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः ।

स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥ ८७ ॥

जो कोई, लोमी और शास्त्रको उल्लंघन करनेवाले राजासे दान लेता है वह क्रमसे इन आगे कहे इक्कीस नरकोंको जाता है ॥ ८७ ॥

तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरौरवौ ।

नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥ ८८ ॥

तामिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव, कालसूत्रनरक, महानरक ॥ ८८ ॥

संजीवनं महावीचिं तपनं संप्रतापनम् ।

संहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम् ॥ ८९ ॥

लोहशङ्कुमृजीपं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम् ।

असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ॥ ९० ॥

संजीवन, महावीचि, तपन, संप्रतापन, सहात, काकोल, कुड्मल, प्रतिमूर्तिक, ॥ ८९ ॥ लोहशंकु, ऋजीप, पन्था, शाल्मली, वैतरणी नदी, असिपत्रवन और लोहदारक ॥ ९० ॥

एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ।

न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकाङ्क्षिणः ॥ ९१ ॥

यही जानकर परलोकमें कल्याणकी इच्छासे विद्वान् ब्रह्मवादी ब्राह्मण राजासे दान नहीं लेते हैं ॥ ९१ ॥

ब्राह्मे मुहुर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदितत्त्वार्थमेव च ॥ ९२ ॥

ब्राह्म मुहुर्तमें (अर्थात् रात्रिके पिछले प्रहरमें) जागना चाहिये और धर्म अर्थके उपार्जनके हेतु शरीरके क्लेशोंका और वेदके तत्त्वार्थ अर्थात् ब्रह्मका वारंवार चिन्तन करना चाहिये ॥ ९२ ॥

उत्थायाचक्ष्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः ।

पूर्वा संख्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम् ॥ ९३ ॥

ब्राह्मणको नाशिये कि (शय्यामें) उठकर, (मलमूत्रादि) आवश्यक काम से शुद्ध और सावधान होकर प्राण मंत्रा और सार्वसंख्याको धपने अपने शालमें बहुत देरतक गायत्रीका जप करना रहे ॥ ९३ ॥

क्रूरयो दीर्घस्तंभ्यत्वादीर्घमायुस्त्वाप्नुयुः ।

प्रज्ञां यदाश्च कीर्तिं च ब्रह्मचर्यंममेव च ॥ ९४ ॥

धावण्यां प्रौष्ठपद्यां घान्पुषाट्य यथाधिधि ।

युग्मः उन्दांन्यपीयीत माम्गान्विप्रोऽर्धपञ्चमान् ॥ ९५ ॥

ऋषियोंने बहुत कालतक संख्या करनेके कारण, वही आयु, बुद्धि, यश, कीर्ति और ब्रह्मतेजको पाया ॥ ९४ ॥ ब्राह्मणको चाहिये कि श्रावण वा भाद्रपदकी पूर्णिमाको विधिपूर्वक उपाकर्म (ऋषितर्पण) करके साढ़ेचार महीनेतक सावधान होकर वेद पढ़े ॥ ९५ ॥

पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्बहिरुत्सर्जनं द्विजः ।
माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि ॥ ९६ ॥
यथाशास्त्रं तु कृतवैवमुत्सर्गं छन्दसां बहिः ।
विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवैकमहर्निशम् ॥ ९७ ॥

ब्राह्मण पुष्य नक्षत्रमें वा माघशुक्ल पड़नाको पूर्वाह्नके समय गाँवके बाहर वेदोंका उत्सर्जन करे ॥ ९६ ॥ इसप्रकार वेदमें कहेहुए वेदोत्सर्गको शास्त्रविधिसे गाँवके बाहर करके पक्षिणी रात्रितक (अर्थात् उत्सर्गका दिन अगला दिन और इनके बीचकी रात्रि इस समयतक) अथवा उत्सर्गके दिन रातमें विश्राम करे अर्थात् वेदको न पढ़े ॥ ९७ ॥

अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत् ।
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ ९८ ॥

इसके अनंतर शुक्लपक्षमें नियमसे वेदोंको पढ़े और कृष्णपक्षमें वेदोंके सपूर्ण व्याकरणादि) अंगोंको अच्छी भांति पढ़े ॥ ९८ ॥

नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसंनिधौ ।
न निशान्ते परिश्रान्तां ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत् ॥ ९९ ॥
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् ।
ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १०० ॥

जिसमें स्वरवर्ण स्पष्ट नहीं इसभाति न पढ़े और शूद्रके समीप भी न पढ़े और रात्रिके पिछले प्रहरमें वेद पढ़कर थका हुआ मनुष्य फिर न सोवे ॥ ९९ ॥ ब्राह्मणको चाहिये कि सावधान होकर शास्त्रविधिसे नित्य गायत्री आदि छन्दोंसहित मंत्रोंको पढ़े और स्वस्थता हो तो ब्राह्मणभाग और छंदोंस-
सब मंत्रोंका पाठ करे ॥ १०० ॥

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत् ।
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥ १०१ ॥
कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमूहने ।
एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥

वेद पढ़नेवाला शिष्य और शिष्योंको विधिपूर्वक पढ़ानेवाला गुरु, इन आगेकी अनध्याओंको नित्य त्याग दे ॥ १०१ ॥ वर्षाऋतुमें रात्रिके समय जिनका शब्द कानोंको सुनाई दे और दिनमें पृथ्वीकी धूलिको उड़ाने जो ऐसी वायु चले तो अध्ययनकी विधिके ज्ञाता इनको भी अनध्याय कहते हैं ॥ १०२ ॥

विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोत्कानां च संप्लवे ।

आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुव्रवीत् ॥ १०३ ॥

जो विजली कड़कती हो, गर्ज २ कर वर्षा होती हो और वर्षा २ उलकाएं इधर-उधर गिरती हों तो भी मनुजीने उस समयसे दूसरे दिनके उसी समयतक अनध्याय कही है ॥ १०३ ॥

पतांस्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादुष्कृताग्निषु ।

तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाभ्रदर्शने ॥ १०४ ॥

हवनके लिये अग्निके प्रज्वलित होते समय जो इन (विजली आदि) को उत्पन्न हुआ जाने तो वर्षाऋतुमें अनध्याय माने और जो वर्षाऋतु न हो तो मेघके दर्शनसेही अनध्याय माने ॥ १०४ ॥

निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने ।

पतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावपि ॥ १०५ ॥

आकाशमें जो उत्पातका शब्द हो तथा भूकंप और ग्रहोंका युद्ध हो तो इन अनध्यायोंको वर्षाऋतुमें भी आकालिक जाने ॥ १०५ ॥

प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युत्स्तनितनिःस्वने ।

सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा ॥ १०६ ॥

होमकी अग्नि प्रज्वलित होनेके समय जो प्रातःसन्ध्यामें विजली कड़कके मेघ गर्भे वा वर्षा हो तो सूर्यास्ततक अनध्याय होती है और जो रात्रिमें अग्नि प्रज्वलितके समय विजली आदि हो तो दिनके समान रात्रिमेंभी तारे खींचने तक अनध्याय होती है ॥ १०६ ॥

नित्यानध्याय एव स्याद्ग्रामेषु नगरेषु च ।

धर्मनैपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७ ॥

जो कोई धर्ममें निपुण होना चाहते हैं उनकी, धुरी गंध आनेपर ग्राम और नगरमें नित्य अनध्याय होती है ॥ १०७ ॥

अन्तर्गतशत्रे ग्रामे वृषलस्य च संनिधौ ।

अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८ ॥

जहा मुर्दा पक्षा हो ऐसे ग्राममें, शत्रुके पास, जहा रोकका शब्द होता है, जहा बहुतसे मनुष्योंका समूह हो वहा अनध्याय होती है ॥ १०८ ॥

उदके मध्यरात्रे च विष्णुमूत्रस्य विसर्जने ।

उच्छिष्टः श्राद्धभुक्कैव मनसापि न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

जलमें, आधीरातको, विष्णुमूत्रके त्यागके समय, झठेमुंह और श्राद्धमें भोजन करके मनसे भी वेदका स्मरण न करना चाहिये ॥ १०९ ॥

प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्दिष्टस्य केतनम् ।

इयहं न कीर्तयेद्ब्रह्म राज्ञो राज्ञोश्च सूतके ॥ ११० ॥

विद्वान् ब्राह्मण एकोद्दिष्ट श्राद्धके न्यौतेको मानकर और राजाके (पुत्रजन्म-आदिके) तथा (सूर्यचन्द्रके)ग्रहणके सूतकमें तीन दिनतक वेद न पढ़े ॥ ११० ॥

यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति ।
विप्रस्य विदुषो देहे तावद्ब्रह्म न कीर्तयेत् ॥ १११ ॥

जबतक शाकल्य ब्राह्मणके शरीरमें एकोद्दिष्टश्राद्धकी गंध वा लेपन लगा रहै तबतक उसे वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १११ ॥

शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम् ।
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ ११२ ॥

शय्यापर सोता हुआ, भासनपर पैर फैलाकर, दोनों घुटनोंको मोड़कर तथा मांस और सूतक के अन्नको खाकर वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ११२ ॥

नीहारे वाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः ।
अमावास्याचतुर्दश्योः पौर्णमास्यष्टकास्तु च ॥ ११३ ॥

कोहिरके समय, वाणके शब्द होते समय, दोनों सन्ध्याओंमें, अमावास्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अष्टमीके दिनभी वेद न पढ़ना चाहिये ॥ ११३ ॥

अमावास्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी ।
ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौ तस्मात्ताः परिवर्जयेत् ॥ ११४ ॥

अमावस्या गुरुको, चौदस शिष्यको और पूर्णिमा तथा अष्टमी वेदको नष्ट करती हैं इसलिये वेद पठनमें उनको त्याग दे ॥ ११४ ॥

पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा ।
श्वखरोष्ट्रे च स्वति पङ्क्तौ च न पठेद्विजः ॥ ११५ ॥

घृत् वरसते समय, दिशाओंके दाहमें, गीदह, कुत्ता, गधा और उँट इनके शब्द करते समय और जहाँ ये बहुतसे इकट्ठे हों वहाँ ब्राह्मणको वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ११५ ॥

नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा ।
घसित्वा मैथुनं घासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ ११६ ॥

श्मशानके पास, ग्रामके पास, गोशालामें, मैथुनका वल्ल धारण किये और श्राद्धका पदार्थ ग्रहण करके वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ ११६ ॥

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किञ्चिच्छ्राद्धिकं भवेत् ।
तदात्तभ्याप्यनध्यायः-पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥ ११७ ॥

प्राणी अर्थात् गौ आदि वा अप्राणी अर्थात् बल्ल आदि जो कुछ श्राद्धका हो उसे पाकर भी अनध्याय होती है क्योंकि मनु आदिकोंने ब्राह्मणका हाथही मुख कहा है ॥ ११७ ॥

चौरैरुपहृते ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते ।
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वाद्भूतेषु च ॥ ११८ ॥

प्रामर्शे चोरोका उपद्रव होनेके समय, अग्निदाहके समय और (भूमि आकाशके) सब अद्भुत पदार्थोंके देखनेके समय आकालिक अनभ्याय जाननी चाहिये ॥ ११८ ॥

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम् ।

अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥

उपाकर्ममें और उत्सर्गमें तीन रात्रिका और षण्दश सुदी पत्तोंके पीछे तीन अष्टमियोंमें और ऋतुओंके अतकी रात्रियोंमें एक रात दिनका अनभ्याय कहा गया है ॥ ११९ ॥

नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्षं न च हस्तिनम् ।

न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥ १२० ॥

घोषा, वृक्ष, हाथी, नाभ, गधा और ऊँट इनपर बैठा हुआ तथा (जल-तृणरहित) उपर देखमें रहकर और सवारीमें जाताहुआ मनुष्य वेद न पढ़े ॥ १२० ॥

न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे ।

न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न वमित्वा न शुक्तके ॥ १२१ ॥

विवादमें, कलहमें, सेनामें, युद्धमें, भोजनके पीछे, अजीर्णमें, वमन करके और राष्ट्रीटकार आनेपर वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १२१ ॥

अतिथिं चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम् ।

रुधिरे च क्षुते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥

अतिथिसे बिना आज्ञा लिये वा वायुके अत्यंत चलने पर, शरीरसे लोह निकलने पर और हथयारसे धाव होनेपर भी वेद नहीं पढ़ना चाहिये ॥ १२२ ॥

सामध्वनावृष्ययजुषी नाधीयीत कदाचन ।

वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥

सामवेदकी ध्वनि सुननेपर, ऋग्वेद और यजुर्वेदको कमी न पड़े वा एक वेदको अततक पढ़कर और आरण्यकके एक भागको पढ़कर (उर रातको) अन्य वेद न पढ़े ॥ १२३ ॥

ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ।

सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिर्ध्वनिः ॥ १२४ ॥

ऋग्वेदके देवता देव हैं अर्थात् उसमें देवताओंका वर्णन है, यजुर्वेदके मनुष्य हैं अर्थात् उसमें मनुष्योंका वर्णन है और सामवेदके पितर हैं इस लिये ऋग्वेद और यजुर्वेदके सामने सामवेदकी ध्वनि अपवित्र मानी जाती है ॥ १२४ ॥

एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वहम् ।

क्रमतः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्देदमधीयते ॥ १२५ ॥

यही जानकर विद्वान् लोग पहिले क्रमसे तीनों वेदोंके सार श्लोक, व्याहृति और गायत्री इनका नित्य अभ्यास करके पीछे वेदको पढ़ते हैं ॥ १२५ ॥

पशुमण्डूकमार्जारश्वसर्पनकुलाखुमिः ।

अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ १२६ ॥

जै पढ़तेसमय पशु, मैक, विलाव, कुत्ता, सांप, नौला, चूहा इनमेंसे कोई गुरुशिष्यके बीचमें होकर निकल जाय तो रात्रिदिनकी अनध्याय जाननी चाहिये ॥ १२६ ॥

ज्ञावेव वर्जयेन्नित्यमनभ्यायौ प्रयत्नतः ।

स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥ १२७ ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि पढ़नेकी अशुद्ध भूमि और अपनी अपवित्र देह इन दोनोंही अनध्यायोंका यत्नसे नित्य त्याग करै अर्थात् अशुद्ध भूमिमें बैठकर और अपवित्र देहसे वेद न पढ़े ॥ १२७ ॥

अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् ।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥

स्नातक द्विजको चाहिये कि अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशीको स्त्रीके ऋतुकालके समय भी सदा ब्रह्मचर्यसे रहै अर्थात् स्त्रीके साथ ससर्ग न करै ॥ १२८ ॥

न ज्ञानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न महानिधिः ।

न वासोमिः सहाजस्रं नाविहाते जलाशये ॥ १२९ ॥

भोजनके पीछे, रोगी होनेपर, आधी रातको और बहुतसे वस्त्र पहिरकर सदा स्नान न करै और जिस तालाव की धाह न जानी हो उसमें भी स्नान न करै ॥ १२९ ॥

देवतानां शुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा ।

नाक्रामेत्कामतद्गच्छायां वभ्रुणोदीक्षितस्य च ॥ १३० ॥

देवमूर्तियोंकी, गुरुकी, राजाकी, स्नातककी, आचार्यकी, कपिला गौकी और यज्ञमें दीक्षितकी छायाको जान बूझकर उल्लंघन न करै ॥ १३० ॥

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे च श्राद्धं भुक्त्वा च सामिपम् ।

संध्योर्दुर्भयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम् ॥ १३१ ॥

दिनके मध्यमें, अर्ध रात्रिमें और जिसमें मास बना हो ऐसे श्राद्धमें खाकर, और दोनों संभ्याओंमें चौराहेपर न जाय ॥ १३१ ॥

उद्वर्तनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च ।

श्लेष्मनिष्ठधूतवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ॥ १३२ ॥

उद्वर्तनका मल, स्नानका जल, विष्ठा, मूत्र, लोहू, खकार, थूक और वमन इनके पास जान बूझकर न बैठै ॥ १३२ ॥

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः ।

अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योषितम् ॥ १३३ ॥

शत्रु, शत्रुका हिमायती, अधर्मी, चोर और पराई स्त्री इनसे मेल न रखे ॥ १३३ ॥

न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते ।

यादृशं पुरुषस्यैह परदारोपसेवनम् ॥ १३४ ॥

इस संसारमें पुरुषकी आयु घटानेवाला ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जैसा परस्त्रीगमन है ॥ १३४ ॥

क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम् ।

नावमन्येत वै भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥

अपने प्रतापको चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह क्षत्री, सर्प और विद्यावान् ब्राह्मण इन्हें दीन समझकर इनका कभी अपमान न करे ॥ १३५ ॥

पतञ्जयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितम् ।

तस्मादेतञ्जयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान् ॥ १३६ ॥

ये तीनों अपमानित होनेसे पुरुषको भस्म कर देते हैं इसलिये बुद्धिमन्तों चाहिये कि इन तीनोंका कभी अपमान न करे ॥ १३६ ॥

नात्मानमवमन्येत पूर्वाम्भिरसमृद्धिभिः ।

आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥ १३७ ॥

धनके प्रयत्न करनेपर यदि धन न मिले तो पहिली अक्षपतियोंसे अपना अपमान न करे कि "भैं बड़ा संदभाग्य हूँ" और लक्ष्मीको दुर्लभ न जानकर मरणपर्यंत उसके पानेका उद्योग करता रहे ॥ १३७ ॥

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥

ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे और जो सत्य तो होय और प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे और जो प्यारी बात झूठ हो तो उसे कहे ही नहीं, यही सनातनका धर्म है ॥ १३८ ॥

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा यदेत् ।

शुष्कपैरं विवाहं च न कुर्यात्त्रेनचित्सह ॥ १३९ ॥

शुष्कपैरं विवाहं भी अच्छा ही अच्छा कहे और और प्रगल्भ शिष्टोंके साथ न करे ॥ १३९ ॥

नातिकल्पं नातिस्वार्थं नातिमर्घ्यदिने स्थिते ।

नाज्ञानेन धर्मं गच्छेत्प्रैको न नृपतिः सह ॥ १४० ॥

न बहुत मर्घ्य, न बहुत स्वार्थको और न सोनेकीर मन्थान्तरिम, प्रिय जने हुये मनुष्यके साथ, इतने धर्म और अर्थको न जान ॥ १४० ॥

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनास्तयोधिकान् ।

रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिभ्रतु ॥ १४१ ॥

हीन अंगवाले, अधिक अंगवाले, विद्याहीन, उमरमें, बूढ़े, नरुपर, अथवा तथा जातिहीन इनपर आक्षेप न करना चाहिये ॥ १४१ ॥

न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणानलान् ।

न चापि पश्येदशुचिः सुस्थो ज्योतिर्गणान्दिवि ॥ १४२ ॥

झूठे मुंहवाला ब्राह्मण अपने हाथसे गौ ब्राह्मण और अभिका स्पर्श न करे और अपवित्र होकर अच्छी दशामें भी आकाशमें सूर्यादि नक्षत्रोंको न देखे ॥ १४२ ॥

स्पृष्टैतानशुचिर्नित्यमङ्गिः प्राणानुपस्पृशेत् ।

गात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥

अशुद्ध ब्राह्मण इन गौ आदिका स्पर्श करके प्राणोंका अर्थात् चक्षु आदि इन्द्रियोंका, सब शरीर और नाभिका अपनी हथेलीमें जल लेकर स्पर्श करे ॥ १४३ ॥

अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः ।

रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥ १४४ ॥

आरोग्य दशामें विना प्रयोजन अपनी इन्द्रियोंको न छुए और सब गुप्त जगहके रोमोंको भी न छुए ॥ १४४ ॥

मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः ।

जपेच्च ब्रह्मयाचैव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥

सदा शुभसेवा आदि मंगल कार्यमें लगा रहै, बाहर और भीतरसे पवित्र और जितेन्दी रहै और धालस्यको छोड़कर सदा गायत्रीका जप और अग्निमें हवन करे ॥ १४५ ॥

मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम् ।

जपतां ब्रह्मतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥

जो मंगलदायक आचरणसे रहते हैं, नित्य अपनेको पवित्र रखते हैं और जप तथा हवन करते हैं-ऐसे मनुष्योंको कोई उपद्रव नहीं होता है ॥ १४६ ॥

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः ।

तं ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥

सावधान होकर समयपर नित्य वेदका अभ्यास करता रहै, क्योंकि वेदका अभ्यास ब्राह्मणका परम धर्म और अन्य कार्य उपधर्म कहा गया है ॥ १४७ ॥

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च ।

अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥ १४८ ॥

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च । अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥ १४८ ॥

निरंतर वेदका अभ्यास, पवित्रता, तप और प्राणियोंके अद्रोहसे मनुष्य पूर्वजन्मकी जातिका स्मरण करता है ॥ १४८ ॥

पौर्विकीं संस्मरज्जातिं ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः ।

ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥ १४९ ॥

पूर्वजन्मकी जातिको स्मरण करता हुआ फिर भी वेदकाही अभ्यास कर क्योंकि वेदके निरंतर अभ्याससे अनंत सुख अर्थात् मोक्ष पाता है ॥ १४९ ॥

सावित्राञ्छान्तिहोमांश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः ।

पितृश्रैवाष्टकास्वर्चेन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥ १५० ॥

पर्वमें अर्थात् अमावास्या और पूर्णिमाको गायत्री जिनका देवता है ऐसे होम और (अनिष्ट दूर करनेके लिये) शांति-होम नित्य करे और अगहन सुदी पूर्णिमाके पीछे कृष्ण पक्षकी तीन अष्टमी और उनके पीछेकी नौमीमें पितरोंका सदा पूजन करे ॥ १५० ॥

दूरादावसथान्मृञ्च दूरात्पादावसेचनम् ।

उच्छिष्टान्ननिषेकं च दूरादेव समाचरेत् ॥ १५१ ॥

ग्रहसे दूर मल मूत्रका त्याग और पाद प्रक्षालन करना चाहिये । और श्लेष्म और वीर्यको भी दूरही त्यागना चाहिये ॥ १५१ ॥

मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् ।

पूर्वाह्न पत्र कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥ १५२ ॥

मलत्याग, श्वाहार, स्नान, दंतधावन, अञ्जन और देवताका पूजन दिनके पूर्व सागमेही करना चाहिये ॥ १५२ ॥

दैवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् ।

ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरुनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥

पर्वके दिन, अपनी रक्षाके लिये देवता, धार्मिक भेष्ट ब्राह्मण, राजा और गुरु इनका दर्शन करने सन्मुख जाय ॥ १५३ ॥

अभिवादेयेदृक्षांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम् ।

कृताञ्जलिदपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्विययात् ॥ १५४ ॥

दृक्षांको प्रणाम करे उनको अपना आसन बैठनेके लिये दे, उनके सामने दाय जोड़कर बैठे और जब वे जाय तब उनके पीछे २ जाय ॥ १५४ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यक्निबद्धं स्त्रेषु कर्मसु ।

धर्ममूलं निवेद्येत् सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि सावधान होकर, अच्छे प्रकारसे श्रुति और स्मृतिमें कहे गये अग्ने कर्ममें सुद्य तथा धर्मकी जड़ ऐसे सदाचारको करे ॥ १५५ ॥

आचाराह्वयते शायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो ह्यन्यलक्षणम् ॥ १५६ ॥

मनुष्य, सदाचारसेही आयु, योग्य संतान और अक्षय धनको प्राता है और सदाचार बुरे फलको नाश करता है ॥ १५६ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १५७ ॥

दुराचारी पुरुष लोकमें निन्दित, सदा दुःखभागी, रोगी और अल्पायु होता है ॥ १५७ ॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।

श्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥

सब सुन्दर लक्षणोंसे रहित भी पुरुष जो सदाचारी और श्रद्धावान् है और दूसरोंको दोष नहीं लगाता वह सौ वर्ष जीता है ॥ १५८ ॥

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥

जो जो कर्म पराये वश है उसे यत्नपूर्वक त्याग दे और जो जो अपने आर्षान हो उसे यत्नपूर्वक करै ॥ १५९ ॥

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

पतद्विधात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥

पराये वशका काम सब दुःखरूप है और अपने वशका सब सुखरूप है यह सुख दुःखका लक्षण संक्षेपसे जानना चाहिये ॥ १६० ॥

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ।

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥ १६१ ॥

जिस कर्मके करनेमें मनुष्यके अंत करणको संतोष हो उसे बड़े यत्नसे करै और जिससे संतोष न हो उसे त्याग देना चाहिये ॥ १६१ ॥

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।

न हिंस्याद्ब्राह्मणान्गाश्च सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥ १६२ ॥

वेद पढ़ानेवाला, वेदकी व्याख्या करनेवाला, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गौ और सब तपस्वी इनके प्रतिकूल आचरण न करै ॥ १६२ ॥

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् ।

द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैर्हृष्यं च वर्जयेत् ॥ १६३ ॥

नास्तिकता, वेदकी निन्दा, देवताओंकी बुराई, द्वेष, पाखंड, घमंड, क्रोध और क्रूरता इनको त्याग दे ॥ १६३ ॥

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्कुद्धो नैव निपातयेत् ।

अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्यर्थं ताडयेत्सु तौ ॥ १६४ ॥

पुत्र वा शिष्यको छोड़ दूसरेपुत्र दंड न उठावै । क्रोधित होने पर भी दूसरेको दंड न मारि केवल पुत्र और शिष्यको शिक्षाके लिये ताड़ना करै ॥ १६४ ॥

ब्राह्मणायावगूर्यैव द्विजातिर्विधकाम्यया ।

शतं वर्षाणि तामिन्ने नरके परिवर्तते ॥ १६५ ॥

द्विजाति भी ब्राह्मणको मारनेकी इच्छाकर उसपर दंड उठानेसेही तामिन्न नरकमें सौ वर्षतक भ्रमता है ॥ १६५ ॥

ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम् ।

एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

कोधसे जान बूझकर जो ब्राह्मणको तिनकेसे भी मारता है वह इक्कीस जन्म तक (कुत्ताआदि) पापयोनिमें जन्म लेता है ॥ १६६ ॥

अगुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृगङ्गतः ।

दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥

युद्ध न करनेवाले ब्राह्मणके शरीरसे जो पुरुष विनाकारण लोहू गिराता है वह मरकर उस मूर्खतासे परलोकमें बड़ा दुःख पाता है ॥ १६७ ॥

शोणितं यावतः पांसूस्संगृह्णाति महीतलात् ।

तावतोऽद्भानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥ १६८ ॥

न कदाचिद्विजे तस्माद्विद्वानवगुरेदपि ।

त ताडयेत्तृणेनापि न गात्रात्स्त्रावयेदसृक् ॥ १६९ ॥

पृथ्वीतलमें पड़ेहुए ब्राह्मणके रुधिरसे धूलिके जितने परमाणु भीगते हैं उतनेही वर्ष रुधिर बहानेवालेको अन्य (कुत्ता गीदड़ आदि) भक्षण करते हैं ॥ १६८ ॥ इसलिये विद्वान् पुरुष ब्राह्मणके ऊपर कदापि प्रहार न करै । तिनकेसे भी न मारे और शरीरसे लोहू न गिरावै ॥ १६९ ॥

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥

जो मनुष्य अधर्मी है, जिसका हठ बोलनाही धन है, जिसकी सदा हिंसामें प्रीति है वह संसारमें सुख नहीं पाता है ॥ १७० ॥

न सीदन्नापि धर्मेण मनोऽधर्मं निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥ १७१ ॥

पापी अधर्मियोंकी शीघ्रही बुरी गति होती है ऐसा समझकर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन न लगावै ॥ १७१ ॥

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि क्लृन्तति ॥ १७२ ॥

जैसे पृथ्वी शीघ्र फल नहीं देती वैसेही संसारमें किया हुआ अधर्म तत्काल फल नहीं देता है किन्तु किया हुआ अधर्म करनेवालेको धीरे २ जड़ मूलसे नष्ट कर देता है ॥ १७२ ॥

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्युत्रेषु नमृषु ।

न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्मवति निष्फलः ॥ १७३ ॥

जो अधर्म अपने ऊपर फल नहीं करता तो पुत्रोंपर करता है जो पुत्रोंपर नहीं तो पौत्रोंपर करता है बात यह है कि किया हुआ अधर्म कर्ताको बिना फल दिये नहीं छोड़ता ॥ १७३ ॥

अधर्मैषधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥

अधर्मा पहिले अधर्मसे बढ़ता है फिर उससे अपना भला देखता है फिर शत्रुओंको जीतता है फिर जइसहित नाश हो जाता है ॥ १७४ ॥

सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहूदरसंयतः ॥ १७५ ॥

सत्य, धर्म, सदाचार और पवित्रता इनमें सदा प्रीति करै और शिष्योंको सदा धर्मसे शिक्षा दे तथा वाणी, भुजा और पेटका संयम करै अर्थात् वाणीसे सत्य बोले, भुजासे किसीको न मारे और अल्प भोजन करै ॥ १७५ ॥

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्मं चाप्यसुखोदर्थं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ १७६ ॥

जो धन और काम ये दोनों धर्मसे रहित हों (जैसे चोरीका धन और पूर्वके दिन स्त्रीसंगम) उनको त्याग दे और जिसमें आगेको सुख न हो ऐसे धर्मको भी त्याग दे (जैसे अपने जीतेजी सब द्रव्य पुण्य कर देना) और जो जगतमें निन्दित काम है उसे भी त्याग देना चाहिये ॥ १७६ ॥

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः ।

न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ॥ १७७ ॥

हाथ और पैरोंसे चपलता न करै (अर्थात् बृथा किसीकी वस्तु हाथसे न छीने और पैरोंसे बृथा इधर उधर न डोले) और नेत्र चपल भी न हो अर्थात् पराई स्त्री आदिको न देखे) और वाक्चपल भी न बनै (अर्थात् किसीसे कठोर और बुरा वचन न कहै) और दूसरेकी बुराईमें कभी मन न लगावै ॥ १७७ ॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन शच्छन्न रिष्यते ॥ १७८ ॥

(यदि शास्त्रोक मार्ग बहुतसे देखे तो) जिस मार्गसे उसके बापदादा गये हैं उसी मार्गसे आप जाय अर्थात् जो कुछ वे करते आए हैं वही आप भी करै परन्तु वह सज्जनोंका मार्ग हो (चोरी छिनाला नही) उस मार्गसे जानेवाला अधर्मसे भी दुखी नहीं होता ॥ १७८ ॥

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः ।

बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्नातिसंबन्धिवान्धवैः ॥ १७९ ॥

ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, बालक, वृद्ध, रोगी, वैद्य, शांतिजन, संबन्धी, बाधव ॥ १७९ ॥

मातापितृभ्यां जामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ १८० ॥

माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकर चाकर इनके साथ विवाद न करै ॥ १८० ॥

पतैर्विवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

पमिर्जितैश्च जयति सर्वल्लोकानिमान्गृही ॥ १८१ ॥

इनके साथ झगड़ोंको न कर गृहस्थी सब पापोंसे छूट जाता है और इनको जीतकर अर्थात् इनके साथ विवादको छोडकर आगेके सब लोकोंको जीतता है ॥ १८१ ॥

आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्रजापत्ये पिता प्रभुः ।

अतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चत्विजः ॥ १८२ ॥

ब्रह्मलोकका स्वामी आचार्य है, प्रजापतिलोकका स्वामी पिता है, इन्द्र लोकका स्वामी अतिथि है और देवलोकके स्वामी ऋत्विज हैं ॥ १८२ ॥

जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः ।

संबन्धिनो ह्यपां लोके पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥ १८३ ॥

अप्सरालोककी बहन तथा पुत्र बधू अधिष्ठात्री हैं, वैश्वदेवलोकके बांधव हैं, वरुणलोकके संबन्धी हैं और भूलोकके माता और मामा स्वामी हैं (अर्थात् इनकी प्रसन्नतासे ये लोक मिलते हैं) ॥ १८३ ॥

आकाशेऽशास्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुराः ।

भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः ॥ १८४ ॥

आकाशके स्वामी, बालक, वृद्ध, दुर्बल और रोगी जानने चाहिये जेठा भाई पिताके समान और स्त्री पुत्र अपने शरीरके समान हैं (इनके साथ विवाद कहे हो सफा है) ॥ १८४ ॥

छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम् ।

तस्मादेतैरपिक्षितः सहेतासंन्यरः सदा ॥ १८५ ॥

अपना दासवर्ग अपनी छाया है और अपनी कन्या परम कृपाका पात्र है इसलिए ये चारों अतिनी भिन्न करै इनका घुरा न मान कर इनका सहन करै लोग न करै ॥ १८५ ॥

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र चर्जयेत् ।

प्रतिग्रहेण दास्याद्भ्रातृं तेजः प्रशान्पति ॥ १८६ ॥

दानसे ब्राह्मणका ब्राह्मतेज धीम्र नष्ट हो जाता है इसलिये दान लेनेमें (तप आदिके कारण) समर्थ होनेपर भी उसके लेनेकी इच्छा त्याग दे ॥१८६॥

न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतिग्रहे ।

प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७ ॥

बुद्धिमानको चाहिये कि द्रव्योंके दान लेनेमें धर्मकी विधिको बिना जाने भूखसे दुःख पाता हुआ भी दान ग्रहण न करे ॥ १८७ ॥

हिरण्यं भूमिमश्वं गामश्वं वासस्तिलान्घृतम्

प्रतिगृह्णन्नविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुचत् ॥ १८८ ॥

अविद्वान् ब्राह्मण, भूमि, घोडा, गौ, अश्व, वस्त्र, तिल और घृत इनके दान लेनेसे लकड़ीके समान भस्म हो जाता है ॥ १८८ ॥

हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गौश्चाप्योपतस्तनुम् ।

अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥

सौना और अन्न आयुको, पृथ्वी और गौ शरीरको, घोडा नेत्रको, वस्त्र खालको, घी तेजको और तिल संतानको जलाते हैं ॥ १८९ ॥

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः ।

अमभस्यदमप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ १९० ॥

जो ब्राह्मण तप और विद्यासे हीन होकर दान लेनेकी इच्छा करता है वह उस दातासहित इस प्रकार नरकमें डूबता है जैसे पत्थरकी नावसे तरता हुआ पत्थर नाव सहित डूबता है ॥ १९० ॥

तस्मादविद्वान्विमियाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात् ।

स्वल्पकेनाप्यविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीदति ॥ १९१ ॥

उसलिये मूर्ख ब्राह्मणको ऐहरे गैरे दानसे डरना चाहिये क्योंकि मूर्ख ब्राह्मण थोड़ेसेही दानसे कीचमें फसी गौके समान नरकमें डूख पाता है ॥१९१॥

न वार्यपि प्रयच्छेत्तु वैडालव्रतिके द्विजे ।

न वक्त्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित् ॥ १९२ ॥

धर्मज्ञ पुरुषको चाहिये कि वह वैडालव्रती, वक्त्रती (१९५, १९६ श्लोकमें देखो) और वेदको न जाननेवाले ब्राह्मणको अन्न भी न दे ॥ १९२ ॥

त्रिज्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादानुरेव च ॥ १९३ ॥

विधिपूर्वक पैदा कियागया भी धन यदि पूर्वकथित तीन प्रकार के ब्राह्मणों को दियाजाय तो दाता और लेनेवालेके लिये परलोकमें अनर्थ करता है ॥१९३॥

यथा प्लुवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादशौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ १९४ ॥

जैसे पत्थरकी नावसे जलमें तैरता हुआ मनुष्य नीचे डूबता है वैसेही मूर्ख दाता और दान लेनेवाला दोनों नरकमें डूबते हैं ॥ १९४ ॥

धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छात्रिको लोकदम्भकः ।

वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंघकः ॥ १९५ ॥

धर्मध्वजी (पाखंडी) सदालोभी, कपटी, जगका ठगिया, हिंसक और सभ्रका निन्दक इसको वैडालव्रतिक जानना ॥ १९५ ॥

अधोदृष्टिनैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ॥ १९६ ॥

जिसकी नीचेको दृष्टि रहै और जो निठुर, मतलबी, शठ और वृथाकी विनय दिखावै वह ब्राह्मण वक्रव्रतचर कहाता है ॥ १९६ ॥

ये वक्रव्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः ।

ते पतन्त्यन्धतामिस्त्रे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७ ॥

जो ब्राह्मण बगुलाभगत और वैडालव्रतचर हैं वे उस पापकर्मसे अध-तामिस्र नरकमें पड़ते हैं ॥ १९७ ॥

न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत् ।

व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्स्त्रीशूद्रदम्भनम् ॥ १९८ ॥

व्रतसे पापको उककर अर्थात् व्रतसे हमरा पाप छूट जायगा ऐसा जान-कर स्त्रीशूद्रोंके सामने पाखड करता हुआ पुरुष धर्मके बहाने पाप करके फिर व्रत न करै ॥ १९८ ॥

प्रेत्येह चेदृशा विप्रा गह्वन्ते ब्रह्मवादिभिः ।

छद्मनाचरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥ १९९ ॥

ब्रह्मवादी जन ऐसे ब्राह्मणोंकी परलोकमें और यहा निंदा करते हैं और जो व्रत कपटसे कियागया है वह राक्षसोंको पहुचता है ॥ १९९ ॥

अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति ।

स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्यग्योनौ च जायते ॥ २०० ॥

जो पुरुष ब्रह्मचारी तो होय नहीं परंतु ब्रह्मचारीका वेष बनाकर जीविका करै वह ब्रह्मचारियोंके पापका भागी होता है और (सर्प आदिकी) तिर्यक् योनिमें उत्पन्न होता है ॥ २०० ॥

परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाजन ।

निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥

दूसरेके निपान कदिये कुशा बावड़ी तालाव आदिमें कमी स्नान नहीं करना चाहिये और जो करै तो खुदाने वालेके चौथाई पापका भागी होता है ॥ २०१ ॥

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च ।

अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाक् ॥ २०२ ॥

विना आज्ञा अथवा विना दिये जो किसीके सवारी, पलंग, आसन, कूप, उद्यान और गृहका भोग करता है वह पुरुष पापके चतुर्यासका भागी होता है ॥ २०२ ॥

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च ।

ज्ञानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च ॥ २०३ ॥

नदियोंमें, देवताओंके नामसे खोदे हुए तालाबोंमें, छोटे २ तालाबोंमें, गर्तोंमें और झरनोंमें नित्य ज्ञान करै ॥ २०३ ॥

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥ २०४ ॥

बुद्धिमान् पुरुष सदा यमोंको करै नित्य-नियमोंको न करै क्योंकि जो यमोंको नहीं करता है और केवल नियमोंको करता है वह पतित होता है ॥ २०४ ॥

नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा ।

स्त्रिया स्त्रीवेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मणः क्वचित् ॥ २०५ ॥

जिस यज्ञको अवेदपाठी आरंभ कराता है उसमें और बहुतोंको यज्ञ करानेवालेके यज्ञमें और जिसमें स्त्री और नपुंसक आहुति दें ऐसे यज्ञमें ब्राह्मणको कभी नहीं जीमना चाहिये ॥ २०५ ॥

अश्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुह्वत्यमी हविः ।

प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ २०६ ॥

जिस यज्ञमें ये हवन करते हैं वह यज्ञ साधुओंकी लक्ष्मीका नाशक है और यह देवताओंके भी प्रतिकूल है इसलिये उसे त्याग दे ॥ २०६ ॥

मत्तकुब्जातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन ।

केशकीटावपशं च पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ २०७ ॥

उन्मत्त, क्रोधी और रोगी इनके अन्नको और जिसमें केश और कीटावपशं हैं उस अन्नको और जिसको, जिसको जानकर पैरसे स्पर्श किया हो उस अन्नको कदाचित् भी भोजन न करै ॥ २०७ ॥

* जिनका विस्तार आठ हजार धनुषसे कम न हो उसे गर्त कहते हैं—चार हाथका एक धनुष होता है ।

† ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, अहिंसा, चोरीका त्याग, मधुर-म्वभाव और इन्द्रियदमन ये दश यम हैं ।

‡ ज्ञान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, लिंग इन्द्रियका रोकना, शुशुकी सेवा, शौच, अक्रोध और अप्रमाद ये नियम कहे हैं (इति याज्ञवल्क्य.) ।

भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्षयया ।

पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥

वालघातकसे देखे हुए, रजस्वलासे स्पर्श किये गए, पक्षीके जूठे और कुत्तेसे छुए भन्नको भी न खाय ॥ २०८ ॥

गवा चान्नमुपाघ्नान्तं घुष्टान्नं च विशेषतः ।

गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥ २०९ ॥

गायसे सूंघा गया, विशेष करके पुकार कर दिया गया, उधाईका, वेश्याका और पण्डित जिसकी बुराई करें ऐसा अन्न भी न खाय ॥ २०९ ॥

स्तेनगायनयोश्चान्नं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च ।

दीक्षितस्य कर्दर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥

चोर, गानेवाला, घढई, व्याज लेनेवाला, यज्ञमें दीक्षित, कृपण और कैदी इनके अन्नको भी भक्षण नहीं करना चाहिये ॥ २१० ॥

अभिशास्तस्य षण्ढस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च ।

शुक्तं पर्युषितं चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ २११ ॥

लोकनिन्दित, नपुंसक, व्यभिचारिणी, पासंडी इनका और जो विगड़ गया हो तथा जो बासी हो और शूद्रका जूठा ऐसे भन्नको भी न खाना चाहिये २११

चिकित्सकस्य भृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टभोजिनः ।

उग्रान्नं सूतिकाक्षं च पर्याचान्तमनिर्दशम् ॥ २१२ ॥

वैद्यका, व्याषका, कठोर स्वभाववालेका, जूठन खोरका, कठोर कर्म करनेवालेका, सूतिकाका, दसूठनका और भोजन करतेमें जहा कोई आवचमन करले बहका अन्न भी न खाय ॥ २१२ ॥

अनर्चितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः ।

द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवक्षुतम् ॥ २१३ ॥

बिना आदरके दिया गया अन्न, देवताओंके लिये नहीं बनाया गया मांस और पुत्रहीन स्त्रीका, वैरीका तथा नगरपतितका अन्न और जिसपर किसीने छींक दिया हो ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ २१३ ॥

पिशुनानृत्तिनोश्चान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा ।

शैलूषतुन्नवाथान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥

खुगलखोर और झूठेका, यज्ञफलको बेचनेवालेका, नट और दर्जाका तथा पराये उपकारको नहीं माननेवालेका भी अन्न न खाय ॥ २१४ ॥

कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च ।

सुवर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥

लुहार, बहेलिया, नाटक खेलनेवाला, झुनार, घासवाला और हथियार बेचनेवाला इनके अन्नको भी न खाय ॥ २१५ ॥

श्ववतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णेजकस्य च ।

रक्षकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ २१६ ॥

कुत्ते पालनेवाके, कलार, धोबी, रंगरेज, घातक और जिसके घरमें बार
रहै, इनका भी अन्न न खाय ॥ २१६ ॥

मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः ।

अनिर्दशं च प्रेतान्नमनुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥

जो मनुष्य अपने घरमें अपनी स्त्रीके यारको देख चुपके रहते हैं, जो सब
प्रकारसे स्त्रियोंके नशमे हैं उनका अन्न और दश दिनके भीतर प्रेतका अन्न न
खाय और जिस अन्नसे मन प्रसन्न न हो उस अन्नको भी न खाना चाहिये २१७

राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् ।

आयुः सुवर्णकारान्नं यद्वाश्चर्मावकर्तिनः ॥ २१८ ॥

राजाका अन्न तेजको, शूद्रका अन्न ब्रह्म तेजको, सुनारका अन्न उमरको
और चमारका अन्न यशको हरता है ॥ २१८ ॥

काशकाष्ठं प्रजां हन्ति थलं निर्णेजकस्य च ।

गणान्नं गणिकाष्ठं च लोकेभ्यः परिक्रान्तति ॥ २१९ ॥

कारीगरका अन्न संतानको और धोबीका अन्न थलको नाश करता है ।
उघाईका और रंडीका अन्न खर्गादि लोकोंको नष्ट करता है ॥ २१९ ॥

पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम् ।

विष्टा वाधुंषिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो मलम् ॥ २२० ॥

य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः ।

तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२१ ॥

वैद्यका अन्न राद, व्यभिचारिणीका अन्न वीर्य, व्याजखोरका अन्न विष्टा
और शस्त्र बेचनेवालेका अन्न मलके तुल्य है ॥ २२० ॥ ये और अन्य जो अभो-
ज्यान्नवाले क्रमसे कहे हैं उनके अन्नको विद्वान् त्वचा हृष्टी और रोमके तुल्य
कहते हैं ॥ २२१ ॥

भुक्त्वातोऽन्यतमस्यान्नमत्या क्षपणं ज्यहम् ।

मत्या भुक्त्वाचरेत्कृच्छ्रं रेतोविण्मूत्रमेव च ॥ २२२ ॥

इसलिये इनमेंसे किसीके अन्नको बिना जाने खाकर तीन दिन उपवास करै
और जानकर भक्षण करनेसे कृच्छ्रव्रत करै और वीर्य, विष्टा और मूत्र खानेसे
भी कृच्छ्र करै ॥ २२२ ॥

नाथाच्छूद्रस्य पक्कान्नं विद्वानश्चाद्विनो द्विजः ।

आददीताममेवास्मादधृत्तावेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥

विद्वान् भ्राह्मणको चाहिये कि भ्राह्मके अनधिकारी शूद्रके पक्कान्नकोभी भक्षण

न करे और जो कहीं भोजन न मिले तो शूद्रसे एक रातके लायक कच्चा अन्न लेले ॥ २२३ ॥

श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुपेः ।
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन् ॥ २२४ ॥
तान्प्रजापतिराहृत्य मा कृध्वं विपमं समम् ।
श्रद्धापूर्तं वदान्यस्य हृतमश्रद्धयेतरत् ॥ २२५ ॥
श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैर्धनैः ॥ २२६ ॥

लोभी, वेद पाठों और व्याजखोर दाता इन दोनोंके अन्नको देवताओंके विचार कर बराबर निश्चय किया है ॥ २२४ ॥ परंतु ब्रह्मजी उन देवताओंके पास जाकर बोले कि इन दोनों अन्नोंको बराबर मत समझो क्योंकि व्याजखोर दाताका श्रद्धासे दिया अन्न पवित्र है और विना श्रद्धाके दिया गया लोभीका अन्न निपिद्ध है ॥ २२५ ॥ सावधान होकर श्रद्धासे सदा यज्ञ करे और कूप, तालाव आदि बनवावै क्योंकि न्यायसे आये हुए धनसे उनके श्रद्धापूर्वक करनेसे वे मोक्ष देते हैं ॥ २२६ ॥

दानधर्मं निषेवेत नित्यमैष्टिकपौर्तिकम् ।
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥

यज्ञ और पूर्तसंबन्धी दानधर्मको, सुपात्र ब्राह्मणको पाकर प्रसन्नतासे अपनी शक्तिके अनुसार नित्य करे ॥ २२७ ॥

यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया ।
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ॥ २२८ ॥

मांगनेसे ईर्ष्यारहित होकर थोड़ा बहुत ही दे, क्योंकि दाताको कमी ऐसा पात्र मिल जायगा कि जो सबतरह नरकसे तार देगा ॥ २२८ ॥

चारिदस्त्वृत्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः ।
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम् ॥ २२९ ॥

जलका दाता वृत्तिको, अन्नका दाता अक्षय सुखको, तिलका दाता अच्छं सतानको और दीपकका दाता अच्छे नेत्र पाता है ॥ २२९ ॥

भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः ।
गृहदोऽप्याणि वैश्रमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥ २३० ॥

भूमिका दाता भूमिको, सुवर्णका दाता बड़ी आयुको, घरका दाता अच्छे २ घरोंको और चादीका दाता उत्तम रूपको पाता है ॥ २३० ॥

वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः ।
अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम् ॥ २३१ ॥

वज्रका दाता चंद्रलोकको, घोड़ेका दाता अश्विनीकुमारलोकको, वृषभ-
का दाता अधिक लक्ष्मीको और गौका दाता सूर्यलोकको पाता है ॥ २३१ ॥

यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः ।

धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसार्पिताम् ॥ २३२ ॥

दारी और पलंगका दाता स्त्रीको, अभयका दाता ऐश्वर्यको, अन्नका दाता
निरंतर सुखको और वेदका दाता ब्रह्म समान गतिको पाता है ॥ २३२ ॥

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विदिष्यते ।

चार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्जनसर्पिणाम् ॥ २३३ ॥

जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वज्र, तिल, सुवर्ण और घी इन सबके दानोंमेंसे
वेदका दान सबसे उत्तम है ॥ २३३ ॥

येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति ।

तत्तत्तैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥

मनुष्य जिस २ भावसे जो जो दान करता है उसी २ भावसे उसेही वह
बड़े आदरसे पाता है ॥ २३४ ॥

योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव च ।

ताडुमौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ॥ २३५ ॥

जो आदरसे देता है और जो आदरसे दिये हुएको लेता है वे दोनों स्वर्गको
जाते हैं और इमसे विपरीत करनेसे अर्थात् निरादरसे देने लेनेवाले नरकको
जाते हैं ॥ २३५ ॥

न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टा च नानृतम् ।

नार्तोऽप्यपचदेद्विप्राज्ञ दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥ २३६ ॥

तप करके आश्चर्य न करै (कि मैंने कैसा कठिन चान्द्रायण आदि व्रत
करिया) और यज्ञ करके झूठ न बोले और ब्राह्मणोंसे पीडित होकर भी उनकी
मिन्दा न करै और दान देकर अपनी बड़ाई न करै ॥ २३६ ॥

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् ।

आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ २३७ ॥

झूठसे यज्ञ, आश्चर्य वा गर्व करनेसे तप, ब्राह्मणोंकी बुराईसे आयु और
बड़ाई करनेसे दान नष्ट हो जाता है ॥ २३७ ॥

धर्मं शनैः संचिनुयाद्ब्रह्मीकमिव पुत्तिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ २३८ ॥

सब प्राणियोंको पीडा नहीं देता हुआ, परलोककी सहायताके लिये धीरे २
रूपप्रकार धर्मका सचय करै कि जैसे दीमक बानीको सचय कर लेती हैं ॥ २३८ ॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २३९ ॥

पिता, माता, पुत्र, स्त्री और जातिवाले ये कोई परलोकमें सहायता नहीं करते केवल एक धर्मही सहायक होता है (इसलिये धर्मको कभी न त्यागै) ॥ २३९ ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २४० ॥

प्राणी अकेलाही उत्पन्न होता है अकेलाही मरता है और अकेलाही पुण्य तथा अकेलाही पाप भोगता है ॥ २४० ॥

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।

विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥

वे भाईबन्धु आदि तो काष्ठ और मट्टीके डेलके समान मरे शरीरको पृथ्वीमें गाढ़कर उलटे लौट जाते हैं केवल धर्मही प्राणीके पीछे २ जाता है ॥ २४१ ॥

तस्मान्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिन्याच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ २४२ ॥

इसलिये परलोकके सहायके लिये प्रतिदिन थोडा २ धर्मसंचय करै, क्योंकि मनुष्य धर्मकी सहायतासे कठिन नरकादिसे तर जाता है ॥ २४२ ॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतक्लिविषम् ।

परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम् ॥ २४३ ॥

तपसे पापको नष्ट करनेवाला और धर्ममें तत्पर, ऐसे देदीप्यमान ब्रह्म-स्वरूप पुरुषको धर्मही शीघ्र परलोकको लेजाता है ॥ २४३ ॥

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं संबन्धानाचरेत्सह ।

निनीपुः कुलमुत्कर्षमधमानधर्मास्त्यजेत् ॥ २४४ ॥

अपने कुलकी वढ़ाई चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि सदा अच्छों अच्छों के साथ संबन्ध करै और नीचोंको त्याग दे ॥ २४४ ॥

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।

ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन दृष्टताम् ॥ २४५ ॥

जो ब्राह्मण अच्छों २ से व्यवहार करता है और नीचों २ को छोड़ता है वही श्रेष्ठ गिना जाता है इसके विपरीत करनेसे श्रद्धताको प्राप्त होता है ॥ २४५ ॥

रुद्धकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ २४६ ॥

धामको रूढ़तासे करनेवाला, कोमल, जाड़ा गरमी आदि सहनपाला, क्रूर आचरणनालोंसे दूर रहनेवाला, हिंसारहित, तथा व्रत करनेवाला ब्राह्मण, दम और दानसे स्वर्गको जीत लेता है ॥ २४६ ॥

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत् ।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथामयदक्षिणाम् ॥ २४७ ॥

लकडी, जल, मूल, फल, विना मागा अन्न, मधु, और अभयदान सबसे लेले ॥ २४७ ॥

१) आहृताभ्युद्यतां मिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम् ।

मेने प्रजापतिर्ग्राह्यमपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥

जो मिक्षा अपने आप लाकर आगे धरी गई हो और किसीसे मागी न गई हो और देनेवालेने भी देनेकी प्रतिज्ञा पहिलेसे न करी हो ऐसी मिक्षा पाप कर्मवालेकी भी ले लेनी चाहिये यह ब्रह्माजीकी सम्मति है ॥ २४८ ॥

नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च ।

न च हव्यं वहत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥

जो उस मिक्षाको स्वीकार नहीं करता है उसके पितर पन्द्रह वर्षतक श्राद्धके अन्नको नहीं खाते हैं और अग्नि उसके दिये हव्यको (देवताओंके पास) नहीं पहुंचाती है ॥ २४९ ॥

शय्यां गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्वधि ।

धाना मत्स्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निर्नुदेत् ॥ २५० ॥

खाट, घर, कुशा, कर्पूर आदि गंध, जल, पुष्प, मणि, दधि, घान, मछली, दूध, मास और शाक इनको नहीं न करै ॥ २५० ॥

गुरुभृत्यांश्चोजिहीर्षन्नर्चिष्यन्देवतातिथीन् ।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्तु तृप्येत्स्वयं ततः ॥ २५१ ॥

मनुष्यको चाहिये कि (माता पिता आदि) गुरु और सेवकोंके भरण पोषणके लिये और देवता तथा अतिथिके पूजन सत्कारके लिये सबसे दान ले ले परंतु वह धन या वस्तु अपने काममें न लावे ॥ २५१ ॥

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैर्गृहे वसन् ।

आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्गृह्णीयात्साधुतः सदा ॥ २५२ ॥

आर्थिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ ।

पते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ २५३ ॥

जिसके मातापिता मर गए हों अथवा घरमें उनसे अलग रहता हो ऐसा ब्राह्मण अपनी आजीविकाके लिये सदा साधुजनोंसे दान ले ले ॥ २५२ ॥ किसान, कुलका मित्र, अहीर, दास, नाई और जो अपनेकी सेवाके लिये अर्पण करदे इतने शूद्रोंके यहा अन्न खानेमें दोष नहीं है ॥ २५३ ॥

यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीर्षितम् ।

यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ॥

इस शूद्रके कुलशीलकी जैसी अवस्था हो, जो किया चाहता हो और जैसे२ इस ब्राह्मणकी सेवा करनी हो इन सब बातोंको पहिले कह दे ॥ २५४ ॥

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते ।
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्निनिःसृताः ।
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २५६ ॥

जो पुरुष सज्जनोंको मनकी बात न बताकर कुछकी कुछ बतलाता है वह अपनी आत्माका हरनेवाला चोर है और वह जगतमें बड़ा पापी है ॥ २५५ ॥ सब पदार्थ वचनमें रहते हैं वचनही उनकी जड़ है और वे वचनसेही निकलते हैं इसलिये जो मनुष्य वचनको चुरावै अर्थात् झूठ बोले वह मनुष्य सब वस्तुओंका चुरानेवाला है ॥ २५६ ॥

महर्षिपितृदेवानां गत्वानुष्यं यथानिधि ।
पुत्रे सर्वे समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥

(वेदपाठसे) महर्षियोंके (पुत्रोत्पत्तिसे) पितरोंके और (यज्ञ करके) देवताओंके ऋणसे विधिपूर्वक छुटकर और (कुटुंबकी चिंताके भारको) पुत्रके आश्रित करके तथा पुत्रादिकोंकी ममताको छोड़कर घरमें वास करै ॥ २५७ ॥

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः ।
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ २५८ ॥

और एकातमे अकेला बैठकर अपने हितकी अर्थात् ब्रह्मभावकी चिंता करै क्योंकि अकेला चिन्ता करता हुआ पुरुष मोक्षको पाता है ॥ २५८ ॥

एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती ।
ज्ञातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥

गृहस्थी ब्राह्मणकी यह नित्यकी वृत्ति कही है और सतोगुणकी वृद्धि करनेवाला श्रेष्ठ ज्ञातकके व्रतका विधान कहा ॥ २५९ ॥

अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित् ।
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥

जो वेदज्ञ ब्राह्मण इस प्रकार शास्त्रमें कही हुई जीविका निभाता है वह सदा पापरहित होकर ब्रह्मलोकमें आदर पाता है ॥ २६० ॥ इति—

पण्डित रामेश्वरभट्टकृत सरलाटीकासहित मनुस्मृतिका
चौथा अध्याय समाप्त हुआ । शुभम् ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

श्रुत्वैतानुपयो धर्मान्ज्ञातकस्य यथोदितान् ।

इदमूचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥

त्रेधिलोगोंने इस प्रकार पूर्वकथित ज्ञातक रहस्योंके धर्म सुनकर अभिसे उत्पन्न महात्मा भृगुजीसे पूछा ॥ १ ॥

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् ।

कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥

हे प्रभो ! शास्त्रकथित अपने धर्मोंको करनेवाले और वेदशास्त्र ज्ञाननेवाले ब्राह्मणोंकी (अल्पावस्थामें ही) कैसे मृत्यु हो जाती है ॥ २ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षिन्मानवो भृगुः ।

श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ३ ॥

धर्मात्मा, मनुपुत्र भृगुजी महर्षियोंसे कहने लगे कि जिस पापसे मृत्यु ब्राह्मणोंको नष्ट करना चाहती है उसे सुनो ॥ ३ ॥

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनान् ।

आलस्यादन्नदोषाश्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ४ ॥

वेदोंका अभ्यास न करनेसे, आचार छोड़ देनेसे, आलस्यसे और अन्नके दोषसे, मृत्यु ब्राह्मणोंको मारना चाहती है ॥ ४ ॥

लशुनं गृञ्जनं चैव पराण्डुं कचकानि च ।

अभदयाणि त्रिजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥ ५ ॥

लहसन, गाजर, प्याज, छत्राक (कुम्हटा) और अशुद्ध जगहमें उत्पन्न हुए अन्न शाक आदि द्विजातियोंको नष्ट करने चाहियें ॥ ५ ॥

लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वृक्षनप्रभवांस्तथा ।

शेखुं गदयं च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ६ ॥

शुक्ला लाल गोंद या शुकके काटनेसे निकला हुआ गोंद, लूईके फल और गौकी पेवसी इनको यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिये ॥ ६ ॥

वृथा ह्यसरसंयाचं पायसापूपमेव च ।

अनुपाहतमांसानि देवाभ्यानि हवींषि च ॥ ७ ॥

वृथा ह्यसरसंयाचं (जो अपनेही लिये तिल गिलाकर खानेक पकाए जग्य देवताओंके लिये नहीं) गौदनभोग, गौर, पुण, अनुपाहत मांस (अर्थात् ऐसे पशुका मांस जिसका मंत्रोंसे तृप्त नहीं हुआ हो) तथा जिस पशुके देवताके अर्घ्य भोग न लग चुका हो और होनेसे पहिलेनी हृन् इनको त्याग दे ॥ ७ ॥

अनिर्देशाया गोः क्षीरमौष्टुर्भक्षार्कं तथा ।

आविकं संधिनीक्षीरं विथस्तायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥

व्याई हुई गौके पहिले दस दिनका, ऊंटनीका, घोड़ीका, भेड़का वा जो गौ बैलको चाहती हो वा जिसका बच्चा मरगया हो उस गौका दूध भी त्याग देना चाहिये ॥ ८ ॥

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना ।

स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥ ९ ॥

भैंसको छोड़कर वनके सब दुधारु पशुओंका दूध और स्त्रीका दूध और काजी इनका पीना भी वर्जित है ॥ ९ ॥

दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसंभवम् ।

यानि चैवामिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १० ॥

शुकोमें (अर्थात् काजीके पदार्थोंमें) दही और दहीसे उत्पन्न हुए छाछ मक्खन आदि खाने योग्य हैं और जो शुक्त सुन्दर पुष्प मूलफलोंसे उत्पन्न होते हैं वे भी खाने योग्य नहीं हैं ॥ १० ॥

श्रव्यादाञ्जकुनान्सर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः ।

अनिर्दिष्टाञ्चैकशपांष्टिष्टिभं च विवर्जयेत् ॥ ११ ॥

सब कच्चे मासको खानेवाले (गृध्रआदि) और ग्राममें रहनेवाले (कबूतर आदि) पक्षी और नहीं कहेहुए एक खुरवाले (घोड़े आदि) और टटीरी इनको भी त्याग देना चाहिये ॥ ११ ॥

कलविङ्कं प्लवं हंसं चक्राहं ग्रामकुक्कुटम् ।

सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १२ ॥

त्रिबिया, प्लव नामपक्षी, हंस, चक्रवा, गावका मुरगा, सारस, रज्जुवाल, जलकाक, तोता और मैना इनको भी त्याग दे ॥ १२ ॥

प्रतुदाञ्जालपादांश्च कोयष्टिनखविष्किरान् ।

निमज्जतश्च मत्स्यादाञ्शौनं बलूरमेव च ॥ १३ ॥

यकं चैव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम् ।

मत्स्यादान्विङ्गराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः ॥ १४ ॥

चौचसे खानेवाले, जिनके पैर झिल्लीसे जुड़े हों, कोयष्टि, (टटीरी) नखोंसे विखेरकर खानेवाले और जलमें गोता लेकर मछलियोंको खानेवाले इनको और जहा पशु मारे जाय वहाका मास और सूखा मास इन सबको भी त्याग दे ॥ १३ ॥ बगुला, वक्त्रक, द्रोणकाक, खजन, मछलियोंको खानेवाले (नक आदि) विषा खानेवाले शूकर और सब प्रकारके मत्स्य आदि इनको भी त्याग दे ॥ १४ ॥

यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद् उच्यते ।

मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत् ॥ १५ ॥

जो जिसका मास खाता है वह उसके मासका खानेवाला कहाता है, मछ-

लीके मासोंका खानेवाले सब मासोंका खानेवाला होता है इसलिये मछलियोंको त्याग देना चाहिये ॥ १५ ॥

पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ ह्यव्यकथ्ययोः ।

राजीवान्सिंहतुण्डांश्च सशल्कांश्चैव सर्वेशाः ॥ १६ ॥

ह्यव्य और कथ्यमें निवेदित पाठीन, रोहित, राजीव और सिंहतुंड और जो शरक (छिलके) सहित हों ये भक्षणयोग्य हैं ॥ १६ ॥

न भक्षयेदेकचरानञ्जातांश्च मृगद्विजान् ।

भक्षयेष्वपि समुद्दिष्टान्सर्वान्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥

अकेले विचरनेवाले (सर्प आदि) को और जो मृग वा पक्षी ऐसे हैं जिनके नाम वा जातिका निश्चय नहीं है और खानेके जीवोंमें कहे गए हैं उनको और सब वानर आदि पंचनखोंको न खाय ॥ १७ ॥

श्वाविधं शल्यकं गोधां खड्गकूर्मशशांस्तथा ।

भक्षयान्पञ्चनखेष्वाम्बुरनुष्टांश्चैकतोदतः ॥ १८ ॥

सेध्या, शल्य, गोधा, गेंडा, कछुआ और खरगोश ये पाच नखोंमें और ऊंटको छोड़कर एक ओरके दातवाले भक्षणयोग्य कहे गए हैं ॥ १८ ॥

छत्राकं विङ्कराहं च लघुनं ग्रामकुक्कुटम् ।

पलाण्डुं गृञ्जनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेद्विजः ॥ १९ ॥

छत्राक (कुम्हड़ा) विष्टा खानेवाला शकर, लहसन, मावका मुरगा, प्याज सलगम, इनको जानकर खानेसे द्विज पतित होता है ॥ १९ ॥

अमत्यैतानि पट्टु जग्ध्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ।

यत्तिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० ॥

ऊपर कही हुई छत्रो वस्तुओंको विनाजाने खाकर सातपन कृच्छ्र व यत्तिचान्द्रायण करै और जो बचे (लाल गोंद आदि) उन्हें खाकर एक दिनका उपवास करै ॥ २० ॥

संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः ।

अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥

उत्तम द्विज विनाजाने खाए की शुद्धिके लिये वर्षभरमें एकही कृच्छ्र करै और जानकर भोजनकी शुद्धिके लिये तो विशेष करके बही करै जो पहिले कह आए हैं ॥ २१ ॥

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्विध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः ।

भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥

ब्राह्मणोंको, यज्ञके लिये और स्त्री सेवक आदिके पालनके लिये शास्त्रोक्त मृगपक्षी मारने चाहियें क्योंकि पहिले अगस्त्यजीने ऐसाही किया था ॥ २२ ॥

वभूषुर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम् ।

पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ ॥

पहिले ऋषियोंके यज्ञोंमें और ब्राह्मण क्षत्रियोंके यज्ञोंमें खानेके योग्य मृग और पक्षियोंके पुरोडाशा हुए थे ॥ २३ ॥

यत्किञ्चित्क्षेत्रहर्षयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगार्हितम् ।

तत्पर्युषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत् ॥ २४ ॥

अनिन्दित वासी भी भक्ष्य भोज्यको घृत आदि जेह वस्तु मिलाकर खाले और जो हविका शेष वासी हो तो उसे बिनाही घृत मिलाए भोजन कर ले २४

चिरस्थितमपि त्वाद्यमक्षेहाकं द्विजातिभिः ।

यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चैव विक्रिया ॥ २५ ॥

घृत आदि चिकनी वस्तुसे न बना हो और बहुत कालका धरा हुआ भी जो जो और गेहूँका पदार्थ तथा दुग्धका पदार्थ हो तो द्विजातियोंको खा लेना चाहिये ॥ २५ ॥

घृतयुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः ।

मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षणवर्जने ॥ २६ ॥

यह द्विजातियोंका भक्ष्याभक्ष्य सपूर्ण रीतिसे कहा गया, अब इसके आगे मांसभक्षण और त्यागमें विधि कहता हूँ ॥ २६ ॥

प्रोक्षितं भक्ष्येन्मांसं ब्राह्मणानां च कर्मभ्यया ।

यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ ॥

मंत्रोंसे प्रोक्षित, ब्राह्मणोंकी कामनासे, शास्त्र विधिके अनुसार और गुरुकी आज्ञासे, प्राणोंके सकटसमय मांसभक्षण करले ॥ २७ ॥

प्राणस्यान्नमिदं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत् ।

स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् ॥ २८ ॥

ब्रह्माजीने इस सबको जीवका अन्न बनाया है और सब स्थावर (ग्रीहि आदि) और जंगम (पशु आदि) जीवका भोजन ही है ॥ २८ ॥

चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः ।

अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ २९ ॥

मृग आदिकोंका तृणादिक, टाढगालोंका ढाढ़रहित (मृगविशेष), हाथ-वालोंका हस्तहीन (मछली आदि) तथा सिंह आदि शूरोंके (हाथी आदि) टरपोक, ये अन्न ही हैं ॥ २९ ॥

नात्ता दुप्यत्यदन्नाद्यान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि ।

धायैव सृष्टा छायाश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३० ॥

गानेवाला मनुष्य जो खानेयोग्य प्राणियोंको नित्यप्रति भी खाय तो क्षुधित नहीं होता, क्योंकि गानेके पदार्थ और खानेवाले सब प्राणी ब्रह्माजीने ही रचे हैं ३०

यस्नाय जग्धिर्मांसस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः ।

अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिश्च्यते ॥ ३१ ॥

यज्ञके लिये मांस खाना दैवविधि कही गई है शरीरपुष्टिके लिये मांस-
खाणा राक्षसविधि कही है ॥ ३१ ॥

क्रीत्वा स्वयं चाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा ।

देवान्पितृभ्यश्चार्चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥ ३२ ॥

मोल लेकर वा आपही उत्पन्न करके वा किसीने भेट दिया हो ऐसा
मांस, देवता तथा पितरोंको समर्पण करके जो मनुष्य खाता है वह दोषका
भागी नहीं होता ॥ ३२ ॥

नाद्यादविधिना मांसं त्रिधिक्षोऽनापदि द्विजः ।

जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तैरद्यत्तेऽवशः ॥ ३३ ॥

मांसके दोषकी विधिको जानता हुआ द्विज, बिना विधिके न खाय क्योंकि
अनापकाळमें बिना विधिके जो मांस खाता है मरे पीछे उस परवश मनुष्य-
को वेही जीव भक्षण करते हैं जिनको उसने खाये हैं ॥ ३३ ॥

न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः ।

यादृशं भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः ॥ ३४ ॥

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः ।

स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ ३५ ॥

धनके लिये मृग मारनेवालेको वैसा पाप नहीं होता जैसा वृथा मांस
खानेवालेको मरनेके अनंतर होता है ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य श्राद्ध और मधु-
पर्कमें नियुक्त हुआ, मांस नहीं खाता है वह मनुष्य मरकर इक्कीस जन्मतक
पशु होता है ॥ ३५ ॥

असंस्कृतान्पशून्मन्त्रैर्नाद्याद्विप्रः कदाचन ।

मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणको चाहिये कि मंत्रोंसे बिना पवित्र किये पशुओंको कभी न खाय ।
मन्नातनकी विधिमें आस्था रखकर मंत्रोंसे प्रोक्षण किये गए पशुओंको खाय ३६

कुर्याद्दृतपशुं सङ्गे कुर्यात्पिष्टपशुं तथा ।

न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥ ३७ ॥

जो पशु भक्षणकी ही इच्छा हो तो घृतका वा चूनका पशु बनाकर भक्षण
करले परंतु पशुको वृथा मारनेकी इच्छा कभी न करनी चाहिये ॥ ३७ ॥

यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम् ।

वृथापशुभ्यः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८ ॥

देवताके उद्देशविना जो मनुष्य वृथाही पशुको मारता है वह जितने पशुके
रोम हैं उतनेही वर्ष जन्म लेकर जन्म २ में मारा जाता है ॥ ३८ ॥

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।

यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे बधोऽवधः ॥ ३९ ॥

ब्रह्माजीने आपही यज्ञके लिये और सब यज्ञकी सिद्धिके लिये पशुओंको बनाया है इसलिये यज्ञमें पशुवधकी हिंसा नहीं होती ॥ ३९ ॥

ओषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा ।

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राभुवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥ ४० ॥

औषधि, पशु, वृक्ष, (कछुए आदि) तिर्यक् जीव और पक्षी, यज्ञके लिये नाश होकर उत्तम गतिको पाते हैं ॥ ४० ॥

मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि ।

अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यन्नवीन्मनुः ॥ ४१ ॥

मधुपर्क, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ तथा पितर और देवकर्म इनहीमें पशुहिंसा करनी नाहिये औरमें नहीं यह मनुजीने कहा है ॥ ४१ ॥

एष्वर्थेषु पशून्हिंसन्वेदतत्त्वार्थविद्विजः ।

आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥ ४२ ॥

वेदके सार और अर्थको जाननेवाला जो द्विज इन कामोंमें पशुकी हिंसा करता है वह अपनेको और पशुको उत्तम गतिको पहुँचाता है ॥ ४२ ॥

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः ।

नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत् ॥ ४३ ॥

आत्माके विचारवाला द्विज, घरमें, गुरुके यहा अथवा वनमें रहकर आपत्तिमेंभी अवेदविहित हिंसाको न करे ॥ ४३ ॥

या वेदविहिता हिंसा नियतासिंश्वराचरे ।

अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धर्मो हि निर्वमौ ॥ ४४ ॥

जो हिंसा वेदोक्त नियत है उसे इस संसारमें अहिंसा ही जाने क्योंकि धर्म वेदसे ही निकला है ॥ ४४ ॥

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥

जो पुरुष अपने सुखकी इच्छासे अहिंसक प्राणियोंको मारता है वह जीता हुआ और मरा हुआ कहीं भी सुख नहीं पाता है ॥ ४५ ॥

यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितप्रेम्णुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ ४६ ॥

जो प्राणियोंको वध बंधनके क्लेशोंको नहीं देना चाहता है वह सबका हितकारी अत्यन्त सुख पाता है ॥ ४६ ॥

यद्वायति यत्कुरुते धूर्तिं वध्नाति यत्र च ।

तदवाप्नोत्ययदेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ ४७ ॥

जो पुरुष किसीकी हिंसा नहीं करता, वह जिसका ध्यान करता है, और जो कर्म करता है अथवा जिस परमात्मआदि वस्तुमें धीरता करता है उसी उस वस्तुके फलको बिना यज्ञके पाता है ॥ ४७ ॥

(हिंसाके गुण और दोषोंको कहकर मासके अभक्षणको कहते हैं)

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४८ ॥

जीवोंकी हिंसा किये बिना कहींभी मास उत्पन्न नहीं हो सकता और जीवोंका मारना स्वर्गका देनेवाला भी नहीं है इसलिये मासको त्याग देना चाहिये ॥ ४८ ॥

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ॥ ४९ ॥

मांसकी उत्पत्ति और प्राणियोंके वध और बंधनको अच्छे प्रकारसे देख मालकर सब प्रकारके मांस भक्षणसे दूर रहै ॥ ४९ ॥

न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् ।

स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ ५० ॥

जो विधिको छोड़ पिशाचके समान मास नहीं खाता है वह संसारमें प्यारा लगता है और रोगोंसे पीड़ित नहीं होता है ॥ ५० ॥

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥

संमति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला, मोल देने और बेचनेवाला, पकानेवाला, लानेवाला और खानेवाला ये घातक होते हैं ॥ ५१ ॥

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

अनभ्यर्च्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्वपुण्यकृत् ॥ ५२ ॥

जो पितरों और देवताओंको बिना पूजे पराये माससे अपने मासको बढ़ाना चाहता है उससे बड़कर दूसरा पापी नहीं है ॥ ५२ ॥

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥ ५३ ॥

जो वर्षेवर्षे दिन सौ वर्षतक अश्वमेध यज्ञ करता है और जो मांसको नहीं खाता है उन दोनों के पुण्यका फल बराबर है ॥ ५३ ॥

फलमूलाशनैर्मध्यैर्मुन्यन्नानां च भोजनैः ।

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ ५४ ॥

जो फल मांसके त्यागनेसे होता है वह फल पवित्र मूल फलके खानेसे और मुनियोंके अन्न (नीवारआदि) खानेसे नहीं होता ॥ ५४ ॥

मांसं भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाइयहम् ।
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥

यहां मैं जिसके मांसको खाता हूं वह परलोकमें मुझे खायगा यही मांस
शब्दका तात्पर्य मुनिजोंने कहा है ॥ ५५ ॥

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥

शास्त्रविहित मांस खानेमें, मद्य पीनेमें और मैथुनमें दोष नहीं है क्योंकि
यह प्राणियोंका स्वभावही है परंतु इनका त्याग बड़ा फलदायक है ॥ ५६ ॥

प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च ।

चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥

अब मैं चारों वर्णोंकी प्रेतशुद्धि और द्रव्यशुद्धि जैसी चाहिये उसे क्रम-
पूर्वक कहता हूं ॥ ५७ ॥

दन्तज्जातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते ।

अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥

बालकके दात चमकने तथा दांत निकले पीछे, मुंडनके पीछे वा उपनयनके
पीछे जो शूद्र हो तो सब (सपिंड, समानोदक) बान्धव जैसे जैसे सूतकमें
सूतकी होते हैं वह सब कहाजाता है ॥ ५८ ॥

दशार्धं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

अर्वाङ्ग-संचयनादस्त्रां ज्यहमेकाहमेव वा ॥ ५९ ॥

सपिंडोंमें मरनेका आशौच दश दिन वा अस्थियोंके संचयसे पहिले तीन दिन
वा एकदिन भी विधान किया गया है ॥ ५९ ॥

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ।

समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरचेदने ॥ ६० ॥

सातवें पुरुषमें सपिण्डता दूर होजाती है और जन्म तथा -सामके न
जाननेपर समानोदक भाव छूट जाता है ॥ ६० ॥

यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

जननेऽप्येवमेव स्यान्नपुणं शुद्धिमिच्छताम् ॥ ६१ ॥

जैसा यह सूतक सूतक सपिंडोंमें विधान किया गया है वैसाही पूर्ण शुद्धि
चाहनेवालोंकी जन्ममें भी होता है ॥ ६१ ॥

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ।

सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२ ॥

सूतकका आशौच सब सपिंडोंको समान होता है और जन्मका सूतक केवल

मातापिताकोही होता है और उन दोनोंमें भी दश दिनका सूतक माताकोही होता है पिता तो स्नान करके शुद्ध होजाता है ॥ ६२ ॥

निरस्य तु पुमाञ्शुक्रमुपस्पृश्यैव शुद्ध्यति ।

वैजिकादभिसंबन्धादनुसन्ध्यादर्घं त्र्यहम् ॥ ६३ ॥

पुरुष (खलमें) वीर्य निकल जानेपर स्नान करनेसेही शुद्ध होता है और पर स्त्रीसे संतानका संबन्ध हो जानेसे तीन दिनतक आशौच होता है ॥ ६३ ॥

अह्ना चैकेन राश्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः ।

शवस्पृशो विशुद्ध्यन्ति त्र्यहाद्दुदकदायिनः ॥ ६४ ॥

मुर्देको छूनेवाले एक दिन एक रात्रि और तीन गुणित तीन दिन रातमें अर्थात् दस दिनमें और पानी देनेवाले तीन दिनमें शुद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेघं समाचरन् ।

प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ ६५ ॥

शिष्य, मृतक गुरुके क्रियाकर्मको करनेसे, मुर्देको लेजानेवालोंके समान दशदिनमें शुद्ध होता है ॥ ६५ ॥

रात्रिमिर्मासतुल्याभिर्गर्मन्नावे विशुद्ध्यति ।

रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥

स्त्री गर्मन्नावमें उतने दिनमें शुद्ध होती है कि जितने महीनेका गर्म हो और तत्रेता रजस्वला रजके बंद हो जानेपर स्नान करके शुद्ध हो जाती है ॥ ६६ ॥

मृणामरुतचूडानां विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता ।

निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७ ॥

जिन बालकोंका मुंडन नहीं हुआ हो उनके मरजानेसे एक रातदिनमें सर्पिड लोगोंको शुद्धि कही है और जिनका मुंडन हो गया है उनके मरनेपर तीन रात्रिमें शुद्धि होती है ॥ ६७ ॥

ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्यान्धवा बहिः ।

अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनादृते ॥ ६८ ॥

षाघवोंको दो वर्षसे कम आयुके मुर्देको ब्रह्मादिसे अलंकृत करके घरके बाहिर शुद्ध भूमिमें अस्थि संचयके बिनाही गाड़ देना चाहिये ॥ ६८ ॥

नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया ।

अरण्ये काष्ठवत्यक्त्वा क्षपेयुरुयहमेव च ॥ ६९ ॥

इसका अग्नि संस्कार तथा जलदानभी नहीं करना चाहिये किंतु वनमें काठके समान स्याग कर तीन दिनतकही आशौच करें ॥ ६९ ॥

नात्रिवर्षस्य कर्तव्या धान्धवैरुदकक्रिया ।

जातदन्तस्य वा कर्तुर्नास्ति वापि कृते सति ॥ ७० ॥

वाधवोंको तीन वर्षके बालककी उदरक्रिया नहीं करनी चाहिये परंतु जिसके दात निकल आएहों अथवा जिसका नामकरण हो गया हो उसका जलदान करै ॥ ७० ॥

सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम् ।

जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥

अपने साथी ब्रह्मचारीके मरनेपर एक दिनका सूतक कहा है और समानोदकोंके जन्म होनेपर तीन दिनमें शुद्धि मानी गई है ॥ ७१ ॥

स्त्रीणामसंस्कृतानां तु त्र्यहाच्छुद्ध्यन्ति बान्धवाः ।

यथोक्तेनैव कल्पेन शुद्ध्यन्ति तु सनाभयः ॥ ७२ ॥

जिनका विवाह नहीं हुआ (और वाग्दान हो गया हो तो) उन कन्याओंके मरनेमें (पतिके पक्षके) बान्धव तीन दिनमें शुद्ध होते हैं और पिताके पक्षवालेभी पूर्वोंके विधानसे अर्थात् तीन दिनमें शुद्ध होते हैं ॥ ७२ ॥

अक्षारलवणात्राः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् ।

मांसाशनं च नाक्षीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥ ७३ ॥

वे बान्धव खारा निमक जिसमें नहो ऐसे अन्नको खाय और (नदी आदि) तीन दिनतक स्नान करै, मास न खाय और पृथ्वीपर अलग सोवै ॥ ७३ ॥

सन्निधावेष वै कल्पः शाचाशौचस्य कीर्तितः ।

असन्निधावयं द्वेयो विधिः संवन्धिवान्धवैः ॥ ७४ ॥

पासके रहनेमें यह सूतक आशौचका विधान कहा है और जो सबन्धी और बाधव प्रदेशमें हों उनको यह रीति जाननी चाहिये ॥ ७४ ॥

विगतं तु विदेशस्यं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम् ।

यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्मवेत् ॥ ७५ ॥

जो मनुष्य विदेशमें रहता हो और दश दिनके भीतर सूतककी खबर सुनें तो दश दिनमें जितने दिन बाकी हों वह उतनेमेंही शुद्ध होजाता है ॥ ७५ ॥

अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिर्मवेत् ।

संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वापो विशुद्ध्यति ॥ ७६ ॥

और जो दश दिनके पीछे खबर सुने तो तीन रातका आशौच होता है और जो एक वर्षके बाद सुनें तो जलको स्पर्श करके ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७६ ॥

निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।

सवासा जलमाप्त्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥

मनुष्य दश दिनके पीछे सपिंडका मरण और पुत्रका जन्म सुनकर कपड़ों-समेत जलमें गोता लगाकर शुद्ध हो जाता है ॥ ७७ ॥

बाले देशान्तरस्थे च पृथक्पण्डे च संस्थिते ।

सवासा जलमासृत्य सद्य एव विशुद्ध्यति ॥ ७८ ॥

परदेशमें रहते हुए जिसके दात न निकले हों ऐसा बालक और समानो-
दकके मरनेपर कपडोंसहित जलमें स्नान करनेसे शीघ्रही शुद्धि होजाती
है ॥ ७८ ॥

अन्तर्दशाहे स्यातां चेतुनर्मरणजन्मनी ।

तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तस्यादनिर्दशम् ॥ ७९ ॥

जो दश दिनोंके भीतर जन्म वा मरण (अर्थात् मरणमें मरण और जन्ममें
जन्म) दोनों हो जाय तो जबतक पहिले सूतकके दश दिन हो न जाय तबतक
ही ब्राह्मण अशुद्ध रहता है ॥ ७९ ॥

त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति ।

तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥

आचार्यके मरनेपर शिष्यको तीन रात्रिका आशौच और उसके पुत्र तथा
पत्नीके मरनेपर एक दिनरातका आशौच कहा है यही मर्यादा है ॥ ८० ॥

श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्मवेत् ।

मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यर्त्विग्वान्धवेषु च ॥ ८१ ॥

वेदपाठीके मरनेपर तीन रात, मामा, शिष्य, ऋत्विक् और बाधवोंके
मरनेपर दो दिन और उनके बीचकी रात आशौच होता है ॥ ८१ ॥

प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विपये स्थितः ।

अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥ ८२ ॥

जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण आदि रहें यदि वह राजा मरजाय तो जो
दिनमें मरे तो सूर्यास्ततक और रातको मरे तो तारोतक आशौच रहता है
और जिसने वेद न पढा हो वह वा सागवेदका पाठी वा गुरु अपने घरपर
मरजाय तो सय दिन आशौच रहता है रातमें मरे तो रातभर सूतक रहता
है ॥ ८२ ॥

शुद्धेद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति ॥ ८३ ॥

(जिसका यज्ञोपवीतसंस्कार हो चुकाहो उस सर्पिकके मरनेपर और
किसी बालकके जन्ममें वेदपाठी आदि) ब्राह्मण दश दिनमें, क्षत्री बारह
दिनमें, वैश्य पंद्रह दिनमें और शूद्र एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥ ८३ ॥

न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः ।

न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योप्यशुचिर्मवेत् ॥ ८४ ॥

सूतकके दिनोंको न बढ़ावे और अग्निहोत्र न छोड़े, क्योंकि अग्निहोत्रका
करनेवाला सर्पिकभी अशुद्ध नहीं होता है ॥ ८४ ॥

दिवाकीर्तिसुदक्ष्यां च पतितं सूतिकां तथा ।
शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा ज्ञानेन शुद्ध्यति ॥ ८५ ॥

चाङ्गल, रजखला, पतित, सूतिका, मुर्दा और उसके छूनेवाले
छूकर ज्ञानमात्रसेही शुद्ध हो जाता है ॥ ८५ ॥

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने ।

सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तिः ॥ ८६ ॥

नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्ध्यति ।

आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥ ८७ ॥

(श्राद्ध और देवपूजा करनेवाला मनुष्य चाङ्गल आदि) अशुद्धोंको देखले तो आचमन करके पवित्र होनेपर सूर्यके मंत्र (“उदुत्सं जात वेदसः” इत्यादि) और पवित्र ऋचा (“पुनंतु मा देवजना” इत्यादि) इनको उत्साहपूर्वक शक्तिके अनुसार जपे ॥ ८६ ॥ ब्राह्मण मनुष्यके गीले हाथको छूनेसे, नहाकर और सूखेको छूनेसे आचमन करके वा गौको छूकर वा सूर्यके दर्शन करकेही शुद्ध होजाता है ॥ ८७ ॥

आदिष्टी नोदकं कुर्यादाव्रतस्य समापनात् ।

समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यति ॥ ८८ ॥

ब्रह्मचारी व्रतके समाप्त होनेतक जलदान न करे । जब व्रतकी समाप्ति होजाय तब जलदान देकर तीन रात्रिमें ही शुद्ध हो जाता है ॥ ८८ ॥

वृथासंकरजातानां प्रव्रज्यासु च तिष्ठताम् ।

आत्मनस्स्याग्निनां चैव निर्धर्तैतोदकक्रिया ॥ ८९ ॥

जो वृथा उत्पन्न हुए हैं (अर्थात् निज कर्मघर्से हीन हैं), जो हीन वर्णसे उत्तम वर्णकी स्त्रीमें पैदा हुए वर्णसंकर हैं, जो संन्यासी हैं और जो आत्मघात करते हैं उनको जलदान नहीं दिया जाता है ॥ ८९ ॥

पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः ।

गर्भमर्तृदुहां चैव सुरापीनां च योषिताम् ॥ ९० ॥

जो स्त्रिया पाखण्ड करती हों, अपनी इच्छापूर्वक व्यभिचार करती हों, गर्भपात और भर्तासे श्लोह करती हों और जो मद्यपान करती हों उन स्त्रियोंकी उदकक्रिया नहीं करनी चाहिये ॥ ९० ॥

आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् ।

निर्दस्य तु व्रती प्रेताभ्र व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥

ब्रह्मचारी अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता और गुरु इनके शकोंको उठाकर व्रतहीन नहीं होता है ॥ ९१ ॥

दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् ।

पश्चिमोत्तरपूर्वैस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥

मरे शूद्रको नगरके दक्षिण द्वारसे, वैश्यको पश्चिमसे, क्षत्रियको उत्तरसे, और ब्राह्मणको पूर्व द्वारसे श्मशानमें ले जाय ॥ ९२ ॥

न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम् ।

येन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ ९३ ॥

शुद्धा, व्रती और यज्ञ करानेवाले इनको सपिंडके मरेका सूतक नहीं होता है क्योंकि वे इन्द्रके स्थानपर बैठे हुए सदा ब्रह्मरूप होते हैं ॥ ९३ ॥

राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते ।

प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥ ९४ ॥

राजगद्दीपर बैठे हुए राजाकी सबही शुद्धि कही है क्योंकि प्रजाओंकी रक्षाके लिये राजाका राजपदपर बैठनाही आशौच न लगनेका कारण है ॥ ९४ ॥

डिंमाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च ।

गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५ ॥

युद्धमें मरे हुए, जिनकी तथा राजासे मारे हुए और जिनकी शुद्धि राजा चाहता हो और जो गो ब्राह्मणके लिये मरे हों इन मनुष्योंकी भी तत्काल शुद्धि हो जाती है ॥ ९५ ॥

सौमाश्रयर्कानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योर्यमस्य च ।

अद्यानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥ ९६ ॥

चंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण और यम इन आठ लोकपालोंके शरीरको राजा धारण करता है ॥ ९६ ॥

लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते ।

शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम् ॥ ९७ ॥

राजा आठ लोकपालोंके अंशसे युक्त है इसलिये राजाको आशौच नहीं लगता क्योंकि मनुष्योंको यह शौच और आशौच दिग्पालोंसेही उत्पन्न होता और नष्ट होता है ॥ ९७ ॥

उद्यतैराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च ।

सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥ ९८ ॥

युद्धमें उठाए गए शस्त्रोंसे जो मनुष्य क्षत्रीके धर्मसे (अर्थात् युद्धसे सुंदर न मोड़कर) मराहो उसको उसी समय यज्ञका फल और शुद्धि दोनों मिलते हैं ॥ ९८ ॥

विप्रः शुच्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनयुधम् ।

वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥

क्रिया कर्म करनेवाला ब्राह्मण जलको, क्षत्रिय सवारी और शस्त्रको, वैश्य चायुक वा लगामको और शूद्र लकड़ीको छूकर शुद्ध होता है ॥ ९९ ॥

एतद्वोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः ।

असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥ १०० ॥

हे द्विजोत्तमो ! सपिण्डोंमें यह शौच तुमसे कहा, अब सब असपिण्डोंमें प्रेतरी शुद्धि सुनों ॥ १०० ॥

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निर्हृत्य चन्धुवत् ।

विशुध्यति त्रिरात्रेण मानुरासांश्च वान्धवान् ॥ १०१ ॥

असपिण्ड, मृतक ब्राह्मणको चन्धुके समान उठाकर और माताके सगे बाधवोंको उठाकर ब्राह्मण तीन रातमें शुद्ध होता है ॥ १०१ ॥

यद्यन्नमन्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्ध्यति ।

अनदन्नन्नमहैव न चैत्तस्मिन्मृद्दे वसेत् ॥ १०२ ॥

जो प्रेतके लेजानेवाला उन आशौचियोंके अन्नको खाता हो तो दश दिनमें शुद्ध होता है और जो अन्नको न खाता हो और उस घरमें भी न रहताहो तो एक दिनमें शुद्ध होता है (और जो उनके घरमें रहता हो और उनके अन्नको न खाए उसे भी तीन रातका आशौच होता है) ॥ १०२ ॥

अनुगम्येच्छया प्रेतं क्षातिमक्षातिमेव च ।

क्षात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाग्निं घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥ १०३ ॥

जातिवाले वा बेजातिवाले मुरदेके पीछे इच्छापूर्वक जाकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान, अमिका स्पर्श और घृतको चाटकर शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥

न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत् ।

अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदूषिता ॥ १०४ ॥

अपनी जातिवाले होनेपर ब्राह्मणके शवको शूद्रोंसे न उठवा ले जाय क्योंकि शूद्रके छूनेसे दूषित वह शरीरकी आहुति स्वर्गकी देनेवाली नहीं होती अर्थात् मृतकको स्वर्गमें नहीं पहुँचाती है ॥ १०४ ॥

ज्ञानं तपोऽन्निराहारो मृन्मनो वार्युपाखनम् ।

वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धेः कर्तृणि देहिनाम् ॥ १०५ ॥

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थं शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्धारिशुचिः शुचिः ॥ १०६ ॥

ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन, जल, लेपन, पवन, कर्म, सूर्य और काल ये प्राणियोंकी शुद्धि करनेवाले हैं ॥ १०५ ॥ परंतु सब शुद्धियोंमें धनकी पवित्रताही श्रेष्ठ कही है क्योंकि जो धनमें शुद्ध है वही शुद्ध है, मट्टी और जलकी शुद्धि, शुद्धि नहीं होती-भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है वह शुद्ध है और जो अन्यायसे ब्रह्म हरता है और मट्टी लगा २ कर न्हाता है वह पवित्र नहीं हो सक्ता ॥ १०६ ॥

क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः ।

प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ ॥

विद्वान् पुरुष क्षमासे, निन्दितकर्मके करनेवाले (वेदपाठी छुपात्रको) दान देनेसे, शुभ्र पापके कर्ता (गायत्रीके) जपसे और उत्तम वेदपाठी तपसे शुद्ध होते हैं ॥ १०७ ॥

मृत्तोयैः शुद्ध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्ध्यति ।

रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥ १०८ ॥

मल आदि लगा हो ऐसा शुद्ध होने योग्य पदार्थ मट्टी और जलसे, शुद्ध होता है । नदी वेगसे और मनकी पापिनी स्त्री मासिक धर्मसे शुद्ध होती है और ब्राह्मण संन्याससे शुद्ध होता है ॥ १०८ ॥

अङ्घ्रिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मां बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ॥ १०९ ॥

शरीर जलसे शुद्ध होता है, मन सत्यसे शुद्ध होता है, जीवात्मा विद्या और तपसे तथा बुद्धि ज्ञानसे शुद्ध होती है ॥ १०९ ॥

एष शौचस्य चः प्रोक्तः शारीरस्य चिनिर्णयः ।

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ॥ ११० ॥

एह शरीरकी शुद्धिका निर्णय तुमसे कहा अब नाना प्रकारके पदार्थोंकी शुद्धिका निर्णय सुनो ॥ ११० ॥

तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च ।

भस्मनाङ्घ्रिर्भृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १११ ॥

निलेपं काञ्चनं भाण्डमङ्घ्रिरेव विशुद्ध्यति ।

अन्नमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥ ११२ ॥

सुवर्ण आदि तेजके, मणियोंके और सब प्रकारके पापाणके पात्रोंकी शुद्धि राख, जल और मट्टीसे पण्डितोंने कही है ॥ १११ ॥ जूठन जिसमें न लगा हो ऐसा सौनेका पात्र, शंख और नोती आदि, पापाणके पात्र और विना खुदा चूड़ीका पात्र ये सब जलसेही शुद्ध होते हैं ॥ ११२ ॥

अपामश्रेष्ठ संयोगाद्भैरं रौप्यं च निर्वभौ ।

तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णको शुणवत्तरः ॥ ११३ ॥

साना और चादी, जल और अमिके संयोगसे निकले हैं इसलिये उन दोनोंकी शुद्धि जल और अमिसेही बहुत उत्तम होती है ॥ ११३ ॥

ताम्रायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च ।

शौचं यथाहं कर्तव्यं क्षाराम्लोदकचारिभिः ॥ ११४ ॥

तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, रौंय और सीसा इनकी शुद्धि यथायोग्य क्षार, अम्लोदक और जलसे करनी चाहिये ॥ ११४ ॥

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम् ।

प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥

सब घी, तेल आदि द्रव पदार्थोंकी शुद्धि (कुशा पत्रसे) ऊपर हवा कर देनेसे, शय्या आदिकी जलके छींटोंसे और काठके पात्रोंकी शुद्धि छींटेसे होती है ॥ ११५ ॥

मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।

चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥

यज्ञपात्रोंकी शुद्धि यज्ञकर्ममें हाथसे मार्जन करनेसे और, चमस तथा मह नामके पात्रोंकी शुद्धि धौनेसे होती है ॥ ११६ ॥

चरूणां सुकस्युवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा ।

स्फ्यशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च ॥ ११७ ॥

चरु और सुक् आदि यज्ञपात्रोंकी शुद्धि गरम जलसे और स्फ्य, शूर्प, शकट, मुसल और ओखलीकी शुद्धि जल छिड़कनेसे होती है ॥ ११७ ॥

अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् ।

प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥

बहुतसे अन्न और बलोंकी शुद्धि पानी छिड़कनेसे तथा थोड़े अन्न बलोंकी शुद्धि पानीमें धौनेसे कही गई है ॥ ११८ ॥

श्वेलवच्चर्मणां शुद्धिवैदलानां तथैव च ।

शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११९ ॥

चमड़े और बासके पात्रोंकी शुद्धि बलोंके समान और शाक, मूल, फलोंकी शुद्धि अन्नके समान होती है ॥ ११९ ॥

कौशेयाविकयोरूपैः कुतपानामरिष्टकैः ।

श्रीफलैरंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरसर्षपैः ॥ १२० ॥

रेशमी और ऊंनी कपड़ोंकी शुद्धि खारी मट्टीसे, नैपाली कंबलोंकी शुद्धि रीठोंसे, पट्ट बलोंकी शुद्धि बेलफलोंसे और छालके बलोंकी शुद्धि सपेद सरसोंसे होती है ॥ १२० ॥

क्षौमवच्छहृष्टद्वाणामस्थिदन्तमयस्य च ।

शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥

शुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि शंख, सींग, हड्डी और दातकेबनेहुए पात्रोंकी शुद्धि छालके बलके समान गोमूत्र और पानी मिलाकर करे ॥ १२१ ॥

प्रोक्षणाचृणकाष्ठं च पलालं चैव शुद्ध्यति ।

मार्जनोपासनैर्वेद्म पुनः पाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥

घृण, काठ और पलाल (फलरहित धान्य खंड) ये प्रोक्षणसे, घरकी शुद्धि धौने और धीपनेसे और मट्टीके पात्रकी शुद्धि फिर पकानेसे होती है ॥ १२२ ॥

मद्यैर्मूत्रैः पुरीषैर्वा घ्रीचनैः पूयशोणितैः ।

संस्पृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२३ ॥

मदिरा, मूत्र, विष्ट, थूक, राद और लोहूसे छुआ गया मिट्टीका पात्र फिर ^{उप}नेसेमी शुद्ध नहीं होता है ॥ १२३ ॥

संमार्जनोपाङ्गनेन सेकेनोल्लेखनेन च ।

गवां च परिवासेन भूमिः शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥ १२४ ॥

झाड़ना, लीपना, छिडकना, ऊपरकी मट्टीका खुरच डालना और गौकोंका सदा वास इन पांच बातोंसे भूमिकी शुद्धि होती है ॥ १२४ ॥

पक्षिजग्धं गवात्रातमवधृतमवधृतम् ।

दूषितं केशकीटैश्च मृत्प्रक्षेपेण शुद्ध्यति ॥ १२५ ॥

पक्षीसे कुतरा हुआ फल, गौसे संघा हुआ पदार्थ, पैरसे फँका हुआ, जिस पर किसीने छीक दिया हो, और केश और कीट जिसमें पड़े हों वह पदार्थ मट्टी गेरनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ १२५ ॥

यावन्नापैत्यमेध्याकाङ्गन्धो लेपश्च तत्कृतः ।

तावन्मृद्धारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥

वतक अशुद्ध पदार्थयुक्त वस्तुमेंसे अशुद्ध पदार्थकी गंध और लेप दूर न हो जाय तबतक सब वस्तुको शुद्धिके लिये मट्टी और जलसे धोवै ॥ १२६ ॥

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् ।

अदृष्टमद्भिर्निर्णिकं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥

देवताओंने ब्राह्मणोंके लिये तीन पवित्र वस्तु बनाई हैं—एक तो वह जिसकी अशुद्धि भोंखोंसे नहीं देखी गई, दूसरी जो अशुद्धकी शकासे जलसे छिडकी गई और तीसरी वह जिसे विष्टजन वाणीसे अच्छी कह दें ॥ १२७ ॥

आपः शुद्धा भूमिगता चैतृण्यं यासु गोर्भवेत् ।

अव्याप्ताश्चेदमेधयेन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १२८ ॥

जिससे गौ तृप्त हो जाय, जो अपवित्र वस्तुसे न मिला हो और जो मुग्ध, वर्ण तथा रसयुक्त हो ऐमा पृथ्वीपर बहता हुआ जल शुद्ध होता है ॥ १२८ ॥

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम् ।

ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्रमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥

कारीगरका हाथ सदा शुद्ध है, बाजारमें रखी हुई वस्तु, ब्रह्मचारीके पास गई भिक्षा ये सदा शुद्ध हैं और यही शास्त्रकी मर्शदा है ॥ १२९ ॥

नित्यमास्यं शुचिं स्त्रीणां शकुनिः फलपातने ।

प्रक्षवे च शुचिर्वत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १३० ॥

स्त्रियोंका मुख सदा शुद्ध है, फल गिरानेमें पक्षी और दूध चौखनेमें चछ्वा शुद्ध है और हरिण पकड़नेमें कुत्ता पवित्र है ॥ १३० ॥

श्वभिर्हृतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरब्रवीत् ।

कव्याद्भिश्च हतस्यान्यैश्चण्डालाद्यैश्च दस्युभिः ॥ १३१ ॥

मनुजीने, कुत्तोसे मारे हुए मृग पक्षीका मांस और कच्चा मांस खानेवाले सिंहादिसे, अन्य चाडाल आदिसे तथा चोरोसे मारे हुए मृग आदिका मांस शुद्ध कहा है ॥ १३१ ॥

ऊर्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः ।

यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः ॥ १३२ ॥

नाभिसे ऊपरकी जो इन्द्रिया हैं वे सब शुद्ध हैं और जो नीचेकी हैं वे अशुद्ध हैं और देहसे जो मल निकलते हैं वेभी अशुद्ध हैं ॥ १३२ ॥

मक्षिका विमुषश्छायागौरश्वः सूर्यरश्मयः ।

रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शं मेध्यानि निर्दिशेत् ॥ १३३ ॥

मक्षिका, जलके कण (चाडाल आदिकी) छाया, गौ, घोड़ा, सूर्यकी किरणें, धूलि, भूमि, वायु और अग्नि ये स्पर्श करनेमें शुद्ध होते हैं ॥ १३३ ॥

विण्मूत्रोत्सर्गशुद्ध्यर्थं मृद्धार्यादेयमर्थवत् ।

दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४ ॥

विष्ठा और मूत्रका जिनसे त्याग हो उन इन्द्रियोंकी शुद्धिकेलिये और देहके मलोंकी वारह अशुद्धियोंके लिये जितना आवश्यक हो मट्टी और जल ग्रहण करना चाहिये ॥ १३४ ॥

घसा शुक्रमसृद्धज्जा मूत्रविट् घ्राणकर्णविट् ।

श्लेष्माश्च दूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥ १३५ ॥

चर्बी, बीर्य, लोहू, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, नाक कानका मैल, कफ, आसू, गीब और पसीना ये मनुष्योंके वारह मल हैं ॥ १३५ ॥

एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश ।

उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥

शुद्धि चाहनेवाले मनुष्यको लिंगमें एकवार, गुदामे तीनवार और चर्बीमें दशवार तथा दोनों हाथोंमें सातवार मट्टी लगानी चाहिये ॥ १३६ ॥

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।

त्रिगुणं स्याद्भनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

यह पूर्वोक्त गृहस्थियोंका शौच है, और ब्रह्मचारियोंका इससे दूना, वान-प्रस्थोंका त्रिगुना और सन्यासियोंका चतुर्गुना होता है ॥ १३७ ॥

रुत्वा मूत्रं पुरीपं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत् ।

चेदमध्येष्वमाणश्च अन्नमशंश्च सर्वदा ॥ १३८ ॥

सूत्र वा विष्टा त्यागकर, वेदपाठके समय और भोजन करते समय मनुष्य सदा आचमन करके इन्द्रियोंके छिद्रोंका स्पर्श करे ॥ १३८ ॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

शारीरं शौचमिच्छन्हि स्त्री शूद्रस्तु सकृत्सकृत् ॥ १३९ ॥

शरीरके शौचको चाहनेवाला द्विज पहिले जलका तीन बार आचमन करे फिर दो बार कुला करे और स्त्री शूद्र एक एक बार आचमन और कुला करे ॥ १३९ ॥

शूद्राणां मासिकं कार्यं चपनं न्यायवर्तिनाम् ।

वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥ १४० ॥

शास्त्रके अनुसार वर्तनेवाले शूद्रोंका मुंडन महीने के महीने कराया जाना चाहिये और (जन्म मरण के सूतकमे) उनके शौचकी विधि वैश्यके समान है और वे द्विजोंका जूठा भोजन करे ॥ १४० ॥

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विमुपोऽङ्गे पतन्ति याः ।

न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥ १४१ ॥

जो मुखकी बूदें देहपर पड़ती हैं वे और मुखमे गए दाढ़ो मूछके बाल और दातोंके मीतर लगा अन्न ये मनुष्यको अशुद्ध नहीं करते ॥ १४१ ॥

स्पृशन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान् ।

भौमिकैस्ते समा क्षेया न तैराप्रयतो भवेत् ॥ १४२ ॥

दूसरोंको पानी पिलाते समय जो पिलानेवालेके पैरोंपर छींटे पड़ते हैं वे धरतीके जलके समान जानने चाहिये उनसे अशुद्धि नहीं होती ॥ १४२ ॥

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन ।

अनिधायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥ १४३ ॥

हाथमे खाय वस्तु लिये हो और कदाचित् जूठे मुखवालेसे छूजाय तो मनुष्य उस वस्तुको कहीं बिना धरेही आचमन करके शुद्ध होता है ॥ १४३ ॥

वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत् ।

आचामेदेव भुक्त्वाशं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् ॥ १४४ ॥

वमन और जुलाबके पीछे मनुष्यको स्नान करके घृतका भक्षण करना चाहिये और जो अन्नको खातेही वमन करे तो केवल आचमनही करे और ऋतुमतीके साथ मैथुन करके स्नान करना कहा है ॥ १४४ ॥

सुस्वा भुक्त्वा च भुक्त्वा च लिष्टीव्योक्तवानृतानि च ।

पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ॥ १४५ ॥

शयनके पीछे, छीक कर, भोजन करके, थूक कर, झूठ बोलकर, जलको पीकर और पढनेके समय सावधान होकर आचमन करे ॥ १४५ ॥

एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च ।

उक्तो चः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्माज्ञियोधत ॥ १४६ ॥

सब वर्णोंकी यह सपूर्ण श्रांचविधि और द्रव्यशुद्धि तुमसे कही है अब हुम
लियोंके घर्म सुनो ॥ १४६ ॥

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योपिता ।

न स्वातंत्र्येण कर्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ १४७ ॥

✓ बालक और युवती वा वृद्धी स्त्रीको भी घरोंमें कोई कार्य स्वतंत्र होकर
करना चाहिये ॥ १४७ ॥

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तारि प्रेते न भजेत्स्त्रीस्वतन्त्रताम् ॥ १४८ ॥

बाल्यावस्थामे स्त्री पिताके वशमें, यौवन अवस्थामे पतिके वशमें और पतिके
मरे पीछे पुत्रोंके वशमें रहै पर स्वतंत्र न रहै ॥ १४८ ॥

पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः ।

एषां हि विरहेण स्त्री गह्ये कुर्याद्दुमे कुले ॥ १४९ ॥

स्त्रीको चाहिये कि पिता, पति वा पुत्रसे अपना वियोग न चाहै, क्योंकि स्त्री
इनको छोड़कर दोनों कुलोंको निन्दित करती है ॥ १४९ ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥

स्त्रीको सदा प्रसन्नचित्त, घरके कामोंमें कुशल, घरकी सामग्रीको अच्छी
भाति रखनेवाली और खर्चमें हाथ रोक कर उठानेवाली होना चाहिये ॥१५०॥

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता बानुमते पितुः ।

तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लहयेत् ॥ १५१ ॥

पिता वा पिताकी सलाहसे भाई इस स्त्रीको जिसे दे वह उसकी जीवन-
पर्यंत टहल करै और मरनेके पीछे भी उस पतिका उल्लंघन न करै (अर्थात्
व्यभिचारको छोड़ उसका श्राद्ध आदि करती रहै) ॥ १५१ ॥

मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञध्वाराणां प्रजापतेः ।

प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२ ॥

लियोंके विवाहमें जो (पुण्याहवाचन आदि) स्वस्त्ययन और प्रजापति
देवताके उद्देश्यसे हवन किया जाता है वह वर कन्या दोनोंके मंगलके लिये है
परतु विवाहमें जो वाक्दान किया जाता है उससे ही स्वामीका स्त्रीपर
स्वामिल होता है ॥ १५२ ॥

अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृतपतिः ।

सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योपितः ॥ १५३ ॥

अनृतकालमें वा ऋतुकालमें इस लोकमें वा परलोकमें नित्य सुख देने-
वाला और मंत्रोंसे संस्कार देनेवाला पतिही है ॥ १५३ ॥

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रिया साध्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥

पतिव्रता स्त्रीको, शीलरहित, परस्त्रीगामी, वा गुणहीन पतिकी भी सदा देवताके समान पूजा करनी चाहिये ॥ १५४ ॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम् ।

पतिं शुभ्रपते येन तेन स्वर्गं महीयते ॥ १५५ ॥

क्रियोंको पतिके विना अलग यज्ञ व्रत और उपवास करनेका अधिकार नहीं है । स्त्री तो केवल पतिकी सेवासेही स्वर्गमें आदर पाती है ॥ १५५ ॥

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।

पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥ १५६ ॥

पतिलोकके चाहनेवाली पतिव्रता स्त्री जीतेहुए वा मरेहुए पतिका कुछ भी अप्रिय आचरण न करे ॥ १५६ ॥

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः ।

ननु नामापि शृङ्गीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥

पवित्र पुष्प मूल फलोंसे अर्थात् उन्हें भोजन कर अपनी देहको चाहे दुर्बल रूढ़े परतु पतिके मरनेपर दूसरेका नामभी न ले ॥ १५७ ॥

आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।

यो धर्मं एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ १५८ ॥

पतिव्रता क्रियोंके सर्वोत्तम धर्मको चाहनेवाली विधवा स्त्री मरणपर्यन्त धर्मायुक्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यसे रहै (अर्थात् पुत्र न होनेपर भी पुत्रके लिये पर पुत्र्यका संग न करे) ॥ १५८ ॥

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवंगतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥ १५९ ॥

मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥

कुई हजार कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंने कुलमें विना संतान उत्पन्न कियेभी (निज ब्रह्मचर्यके बलसे) स्वर्गलोक पाया है ॥ १५९ ॥ उन ब्रह्मचारियोंकी भांति अपुत्रा होनेपरभी पतिव्रता स्त्री स्वामीके मरण पीछे केवल ब्रह्मचर्यके बलसे स्वर्गलोकको जाती है ॥ १६० ॥

अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते ।

सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥

जो स्त्री सतानके लोभसे भर्ताका अतिक्रमण करती है (अर्थात् पर पुरुष से सतान उत्पन्न करती है) वह इस लोकमें निंदा पाती है और परलोकसे भी अलग हो जाती है ॥ १६१ ॥

यान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे ।

न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्भर्तापदिश्यते ॥ १६२ ॥

इस ससारमें दूसरेसे उत्पन्न हुई सतान और दूसरेकी स्त्रीमें उत्पन्न की हुई सतान शास्त्रीतिसे सतान नहीं कहाती और पतिव्रता स्त्रियोंको दूसरा पति कहींभी नहीं कहा है ॥ १६२ ॥

पतिं हित्वापकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते ।

निन्द्यैव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३ ॥

जो स्त्री अपने हीनकुलके पतिको (धन आदिके कारण) छोडकर उत्तम कुलके पतिका सेवन करती है वह ससारमें निन्दित होती है और "इसका पहिले दूसरा पति था" ऐसा कहलाती है ॥ १६३ ॥

व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् ।

शृगालयोर्नि प्राप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥ १६४ ॥

स्त्री पतिका अतिक्रम करके (अर्थात् पर पुरुषके साथ भोग करनेसे) लोकमें निंदा पाती है और मरनेके पीछे गीदबकी योनिमें जन्म लेकर अंध पाप और रोगोंसे दुःख भोगती है ॥ १६४ ॥

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ १६५ ॥

जो स्त्री मन, वाणी और देहसे सावधान होकर पतिके प्रतिकूल नहीं चलती वह पतिलोकको पाती है और अच्छे पुरुष उसे पतिव्रता कहते हैं ॥ १६५ ॥

अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता ।

इहाश्रयां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥

इसप्रकार जो स्त्री मन वचन और शरीरको वशमें रखकर नारीधर्मसे अपना जीवन व्यताती है वह इस लोकमें परम कीर्ति पाती है और मरनेपर पतिलोकको जाती है ॥ १६६ ॥

पत्रं वृत्तां सचर्णा स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम् ।

दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥ १६७ ॥

ऐसी पूर्वोक्त आचरणवाली समान वर्णकी स्त्री यदि स्वामीकी मृत्युके पहिले मरजाय तो धर्मका ज्ञाता द्विजाति अग्निहोत्रकी अग्नि और यज्ञके पात्रोंसे उसका दाहधर्म करे ॥ १६७ ॥

भार्यायै पृथमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्मणि ।

पुनर्दारिक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥

पहिले मरीचुद्धे स्त्रीं दाह आदि अन्यैष्टिक कर्म करके फिर गृहस्थाधर्मके ऋषि विषाह करे और अग्निहोत्रभी प्रहण करे ॥ १६८ ॥

अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत् ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६९ ॥

इस पूर्वोक्त विधिसे सदा पञ्चमहायज्ञ करै उन्हें छोड़ै नहीं और विवाह करके आयुके दूसरे भागपर्यंत गृहस्थाश्रममें वास करै ॥ १६९ ॥ इति-

पं. रामेश्वरभट्टकृत सरलाटीकासहित मनु० का
पंचम अध्याय समाप्त हुआ शुभम् ।

अथ षष्ठोऽध्यायः ।

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्क्लातको द्विजः ।

वने वसेत्सु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

क्लातक द्विज इसप्रकार विधिपूर्वक गृहस्थाश्रममें रहकर फिर शाल्मोक्तविधिसे इन्द्रियोंको रोककर नियमसे वनमें वास करै ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

जब गृहस्थी देखले कि अपने शरीरका चमका ढीला हुआ और केश पकगए और पुत्रके भी पुत्र हो गया तब वनका आश्रय ले ॥ २ ॥

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम् ।

पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

गावके आहार (मीहियवआदि) को और (शय्या सवारी आदि) सब सामग्री त्यागकर और स्त्रीको पुत्रोंके हाथ सौंपकर वा स्त्रीको साथ लेकर वनको जाय ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

अग्निहोत्र और घर तथा अभिकी सामग्री लेकर ग्रामसे बाहर जितेन्द्री हो वनमें वास करै ॥ ४ ॥

मुन्यन्नैर्विधिभैर्मेघैः शाकमूलफलेन वा ।

एतान्नेव महायज्ञान्निर्बैषेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥

अनेक प्रकार के (नीवार आदि) मुनियोंके शुद्ध अन्नसे वा शाकमूलफलसे इनही (पाच) महायज्ञोंको विधिपूर्वक करै ॥ ५ ॥

वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रणे तथा ।

जटाश्च विभृत्यान्नित्यं श्मश्रुलोमनखानि च ॥ ६ ॥

मृगआदिका चर्म वा पुराना चरु धारण करै प्रातःकाल और सायंकाल स्नान करै, जटादाढ़ीआदि बालोंको और नखोंको सदा धारण करै ॥ ६ ॥

यज्ञस्थं स्यात्ततो दद्याद्वर्लिं मिक्षां च शक्तिः ।

अम्मूलफलमिक्षामिरर्चयेदाश्रमागतान् ॥ ७ ॥

जो खानेका पदार्थ हो उसमेंसे ही अपनी शक्तिके अनुसार बलि और मिक्षा दे और आश्रममें आएहुए अभ्यागतोंका जल, मूल, फलकी मिक्षासे सत्कार करे ॥ ७ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८ ॥

द्विजको चाहिये कि वेद पाठमें लगा रहै, सरदी गरमी आदिको सहै, सबका उपकार करै, मनको रोकें रहै, सदा दान दे परतु प्रतिग्रह न ले और सब प्राणियोंपर दया रखवै ॥ ८ ॥

वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि ।

दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥ ९ ॥

अमावास्या और पूर्णिमाके दिन पर्वोंको नहीं त्यागता हुआ विधिपूर्वक वैतानिकं अग्निहोत्र करे ॥ ९ ॥

ऋक्षेष्ट्याम्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत् ।

तुरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च ॥ १० ॥

नक्षत्रयज्ञ और नये अन्नका यज्ञ और चातुर्मास्य उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञोंको भी क्रमसे करे ॥ १० ॥

वासन्तशारदैर्मध्येर्मुन्यत्रैः स्वयमाहृतैः ।

पुरोडाशांश्चरुंश्चैव विधिवन्निर्यपेत्पृथक् ॥ ११ ॥

वसंत और शरदऋतुमें उत्पन्न हुए, पवित्र और आपही जाए हुए मुनियोंके (नीवारादि) अन्नसे पुरोडाश और चरुओंको शास्त्रविधिसे जुदा २ करे ॥ ११ ॥

देवताभ्यस्तु तद्भुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः ।

शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम् ॥ १२ ॥

उस वनके (नीवारादिसे बनाई गई) परम पवित्र हविको देवताओंके अर्पण करके, शेष हविको और स्वयं बनाए लवण (मय पदार्थ) का भोजन करे ॥ १२ ॥

स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च ।

मेध्यवृक्षोद्भवान्यद्यात्क्षेत्रांश्च फलसंभवान् ॥ १३ ॥

पृथ्वी और जलमें उत्पन्न हुए शाक और पवित्र वृक्षोंसे उत्पन्न हुए पुष्प मूल फल और फलोंसे निकले अर्क इनका भक्षण करे ॥ १३ ॥

(१) दाक्षिणाभिजुह्वेमें अश्विको वितान कहते हैं और उसमें जो अग्निहोत्र किया जाय उसे वैतानिक कहते हैं ।

वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च ।

भूस्तृणं शिशुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥

शहद, मांस, भूमिमें उत्पन्न हुए छत्राक, (सांपकी छत्री) भूस्तृण, शिमू और बहेडेके फलोंको त्यागदे ॥ १४ ॥

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसंचितम् ।

जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५ ॥

पहिला इकट्ठा किया हुआ (नीवारादि) मुनियोंका अन्न और जीर्ण वज तथा शाक मूल फल इन्है आश्विनके महीनेमें त्यागदे ॥ १५ ॥

न फालकृष्टमश्रीयादुत्सृष्टमपि केनचित् ।

न ग्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६ ॥

भूला होने परसी, हलसे जोती हुई भूमिमें उत्पन्न हुए और किसीसे छोड़े गए अन्नको तथा गावमें उत्पन्न हुए मूल फलोंको न खाना चाहिये ॥ १६ ॥

अग्निपकाशनो वा स्यात्कालपक्कभुगेव वा ।

अदमकृष्टो भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥ १७ ॥

(वानप्रस्थ द्विज) अग्निसे पकेहुए अन्नका भोजन करै अथवा समय पर पकेहुए फल आदि खाय अथवा फलोंको पत्थरसे कूटकर वा दातोंसे चबाकर खाय ॥ १७ ॥

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा ।

षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥ १८ ॥

(वानप्रस्थ द्विज) एकही दिनके लिये अथवा एक मास के लिये अपना छः महीनेके लिये अथवा एक वर्षके निर्वाहके लिये नीवार आदिका संचय करै ॥ १८ ॥

नक्तं चात्रं समश्रीयाद्दिवा वाहृत्य शक्तितः ।

चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १९ ॥

अपनी शक्तिके अनुसार अन्न लेकर रात्रिको अथवा दिनमें भोजन करै अथवा चौथे प्रहरमें वा आठवें प्रहरमें भोजन करै ॥ १९ ॥

चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्णे च वर्तयेत् ।

पक्षान्तयोर्वाप्यश्रीयाद्यवागूं फथितां सरुत् ॥ २० ॥

शुक्ल और कृष्ण पक्षमें चान्द्रायण मत करै अथवा पूर्णिमा और अमावास्याको पकी हुई लप्तीको एकवार भोजन करै ॥ २० ॥

पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेत्सदा ।

कालपकैः स्वयंशीर्णैर्वैखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥

अपना वानप्रस्थ द्विज समयपर पकेहुए और अपने आप गिरेहुए केवल फलमूलसे सदा जीवन निर्वाह करै ॥ २१ ॥

भूमौ विपरिवर्तत तिष्ठेष्टा प्रपदैर्दिनम् ।

स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः ॥ २२ ॥

भूमिपर छेड़ै वा दिनभर एक चरणसे खडा रहै अथवा कमी आसनपर और कमी आसनसे उठकर अपना समय वितावे आर तीनों काल खूज करै ॥ २२ ॥

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्दर्षास्वभ्रावकाशिकः ।

आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥

अपने तपको क्रमसे बढाता हुआ वानप्रस्थ ग्रीष्मऋतुमें पंचाश्रमे तप करै, व ऋतुमें वर्षाकी जगह नम्र वैठा रहै और हेमन्त (जाबेकी) ऋतुमें गीले वस्त्र धारण करै ॥ २३ ॥

उपस्पृशंस्त्रिषवर्णं पितृन्देवांश्च तर्पयेत् ।

तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषयेद्देहमान्मनः ॥ २४ ॥

तीनों कालमें स्नान करके पितर और देवताओंका तर्पण करै और कठिन तपसा करके अपने शरीरको सुखावै ॥ २४ ॥

अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि ।

अग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः ॥ २५ ॥

विधिके अनुसार वैतान नामक अग्निओको अपनी देहमें रखकर अर्थात् उनकी भस्म पीकर अग्नि और गृहको स्थागदे और मौन व्रत धारण करके और फल मूल खाकर समय वितावै ॥ २५ ॥

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।

शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६ ॥

सुख देनेवाले विषयोंमें लिप्त होनेका यत्न न करै, ब्रह्मचारी रहै (अर्थात् ली भोगादि न करै) भूमिपर सोवै, निवासस्थानसे ममता न करै और वृक्षकी जड़में निवास करै ॥ २६ ॥

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं मैक्षमाहरेत् ।

गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७ ॥

फल मूल न मिलै तो तपस्वी वानप्रस्थको चाहिये कि ब्राह्मणोंसे अथवा अन्य वनवासी गृहस्थ द्विजातियोंके यहासे अपने प्राणधारण करनेके योग्य भिक्षा माग लावै ॥ २७ ॥

ग्रामादाहृत्य वाश्रीयादष्टौ त्रासान्वने वसन् ।

प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥

यदि वनमें रहकर भिक्षा न मिलै तो गावसे पत्तेके दौने वा सकोरेमें अथवा दायमेंही भीत माग लाकर वानप्रस्थ केवल आठ त्रास भोजन करै ॥ २८ ॥

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन् ।

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥

वानप्रस्थ ब्राह्मण वनमें वसकर इन पूर्वोक्त तथा अन्य सब नियमोंका पालन करे और आत्मज्ञानकी सिद्धिके लिये उपनिषद् आदि अनेक श्रुतियोंका अभ्यास करे ॥ २९ ॥

ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः ।

विद्यातपोविचक्षणैश्च शरीरस्य च शुद्ध्यै ॥ ३० ॥

क्योंकि ऋषि और ब्राह्मण गृहस्थियोंनेही विद्या, तपकी वृद्धि और शरीरकी शुद्धिके लिये उपनिषद्में कहीहुई श्रुतियोंका ही अभ्यास किया है ॥ ३० ॥

अपराजितां वास्थाय ब्रजेद्दिशमजिह्मगः ।

आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१ ॥

वानप्रस्थ द्विज अबतक शरीरपात न हो तबतक जल, वायु भक्षण करके योगसाधन करे और ईशान कोणकी ओर सीधे मार्गसे चला जाय अर्थात् शरीर त्याग दे ॥ ३१ ॥

आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम् ।

वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥

महर्षियोंके इन पूर्वोक्त कर्मोंसे किसी न किसी कर्मसे शरीर छोडकर ब्राह्मण, शोक और मयरहित होकर ब्रह्मलोकमें पूजन सत्कार पाता है ॥ ३२ ॥

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्या सद्गान्परिव्रजेत् ॥ ३३ ॥

इस प्रकार आयुके तीसरे भागको वनोंमें विहार करके और आयुके चतुर्थ भागको विषयोंसे त्यागकर संन्यासआश्रमका ग्रहण करे ॥ ३३ ॥

आश्रमादाश्रमं गत्वा हृतहोमो जितेन्द्रियः ।

भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रब्रजन्प्रेत्य वर्धते ॥ ३४ ॥

अग्निहोत्र करके और जितेन्द्री होकर और भिक्षा तथा बलिर्वैश्वदेवकी पूर्ण सेवा करके और एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें जाकर (अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ करके) द्विज परलोकमें वृद्धि पाता है अर्थात् ब्रह्ममें लीन होजाता है ३४

ऋणानि श्रेण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यघः ॥ ३५ ॥

ऋषि, देव और पितृ इन तीनोंके ऋण चुकाकर मोक्षसाधनमें मन लगाना चाहिये क्योंकि इनका ग्रहण बिना चुकाए मोक्षके लिये बदा करनेसे नरक प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥

अधीत्य विधिवच्छेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यद्वैसैनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ ३६ ॥

विधिपूर्वक वेद पढकर, धर्मपूर्वक पुत्र उत्पन्न करके और शक्तिके अनुसार यज्ञ करके मोक्षमें मन लगाना उचित है ॥ ३६ ॥

अनधीत्य द्विजो वेदान्नुत्पाद्य तथा सुतान् ।

अनिष्ट्वा चैव यद्वैश्च मोक्षमिच्छन्वजत्यधः ॥ ३७ ॥

जो द्विज यदि दिना वेद पढ़े, विना सुतान उत्पन्न किये और विना यज्ञ किये ही मोक्षकी इच्छा करे तो उसकी अयोगति होती है ॥ ३७ ॥

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात् ॥ ३८ ॥

प्रजापतियज्ञ समाप्त करके, सर्वस्य दक्षिणा देके, आत्मामें अग्निगोको म्थापन करके ब्राह्मण अपने घरसे जाय और संन्यास आश्रम ग्रहण करे ॥ ३८ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥

जो ब्राह्मण सब प्राणियोंको अभयदान देकर और घरसे जाकर संन्यास ग्रहण करता है वह ब्रह्मवादी तेजोमय लोकोंको पाता है ॥ ३९ ॥

यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम् ।

तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥

जिस द्विजसे किसी प्राणीको थोडासाभी भय नहीं होता उसे शरीर छोड़नेके पीछे कहीं भय नहीं मिलता ॥ ४० ॥

अगारादग्निनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः ।

समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ ४१ ॥

द्विजको चाहिये कि घरसे निकलकर, पवित्र दंड, कर्मढल साथ लेकर, अनायास मिलेहुए पदारथमें इच्छा त्यागकर और मौनी होकर संन्यास ग्रहण करे ॥ ४१ ॥

एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयर्थमसहायवान् ।

सिद्धिमैकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥

सबका सग त्यागनेवाले एककीही मुक्ति होती है यह जानकर जो द्विज निद्रिके लिये किसीको सहायक न रखकर सदा अकेला विचरता है तो न वह किसीका त्याग करता है और न कोई उसका त्याग करता है अर्थात् वह सदा सुखदुःखमें समतानी त्याग कर मुक्ति पाता है ॥ ४२ ॥

अनशिरनिकेतः स्याद्भ्राममन्त्रार्थमाश्रयेत् ।

उपेक्षकोऽसंकुसुको मुनिर्मांसमाहितः ॥ ४३ ॥

(लौकिक) अग्निरहित, गृहहीन, व्याधिकी चिकित्सासे रहित, स्थिरबुद्धि, मौनी और सदा ब्रह्ममें एकाग्रचित्त ऐसा होकर समय वितर्क और केवल भिक्षाके लिये गांवमें जाय ॥ ४३ ॥

कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता ।
समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४४ ॥

मट्टीका सकोरा आदि भिक्षाके पात्र, रहनेके लिये वृक्षकी जड़, जीर्ण (कौपीन कंथा आदि) वस्त्र, अकेला निवास और सबमें समान दृष्टि रखना ये मुक्तके लक्षण हैं ॥ ४४ ॥

नामिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीवितम् ।
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ४५ ॥

जीवन वा मरण किसीकी इच्छा न करै परतु जैसे सेवक वेतनके लिये वियत समयकी राह देखता है उसी भाति जीवनकाल और मरणकालकी प्रतीक्षा करै ॥ ४५ ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥

मार्गको देखकर पैर रखसै, वस्त्रसे छानकर जल पीए, सत्यसे पवित्र वचन बोले और पवित्र मनसे सब काम करै ॥ ४६ ॥

अतिवादांस्तिक्षेत नाधमन्येत कंचन ।
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४७ ॥

दूसरेके कहे कट्ट वचन सहले परतु किसीका अपमान न करै और इस क्षणमंगुर शरीरसे किसीके साथ शत्रुता न करै ॥ ४७ ॥

क्रुद्धान्तं न प्रतिक्रुद्ध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।
सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥

दूसरेके क्रोध करनेपर उसपर क्रोध न करै, कोई अपनी निन्दा करै भी उससे मीठे वचन बोले और (कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक, मन, बुद्धि) इन सात द्वारोंके विषयकी मिथ्या बातें न मारै अर्थात् ब्रह्मसंबन्धकी बातें करै ॥ ४८ ॥

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरासिषः ।
आत्मनैव सहायेन सुखार्थां विचरेदिह ॥ ४९ ॥

सदा ब्रह्मका ध्यान करै, योगासनसे बैठे, सब विषयोंसे विरक्त रहै (दंड कमंडलु आदि) किसी बातकी इच्छा न करै और केवल आत्मसहायसेही अर्थात् अकेलाही मोक्षके सुखका चाहनेवाला संन्यासी इस ससारमें विचरै (अर्थात् सबका संग और ममताको त्यागदे) ॥ ४९ ॥

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनचादाभ्यां शिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥ ५० ॥

भूमिकंप आदि उत्पात वा नेत्रस्पंदन आदि शकुन वा नक्षत्र तथा हायकी रेखा आदिका फलाफल दिखाकर अथवा शास्त्रकी आज्ञा दिखाकर किसीसे भीख मागनेकी इच्छा न करै ॥ ५० ॥

न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा वयोमिरपि वा श्वभिः ।

आकीर्णं मिश्रुकैर्वा न्यैरगारमुपसंभजेत् ॥ ५१ ॥

जिस घरमें अन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते और अन्य मिश्रुक विद्यमान हों वहा भीख मागनेकी इच्छासे न जाना चाहिये ॥ ५१ ॥

ह्रस्वकेशानखड्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्मवान् ।

विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥

दाढ़ी, मूछ, नख और बाल फटवाकर, दडकमंडलु तथा शिक्षापात्र लेकर और किसी प्राणीको दुख न देकर इसप्रकार सन्यासीको सदा नियमसहित विचरना चाहिये ॥ ५२ ॥

अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्वृणानि च ।

तेषामग्निः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥

उस सन्यासीका शिक्षापात्र धातुका नहो और पात्रमें छेदभी नहो और जैसे यज्ञमें चमस शुद्ध होते हैं वैसेही इन सब पात्रोंकी जलसे शुद्धि कही गई है ॥ ५३ ॥

अलावुं दारुपात्रं च सृन्मयं वैदलं तथा ।

पतानि यतिपात्राणि मनुः स्वार्थभुवोऽब्रवीत् ॥ ५४ ॥

तूवा और काठ, मट्टी तथा बासका पात्र सन्यासीके लिये स्वार्थभुव मनुने कहा है ॥ ५४ ॥

एककालं चरेद्भैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे ।

भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ ५५ ॥

सन्यासी प्राणधारण करनेके लिये दिनमें एक बार भीख मागै और विस्तारमें न लगे क्योंकि भिक्षामें अधिक मन लगानेसे सन्यासी विषयभोगोंमें पड़ जाता है ॥ ५५ ॥

विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने ।

वृत्ते शरावसंपाते शिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ५६ ॥

जब घरमें रसोईका धुआँ बंद हो जाय, मुसलका काम पूरा हो जाय, अग्नि बुझ जाय और गृहस्थके भोजनके बाद जूटे पात्र फेंक दिये जाय उस समय सन्यासी भिक्षाके लिये विचरै ॥ ५६ ॥

अलाभे न विपादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत् ।

प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥ ५७ ॥

संन्यासीको चाहिये कि भीख न मिलनेपर दुखी और मिलनेपर आनंदित न हो जितनेमें प्राणोंका निर्वाह होसके उतनाही अन्न मांगले और व्यवहारकी न्य वस्तुओंमें बुद्धि न करे ॥ ५७ ॥

अमिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः ।

अमिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्ध्यते ॥ ५८ ॥

आदरपूर्वक भिक्षापानेकी कभी इच्छा न करे क्योंकि मुक्तिकी अवस्थामें रहनेपरभी संन्यासीको अलंत सत्कारसे संसारबंधन हो सकता है ॥ ५८ ॥

अल्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च ।

द्वियमाणानि विपयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ५९ ॥

थोड़ेसे अन्नका भोजन और निर्जन स्थानमें निवास करके संन्यासी, विप-
योंमें लगी हुई इन्द्रियोंको वहासे धीरे २ अलग करे ॥ ५९ ॥

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥

इन्द्रियोंके रोकनेसे, रागद्वेषादि छोड़नेसे और सब प्राणियोंकी अहिंसासे संन्यासीको मुक्ति मिल सकती है ॥ ६० ॥

अवेक्षेत गतीर्नृणां कर्मदोषसमुद्भवाः ।

निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥

कर्मदोषोंसे उत्पन्न जीवोंकी गति, नरकमें पड़ना और यमलोककी यातना इनकी सदा चिन्ता करे ॥ ६१ ॥

विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियैः ।

जरथा चाभिभवन्नं व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥ ६२ ॥

प्रिय लोगोंका वियोग, अप्रियोंका संयोग, बुढ़ापा और व्याधिकी पीड़ा ६२

देहादुत्कर्मणं चास्मात्पुनर्गर्भे च संभवम् ।

योनिकोटिसहस्रेषु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥

इस देहसे जीवात्माका निकलना और फिर गर्भमें जन्मना तथा किरोडों सहस्र योनियोंमें आवागमन इन्हें विचारता रहे ॥ ६३ ॥

अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम् ।

धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम् ॥ ६४ ॥

यह निश्चय है कि जीवोंका दुःख अधर्मसे और अक्षय सुख, धर्मसे मिलता है ॥ ६४ ॥

सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः ।

देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५ ॥

योगसे, परमात्माके सूक्ष्म रूपको और उत्तम अधम देहोंमें उत्पत्तिना विचार करे ॥ ६५ ॥

दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥

चाहे जिस आश्रममें क्यों न हो और (आश्रमके विद्वद् कर्म करके) दूषित ही हो परन्तु सब प्राणियोंमें समदर्शी होकर अपने धर्मना आचरण करे क्योंकि (दंड आदि) चिन्हका धारण ही धर्मका मुख्य कारण नहीं है ॥ ६६ ॥

• फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्लुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य चारिं प्रसीदति ॥ ६७ ॥

निर्मली वृक्षका फल जलमें डालनेसे जल निर्मल हो जाता है परन्तु कोरा उसका नाम लेनेसेही जल निर्मल नहीं होता (उसी भाँति धर्म करनेसे धर्म होता है केवल चिन्हसे नहीं होता) ॥ ६७ ॥

संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा ।

शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वस्तुधां चरेत् ॥ ६८ ॥

शरीर पीड़ित होनेपर भी दिनमें वा रात्रिमें जीवोंकी रक्षाके लिये सदा भूमि देखकर चलना चाहिये ॥ ६८ ॥

अह्ना रात्र्या च याजन्तून्निहनस्त्यज्ज्ञानतो यतिः ।

तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थे प्राणायामान्पडाचरेत् ॥ ६९ ॥

सन्धासी अज्ञानतासे दिन रातमें जिन सब प्राणियोंको नष्ट करता है उनके पापसे छूटनेके लिये वह ज्ञान करके छ. वार प्राणायाम करे ॥ ६९ ॥

प्रणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥

व्याहृति और प्रणवयुक्त तीन प्राणायाम विधिपूर्वक करनाही ब्राह्मणका परम तप है ॥ ७० ॥

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ७१ ॥

जैसे घातुओंके मल तपानेसे साफ होते हैं वैसेही, प्राणायामके द्वारा प्राणोंके रोकनेसे इन्द्रियोंके सब दोष नाश हो जाते हैं ॥ ७१ ॥

प्राणायामैर्दहेद्वेषान्धारणाभिश्च किलिबषम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥

प्राणायामसे राग आदि दोष और (परब्रह्ममें) धारणासे पापको दूर करे

और प्रत्याहारसे विषयोंमें जानेवाली इन्द्रियोंको विषयोंसे रोकनेका यत्न करै और ध्यानसे जीवनके गुण (कामक्रोध आदि) नष्ट करै ॥ ७२ ॥

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।

ध्यानयोगेन संपश्येद्भ्रतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥

अन्तरात्माका जाना देव और पशु आदि योनिमें किस कारणसे होता है यह बात आत्मज्ञान-हीन लोगोंके लिये जानना बड़ा कठिन है इसलिये उसे ध्यानयोगसे देखै ॥ ७३ ॥

सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिर्न निबन्धते ।

दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥

ब्रह्मज्ञानी पुरुष कर्म बन्धनमें नहीं पड़ता परतु जो ब्रह्मज्ञानरहित है वही संसार पाता है ॥ ७४ ॥

अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः ।

तपसश्चरणैश्चोपैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७५ ॥

ज्ञानी जन अहिंसासे, इन्द्रियोंके विषयोंमें न फसनेसे, वैदिक कर्मोंसे और उग्र (कृच्छ्र चान्द्रायण आदि) तपसे ब्रह्मपद पाते हैं ॥ ७५ ॥

अस्थिस्थूर्णं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम् ।

चर्माबनद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपरीपयोः ॥ ७६ ॥

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।

रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ ७७ ॥

यह शरीर इड्डीरूपी स्तंभ, स्नायुरूपी रस्सी, लोहू माससे लिप्त, चर्मसे ढका हुआ, मूत्र विष्टासे भरा, दुर्गन्धसे पूर्ण, वृद्धावस्था और शोकयुक्त, अनेक व्याधियोंका स्थान, भूक प्यास आदिसे कातर, रजोगुणयुक्त, अनित्य और (पृथ्वीआदि) पंच भूतोंका निवासस्थान है यह जानकर देहको त्याग दे अर्थात् ऐसा कर्म न करै कि जिससे फिर देह धारण करना पड़े ॥७६॥७७॥

नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा ।

तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्राद्वाहाद्भिमुच्यते ॥ ७८ ॥

जैसे वृक्ष नदीके तटको अथवा पक्षी वृक्षको छोड़ देता है वैसे ही ज्ञानी इस देहको त्यागकर दुःखरूपी ग्राहसे छुट जाता है ॥ ७८ ॥

प्रियेषु स्त्रेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् ।

विस्मृत्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥ ७९ ॥

आत्मज्ञानी, अपने पुत्रादि प्रिय वर्गोंमें पुण्य और शत्रुओंमें पाप छोड़कर ध्यानके योगसे, सनातन ब्रह्मको पाता है ॥ ७९ ॥

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ ८० ॥

इस भाति मनसे जब उन सब विषयोंमें दोष देख उन पदार्थोंसे विरक्त होता है तब इस संसारमें और परलोकमें सदा सर्वत्र अविनाशी सुख मिलता है ८०

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सद्भाञ्छनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८१ ॥

इसप्रकार (स्त्रीपुत्रादिमें ममतारूपी) सब संगोंको धीरे २ छोड़कर और (आसक्ति, मान, अपमान, सदी, गरमी, सुख और दुःख आदि) सब द्वन्द्वभावोंसे छुटकर वह ब्रह्ममें ही लीन हो जाता है ॥ ८१ ॥

ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतदमिश्रिद्धितम् ।

न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाश्रुते ॥ ८२ ॥

जो कुछ पहिले कहा है सब ध्यानसे प्राप्त होता है इसलिये अध्यात्मज्ञान रहित कोई पुरुष कदापि किसी कार्यका फल नहीं पासका ॥ ८२ ॥

अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च ।

आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ॥ ८३ ॥

यज्ञ और देवतासबन्धी जिसमें मंत्र हों और आध्यात्मिक (अर्थात् जिसमें जीवका स्वरूप हो) और जो उपनिषदोंमें कहाहै उस वेदको सदा जपै ॥ ८३ ॥

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् ।

इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ ८४ ॥

जो वेदोंका अर्थ नहीं जानते उनकी गति वेद है और जो अर्थ जानते हैं उनकीभी गति वेद है और स्वर्ग तथा मोक्षकी इच्छा करनेवालोंके लियेभी केवल वेदही अवलंब है ॥ ८४ ॥

अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः ।

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥

इस भाति विधिपूर्वक जो ब्राह्मण सन्यास आश्रमका ग्रहण करता है वह इस लोकमें सब पापोंसे रहित होकर परब्रह्मको पाता है ॥ ८५ ॥

एष धर्मोऽनुशिष्टो चो यतीनां नियतात्मनाम् ।

वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ ८६ ॥

युग लोगोंसे मैने मनको बशमें करनेवाले सन्यासियोंके धर्मका विधान कहा अब वेद-विहित कर्मको छोड़नेवाले सन्यासियोंका कर्मयोग सुनों ॥ ८६ ॥

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।

एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यती ये चारों अलग २ आश्रम गृहस्थसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ८७ ॥

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः ।

यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ८८ ॥

शास्त्रविधिसे क्रमपूर्वक सेवन करनेसे ये सब चारों आश्रम यथोक्तकर्ता ब्राह्मणको परम गतिको पहुंचा देते हैं ॥ ८८ ॥

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स ब्रूनेतान्विभर्ति हि ॥ ८९ ॥

इन सब चारों आश्रमोंमें, वेद और स्मृतिकी विधिसे चलनेवाले गृहस्थाश्रमको ऋषियोंने श्रेष्ठ कहा है क्योंकि वह गृहस्थाश्रम तीनों आश्रमोंका पालन करता है ॥ ८९ ॥

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ ९० ॥

जैसे सब नदी नद समुद्रमें जाकर स्थित होते हैं वैसेही अन्य सब आश्रम-जाले गृहस्थाश्रमके आश्रयसे जीते हैं ॥ ९० ॥

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥

इन चारों आश्रमवाले द्विजातियोंको (नीचे लिखा हुआ) दश प्रकारका धर्म सदा यत्नपूर्वक करना चाहिये ॥ ९१ ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ९२ ॥

संतोष, क्षमा, मनको वशमें रखना, न्यायसे धन लेना, पवित्रता, इन्द्रियोंको वशमें करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध ये धर्मके दश लक्षण हैं ॥ ९२ ॥

दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते ।

अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ९३ ॥

धर्मके इन दश लक्षणों को जो ब्राह्मण पढ़ते हैं और पढ़कर करते हैं वे परम गतिको पाते हैं ॥ ९३ ॥

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः ।

वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेदनुषो द्विजः ॥ ९४ ॥

इन दस प्रकारके धर्मोंको सावधान मनसे करके और विधिपूर्वक वेदान्त सुनकर तथा देवपितर और ऋषियोंके ऋणसे छूटकर द्विजको संन्यास ग्रहण करना चाहिये ॥ ९४ ॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् ।

नियतो वेदभयस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् ॥ ९५ ॥

यहस्थोके अग्निहोत्रादि सब कर्म त्याग कर और कर्मसे जो दोष होते हैं उन्हें प्राणायाम आदिके नष्ट करके जितेन्द्री हो वेद पढ़े । और पुत्रसे वृक्ष भोजन पाकर सुखपूर्वक निवास करे ॥ ९५ ॥

एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः ।

संन्यासेनापहस्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ९६ ॥

इस प्रकार सब अग्निहोत्र आदि कर्मफल त्याग करके और निज ब्रह्मज्ञान-रूप कार्यमें तत्पर होकर, स्वर्गवादिकी इच्छारहित और संन्याससे पाप नाश-कर वह द्विज परम गतिको पाता है ॥ ९६ ॥

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधत ॥ ९७ ॥

ब्राह्मणके चारों आश्रमका परलोकमें अक्षय पुण्यदायक यह धर्म कहा-अब आगे राजधर्म सुनो ॥ ९७ ॥ इति ॥

पण्डित रामेश्वर भट्टकृत सरलाटीकासहित मनुस्मृतिका छटा
अध्याय समाप्त हुआ-शुभम् ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः ।

राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥

राजाका आचार, उसकी उत्पत्ति और जिस प्रकार उसकी इसलोक और परलोकमें परम सिद्धि हो उन सब राजधर्मोंको कहताहूँ ॥ १ ॥

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

विधिसे वेदोक्त संस्कार होनेपर क्षत्रिय राजाको न्यायपूर्वक सब सत्कारों रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्वते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥ ३ ॥

इस जगतमें राजा न होनेसे सब भयसे व्याकुल होते हैं, इसलिये इस सबकी रक्षाके लिये ईश्वरने राजाको उत्पन्न किया है ॥ ३ ॥

इन्द्रानिलयमार्कानामश्रेष्ठ चरुणस्य च ।

चन्द्रविद्येशयोश्चैव मात्रा निर्द्वैत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥

इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और कुबेर इन आठ दिग्पालों-
के मिले अंशसे ईश्वरने राजाको बनाया है ॥ ४ ॥

यस्मादेवां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः ।

तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥

और इन इन्द्रादि देवताओंके अंशोंसे निर्मित होनेके कारण राजा सब
जिनियोंसे अधिक तेजस्वी होता है ॥ ५ ॥

तपत्यादित्यवच्चैप चक्षुंपि च मनांसि च ।

न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥ ६ ॥

राजा देखनेवालोंके नेत्र और मनको सूर्यकी भांति तपाता है और पृथ्वीपर
कोईभी राजाकी ओर देखनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ६ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥

वह राजा प्रभावमें अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, यम, कुबेर, वरुण और महे-
न्द्रके समान है ॥ ७ ॥

वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥

राजा बालक हो तो भी इसे साधारण मनुष्य जानकर उसकी अवज्ञा नहीं
करनी चाहिये क्योंकि वह एक बड़ा देवता मनुष्यरूपमें विद्यमान है ॥ ८ ॥

एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरूपस्पर्षिणम् ।

कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ९ ॥

जो अग्निके समीप असावधानीसे जाता है तो वह उस अकेलेको ही ज-
लाती है परंतु राजाकी कोपामि, कुट्टब, पशु और सम्पत्तिसहित मनुष्यको
नष्टकर देती है ॥ ९ ॥

कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः ।

कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥

प्रयोजनके कार्य, अपनी शक्ति और देशकालको भलीभांति विचार कर
राजा धर्मके लिये अनेक प्रकारका रूप धारण करता है ॥ १० ॥

यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे ।

मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥ ११ ॥

तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम् ।

तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

जिसकी प्रसन्नतामें बहुतसी लक्ष्मी बसती है अर्थात् प्रसन्न होनेपर-बहुतसी
धन संपत्ति देता है, जिसके पराक्रममें विजय और जिसके कोपमें मृत्यु होती

है ऐसा वह राजा सब तेजोंकी मूर्ति है ॥ ११ ॥ जो पुरुष मोहके वश उससे द्वेष करता है उसका निस्सदेह विनाश हो जाता है क्योंकि राजा उसके नाश करनेके लिये क्षीघ्र अपना मन लगाता है ॥ १२ ॥

तस्मान्धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः ।

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत् ॥ १३ ॥

इसलिये शिष्टोंका प्रतिपालन और दुष्टोंका दमन करनेके लिये वह राजा जो नियम नियत करे उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥

तस्यार्थं सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् ।

ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः ॥ १४ ॥

राजाके हितके लिये ईश्वरने पहिलेसे ही प्राणियोंका रक्षक धर्मरूप और ब्रह्मतेजरूप अपने पुत्र दंडको उत्पन्न किया ॥ १४ ॥

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ।

भयाङ्गो गाय कल्पन्ते स्वधर्मात् चलन्ति च ॥ १५ ॥

दंडके भयसे सब चराचर प्राणी अपने २ भोगको भोगते हैं, कोई अपने धर्मसे विचलित नहीं होता ॥ १५ ॥

तं देशकालौ शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः ।

यथाहृतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ १६ ॥

देश काल, (दंड) शक्ति और शास्त्रको भलीभाँति देख भालकर राजाको चाहिये कि अन्याय करनेवाले नरोंको यथायोग्य दंड दे ॥ १६ ॥

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७ ॥

यथायंमे दंड ही राजा, दंड ही पुरुष, दंड ही राज्यका नेता और शिक्षक है और ऋषियोंने दंडको ही चारों आश्रमोंके धर्मका साक्षी कहा है ॥ १७ ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुतेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्वुधाः ॥ १८ ॥

दंड सब प्राणियोंका राज्य करता है और दंड ही सब प्राणियोंकी रक्षा करता है, सबके सौनेपर केवल दंड ही जागता रहता है और पण्डित लोग दंडको ही धर्म कहते हैं ॥ १८ ॥

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वा रक्षयति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥

वह दंड यदि पूर्णरीतिसे विचार कर दिया जाय तो सब प्रजा सुखी रहती है और विना विचारे देनेसे सबका विनाश हो जाता है ॥ १९ ॥

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः ।

शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्वलान्वलघत्तराः ॥ २० ॥

यदि राजा आलस्य छोड़कर दंडनीय लोगोंको दंड नदे तो अधिक बलवान् दुर्बल मनुष्योंको इसप्रकार पकालें कि जैसे शूलपर मत्स्योंको पकाते हैं ॥ २० ॥

अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्भविस्तथा ।

स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिंश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तरम् ॥ २१ ॥

(जो राजा दंड न दे तो) कौवे पुरोडाश खा लें कुत्ते हवि चाट लें, और किसीका किसीपर अधिकार न रहै वड़ा छोटेसे सब छीन ले और नीच शूद्र कंच वर्ण कैसे वर्ताव करने लौं ॥ २१ ॥

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि भयात्सर्वे जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२ ॥

केवल दंडके भयसेही संसार न्यायपथसे चलायमान नहीं होता क्योंकि स्वभावसे निर्दोष मनुष्य बहुत दुर्लभ है । यह चराचर जगत् दंडभयसेही अपने २ भोग भोगनेमें समर्थ होता है ॥ २२ ॥

देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतंगोरगाः ।

तेऽपि भोगाय कल्पंते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ २३ ॥

देव, दानव, गधर्व, राक्षस, पक्षी और सर्पभी केवल दंडभयसे ही अपने २ भोग करनेमें (अर्थात् वर्षा आदि उपकार करनेमें) प्रवृत्त होते हैं ॥ २३ ॥

दुष्प्रेयुः सर्ववर्णाश्च मिथेरन्सर्वसेतवः ।

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ २४ ॥

दंड न देनेसे चारों वर्णका वर्णसंकर होजाय, शास्त्रके सब नियम नष्ट होजाय और (चोर आदिसे) प्रजा बहुत दुखी हो ॥ २४ ॥

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चैत्साधु पश्यति ॥ २५ ॥

जहा श्यामवर्ण, लाल नेत्रवाला, पापनाशक दंड दिया जाता है और दंडकर्ता न्यायपूर्वक दंडविधान करता है वहा प्रजा कदापि व्याकुल नहीं होती ॥ २५ ॥

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्यकारिणं प्राहं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६ ॥

ऋषिलोगोंने दंड देनेवाले राजाको सत्यवादी, विचार कर काम करनेवाला, भलीभाति धर्म, अर्थ कामका ज्ञाता और बुद्धिमान होना कहा है ॥ २६ ॥

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणामिबर्धते ।

कामात्मा विषमः शूद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ २७ ॥

यदि राजा भलीभाति विचारकर दंड देता है तो धर्म, अर्थ और कामकी वृद्धि होती है और जो राजा, नीच, कामी और अशुचित दंड देनेवाला होता है तो वह उसी दंडसे मारा जाता है ॥ २७ ॥

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्च कृतात्मभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥ २८ ॥

शास्त्रज्ञानहीन राजाको महातेजस्वी दंड धारण नहीं करना चाहिये क्योंकि यह राजधर्मरहित राजाका वाधवोंसहित नाश कर देता है ॥ २८ ॥

ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् ।

अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन्देवांश्च पीडयेत् ॥ २९ ॥

(वह दंड) किला, देश, सचराचर लोक और अन्तरिक्षमें रहनेवाले ऋषि तथा देवताओंको भी नष्ट करदेता है ॥ २९ ॥

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विपयेषु च ॥ ३० ॥

जो राजा असहाय, मूर्ख, लोभी, शास्त्रज्ञानहीन, तथा भोगोंमें आसक्त होता है वह कदापि न्यायपूर्वक दंडविधान नहीं करसका ॥ ३० ॥

शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥

धन और देह आदिमें पवित्र, सत्यप्रतिष्ठ, बुद्धिमान् राजा, उत्तम मंत्रियोंकी सहायतासे शास्त्रके अनुसार दंडविधान करनेमें समर्थ होता है ॥ ३१ ॥

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्भृशदण्डश्च शत्रुषु ।

सुहृत्स्वजिह्वाः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥

राजाको अपने राज्यमें न्यायके अनुसार दंडविधान करना, शत्रुओंको तीक्ष्ण दंडसे दमन करना, प्रीतियुक्त मित्रोंके साथ निष्कपट होकर व्यवहार करना और ब्राह्मणोंपर क्षमा करना उचित है ॥ ३२ ॥

एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः ।

विस्तीर्यते यशो लोके तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥

जो राजा भलीभाँतिसे शासन करता है उसे यदि थिल तथा उच्छृतिसे भी जीवन निर्वाह करना पड़े तभी उसका यश जगत्में ऐसे फैल जाता है जैसे जलमें तैलकी बूंद फैल जाती है ॥ ३३ ॥

अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः ।

संक्षिप्यते यशो लोके घृतविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४ ॥

स्ये स्ये धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः ।

घर्णानामाधमाणां च राजा सृष्टोऽमितक्षिता ॥ ३५ ॥

परंतु जिस राजाका आचार इसके विपरीत है और जिसने इन्द्रियोंको नहीं जीता है उसका यश इस लोकमें जलमें घृतकी बूंदके समान संकुचित होता है ॥ ३४ ॥ क्रम २ से अपना २ धर्म करनेवाले ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी और चारों आधमोंकी रक्षाके लिये प्रजापतिने राजाको उत्पन्न किया है ॥ ३५ ॥

तेन यद्यत्समृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः ।

तच्छोऽहं प्रचक्ष्यामि ययावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥

प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाको उत्तम सेवकोंकी सहायतासे जो कुछ करना चाहिये वह सब क्रमसे विधिपूर्वक तुमसे कहता हूँ ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः ।

त्रैविद्यवृद्धान्विदुपस्तिष्ठेत्तेषां च शासने ॥ ३७ ॥

वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन् ।

वृद्धसेवी हि सततं रक्षोमिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥

राजाको प्रतिदिन सबेरे उठकर वेदज्ञ तथा नीतिशास्त्र जाननेवाले ब्राह्मणोंकी सेवा करनी चाहिये और उनकी आज्ञामें चलना चाहिये ॥ ३७ ॥ राजाको पवित्र, वेद जाननेवाले, वृद्ध ब्राह्मणोंकी सेवा सदा करनी चाहिये क्योंकि जो राजा सदा वृद्धोंकी सेवा करता है उसका हित क्रूर राक्षस भी चाहते हैं (फिर मनुष्योंकी क्या गणना है) ॥ ३८ ॥

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् ॥ ३९ ॥

विनीत होने परमी राजा सदा वृद्धोंसे विनयका अभ्यास करै क्योंकि विनीत राजा कभी विनष्ट नहीं होता ॥ ३९ ॥

बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः ।

वनस्या अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥

विनयरहित होनेसे बहुतसे ऐश्वर्यवान् राजा नष्ट होगए और विनयसे बहुतसे सदा वनमें रहनेवाले पुरुषोंने राज्योंको प्राप्त कर लिया ॥ ४० ॥

वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुपश्चैव पार्थिवः ।

सुदाः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥

वेन, नहुप, सुदास, पैजवन, सुमुख और निमि ये राजा विनयरहित होनेसे विनाश होगये ॥ ४१ ॥

पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मजुरेव च ।

कुवेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥

राजा पृथु और मजुरे विनयसे राज्य पाया, कुवेर धनेश्वर हुए और क्षत्रिय-पुत्र विश्वामित्र ब्राह्मण हुए ॥ ४२ ॥

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् ।

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ ४३ ॥

राजाको चाहिये कि, तीनों वेदके ज्ञाता ब्राह्मणोंसे तीनों वेद, सनातन दंडनीति, तर्कशास्त्र और प्रज्ञाविद्या सीखे और अन्य (कृषिवाणिज्य आदि) बातोंके आरंभोंको लोकसे सीखे ॥ ४३ ॥

इन्द्रियाणां जये.योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

इन्द्रियोंको अपने वशमें करनेके लिये राजाको दिन रात यत्न करना चाहिये क्योंकि जितेन्द्री राजाही प्रजाको अपने वशमें रख सकता है ॥ ४४ ॥ कामसे उत्पन्न हुए दश व्यसन और क्रोधसे उत्पन्न हुए आठ व्यसन हैं (जो आगे कहेंगे) इन व्यसनोंको राजा यत्नपूर्वक छोड़ दे क्योंकि ये अतमें दुस्सह कष्टदायक हैं ॥ ४५ ॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्व्वात्मनैव तु ॥ ४६ ॥

कामसे उत्पन्न व्यसनोंमें आसक्त होनेसे राजा निश्चयही धर्मअर्थसे रहित हो जाता है और क्रोधसे उत्पन्न व्यसनोंमें आसक्त होनेसे तो अपने शरीरसेही वियुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥

मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाख्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥

मृगया, जुआ खेलना, दिनमें सोना, पराया दोष कहना, स्त्रियोंमें आसक्ति, मद्यपान, बजाना, नाचना, गाना और वृथा घूमना ये दश (दोष) कामसे उत्पन्न होते हैं ॥ ४७ ॥

पैशुन्यं साहसं द्रोह इर्ष्यासूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥

जुगली, दुःसाहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया (गुणमें दोषका आरोपण करना) दूसरेकी बस्तु हरना, कठोर वचन बोलना और अनुचित दंड देना ये आठ दोष क्रोधसे उत्पन्न हैं ॥ ४८ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वं कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेद्भोमं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ४९ ॥

परिष्ठ जन कहते हैं कि इन दोनों गणोंका मूल कारण लोभ है इसलिये राजाभक्तों यत्नपूर्वक लोभ छोड़ देना चाहिये क्योंकि ये दोनों (दोष) गण लोभसेही होते हैं ॥ ४९ ॥

पानमदाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥

दश प्रकार के कामोत्पन्न दोषोंमें नश पीना, जुआ खेलना, स्त्रियोंमें आसक्ति होना और शिकार खेलना इन चारोंको राजा अत्यन्त कष्टदायक जानें ॥ ५० ॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे ।

श्रोधनेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतन्निकं सदा ॥ ५१ ॥

आठ प्रकारके श्रोधोत्पन्न व्यसनोमें, अनुचित दंड देना, कठोर वचन बोलना और दूसरे की बख्त हरना इन तीनोंको राजा सदा अत्यन्त अनर्थ-कारी जाने ॥ ५१ ॥

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुपद्भिणः ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याह्यसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥

ये सात व्यसन सारे राज्यमेही व्याप्त हुआ करते हैं, आत्मज्ञानी राजा इनमेंसे पहिले २ व्यसनको दूसरेसे* अधिक कष्टदायक जानें ॥ ५२ ॥

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।

व्यसन्यधोधो ब्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ५३ ॥

व्यसन और मृत्यु इनमेंसे व्यसन भयंकर है क्योंकि व्यसनोमें आसक्त पुरुष शरीर छूटनेपर नरकगामी होता है, परंतु व्यसनहीन मनुष्य शरीर छूटने-पर स्वर्गमें जाता है ॥ ५३ ॥

मौलाञ्छालविदः शूराँल्लब्धलक्षान्कुलोद्भवान् ।

सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ ५४ ॥

वंशपरंपरागत, शास्त्रोके जाननेवाले, शूर शास्त्रविद्यामें निपुण, कुलीन और परीक्षित ऐसे सात वा आठ मंत्रियोंको राजा नियत करै ॥ ५४ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किं तु राज्यं महोदयम् ॥ ५५ ॥

जब कि सहजमे होनेवाला कामभी एक पुरुषसे होना कठिन है तब राज्य-का बड़ा भारी कार्य विशेषकर अकेले राजासे होना क्या कठिन न होगा ॥ ५५ ॥

तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रहम् ।

स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥

सामान्य, सन्धि, विग्रह, दंड, कोश, पुर, राष्ट्र तथा अन्न, सुवर्ण आदिकी उत्पत्तिका स्थान, अपनी तथा देशकी रक्षा और मिला धन सत्यात्रोको देना, इन बातोंकी सलाह राजाको नित्य अच्छे मंत्रियोंके साथ करनी चाहिये ॥ ५६ ॥

तेषां स्वं स्वमसिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तानां च कार्येषु विद्ध्यद्धितमात्मनः ॥ ५७ ॥

पहिले मंत्रियोंमेंसे प्रत्येकका मत पृथक् २ जानकर पीछे एकत्र हुए सब लोगोका मत जानकर जिसमें अपना भला होता देखै राजा उसेही करै ॥ ५७ ॥

*धृतसे मद्य पीना डुरा, स्त्रियोंमें आसक्त होनेमे जुआ डुरा इत्यादि । कठोर वचनसे अनुचित दंड अधिक कष्टदायक है इत्यादि ।

सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ।

मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाड्गुण्यसंयुतम् ॥ ५८ ॥

राजाको चाहिये कि († सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेष और आश्रय) इन छ विषयोंकी सलाह मंत्रियोंमेंसे धार्मिक, पण्डित और ब्राह्मणोंसे साथ करे ॥ ५८ ॥

तिस्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत् ।

तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत् ॥ ५९ ॥

राजाको चाहिये कि सब कर्मका भार विश्वासभावसे सदा उत्तम पण्डित ब्राह्मणपर रखे और उसकेही साथ निष्पन्न करके सब काम करे ॥ ५९ ॥

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान् ।

सम्यगर्थसमाहर्तुं न मात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥

इसके अतिरिक्त पवित्र (रिशवत न लेनेवाले) बुद्धिमान्, स्वस्थ त्रित, न्यायपूर्वक धन पैदा करनेवाले और मलीभांति परीक्षा किये हुए अन्य मंत्रियोंको नियुक्त करे ॥ ६० ॥

निर्वर्तेतास्य यावद्भिरितिकर्तव्यता नृभिः ।

तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥

राजाको चाहिये कि जितने मनुष्योंसे अपना राज्यकार्य चलता दीखे उतनेही आलस्यरहित, चतुर और सुशिक्षित मंत्रियोंको नियुक्त करे ॥ ६१ ॥

तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्कुलोद्गतान् ।

शुचीनाकरकर्मान्ते भीरुनन्तर्निवेशने ॥ ६२ ॥

उनमेंसे पराक्रमी, कुलीन, चतुर और पवित्र (रुपया नहीं उठानेवाले) पुरुषोंको तो खनिज, सपत्ति और धान्य आदि संप्रदा करनेके स्थानपर नियुक्त करे और जो दरपोक हों उन्हें अपने रनवासने नियुक्त करे ॥ ६२ ॥

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इद्धिताकारचेष्टां शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ६३ ॥

और जो इणित आकार और चेष्टा का ज्ञाता, कुलीन, सब शास्त्रोका ज्ञाता, चतुर, पवित्र (अर्थात् रिशवतखोर न हो) उसे दूत नियुक्त करे ॥ ६३ ॥

अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित् ।

चपुष्पान्वीतमीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥

जो प्रीतियुक्त, (धनमें) पवित्र, चतुर, स्मरणशक्तिवाला, देशकालका ज्ञाता, सुन्दर, निर्भय और बातचीत करनेमें निपुण हो ऐसे राजदूतकी प्रशंसा होती है ॥ ६४ ॥

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया ।

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ ॥ ६५ ॥

दंड सेनापतिके आधीन, विनय दंडके आधीन, कोश और देश राजाके
प्रति और संधिविग्रह दूतके आधीन होते हैं ॥ ६५ ॥

दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान् ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म सिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

दूतही अपनेसे विगड़े हुओंको मिलता है और मिले हुओंको फोड़ता है
और दूत परदेवमें जाकर वह कर्म करता है जिस्से मेल किये हुए मनुष्य फूट
जाय वा न फूटे ॥ ६६ ॥

स विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेद्भितचेष्टितैः ।

आकारभिक्षितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥ ६७ ॥

दूतको चाहिये कि शत्रु राजाके कार्योंमें नियुक्त दूतोंके आकार और चेष्टासे
उनके आकार, इक्षित और चेष्टाको समझे और सेवकोंपर राजाका कैसा वर्ताव
है उसे पहिचाने ॥ ६७ ॥

बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ६८ ॥

योग्य दूतके द्वारा शत्रु राजाके मनका अभिप्राय जानकर राजाको इसप्रकार
सावधानीसे रहना चाहिये कि जिससे अपनेको दुःख न हो ॥ ६८ ॥

जाङ्गलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् ।

रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥ ६९ ॥

और राजाको ऐसे जागल देशमें रहना चाहिये जो धान्यसे पूर्ण, जिसमें
धार्मिक रहते हों, रोग आदिसे रहित, रमणीय, जिसके आसपासके वासी
अपनेसे दबतेहों और जिसमें अच्छी जीविका हो ॥ ६९ ॥

धन्वदुर्गं महीदुर्गमद्दुर्गं वार्क्षमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥

वहां धन्वदुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्षदुर्ग, नृदुर्ग और गिरिदुर्ग इन किलोंको
बनाकर राजा पुरमें वास करे ॥ ७० ॥

सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत् ।

एषां हि वाङ्मगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते ॥ ७१ ॥

इन छ प्रकार के किलोंमें अनेक गुणोंसे युक्त ऐसा पर्वत दुर्गही सबसे श्रेष्ठ
है इसलिये सब प्रकारसे यत्नपूर्वक राजाको उसीका आश्रय करना चाहिये ७१

श्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्यतराः ।

श्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः ॥ ७२ ॥

इन सब दुर्गोंमें से पहिले (धनु, मही और जल) दुर्गोंमें मृग मूसे और नाके बसते हैं अर्थात् धनुदुर्गमें मृग आदि पशु, महीदुर्गमें भूपक आदि और जलदुर्गमें नक आदि और पिछले तीन (वृक्ष, नर और गिरि) दुर्गोंमें क्रमसे वानर मनुष्य और देवता रहते हैं अर्थात् वृक्षदुर्गमें वन्दर आदि दुर्गदुर्गमें मनुष्य आदि और गिरिदुर्गमें देवता वास करते हैं ॥ ७२ ॥

यथा दुर्गाश्रितानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रवः ।

तथारथो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥

जैसे दुर्गमें रहनेसे इन (मृगादि) को (सिंहादि) शत्रु नहीं मार सके वैसेही किलेमें रहनेसे राजाके शत्रु भी उसका अनिष्ट नहीं कर सके ॥ ७३ ॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः ।

शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥ ७४ ॥

किलेके भीतर रहनेवाला एक योद्धा सी शत्रुओंके साथ लड़ सकता है और एकसौ योद्धा दश हजार शत्रुओंके साथ युद्ध कर सके हैं इसलिये राजाको अवश्य किला बनवाना चाहिये ॥ ७४ ॥

तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः ।

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥

अन्न, शस्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण, शिल्पी, यन्त्र, तृण और जल इन सब वस्तुओंसे किलेको पूर्ण रखना चाहिये ॥ ७५ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्बृहमात्मनः ।

शुभं सर्वैर्तुं कं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७६ ॥

इस किलेके बीचमें राजा अपने रहनेके लिये एक महल तयार करावे, जिसमें रनवास, शस्त्रागार, अद्व्यालय और देवालय आदि अलग २ बने हों और जो खाई आदिसे भली भाँति रक्षित हो और सब ऋतुओंके फल पुष्पोसे बोभायमान, अत्यंत शुभ्र तथा जल और वृक्षोंसे चारों ओर घिरा हो ॥ ७६ ॥

तद्दध्यास्योद्बहेद्भार्यां सवर्णां लक्ष्णान्विताम् ।

कुले महति संभृतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥

उस गृहमें बसकर राजा, स्वजातीय शुभलक्षणोंवाली, ऊँचे कुलमें उत्पन्न हुई, रूपगुणयुक्त ऐसी कन्यासे विवाह करे ॥ ७७ ॥

पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजः ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च ॥ ७८ ॥

राजाको चाहिये कि वह पुरोहित नियत करे और ऋत्विजका वरण करे और वे इसके शातिकर्म और वेदोक्त कर्मोंको करे ॥ ७८ ॥

यजेत राजा ऋतुमिर्विधिैराप्तदक्षिणैः ।

धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो दद्याद्भोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥

राजाको अनेक दक्षिणायुक्त अश्वमेघ आदि यज्ञ करने चाहियें और फिर ब्राह्मणोंको धर्मार्थ शय्या आदि भोग्य वस्तु और धन देना उचित है ॥ ७९ ॥

सांवत्सरिकमासैश्च राष्ट्रादाहारयेद्वलिम् ।

स्याच्चाभ्यायपरो लोके वर्तेत पितृवद्भुषु ॥ ८० ॥

वर्षके अतमे) राजा विश्वासपात्र कर्मचारियोंके द्वारा प्रजासे (सालाना) कर संग्रह करे और उसे लोकमें वेदके अनुसार बर्तै अर्थात् कर आदि ले और लोगोंके साथ पिताके समान वर्ताव करे ॥ ८० ॥

अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः ।

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरञ्जुणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ८१ ॥

राजाको अनेक बुद्धिमान्, लोगोंको अध्यक्ष नियुक्त करना उचित है और वे इस (राज्य) के कार्य करनेवाले मनुष्योंके सब काम देखते रहें ॥ ८१ ॥

आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत् ।

नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मोऽभिधीयते ॥ ८२ ॥

गुरुकुलमें रहकर और विद्या पढ़कर जो ब्राह्मण गृहस्थाश्रममें आए हैं राजाको उनका सत्कार करना चाहिये । क्योंकि ऐसे पात्रोंको धनधान्यादिका दान देना शास्त्रमें अक्षय निधि कहा गया है ॥ ८२ ॥

न तं स्तेना न चासिन्ना हरन्ति न च नश्यति ।

तस्माद्ब्राह्म निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥ ८३ ॥

ब्राह्मणोंको वी हुई अक्षय निधिको शत्रु अथवा चोर नहीं हर सके और न बह नष्ट होती है इसलिये राजाको ब्राह्मणोंमें इस अनंत फलदायक अक्षय निधिको स्थापित करना चाहिये अर्थात् ब्राह्मणोंको धन धान्यादि देना चाहिये ॥ ८३ ॥

न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित् ।

वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ८४ ॥

अग्निमें घृतकी आहुति देनेकी अपेक्षा ब्राह्मणोंके मुखमें होमा हुआ अर्थात् उनके हाथमें देनेका फल अधिक होता है क्योंकि न बह कभी क्षरता है न सूखता है और न नष्ट होता है ॥ ८४ ॥

सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणत्वे ।

प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारणे ॥ ८५ ॥

ब्राह्मणतरको देनेसे सम फल, जो अपनेको ब्राह्मण कहै उसको देनेसे द्विगुण फल, जो पढ़ता हो उसे देनेसे लक्षगुण और वेदपारण ब्राह्मणको दान देनेसे अनन्त फल होता है ॥ ८५ ॥

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धानतयेष च ।

अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्नुते ॥ ८६ ॥

पात्रकी विशेषतासे अर्थात् सुपात्रको पाकर श्रद्धापूर्वक दान देनेसे थोड़ा बहुत दानका फल मनुष्य परलोकमें पाता है ॥ ८६ ॥

समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः ।

न निवर्तेत संग्रामात्क्षेत्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ ८७ ॥

प्रजापालक राजाको चाहिये कि समान बल, हीनबल और अधिक बलवाले शत्रु राजा जब युद्धके लिये बुलावे तब “युद्धही क्षत्रियोंका धर्म है” यह स्मरण करके युद्धसे कदापि न लौटे ॥ ८७ ॥

संग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम् ।

शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८ ॥

ब्राह्मणोंकी सेवा, प्रजाका पालन और युद्धसे न हटना, ये बातें राजाओंके लिये परम कल्याण करनेवाली हैं ॥ ८८ ॥

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराद्बुद्धाः ॥ ८९ ॥

युद्धमें एक दूसरेका वध चाहनेवाले, यथाशक्ति युद्ध करने और पीछे न हटनेवाले राजा स्वर्ग लोक पाते हैं ॥ ८९ ॥

न कूटैरायुधैर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून् ।

न कर्णभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वलिततेजसैः ॥ ९० ॥

युद्ध करता हुआ राजा कूट आयुध (जिनमें बाहर काठ और भीतर पत्ते कात्र भरे हों) विषमें बुझे वाण, कर्णोंके आकारके फलक युक्त वाण, भयवा जिनका फलक अमिते तपाया हो ऐसे वाणोंसे शत्रुके ऊपर प्रहार न करे ॥ ९० ॥

न च हन्यात्स्थलारूढं न ह्यीयं न रुताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेशं नासीनं न तवासीति वादिनम् ॥ ९१ ॥

(आप रथपर बैठा हो तो) स्थलपर रखे हुए, नपुंसक, हाथ जोड़नेवाले, सुले केशवाले, आसनपर बैठेहुए और “मैं तुम्हारा हूँ” यों कहनेवाले शत्रुको नहीं मारना चाहिये ॥ ९१ ॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नम्रं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥

जो सोया हुआ, बज्रतररहित, नम्र, शस्त्ररहित, युद्धसे विमुख, केवल देखनेके लिये आया हुआ और दूसरेसे युद्धमें जुटा हुआ हो ऐसे शत्रुको राजा न मारे ॥ ९२ ॥

नायुधव्यसनप्राप्तं नार्तं नातिपरिक्षतम् ।

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥

सज्जन क्षत्रियोंके धनका स्मरण करता हुआ राजा, दृष्टे आयुधवाले, डुबी,

घावोंसे विकल शरीरवाले, भयभीत तथा लड़ाईसे भागे हुए शत्रुको न मारै ॥ ९३ ॥

यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः ।

भर्तुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९४ ॥

डर कर भागा हुआ जो युद्धमें शत्रुओंसे मारा जाता है तो स्वामीका सब पाप उसपर पड़ता है ॥ ९४ ॥

यच्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपाजितम् ।

भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ९५ ॥

युद्धसे भगकर जो पुरुष मारा जाता है उसका परलोकके लिये जोड़ा हुआ जो कुछ पुण्य है, उस सबको स्वामी ग्रहण करता है ॥ ९५ ॥

रथाभ्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशुन्धियः ।

सर्वैर्द्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ९६ ॥

रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पशु, धी, (चाँदी सौना छोड़कर) ताँबा आदि धातु तथा गुद, नौन, घृत आदि सब वस्तुओंमेंसे जो जिसे जीतकर लावै वह उसीकी होती है ॥ ९६ ॥

राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येपा वैदिकी श्रुतिः ।

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ ९७ ॥

योद्धा (जीते हुए धनमेंसे) राजाको उद्धार दें अर्थात् जीतेहुए धन, रत्न, हाथी, घोडा आदि राजाके अर्पण करदें और राजा भी सब योधाओंको साथमें जीते हुए धनको वाट दे, यही वैदकी श्रुति है ॥ ९७ ॥

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः ।

अस्माद्धर्माज्ञ च्यवेत् क्षत्रियो ध्नत्रणे रिपून् ॥ ९८ ॥

योधाओंका यह अनिन्दित सनातनका धर्म मैंने तुमसे कहा, युद्धमें शत्रुओंको मारनेवाला क्षत्रिय इस धर्मसे विचलित न हो ॥ ९८ ॥

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रप्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ ९९ ॥

जो (भूमि, रत्न आदि) नहीं पाया है उसके पानेकी इच्छा करै और जो वन मिल गया है उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करै और रक्षित धनको बढ़ावै और बढ़ाए हुए धनको सुपात्रोंमें दान दे ॥ ९९ ॥

एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम् ।

अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥

राजाको मनुष्यके लिये इन चार प्रकारके पुरुषार्थ साधनोंको जानना चाहिये और सदा सावधान होकर इनका अच्छीतरह अनुष्ठान करता रहै ॥ १०० ॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेद्वेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद्दृष्ट्या वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १०१ ॥

अप्राप्त (धन) की इच्छा दंडके द्वारा करै प्राप्त (धन) की देख भाळकर रक्षा करै, रक्षितको व्यापार आदिसे बढ़ावै और बड़ेहुए धनको उपायोंमें दान करै ॥ १०१ ॥

नित्यमुद्यतदण्डः स्थाश्रित्यं विवृतपौरुषः ।

नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छिद्रानुसार्थरेः ॥ १०२ ॥

राजा सदा सेनाको शिक्षा दे, सर्वदा पुरुषार्थ दिरावै, सब कार्योंको गुप्त रखवै और सदा शत्रुओंके छिद्रोंको खोजता रहै ॥ १०२ ॥

नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत् ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३ ॥

जो उद्यत दंड है अर्थात् जिसकी सेना उत्तम रीतिसे शिक्षित है उससे सब जगत् कापता रहता है इसलिये राजा दंडसे सब प्राणियोंको बशमें करै ॥ १०३ ॥

अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया ।

बुद्धेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४ ॥

राजाको चाहिये कि सदा (मंत्री आदिमें) निष्कपट व्यवहार करै कपटकी कमी न करै और यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करता हुआ (दूतके द्वारा) शत्रुकी मायाको सदा जानता रहै ॥ १०४ ॥

नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु ।

गृहेत्कूर्मं इवाङ्गानि रक्षेद्विधरमात्मनः ॥ १०५ ॥

राजा ऐसा करै कि अपना शत्रु अपने छिद्रको न जानने पावै किंतु शत्रुके छिद्रको आप जानै और जैसे कछुआ अपने अगोंको छुपा लेता है वैसेही राजाभी अपने मंत्री आदि सब अगोंको दान मानादिसे अपने बशमें करै और देवबश कोई अपनेसे फूट जाय तो उसका उपाय करै ॥ १०५ ॥

वक्वचिन्तयेदर्थान्सिंहवच्च प्रराक्रमेत् ।

वृक्वचञ्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥

राजा वगुले की भांति धनकी चिंता करै, सिंहकी भांति पराक्रम दिखावै, भेड़ियेकी भांति शत्रुका नाश करै और शशककी भांति भाग जाय ॥ १०६ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ।

तानानयेद्दशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥ १०७ ॥

इस प्रकार विजय करते समय जो अपने विरोधी हों उन सबको साम आदि उपायोंसे अपने बशमें कर ले ॥ १०७ ॥

यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः ।

दण्डेनैव प्रसह्यैतां दृष्ट्वा न कैर्वशमानयेत् ॥ १०८ ॥

यदि प्रथम कहे तीन प्रकारके उपायोंसे वे वशमें न हों तो राजा बलसे
ठंड देकरही उन्हें धीरे २ अपने वशमें कर ले ॥ १०८ ॥

सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः ।

१. सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्रामिबृद्धये ॥ १०९ ॥

पण्डित लोग, साम, दान, दंड, भेद इन चारों उपायोंमेंसे देशकी वृद्धिके
लिये सदा साम तथा दंडकी प्रशंसा करते हैं ॥ १०९ ॥

यथोद्धरति निर्दाता कर्षं धान्यं च रक्षति ।

तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥

जैसे किसान धान्यकी रक्षा करता है और वृणोंको उखाडकर फेंक देता है
वैसेही राजाको शत्रुओंका नाश करके देशकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ११० ॥

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद्भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥ १११ ॥

जो राजा मोहसे भले बुरेको नहीं पहिचानकर अपनी प्रजाको कष्ट देता
है वह शीघ्रही राज्यसे भ्रष्ट होकर कुलसहित नष्ट होजाता है ॥ १११ ॥

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ११२ ॥

जैसे (भोजन न मिलनेसे) शरीर सूखकर प्राणियोंके प्राण नष्ट होजाते हैं
वैसेही देशको पीड़ा देनेसे राजाओंके प्राण नष्ट हो जाते हैं ॥ ११२ ॥

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ।

सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥

देशकी (उत्तम रीतिसे) रक्षा करनेके लिये राजा (इन आगे कहे)
नियमोंको नित्य करे क्योंकि देशके सुरक्षित होनेसेही राजा सुखी होता है ११३

द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये शुल्ममधिष्ठितम् ।

तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११४ ॥

दो गावोंके वा तीन गावोंके वा पांच गावोंके वा सौ गावोंके बीचमें
रक्षापुरुष (चौकीदार) और उनके ऊपर दारोगा जिसमें हों ऐसा थाना
नियत करै ॥ ११४ ॥

ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा ।

विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५ ॥

राजा प्रत्येक गांवमें एक २ अधिपति फिर क्रमसे दश गावोंका अधिपति,
फिर बीस गावोंका अधिपति फिर सौ गावोंका और हजार गावोंका अधिपति
नियुक्त करै ॥ ११५ ॥

ग्रामदोषान्समुत्पन्नान्ग्रामिकः जनकः स्वयम् ।

शंसेद्ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनः ॥ ११६ ॥

ग्राममें बोरी आदि दोष होनेपर गावरा स्वामी आप भीरगे दशग्रामके अधिपतिसे और दशग्रामोंका अधिपति बीसग्रामोंके अधिपतिसे जाकर भिजे-
दन करे ॥ ११६ ॥

विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् ।

शंसेद्ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७ ॥

दूरी प्रकार बीस ग्रामका अधिपति गां गावोंके अधिपतिसे और तां गांवोंका अधिपति हजार गावोंके अधिपतिसे यह सब करे ॥ ११७ ॥

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः ।

अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्तुयान् ॥ ११८ ॥

गांवके लोग जो अन्न, जल और लक्ष्मी प्रतिदिन राजाको देने यह सब ग्रामका अधिपति आप (अपने सबके लिये) लेगा ॥ ११८ ॥

दशो कुलं तु युञ्जीत विंशो पञ्च कुलानि च ।

ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥ ११९ ॥

दशग्रामोंका स्वामी (अपने निर्वाह के लिये) एक "कुलको, बीस गांवका स्वामी पाच कुलको, सौ ग्रामोंका स्वामी एक ग्रामको और हजार गावोंका स्वामी एक नगरको भोगेगा ॥ ११९ ॥

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।

राज्ञोऽन्यः सच्चिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १२० ॥

उन गावोंके रहनेवालोंके ग्रामउपनधी तथा अन्य जो अलग २ कार्य हैं उनको राजाका हितकारी मंत्री आलस्य छोड़कर देखे ॥ १२० ॥

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।

उच्चैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणासिव ग्रहम् ॥ १२१ ॥

राजा नगर २ में एक २ ऐसे उच्च पदवाले कार्य-द्रष्टाको नियुक्त करे जो सब कार्योंकी चिन्ता करे और वह (हाथी घोड़े आदि ठाठ वाटसे) ऐसा ते-
जस्वी लगे जैसे नक्षत्रोंमें शुक्र आदि ग्रह लगते हैं ॥ १२१ ॥

स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् ।

तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्ग्राह्येषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥

वह नगरका अधिकारी उन गावोंके सब स्वामियोंकी सदा स्वयं देख भाग करे और उन गावोंके दूतोंद्वारा देश २ में उन गावके स्वामियोंका आचरण अच्छी भाति जाने ॥ १२२ ॥

*छ वैलोंका हल पैसे दो हलसे जितनी भूमि जोती जाय उसे कुल कहते हैं ॥ आठ वैलोंका धर्म का हल, जीविका वालोंका छ. वैलोंका, गृहस्थोंका चार वैलोंका और ब्रह्महत्यावालोंका दो वैलोंका एक हल होता है.

राक्षो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः ।

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२३ ॥

रक्षाके लिये नियत किये गए राजाके सेवक बहुधा पराये धनके ग्राहक और लूट होते हैं इसलिये उनसे इस प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १२३ ॥

ये कार्याकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १२४ ॥

जो पापबुद्धि सेवक काम (मुकद्दमें) वालेसे (भय दिखाकर वा धमका कर) धन (रिश्वत) लें राजा उनका सर्वस्व हरकर उन्हें देशसे निकालदे १२४

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेप्यजनस्य च ।

प्रत्यहं कल्पयेदृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५ ॥

राजकार्यमें नियुक्त जो दास दासी जन हैं उनकी आजीविका उनके पद और कर्मके अनुसार राजाको सदा निश्चित कर देनी चाहिये ॥ १२५ ॥

पणे देयोऽवकृष्टस्य पटुत्कृष्टस्य वेतनम् ।

पापमासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६ ॥

नीच दास वा दासीको नित्य एक पण वेतन, छटे महीने एक जोषा वस्त्र और महीनेमें एक द्रोण अन्न और उत्तम शूत्यको इससे छ गुना देना चाहिये १२६

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम् ।

योगक्षेमं च संग्रह्य वणिजो दापयेत्करान् ॥ १२७ ॥

खरीदने और बेचनेका मूल्य, मार्ग, भोजन और रक्षाका खर्च और नफा इसका हिसाब करके व्यापारीसे (बल्लादि और भोजनकी वस्तुओंपर) कर लेना चाहिये ॥ १२७ ॥

तथा फलेन गुज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् ।

तथाचेक्ष्य नृपो राष्ट्रं कल्पयेत्सततं करान् ॥ १२८ ॥

जिसमें राजा और कृषी आदि कर्मके करनेवाले अपने २ कर्मोंका फल पूरा सकें ऐसा विचार कर राजाको देशोंमें कर लगाने चाहिये ॥ १२८ ॥

यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सपद्वदाः ।

तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्रद्राक्षादिकः करः ॥ १२९ ॥

जैसे जोक, रुधिर बछड़ा दूध और भौरा शहद थोड़ेसे थोड़ा पीते हैं वैसेही राजाको देशमेंसे थोड़ा २ सालाना कर लेना चाहिये ॥ १२९ ॥

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः पशुो द्वादश एव वा ॥ १३० ॥

राजाको सौना और पशुके लभमेंसे पचासवा हिस्सा और धान आदिका छटा, आठवा और चारहवा हिस्सा कर लेना चाहिये ॥ १३० ॥

आददीताथ शङ्गागं हुमांसमधुसर्पिषाम् ।

गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥

बृक्ष, मास, शहद, घी, गंध, औषधि, रस और पुष्प, मूल, फल इनके लाममेंसे छटा भाग कर लेना चाहिये ॥ १३१ ॥

पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च ।

मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥ १३२ ॥

शाक, पत्र, तृण, चर्म, बासके पात्र, सिद्धीके पात्र और पाषाणके पात्रों-परमी राजा छटा भाग कर ग्रहण करे ॥ १३२ ॥

त्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् ।

न च क्षुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ १३३ ॥

राजा मरणतुल्य होनेपरमी वेदपाठी ब्राह्मणसे कर न ले और राजाके देशमें बसनेवाला वेदपाठी क्षुधासे पीड़ित न होने पावे ॥ १३३ ॥

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा ।

तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥ १३४ ॥

जिस राजाके देशमें वेदपाठी क्षुधासे दुखी होता है उस राजाका देशमें दुर्भिक्षसे पीड़ित हो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १३४ ॥

श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ।

संरक्षेत्सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिवौरसम् ॥ १३५ ॥

इसलिये राजाको चाहिये कि वेदपाठीका शास्त्रज्ञान और आचरण जानकर धर्मकी जीविका नियत कर दे और जैसे पिता अपने खास पुत्रकी रक्षा करता है वैसेही इस वेदपाठीकी सब भाति रक्षा करे ॥ १३५ ॥

संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम् ।

तेनायुर्वधते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

राजासे रक्षित होकर (वेदपाठी) जो नित्य धर्मानुष्ठान करता है उससे राजाके राज्य, धन और आयुष्यकी वृद्धि होती है ॥ १३६ ॥

यत्किञ्चिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम् ।

व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रं पृथग्जनम् ॥ १३७ ॥

राज्यमें सामान्य वस्तुओंके क्रय विक्रयकी जीविका करनेवाले नीच मनुष्योंसे भी राजाको शोकासा कर प्रतिवर्ष लेना चाहिये ॥ १३७ ॥

कारुकाञ्छित्पिनश्चैव शृङ्गांश्चात्मोपजीविनः ।

एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिः ॥ १३८ ॥

कारीगर, झिलपी, लोहार आदिशूद्र और देहके कोषसे जीनेवाले अर्थात् शोका धोनेवाले इनसे राजा महीनेमें एक २ दिन काम करावे ॥ १३८ ॥

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया ।

उच्छिन्वन्त्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ १३९ ॥

राजा कर न लेनेसे अपनी मूल और अतितृष्णासे बहुत कर लेनेसे प्रजाकी मूलभङ्ग न करे क्योंकि अपनी जबके नाशसे अपनेको और प्रजाकी जब उखाड़नेसे प्रजाको पीडा होती है ॥ १३९ ॥

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥

कार्यको देखकर राजाको कोमल और कठोर होना चाहिये, क्योंकि कर्मके अनुसार कोमल और कठोर राजा सबको प्रिय लगता है ॥ १४० ॥

अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम् ।

स्थापयेदासने तस्मिन्निवृत्तः कार्येक्षणे नृणाम् ॥ १४१ ॥

प्रजाके कार्योंकी देख भाल करनेमें अशक्त होनेपर राजाको चाहिये कि धर्मज्ञ, पण्डित, कुलीन और जितेन्द्री ऐसे मुख्य मंत्रियोंको राजसिंहासनपर बैठावे ॥ १४१ ॥

एवं सर्वं विधायेदभितिकर्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रान्द्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।

संपद्यतः सभृत्यस्य मृतः स ननु जीवति ॥ १४३ ॥

इस प्रकार राजा अपने करने योग्य कार्योंको करता हुआ, उद्योगी और सावधान होकर इस प्रजाकी रक्षा करे ॥ १४२ ॥ मंत्रीसहित राजाके देखते २ रोतीहुई प्रजा जिस देशसे चारोंके द्वारा छुटी जाती है वह राजा मरा हुआ है जीता नहीं है ॥ १४३ ॥

क्षत्रियस्य परे धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥

प्रजापालन ही क्षत्रीका श्रेष्ठ धर्म है इसलिये शास्त्रोक्तफलका भोक्ता राजा धर्मके फलका भोक्ता होता है ॥ १४४ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ।

हुताग्निर्वाह्यणांश्चार्य्यं प्रविशेत्स शुभां समाम् ॥ १४५ ॥

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विस्तुज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिसिः ॥ १४६ ॥

राजा रातके पिछले प्रहरमें उठकर शौचादिके अनंतर सावधान होकर और प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणोंका सत्कार करके श्रेष्ठ समामें जाय १४५ समामें स्थित हो राजा सब प्रजाको सतुष्ट करके विदा करे और सब प्रजाको विदा करके मंत्रियोंके साथ सलाह करे ॥ १४६ ॥

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ।

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभाविताः ॥ १४७ ॥

पर्वतके ऊपर (शून्य) महलके ऊपर, निर्जन स्थानमें अथवा जंगलमें औरोंसे छुपकर सलाह करै ॥ १४७ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्वां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ १४८ ॥

क्योंकि जिस राजाके मंत्रको अन्यलोग एकत्र होकर नहीं जानते वह निर्धन राजा भी सब पृथ्वीको भोगता है ॥ १४८ ॥

जडमूकान्धवधिरांस्तैर्यग्योनान्वयोतिगान् ।

स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥

मूर्ख, गूंगे, अंधे, बहिरें, बहुत बूढ़े, (शुकसारिका आदि) पक्षी, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी और विकलांग इनको राजा सलाहके समय हटा दे ॥ १४९ ॥

मिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तैर्यग्योनास्तथैव च ।

स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्राहृतो भवेत् ॥ १५० ॥

वे (जब आदि) अपमानित होनेसे तथा (शुक सारिका) पक्षी और विशेष कर स्त्रिया (अस्थिर बुद्धि होनेसे) मंत्रका भेद कर देते हैं अर्थात् दूसरोंके सामने कहते फिरते हैं इसलिये राजा उन्हें यज्ञपूर्वक हटादे ॥ १५० ॥

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः ।

चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्साधं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥

राजा विश्राम करके और खेदरहित होकर अकेला वा मंत्रियोंसहित मध्याह्नके वा अर्धरात्रिके समय धर्म, अर्थ, काम इनकी चिन्ता करै ॥ १५१ ॥

परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् ।

कन्यानां संप्रदानं च कुमारानां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥

परस्परविरुद्ध धर्म, अर्थ, कामके संचयकी, कन्यादान और कुमारोंके रक्षाकी चिन्ता करै ॥ १५२ ॥

दूतसंप्रेषणं चैव कार्यदोषं तथैव च ।

अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥

दूतोंके राज्यमें दूत भेजनेकी, (जो कार्य आरम्भ किया है उस) कामके समाप्तिकी, अंत पुरकी, स्त्रियोंके* व्यवहारकी और (विपक्षी राजाओंमें नियुक्त) दूतोंकी चेष्टाकी चिन्ता करै ॥ १५३ ॥

* नोदीमें छुपाये हुए शकसे रानीने विदूरथको मारखाया था । और विषयुक्त-नूपुरसे विरक्त रानीने काशीराजको मार दिया था यथा " शक्येण वेणी विनिगृहीतेन विदूरथ वै महिषी जघान । विषप्रदिग्धेन च नूपुरेण देवी विरक्ता किल काशिराजम् " ॥

कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गं च तत्त्वतः ।

अनुरागापरगौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४ ॥

संपूर्ण अष्टविधकर्म, पंचवर्ग, अनुराग, विराग और मंडलका प्रचार इनकी शिक्षा राजाको यथार्थरूपसे करनी चाहिये ॥ १५४ ॥

१ अष्टविध कर्म ये हैं (१) आदान (करोंका लेना), (२) विसर्ग (सेवक आदिको धन देना), (३) प्रेष, (मंत्री आदिको भेजना), (४) निषेध (विरुद्ध कार्योंको न करना), (५) अर्थका कथन (सदिग्ध कार्यकी व्यवस्था), (६) व्यवहारका देखना (प्रजाके श्रुणु आदि विवादमें निर्णय करना), (७) दंड देना, (८) शुद्धि (पापीका प्रायश्चित्त) ॥

मेधातिथिने अष्टविध कर्म ये कहे हैं । (१) नहीं किये कार्यका आरम्भ, (२) आरम्भ किये कार्यकी समाप्ति, (३) किये हुए कर्मके भेद, (४) कर्मके फलोंका समग्र, (५) साम, (६) दाम, (७) दंड, (८) भेद, अथवा (१) व्यापारका मार्ग, (२) जलमें सेतु बांधना, (३) दुर्ग बनाना, (४) किये हुए कार्यके सस्कारोंका निर्णय, (५) हाथीका बंधन, (६) खानका खोदना, (७) शून्यस्थानमें प्रवेश, (८) काष्ठके बनोंका छेदन ॥

२ पाच प्रकारके दूतोंका निर्णय करना.

(१) कापटिक—जो दूसरेके मर्मको जाने, जिसके शिष्य प्रगल्भ हों, जो कपटसे व्यवहार करे और जीविकाका अभिलाषी हो । इस दूतको धन और मान देकर धंकावमें यह कहे कि तुम जिसका बुरा आचरण देखो मुझसे तत्काळ कही-

(२) उदासित—अर्थात् पतित संन्यासी, जिसका जगतमें दोष विदित है उसे शुद्धि और पवित्रतासे युक्त करके, उसे अपना आजीविका का अर्थ बनाकर उसकोभी राजा एकात्ममें कापटिकके समान उपदेश करे, जिसमें बहुतसी पैदा हो ऐसे मठमें स्थापित करे और उसकी आजीविकाके लिये जिसमें बहुतसा धनधान्य हो ऐसी एक दूसरी भूमि उसके लिये नियत कर दे । वह अष्ट संन्यासी राजाका कार्य करनेवाले दूसरे संन्यासियोंको भोजन और वस्त्र दे ॥

(३) कृपक (किसान) जिसकी कुछ आजीविका न हो और जो नामका गृहस्त्री हो जो शुद्धिमान और निष्कपट हो उसमें पहिलेकी भाति, उपदेश करके अपनी भूमिमें उससे खेती करावै ॥

(४) बाणिजक—जिसकी आजीविका न हो, जो बहानेका व्यापारी हो उसकोभी पहिलेकी भाति उपदेश करके और धन और मानसे उसे अपने आधीन करके उससे बनियेका कर्म करावै ॥

(५) तापस व्यंजक—जो जीविकासे रहित मुष्टित हो या जटाधारी हो उसके लिये शुभ जीविका कर दे और वह किसी आश्रममें रहकर बहुतसे मुष्टित और जटाधारी दूसरे कपट शिष्यगणोंसहित तप करे । महीने वा दो महीने

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् ।

उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥

मध्यमका प्रचार, विजिगीषुकी चेष्टा, उदासीन और शत्रु दोनोंका प्रचार इनकी विन्ता वड़े यत्नसे करै ॥ १५५ ॥

एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः ।

अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥ १५६ ॥

राजमंडलकी ये चार मूल प्रकृतिया सक्षेपसे कहीं हैं और *आठ और भी प्रकृतिया कहीं हैं इसलिये सब बारह प्रकृतियां हैं ॥ १५६ ॥

अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः ।

प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७ ॥

अमात्य, देश, दुर्ग, कोश और दंडके भेदसे ये बारह प्रकृतिया प्रत्येक पांच २ प्रकारकी होती हैं इसलिये ये सब सक्षेपसे कही गई हैं ॥ १५७ ॥

अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च ।

अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥ १५८ ॥

अपने राज्यके समीपके राजाको और शत्रुसेवी राजाको शत्रु, शत्रुके अन्तर्वर्तीको मित्र और इनसे अन्य राजाओंको उदासीन जाने ॥ १५८ ॥

तान्सर्वानभिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमैः ।

व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥

इन सब शत्रु आदि राजाओंको साम आदिमेंके एक २ उपायसे अथवा सब उपायोंसे वा केवल दंडसे वा सामसे वशमें करै ॥ १५९ ॥

तक सबके आगे मुठ्ठीभर वेर आदिका भक्षण करै और एकान्तमें राजाके लिये भोजनको करै और इसके शिष्य इसकी सिद्धार्थको कहते फिरै कि हमारे शुभ भूत-भविष्यतको जानवे हैं इसलिये बहुतसे मनुष्य विश्वासके योग्य कार्य और अकार्यको पूछेंगे और दूसरेके कुकर्म आदिको कहेंगे । इस प्रकार पंचवर्गको नियत करके राजा विपक्षी राजाके और अपने मत्रियोंकी प्रीति और अप्रीतिको जाने और फिर मंडलके प्रचारका विचार करै कि कौनसा राजा सन्धि चाहता है कौनसा विग्रह चाहता है ॥

१. जो शत्रुके जीतनेकी इच्छा करनेवाले की भूमिके पास रहता हो और दोके मेलमें अनुग्रहकी और पृथक् होनेपर दह देनेकी सामर्थ्य रखता हो उसे मध्यम कहते हैं । (२) बुद्धि, उत्साह, गुण और स्वभाव इनमें जो समर्थ हो उसे विजिगीषु कहते हैं । (३) जो मध्यम और विजिगीषुके मेलमें अनुग्रह और अनमेलमें दहको दे सकै उसे उदासीन कहते हैं ॥

* मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र, अरिमित्रमित्र, पार्ष्णिग्राह, आक्रद, पार्ष्णिग्राहासार और आक्रदासार ॥

संधिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च ।

द्वैधीभावं संश्रयं च पशुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥

सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव, और संश्रय इन छः गुणोंकी राजा सदा चिन्ता करे ॥ १६० ॥

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥

अपनी बुद्धि और शत्रुकी हानिरूप कार्यको देखकर आसन, यान, सन्धि, विग्रह, द्वैध और संश्रय इनका प्रयोग करे ॥ १६१ ॥

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥

संधि, विग्रह, यान, आसन और संश्रय इनको राजा दो २ प्रकारके जाने ॥ १६२ ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तदात्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥

संधि दो प्रकारकी जाननी चाहिये । वर्तमान वा भावी लाभकी आशासे, किसीके साथ मिलकर जो शत्रुके ऊपर चढ़ाई करना है उसे समान यानकर्मा और आपसकी संमतिसे अलग २ चढ़ाई करना इसे असमानयानकर्मा संधि कहते हैं ॥ १६३ ॥

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४ ॥

विग्रह भी दो प्रकारका है—राजा जिसको समयपर अर्थात् मार्गशिर आदि-कालसे अपने कार्यके लिये स्वयं करे यह पहिला है और राजा जो कुसमयमें अर्थात् मार्गशिर आदि कालके बिना अपने मित्रके किसी शत्रु राजाके अप-कार करनेपर होता है वह दूसरा है ॥ १६४ ॥

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ १६५ ॥

१. आपसमें मिलाईके लिये हथी घोड़े धन आदिके प्रबन्धसे जो आपसमें मेल हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं ।

२. आपसमें युद्धका होना.

३. शत्रुपर चढ़ाई करना.

४. शत्रुको घेर कर पड़े रहना.

५. फोड़ तोड़ करना.

६. बलवान्का आश्रय लेना.

यान भी दो प्रकारका है (१) अकस्मात् अर्थात् आवश्यक काम आपकने-पर अकेले चढाई करना और (२) स्वयं असमर्थ होनेसे मित्रके साथ मिलकर चढना ॥ १६५ ॥

क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वैकृतेन वा ।

मित्रस्य चात्रुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ १६६ ॥

आसन भी दो प्रकारका है—एक तो अकस्मात् वा पूर्वजन्मके सञ्चित पापसे जिसका हाथी, घोडा, कोश आदि क्रमसे क्षीण होगया उसका पशे रहना और दूसरा मित्रके अप्रादृसे शत्रुको घेरे पशे रहना ॥ १६६ ॥

वलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।

द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं पाहुण्यगुणवेदिभिः ॥ १६७ ॥

पूर्वोक छ गुणोंके गुणोंको जाननेवालोंने द्वैधभी दो प्रकारका कहा है—कार्य-सिद्धिके लिये सेनाके दो भाग करके एक दलका प्रधान तो सेनापतिको करना और दूसरे दलका राजाको स्वयं नायक बनकर निवास करना ॥ १६७ ॥

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८ ॥

संश्रय भी दो प्रकारका है—शत्रुओंसे पीडित होकर उसके प्रवीकारके लिये किसी बली राजाका आश्रय लेना अथवा होनहार परामवकी शंकासे ही दूसरे राजाका आश्रय लेना ॥ १६८ ॥

यदावगच्छेदायत्यामाधिष्यं ध्रुवमात्मनः ।

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत् ॥ १६९ ॥

जब राजा निश्चय समझले कि थोड़े दिनोंके अनन्तरही अपनी सेना धरैगी तब शीघ्रही थोड़ी हानि सहकर मी सन्धि करले ॥ १६९ ॥

यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम् ।

अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १७० ॥

जब राजा अपने प्रकृतिवर्गको अत्यंत संतुष्ट जाने और अपनेको मी (हाथी, अश्व, कोश आदिसे) अधिक संपन्न जाने तब युद्ध करना चाहिये ॥ १७० ॥

यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।

परस्य विपरीतं च तदा यायाग्निपुं प्रति ॥ १७१ ॥

जब राजा ठीक २ अपनी सेनाको हृष्ट पुष्ट जानले और शत्रुकी दशा इसके विपरीत जाने तब शत्रुपर चढाई करे ॥ १७१ ॥

यदा तु स्यात्परिक्षीणो चाहनेन बलेन च ।

तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नरीन् ॥ १७२ ॥

जब राजा देखे कि अपने यदा घाहन और सेना बहुत कम है तब शत्रु-ओंको घेरे २ शांत करके चुपका बैठा रहै ॥ १७२ ॥

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥

जब राजा शत्रुको सब प्रकार अधिक बलवान् जाने तब (शत्रुको उलझा रखनेके लिये) सेनाके दो भाग करके एक दल वहा भेजे और दूसरा दल अपने पास रखे यों द्वेषसे अपना कार्य साधन करै ॥ १७३ ॥

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।

तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १७४ ॥

जब राजा (मंत्री आदि प्रकृतिके दोषसे) कहीं भी रह कर नहीं बचसक्ता तब उसे बहुत शीघ्र धार्मिक और बली राजाका आश्रय लेना चाहिये ॥ १७४ ॥

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिबलस्य च ।

उपसैवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १७५ ॥

जिन प्रकृतियोंके दोषसे आप नहीं बच सका उस प्रकृतिवर्गको और जिस राजाका डर हो उस शत्रुकी सेनाको जो दंड देनेमें समर्थ हो उस राजाकी सब प्रकारसे निग्रह इस प्रकार सेवा करै जैसे गुरुकी करते हैं ॥ १७५ ॥

यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम् ।

सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥

और यदि वहा उस आश्रयमें भी दोष देखै तो शंकाको त्याग अच्छी तरहसे युद्ध आरंभ करै ॥ १७६ ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्याञ्जीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथास्याभ्याधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥

नीतिज्ञ राजा सामभादि सब उपायोंसे ऐसा कार्य करै कि जिसमें इसके मित्र उदासीन वा शत्रु अधिक नहो ॥ १७७ ॥

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ १७८ ॥

सब कार्योंके गुण और दोषोंको तथा भूत भविष्यत् और वर्तमान अवस्थाके गुण और दोषोंको भली भांति विचार करै ॥ १७८ ॥

आयत्यां गुणदोषस्तद्रात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।

अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नामिभूयते ॥ १७९ ॥

जो राजा भविष्यके गुणदोषोंको समझता है, उपस्थित कार्योंको शीघ्र निश्चयकर पूर्ण करता है और बीतीहुई घटनाओंमें कार्य शेषको देखता है वह कदापि शत्रुओंसे पराजित नहीं होता ॥ १७९ ॥

यथैनं नामिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ।

तथा सर्वे संविद्ब्रह्मादेव सामासिको नयः ॥ १८० ॥

राजाको अपना कार्य ऐसी उत्तम रीतिसे करना चाहिये कि मित्र, उदासीन वा शत्रु कोईभी उसे पीड़ित न कर सकें । संक्षेपसे यही राजनीति कही गई है ॥ १८० ॥

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः ।

तदानेन विधानेन याथादरिपुरं शनैः ॥ १८१ ॥

जब राजा शत्रुके राज्यपर चढ़ाई करे तब उसे नीचे लिखी इस रीतिके अनुसार शत्रुके नगरकी ओर धीरे २ बढ़ना चाहिये ॥ १८१ ॥

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः ।

फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथाचलम् ॥ १८२ ॥

राजाको चाहिये कि शुभ अगहन, फाल्गुन वा चैत्रके महीनेमें दूसरे राजाके चलको देखकर चढ़ाई करे ॥ १८२ ॥

अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्भुवं जयम् ।

तदा यायाद्विग्रहैव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥

अन्य मासोंमें भी जब राजा समझे कि अपनी विजयकी पूरी आशा है अथवा शत्रु विपदग्रस्त है तब सेनासहित उसपर चढ़ाई करे ॥ १८३ ॥

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ।

उपगृह्यास्पदं चैव चारान्सम्यग्विधाय च ॥ १८४ ॥

संशोध्य त्रिविधं मार्गं पञ्चिधं च चलं स्वकम् ।

सांपराधिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८५ ॥

अपने मूलमें (अर्थात् देश और दुर्गमें) प्रधान पुरुषको नियत करके, यात्राके उपयोगी (अस्त्र शस्त्र वाहन आदि वस्तुओंकी) यथायोग्य व्यवस्था करके, पराये राज्यमें रहनेके योग्य तम्बू आदिका सग्रह और दूतोंको भली भाँति नियुक्त करके, (जंगल, घन और जलके) तीन प्रकारके मार्गोंको साफ करके तथा अपने हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, सेना और सेवक इनको प्रसन्न कर संभ्रामके योग्य विधिसे धीरे २ शत्रुके देशकी ओर बढ़े ॥ १८४ ॥ १८५ ॥

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् ।

गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥

जो मित्र छिपकर शत्रु राजाकी सेवा करे और जो मित्र विरक्त होकर चला जाय और फिर आजाय इनसे अत्यन्त सावधान रहै क्योंकि ये बड़े कष्टदायक शत्रु हैं ॥ १८६ ॥

दण्डज्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।

घराहमकराभ्यां वा सूच्या वा शकटेन वा ॥ १८७ ॥

कदाईके समय राजा दंडव्यूह, शकटव्यूह, वराहव्यूह, मर्कटव्यूह, सूची-
व्यूह वा गरुडव्यूह रचकर चले ॥ १८७ ॥

यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद्बलम् ।

पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत् सदा स्वयम् ॥ १८८ ॥

जिधरसे राजाको विपदका अधिक सदेह हो उसही ओर अपनी सेनाको
वि और पद्मव्यूह बनाकर स्वयं गुप्त भावसे शत्रुके देशमें प्रवेश करे ॥ १८८ ॥

सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ।

यतश्च भयमाशङ्केत्पार्श्वीं तां कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥

सेनापतियोंको तथा सेनाध्यक्षोंको सब दिशाओंमें नियुक्त करे और जिधरसे
आक्रमणकी शंका हो उसहीको पूर्वदिशा माने ॥ १८९ ॥

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समंततः ।

स्थाने युद्धे च कुशलानभीरुनविकारिणः ॥ १९० ॥

जो स्थान और युद्धमें निपुण हो, जो डरपोक न हो तथा कदापि रणक्षेत्रसे
पीछे न हटती हो ऐसी संकेतके जाननेवाली उत्तम सेनाके कुछ अंगोंको राजा
चारों ओर स्थापित करे ॥ १९० ॥

संहतान्योद्ययेदल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून् ।

सूच्या वज्रेण चैवैतान्व्यूहेन व्यूहा योधयेत् ॥ १९१ ॥

जो थोड़ी सेना हो तो एकत्र करके लढवावे और बहुतसे योधा हों तो
इच्छानुसार फैलाकर सूचीव्यूह और वज्रव्यूहसे राजा युद्ध करावे ॥ १९१ ॥

१. सबसे आगेसे नाका अध्यक्ष, मध्यमें राजा, सबसे पीछे सेनापति और दोनों
पार्श्वोंमें हाथी और उनके पास घोड़े और उनके पास सर्वत्र समान और दीर्घ पैदल हो,
इसप्रकारकी सेनाकी रचानाको दंडव्यूह कहते हैं । २. जिसकी रचना झड़के समान
आगे से पतली और पीछेसे मोटी हो उसे शकटव्यूह कहते हैं । ३. जिसका अग्रभाग
पतला और मध्य तथा अंतका भाग मोटा हो उसे वराहव्यूह कहते हैं । ४.
जिसका अग्रभाग मोटा हो मध्यमी मोटा हो और पिछला भाग पतला हो उसे मर्कटव्यूह
कहते हैं । ५. चंद्रियोंके अग्र और पश्चाद्भाग कि कसी कोई आगे पीछे न हो और
शूरवीर पुरुष अग्रभागमें रहें उसे सूचीव्यूह कहते हैं । ६. जिसका अग्रभाग संक्षिप्त,
पिछला भाग मोटा और मध्यका भाग अत्यंत मोटा हो उसे गरुडव्यूह कहते हैं—

(७) जिस सेनाका विस्तार चारोंओरसमान हो और मध्यमें जिगीपु राजा
हो उस सेनाकी रचनाको पद्मव्यूह कहते हैं ।

(८) हाथी, घोड़े, रथ, पैदल रूप सेनाके दश अंगोंके पतिको पत्तिक कहते हैं
और दश पत्तिकोंके पतिको सेनापति कहते हैं ।

(९) दश सेना पत्तिकोंके पतिको बलाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष कहते हैं ।

स्यन्दनाश्वैः समे युद्धेदनुपे नौद्विपैस्तथा ।

वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ १९२ ॥

समभूमिमें सवार और रथी सेनासे, जलमें नौका और हाथियोंसे, वृक्ष गुण और लतासे पूर्ण स्थानमें धनुषबाणसे और घुसरी भूमिमें डाल तलवारसे युद्ध करै ॥ १९२ ॥

कुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालांश्चरसेनजान् ।

दीर्घाल्लघूश्चैव नरानग्रानीकेषु योजयेत् ॥ १९३ ॥

कुक्षेत्र, विराट, पाचाल, और मथुराके और लघु तथा दीर्घ शरीरवाले अन्यान्य देशोंके योधाओंको सेनामें सबसे आगे स्थापित करै ॥ १९३ ॥

प्रहर्षयेद्वलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत् ।

चेष्टाश्चैव विजानीयाद्रीन्योध्यतामपि ॥ १९४ ॥

व्यूह रचकर सेनाका हर्ष बढ़ावै और फिर उसकी परीक्षा करै और शत्रुओंके साथ लड़ते हुए अपने योधाओंकी चेष्टाको पहिचाने ॥ १९४ ॥

उपरुष्यारिमासीत् राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् ।

दूषयेन्नास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ १९५ ॥

किलेमें हो वा बाहर हो युद्ध करते हुए शत्रुको घेर कर पका रहै और इससे देशको उजाह कर शत्रुके अन्न, जल, तुण और काष्ठ आदि वस्तुओंको सदा दूषित करै अर्थात् घुसरी वस्तुसे अन्न करदे ॥ १९५ ॥

मिन्ध्याञ्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।

समवस्कन्दयेच्चैनं राज्ञौ विज्ञासयेत्तथा ॥ १९६ ॥

तालाब, किलेकी खाई आदिको नष्टकरके मट्टी आदिसे भरकर जलरहित कर शत्रुको दबा ले और रातको (नरसिंहा आदि) बाजा बजाकर उसे भयभीत करै ॥ १९६ ॥

उपजप्यानुपजपेद्ध्येतैव च तत्कृतत् ।

युक्ते च दैवे युध्येत् जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १९७ ॥

राजाको चाहिये कि (राज्य चाहनेवाले और) तोड़ फोड़ करने योग्य ऐसे शत्रु वंशके मंत्री आदिकोंको अपने वशमें करले और उनकी सब चेष्टा जानकर शुभग्रह और शुभ मुहूर्तमें जयकी इच्छावाला राजा निर्भय वित्तसे युद्ध करै ॥ १९७ ॥

साज्ञा दानेन मेदेन समस्तैरथवा पृथक् ।

विजेतुं प्रयत्नेतारीक्ष युद्धेन कदाचन ॥ १९८ ॥

पहिले कदापि युद्धकी चेष्टा न करै, साम, दान भेद इन तीनों उपामोंमेंसे किसी एकका वा एक साथही तीनोंका प्रयोग करके राजा शत्रुको जीतनेका यत्न करै ॥ १९८ ॥

अनित्यो विजयो यस्माद्दृश्यते युध्यमानयोः ।

पराजयश्च संग्रामे तस्माद्युद्धं विवर्जयेत् ॥ १९९ ॥

युद्ध करते हुए दोनों पक्षोंमेंसे जीत और हारका निश्चय नहीं हो सका
इसलिये विग्रहको यत्नपूर्वक त्याग दे ॥ १९९ ॥

त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे ।

तथा युध्येत संपन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥

जब राजा देखे कि साम, दान और भेद इन तीनों उपायोंसेभी किसीप्रकार
जयकी संभावना नहीं है तब वह सब प्रकारसे तयार होकर ऐसा युद्ध करे कि
जिससे वह शत्रुको जीतले ॥ २०० ॥

जित्वा संपूजयेद्देवान्ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान् ।

प्रदद्यात्परिहारंश्च ख्यापयेद्भयानि च ॥ २०१ ॥

इस भांति विजय करके देवता और धार्मिक ब्राह्मणोंकी पूजा करे, उन्हें
भेट तथा अभय दान दे ॥ २०१ ॥

सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम् ।

स्यापयेत्तत्र तदंश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥ २०२ ॥

सब (शत्रु और उसके मंत्री) के अभिप्रायको संक्षेपसे जानकर शत्रु
राजाके वंशके एक पुरुषको राज्याभिषेक करके उसे समयके अनुसार उपदेश
करदे ॥ २०२ ॥

प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्वथोदितान् ।

रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥

विजित देशवासियोंके धर्मके अनुकूल शास्त्रोक्त आचारोंको प्रचलित रखे
और मंत्रियोंसहित इस राजाको रत्न आदिकी भेटोंसे सजुष्ट करे ॥ २०३ ॥

आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् ।

अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥

यद्यपि किसीके प्रिय पदार्थोंके छीन लेनेसे उसे दुःख और देदेनेसे सुख
होता है तथापि समयविशेषपर अभिलषित वस्तुका देना और लेना दोनोंही
प्रशंसनीय हैं ॥ २०४ ॥

सर्वे कर्मदमायत्तं विधाने दैवमानुषे ।

तयोर्द्वैवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥

संसारमें सब काम दैव और मनुष्यके आधीन होते हैं परंतु दैव तो जान
नहीं पड़ता और मनुष्यके कार्य करनेसे पूरे हो सके हैं ॥ २०५ ॥

सह वापि अजेयुकः संधिं कृत्वा प्रयत्नतः ।

सिद्धं हिरण्यं भूमिं वा संपश्यंस्त्रिविधं फलम् ॥ २०६ ॥

राजाको चाहिये कि शत्रुके साथ युद्ध करै अथवा शत्रुको मित्र बनाकर और उससे सुवर्ण, भूमि लेकर और इन्हें यात्राके तीन प्रकारके फलको विचारकर और यज्ञपूर्वक उसके साथ संधि करके लौट आवै ॥ २०६ ॥

पार्थिवग्राहं च संप्रेक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले ।

मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात् ॥ २०७ ॥

राजाको चाहिये कि अपने पृष्ठवर्ती और उसके प्रेरक इन दोनों राजाओंकी ओर विशेष ध्यान करता हुआ मित्र वा शत्रुसे अपनी यात्राके फलको ग्रहण करै अर्थात् यात्राके फल लेनेमें शत्रु वा मित्रको न देखे ॥ २०७ ॥

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कशमप्यायतिक्षमम् ॥ २०८ ॥

हीन बल होनेपरभी आगामी समयमें बढ़नेवाला राजा, स्थिर मित्रको पाकर जैसा वृद्धिको प्राप्त होता है वैसा भूमि और सुवर्ण पानेसे नहीं होता २०८

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघु मित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥

जो धर्मका और कियेहुए उपकारका जाननेवाला और सदा प्रसन्न, अपनेसे प्रीति करनेवाला है और जिसके कार्योंका आरंभ स्थिर हो ऐसा मित्र यदि तुच्छमी हो तो भी उत्तम होता है ॥ २०९ ॥

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ २१० ॥

बुद्धिमान्, कुलीन, शूर, चतुर, दाता, कृतज्ञ और धीरजवान् शत्रुको पण्डितजन बड़े कष्टसे जीतने योग्य कहते हैं—ऐसेसे मिलाप करले ॥ २१० ॥

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ।

स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥

साधुपन, पुरुषविशेषकी पहिचान, पराक्रम, सज्जनता, दयालुता और अधिक दानशीलता ये उदासीन राजाके गुण हैं—(ऐसे राजाके आश्रयसे विद्वान् आदि शत्रु राजासे भी युद्ध करै) ॥ २११ ॥

क्षेत्र्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि ।

परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्यमविचारयन् ॥ २१२ ॥

आरोग्यतायुक्त, (जलकी अनुकूलतासे) सदा अन्न तृणादिकी देनेवाली, अतएव पशुओंकी वृद्धि करनेवाली भूमिको भी राजा अपनी रक्षाके लिये बिना विचारें छोड़ दे ॥ २१२ ॥

आपदर्थं धनं रक्षेद्द्वारात्रक्षेद्धनैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्द्वारैरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥

आपत्तिसे बचनेके लिये घन सचय करै, घन से पत्नीकी रक्षा करै और घन पत्नी दोनोंसे सदा अपनी रक्षा करै ॥ २१३ ॥

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भूशम् ।
संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्स्त्रजेद्बुधः ॥ २१४ ॥

बुद्धिमान् राजाको चाहिये कि (कोश क्षय आदि) सब प्रकारकी विपद जो एक साथ उपस्थित होजाय तो एकही साथ वा अलग २ सब उपायोंका प्रयोग करै ॥ २१४ ॥

उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नज्ञः ।
एतन्नयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥

उपाय करनेवाला राजा अपना, प्राप्त होने योग्य (शत्रु) का और (साम आदि)संपूर्ण उपायोंका इस प्रकार इन तीनोंका यथार्थ विचार कर प्रयोजन सिद्धिके लिये चल करै ॥ २१५ ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्थ्य मन्त्रिभिः ।
व्यायम्यास्तुल्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ २१६ ॥
इस प्रकार राजाको चाहिये कि सब विषयोंको मंत्रियोंके साथ विचार और दत्तरत करके मध्याह्नमें खान करै और फिर भोजनके लिये रनवासमें चला जाय ॥ २१६ ॥

तत्रात्मभूतैः कालक्षैरहार्यैः परिचारकैः ।
सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः ॥ २१७ ॥

वहाँ रनवासमें जाकर, अपने समान, भोजनके समयके ज्ञाता, दूसरेसे नहीं फूटनेवाले रसोइयोसे भलीभाति (चकोर आदिको देनेसे) परीक्षा किये हुए अन्नको विष दूर करनेवाले मंत्रोंसे अभिमंत्रित करके राजा भोजन करै ॥ २१७ ॥

विषघ्नैरगदैश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् ।
विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

राजाके खाने योग्य सब पदार्थोंमें विष नष्ट करनेवाली औषधियाँ गिरनी चाहियें और राजा विपनाशक रत्नोंको सदा सावधानीसे धारण करै ॥ २१८ ॥

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकधूपनैः ।
वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥

(शुभ चरोंके द्वारा) परीक्षा कीगई और (शुभशस्त्र और विपैले आ-भूषणोंकी शंकासे) जिनके वेश और आभरण देख लिये गए ऐसी सावधान मनवाली स्त्रियां चमर डुलाती रहैं और जल, धूपसे सेवा करैं ॥ २१९ ॥

एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनानि ।

ज्ञाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च ॥ २२० ॥

इसी प्रकार राजा परीक्षा आदिके प्रयत्नको गसन, शय्या, आसन, भोजन, ज्ञान अजुलेपन और सपूर्ण अलंकार आदिकोमें भी करै ॥ २२० ॥

भुक्तवान्विहरेच्चैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह ।

विद्वत्स्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥

भोजनके अनंतर राजा स्त्रियोंके साथ रनवासमें विहार करै और फिर विहार करके समयानुसार अपने कार्योंका विचार करै ॥ २२१ ॥

अलंकृतश्च संपश्येदायुधीयं पुनर्जनम् ।

वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥

फिर राजा अलंकृत होकर अस्त्र शस्त्रधारी योद्धा, (हाथी आदि) सब वाहन और शस्त्र तथा आभूषण इनकी परीक्षा करै ॥ २२२ ॥

संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेश्मनि शस्त्रभृत् ।

रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ २२३ ॥

गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् ।

प्रविशेद्भोजनार्थं च स्त्रीवृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥

फिर राजा संध्यावंदन करके किसी गुप्तस्थानमें जाकर शस्त्र धारण करै और दूसरे गुप्तस्थानमें जाकर संवाददाता और गूढचरोंसे गुप्तकार्योंको सुनकर दूतोंको विदा करै और स्त्रियोंसमेत राजा भोजनके लिये रनवासमें प्रवेश करै ॥ २२३ ॥ २२४ ॥

तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित्सूर्यघोषैः प्रहर्षितः ।

संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः ॥ २२५ ॥

वहा तुरही आदि बाजोंसे प्रसन्न चित्त हो कुछ भोजन करै और यथा समय शयन करै और विश्राम करके रात्रिके पिछले प्रहरमें उठै ॥ २२५ ॥

एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः ।

अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥

जबतक शरीर नीरोग रहै तबतक राजा इस भाति शासन करै और शरीरमें रोग होनेपर इस सब कार्यको मंत्रियोंको सौंपदे ॥ २२६ ॥

इति-पण्डित रामेश्वरभट्टकृत सरलाटीकासहित मनुस्मृतिका सातवा

अध्याय समाप्त हुआ—शुभम् ॥

अथाष्टमोऽध्यायः ।

व्यवहारान्दिदृशुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

मन्त्रहर्मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभाम् ॥ १ ॥

व्यवहारों अर्थात् मुकद्दमोंको देखनेकी इच्छासे राजा ब्राह्मणोंके और गुप्त
बाट जाननेवाले मंत्रियोंके साथ विनीत भावसे सभामें प्रवेश करै ॥ १ ॥

तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् ।

विनीतवेषामरणः पश्येत्कार्याणि कार्याणाम् ॥ २ ॥

सादे वेषआभूषण पहिरें राजा वहां बैठकर वा खड़ा होकर दाहिने हाथको
उठाकर मुकद्दमोंके कार्योंको देखै ॥ २ ॥

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्पृथक् ॥ ३ ॥

अठारह प्रकारके मार्गोंमें विभक्त मुकद्दमोंका, देश और शास्त्रोंमें देखे गये
कारणोंसे नित्य अलग २ विचार करै ॥ ३ ॥

तेपामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः ।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४ ॥

वेतनस्यैव चादानं संनिदश्च व्यतिक्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ५ ॥

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।

स्तोयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥

स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥

(१) दूसरेसे ऋण लेने देनेका ठहराव (२) धरोहर धरना (३)
दूसरेकी वस्तु बेच देना (४) साक्षेसे व्यौहार करना (५) दान की हुई
वस्तुको किसी कारणसे लौटाना (६) नौकरकी तनखा रोकना (७) की
हुई व्यवस्थासे फिर जाना (८) खरीद विक्रीका झगड़ा (९) स्वामी और
सेवकका झगड़ा (१०) सीमाका विवाद (११) कठोर दंड (१२) वचन
की कठोरता (१३) चोरी (१४) साहस (१५) स्त्रीका संगर्भ (१६)
स्त्री पुरुषका धर्म (१७) धनका विभाग (१८) जुवा अथवा पशु और
पक्षीका दौंव लगा कर युद्ध करना इन अठारह बातोंमेंही मनुष्योंका झगड़ा
होता है ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शाश्वतमाहित्यं कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ८ ॥

राजा सनातन धर्मका आश्रय लेकर इन अठारह बातोंमें ही बहुधा विवाद करते हुए मनुष्यों के कार्योंका निर्णय करै ॥ ८ ॥

यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् ।

तदा नियुज्याद्विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥ ९ ॥

जब राजा किसी कारणसे कार्यकी देखभाल स्वयं न कर सके तब कार्यके देखनेके लिये किसी पण्डित ब्राह्मणको नियत करै ॥ ९ ॥

सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यैरेव त्रिमिर्वृतः ।

सभामेव प्रविश्याग्र्यामासीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥

और वह विद्वान् तीन सभासदोंके साथ धर्म सभामें पधार कर बैठकर वा खड़ा होकर राजाके कामोंको अच्छीभाति देखै ॥ १० ॥

यस्मिन्देशे निपीदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रयः ।

राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्ब्रह्मणस्तां सभां विदुः ॥ ११ ॥

जिस स्थानमें वेद जाननेवाले तीन ब्राह्मण बैठते हैं और राजाका अधिकृत (एवजी) पण्डित बैठता है पण्डितजन उसे ब्रह्मसभा कहते हैं ॥ ११ ॥

धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते ।

शाल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासदः ॥ १२ ॥

जिस सभामें अधर्मसे मिलाहुआ धर्म रहता है वहां अधर्मसे विधेहुए सभासद लोग धर्मकी पीड़ाको दूर नहीं कर सके ॥ १२ ॥

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् ।

अष्टचन्विष्टवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३ ॥

या तो पण्डितको सभामें जाना नहीं चाहिये और जाय तो ठीक २ कहना चाहिये क्योंकि जो कुछ नहीं कहता है वा बढाकर कहता है वह मनुष्य पापका भागी होता है ॥ १३ ॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥

जिस सभामें अधर्मसे धर्मका और श्रद्धसे सत्यका नाश होता है वहा देखनेवालोंको छोड़ सभासदही अधर्मसे मारे जाते हैं ॥ १४ ॥

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १५ ॥

नष्ट हुआ धर्मही मारता है और रक्षाकियाहुआ धर्मही रक्षा करता है इसलिये “ नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे ” यह विचारकर धर्मका नाश नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥

वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।

वृषलं तं विदुदं चास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ १६ ॥

भगवान् धर्मको वृष कहते हैं (क्योंकि वही मनुष्योंकी कामना सिद्ध करता है) जो पुरुष धर्मका नाश करता है देवता उसे वृषल अर्थात् शूद्र समझते हैं इसलिये धर्मका लोप न करे ॥ १६ ॥

एक एव सुहृद्भूमौ निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्भि गच्छति ॥ १७ ॥

धर्मही एक मित्र है जो गरनेपरमी पीछे संग जाता है और अन्य सब तौ शरीरके साथ यहाँही नाश हो जाता है ॥ १७ ॥

पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥

अधर्मका चतुर्थीश अधर्म करनेवालेको, चतुर्थीश गवाहको, चतुर्थीश सब सभासदोंको और चतुर्थीश राजाको मिलता है ॥ १८ ॥

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।

एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहौं यत्र निन्द्यते ॥ १९ ॥

जिस समामें निन्दाके योग्य (वादी अथवा प्रतिवादी) मनुष्यकी निन्दा हो वहाँ राजा पापरहित होता है, सभासद पापसे छूट जाते हैं और पापका फल तौपीको मिलता है ॥ १९ ॥

जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्ब्राह्मणमुवः ।

धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथंचन ॥ २० ॥

केवल जातिसे जीविका करनेवाला, कर्मरहित भी, ब्राह्मण राजाकी ओरसे धर्मवक्ता होसका है परंतु शूद्र कमी नहीं हो सका ॥ २० ॥

यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् ।

तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पद्मे गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥

जिस राजाके यहा धर्मका विचार शूद्र करता है उसके देखते २ वह राज्य ऐसा दुर्खी होता है कि जैसे कीचमें फसी गौ दुर्खी होती है ॥ २१ ॥

यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम् ।

विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥

जो राज्य बहुतसे शूद्रोंसे भर, नास्तिकोंसे युक्त और द्विजरहित होता है वह सब देश अकाल और व्याधिसे पीडित हो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥

धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः ।

प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारमेत् ॥ २३ ॥

ब्रह्म पहिनकर, सावधान होकर, धर्मके आसनपर बैठकर और लोकपालोंको प्रणाम करके कार्यका देखना आरम करे ॥ २३ ॥

अर्थानर्थान्ब्रुमौ बुद्ध्वा धर्माधर्मौ च केवलौ ।

वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्थिणाम् ॥ २४ ॥

, दोनों, धुराई और भलाई तथा केवल धर्म अधर्मको जानकर कार्यवालोंके सब काम वर्णके क्रमसे देखै अर्थात् पहिले ब्राह्मणका फिर क्षत्रिको इस्रादि ॥ २४ ॥

बाह्यैर्विभावयेच्छिन्नैर्भावमन्तर्गतं नृणाम् ।
स्वरवर्णोद्भिक्ताकारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥

बाह्यके चिह्न, स्वर, वर्ण, इक्षित, आकार और नेत्र तथा चेष्टासे मनुष्योंके भीतरे भावको जानना चाहिये ॥ २५ ॥

आकारैरिद्धितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ।
नेत्रवक्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥

क्योंकि आकार, इक्षित, चाल, चेष्टा, बोलना, नेत्र और मुखका विकार इनसे भीतरा मन जान लिया जाता है ॥ २६ ॥

वालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत् ।
यावत्स स्यात्समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः ॥ २७ ॥

राजा नावालिगके असवाध और धनकी तबतक रक्षा करै कि जबतक वह समाप्त हो अर्थात् छत्तीसवर्षके कहे हुए ब्रह्मचर्यको पूरा करके युद्धकुलसे लौटकर आवै और उसका नावालिगपना जाता रहे ॥ २७ ॥

वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ।
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥

बौद्ध, पुत्रहीन, कुलहीन, पतिव्रता, विधवा और रोगिणी स्त्रियोंके धनकी रक्षा बालकके धनके समानही करै ॥ २८ ॥

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः ।
तान्छिष्याञ्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥

जो उनके भाई धन्धु उन जीतीहुई स्त्रियोंका धन हरले तो धर्मात्मा राजा उनको चोरके दंडसे शिक्षादे अर्थात् चोरका हाल सो उनका हाल करै ॥ २९ ॥

प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा ज्यब्दं निधापयेत् ।
अर्वाक् ज्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥ ३० ॥

राजाको चाहिये कि लावारसी धनको तीन वर्षतक अमानतमे रखसै और तीन वर्षके बीचमें स्वामी आजाय तो वह उस धनको लेले और जो न आवै तो पीछे राजा ले ले ॥ ३० ॥

ममेदमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि ।
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्भव्यमर्हति ॥ ३१ ॥

जो कोई धनको अपना बतावै तो न्यायकर्ता विधिपूर्वक उसका दण्डहार

ले कि कैसा है किनना है ऊहां खोया इत्यादि और जो वह रूप संख्या आदि ठीक २ बताये तो वह स्वामी उस धनको ले ले ॥ ३१ ॥

अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः ।

वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३२ ॥

जो मनुष्य धनका देश, काल और ठीक २ रंग रूप और प्रमाणको नहीं जानता है तो वह धनके समानही दंडके योग्य होता है अर्थात् जितना वह धन हो उतनाही उसपर दंड करे ॥ ३२ ॥

आददीताथ पङ्गारं प्रणष्टाधिगताञ्चपः ।

दशमं द्वादशं वापि सनां धर्ममनुसरन् ॥ ३३ ॥

जो राजाको नष्ट धन मिल जाय तो सज्जनोंके धर्मका शता राजा उस प्रणष्ट धनमेंसे छटा, दशवां वा बारहवां भाग ले ले ॥ ३३ ॥

प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तैरधिष्ठितम् ।

यांस्तत्र चौरान्पृहीयात्तान्राजैर्भेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

जो धन चोरीका मिठा है उसे पहरेवालोंकी रक्षामें रखना चाहिये और दां जो चोर पकड़े जाय उनको राजा हाथीसे मरवादे ॥ ३४ ॥

ममायमिति यो ब्रूयान्निधिं सत्येन मानवः ।

तस्याददीत पङ्गारं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५ ॥

जो मनुष्य निधिके मिलनेपर सच २ कह दे कि यह मेरी है तो राजा उसका छटा या बारहवा भाग लेकर बाकी उसे देदे ॥ ३५ ॥

अनृतं तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् ।

तस्यैव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम् ॥ ३६ ॥

झूठ बोलनेवाले मनुष्यपर उसके धनका आठवां भाग वा उस धनका थोड़ासा भाग दंड करना चाहिये ॥ ३६ ॥

विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् ।

अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ ३७ ॥

पण्डित ब्राह्मण तो पहिलेसे धरे हुए किसीके द्रव्यको देखकर सबही ले सकता है क्योंकि वह निश्चय करके सबका स्वामी है ॥ ३७ ॥

यं तु पश्येन्निति राजा पुराणं निहितं क्षितौ ।

तस्माद्भिजेभ्यो दत्त्वाधर्मार्थं कौशे प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

राजा पृथ्वीमें गढे हुए पुराने धनको देखनेपर उसमेंसे आधा ब्राह्मणोंको देकर आधा खजानेमें रखवादे ॥ ३८ ॥

निधीनां तु पुराणानां घातूनामेव च क्षिती ।

अर्धमाप्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥ ३९ ॥

पुराने खजानोंका और पृथ्वीकी घातुओंका रक्षाकरनेके कारण राजा
आधेका भागी होता है क्योंकि वह निश्चय पृथ्वीका स्वामी है ॥ ३९ ॥

दातव्यं सर्ववर्णैभ्यो राज्ञा चौरैर्हृतं धनम् ।

राजा तद्दुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम् ॥ ४० ॥

चोरोंसे चुराये हुए धनको राजा सब वर्णोंको दे दे अर्थात् जिस वर्णका
धन हो उसी जातिके मनुष्यको दे दे क्योंकि जो राजा उसे भोगता है वह
चोरके पापको पाता है ॥ ४० ॥

जातिजानपदान्धर्माञ्छ्रेणीधर्मांश्च धर्मवित् ।

समीक्ष्य कुलधर्मांश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ४१ ॥

धर्माला राजा, जाति और देशके धर्मोंको, वैश्यआदिके धर्मोंको और
कुलधर्मोंको देखकर अपने धर्मकी व्यवस्था करे ॥ ४१ ॥

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः ।

प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ ४२ ॥

(जाति देश और कुलके अनुसार) अपने २ कामोंको करते हुए और
अपने २ निलय कर्ममें लगे हुए मनुष्य दूर होने परभी जगतके प्यारे हों
हैं ॥ ४२ ॥

नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः ।

न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथंचन ॥ ४३ ॥

राजा अथवा राजासे निलय किया गया न्यायकर्ता धनके लोभसे कार्य
अर्थात् ऋण आदिके क्षणके लोभसे खर्च न करे और दूसरेके सुकर्ममें धन
आदिके लोभसे वेपरवाही न करे ॥ ४३ ॥

यथा नयत्यष्टकपातैर्मृगस्य मृगयुः पदम् ।

नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥ ४४ ॥

जैसे बहेलिया शिकार मारेहुए मृगके स्थानमें शिकारके गिरनेसे पकड़
जाता है वैसेही अनुमानसे अथवा दृष्ट प्रमाणसे राजा धर्मके तत्वका निश्चय
करे ॥ ४४ ॥

सत्यमर्थं च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः ।

देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५ ॥

जब राजा व्यवहार (सुकर्म) करनेको बैठे तब वह सत्य, धन, अपनी
आत्मा, साक्षी, देश, रूप और कालको देखे ॥ ४५ ॥

सद्भिराचरितं यत्स्याद्भार्मिकैश्च द्विजातिभिः ।

तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

सबसे धर्माला द्विजातियोंने जो आचरण किया है उसके और उसी देशके
अविरुद्ध आचरणके अनुसार निर्णय करे ॥ ४६ ॥

अधमर्णार्थसिद्ध्यर्थमुत्तमर्णेन चोदितः ।

दापयेद्धनिकस्यार्थमधमर्णाद्विभावितम् ॥ ४७ ॥

कर्जदारसे धन वसूल करनेके लिये जब बौहरा राजासे प्रेरणा करै अर्थात् राजदूके यहा नालिश करै तब राजा धनीको कर्जदारसे निश्चय किये हुए धनको दिलवादे ॥ ४७ ॥

यैर्यैरुपायैरर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तमर्णिकः ।

तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम् ॥ ४८ ॥

धनी जिन २ उपायोसे धनको पासकै उन २ उपायोसेही राजा आसामीको वशमें करके धन दिलवावै ॥ ४८ ॥

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च ।

प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन वलेन च ॥ ४९ ॥

राजा धर्मसे, व्यवहारसे, छलसे, आचरितसे और पाचवे बलसे धन दिलावै ॥ ४९ ॥

यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमर्णिकात् ।

न स राज्ञामियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥

जो धनी कर्जदारसे आपही अपने धनको वसूल करै तो राजाको चाहिये कि अपने धनको वसूल करनेमें उस धनीको मने न करै ॥ ५० ॥

अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम् ।

दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥

धनके मामलेमें जो प्रतिवादी (आसामी) मुकर जाय कि मुझे धन नहीं देना है और कवालेसे सावित होजाय तो न्यायकर्ता बनीका धन दिलावै और शक्तिके अनुसार थोड़ासा दंड दिलावे ॥ ५१ ॥

अपह्वयेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि ।

अमियोक्तादिशेद्देश्यं करणं वान्यदुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥

कचहरीमें न्यायकर्ताके आसामीसे धन मांगनेपर जो कर्जदार मुकर जाय तो मुझई गवाह दे वा और कुछ लिखा पढी बतावै ॥ ५२ ॥

अदेश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यापह्वुते च यः ।

यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नाचबुध्यते ॥ ५३ ॥

अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति ।

सम्यक्प्रणिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥

१ जिसमें ली, पुत्र और पशुओंको मारकर और आसामीको द्वार पर बैठकर जो महानजनको धन दिलाया जाय उसे आचरित कहते हैं.

द्वियोंकी साक्षी ब्रिया, द्विजोंके द्विज, शूद्रोंके शूद्र और चाण्डालोंको साक्षी
उनही के तुल्य जातिवालोंका होना उचित है ॥ ६८ ॥

अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम् ।

अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६९ ॥

परतु घरके भीतर, वनमें अथवा शरीरमें चोट लगनेपर जो कोई मिलजब
नहीं विवादियोंका साक्षी हो सक्ता है ॥ ६९ ॥

स्त्रियाप्यसंभवे कार्यं बालेन स्यविवरेण वा ।

शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥

उक्त स्थानोंमें पूर्वोंक साक्षी न रहनेपर स्त्री, बालक, बूढ़े, शिष्य, बन्धु,
दास और सेवककी भी साक्षी हो सक्ती है ॥ ७० ॥

वालवृद्धानुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा ।

जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥

वालक, बूढ़े, आदुर और जिनका चित्त स्थिर नहीं ऐसे पुरुष जो गवाहीमें
झूठ बोलें तो उनकी अस्थिर वाणीको राजा अनुमानसे जानले ॥ ७१ ॥

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च ।

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥

राजाको चाहिये कि साहसके सब कार्य, चोरी, ज़ीसग्रहण वाणीकी तथा
दंडकी कठोरता इनमें साक्षियोंकी परीक्षा न करे ॥ ७२ ॥

बहुत्वं परिगृहीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः ।

समेधु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥ ७३ ॥

गवाहोंके विरोधमें, राजा ज्यादा साक्षियोंका प्रमाणमाने, समान सख्या
होनेपर गुणमें श्रेष्ठ साक्षियोंके द्वारा सत्यका निर्णय करे और गुणियोंके विरोधमें
किमानिष्ठ ब्राह्मणोंका वचन स्वीकार करे ॥ ७३ ॥

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं भ्रवणाच्चैव सिध्यति ।

तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥

देखने योग्यमें देखे हुई और सुनने योग्यमें सुनी हुई साक्षी ठीक होती है
और सत्यवादी गवाह धर्म और अर्थसे हीन नहीं होते ॥ ७४ ॥

साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्यसंसदि ।

अवाङ्मरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५ ॥

साक्षी यदि साधु सभामें देखे वा सुने हुए विषयोंमें मिथ्या कहै तो वह
परलोकमें नीचा मुंह करके नरकमें जाता है और मरकर उसे स्वर्ग नहीं
मिलता ॥ ७५ ॥

यत्रानिवद्धोऽपीक्षेत शृणुयाद्वापि किञ्चन ।

दृष्टस्तत्रापि तद्गुणाद्यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ७६ ॥

वादी प्रतिवादीके न कहनेपर भी गवाह जो कुछ देखे वा सुने उसेही जैसा जानताहो वैसा न्यायकर्ताके पूछने पर कहै ॥ ७६ ॥

एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्याद्ब्रह्मणः शुच्योऽपि न स्त्रियः ।

स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु दोषैश्चान्येऽपि ये वृताः ॥ ७७ ॥

लोभ रहित एक मनुष्य भी गवाह हो सका है परंतु अनेक स्त्रिया पवित्र होनेपर भी साक्षी के योग्य नहीं हैं क्योंकि स्त्रियोंकी बुद्धि अस्थिर होती है और चोरी आदि दोषोंसे युक्त पुरुष भी साक्षी नहीं हो सके ॥ ७७ ॥

स्वभावेनैव यद्गुणस्तद्ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।

अतो यदन्यद्विद्वुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७८ ॥

साक्षी (भय आदि रहित होकर) जो स्वभावसे कहै उसे राजा व्यवहार के निर्णयमें स्वीकार करै, किसी कारणसे कहै मये मिथ्या वचन धर्म विषयमें मानने योग्य नहीं हैं ॥ ७८ ॥

समान्तः साक्षिणः प्राप्तानार्थिप्रत्यर्थिसंनिधौ ।

प्राङ्निवाकोऽनुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥ ७९ ॥

सभामें वादी प्रतिवादीके सामने कचहरीमें उपस्थित हुए साक्षियोंके आगे (आगे कही) इस विधिसे न्यायकर्ता शांतिपूर्वक उनसे पूछै ॥ ७९ ॥

यद्गयोरनयोर्वैत्थ कार्येऽस्मिञ्चेष्टितं मिथः ।

तद्भूत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥

तुम इस मामलेमें वादी प्रतिवादीके विषयमें जो कुछ जानतेहो सो सब सत्य २ कहो क्योंकि इसमें तुम्हारी गवाही है ॥ ८० ॥

सत्यं साक्ष्ये नृबन्साक्षी लोकानाम्प्रोति पुष्कलान् ।

इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेवा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥

गवाहीमें सत्य बोलनेवाला साक्षी मरने के बाद श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होता है और इस लोकमें वह उत्तम कीर्ति पाता है क्योंकि ब्रह्मा भी सत्य वाणी का सत्कार करते हैं ॥ ८१ ॥

साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशैर्वध्यते वारुणैर्भुशम् ।

विचशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेद्वतम् ॥ ८२ ॥

गवाही देनेमें झूठ बोलनेवाला पुरुष परवशातासे वरुणपाशमें बंधकर सौ-जन्मतक क्लेश भोगता है इसलिये साक्षी सत्य २ बोले ॥ ८२ ॥

सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते ।

तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिसिः ॥ ८३ ॥

पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति भवानृते ।

शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुवानृते ॥ ९८ ॥

पशु के विषयमें पाचको, गौ के विषयमें दसको, घोड़े के विषयमें दश बोलनेसे सौको और मनुष्य के विषयमें झूठी साक्षी देनेसे एक हजार बान्धवोंमें नरक पहुंचाता है ॥ ९८ ॥

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं घट्ण ।

सर्वं भूम्यनृते हन्ति मा स भूम्यनृतं वदीः ॥ ९९ ॥

सुवर्ण के विषयमें झूठी साक्षी देनेसे मनुष्य के उत्पन्न और अनुत्पन्न पुत्र आदि नरकमें गिरते हैं और भूमि के विषयमें झूठी साक्षी देनेसे वह सब प्राणियोंकी हिंसा के दोषको पाता है इसलिये भूमि के विषयमें झूठ मत बोलो ॥ ९९ ॥

अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने ।

अस्त्रेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वश्मभयेषु च ॥ १०० ॥

तालाव आदिके जल ग्रहणमें, स्त्रियोंके भोगमें, तथा मैथुनमें, मोती, पाषाण (वैद्युत) आदि तथा सब रत्नों के विषयमें झूठ बोलनेवाला भूमि के विषयमें झूठ बोलनेवाले के समान दोषी होता है ॥ १०० ॥

एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सर्वाननृतभाषणे ।

यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्वमेवाक्षसा वद ॥ १०१ ॥

झूठ बोलनेमें इन पूर्वोक्त सब दोषोंको देखकर जैसा देखा और जैसा सुना है उस सबकोही तुम ठीक २ कहो ॥ १०१ ॥

गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् ।

प्रेष्यान्वाधुपिकाश्चैव विप्राञ्छद्रवदाचरेत् ॥ १०२ ॥

गौपालक, वाणिज्य करनेवाले, कारीगर, नट, दास और व्याज लेनेवाले इतने ब्राह्मणों के साथ राजा शूद्र की भाँति आचरण करे ॥ १०२ ॥

तद्गन्धर्मतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः ।

न स्वर्गाश्चयवते लोकाद्देवीं वाचं वदन्ति ताम् ॥ १०३ ॥

आगे कहे गए विषयोंमें जानकरभी धर्मबुद्धिसे अन्यथा कहनेमें मनुष्यका स्वर्गलोक नहीं बिगड़ता है और ऐसे बचनको देवी वाणी कहते हैं ॥ १०३ ॥

शूद्रविद्वक्षत्रविप्राणां यत्रतोंक्तौ भवेद्वधः ।

तत्र घकव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥

जहाँ सत्य कहनेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का प्राणवध हो वहाँ मिथ्यासी बोलै क्योंकि वहाँ झूठ बोलना सत्यसे अच्छा होता है (परंतु पुरुष पापी नहो) ॥ १०४ ॥

चाग्दैघलैश्च चक्रभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम् ।

अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम् ॥ १०५ ॥

ऐसे समयपर मिथ्या बोलने के पापसे बिलकुल छूटने के लिये वाणी है देवुक्ता जिसका ऐसे चरसे सरस्वती का यजन करै ॥ १०५ ॥

कूष्माण्डैर्वापि जुहुयाद्भुतमग्नौ यथाविधि ।

उदित्यूचा वा वारुण्या तुचेनाब्दैवतेन वा ॥ १०६ ॥

अथवा यजुर्वेदके “यद्देवा देव हेवनम्” इत्यादि कूष्माण्ड मंत्रोंसे विधिपूर्वक होम करै अथवा “उदुत्तयं” इत्यादि वारुण मंत्रसे अथवा “आपोहिष्टा” इत्यादि जलदेवताकी तीन ऋचाओंसे अग्निमें हवन करै ॥ १०६ ॥

त्रिपक्षादद्भुवन्साक्ष्यमृणादिषु नरोऽगदः ।

तदृणं ग्रामुयात्सर्वं दशवन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥

यदि रोगरहित साक्षी तीन पक्ष के भीतर ऋण आदि व्यवहारमें गवाही नदे, तो वह मुद्देको सब ऋण तथा उसका दशवा हिस्सा द्दरूपसे राजाको दे ॥ १०७ ॥

यस्य दृश्येत सप्ताहाद्भुक्तवाक्यस्य साक्षिणः ।

रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दर्मं च सः ॥ १०८ ॥

गवाही ठेनेपर यदि गवाहको एक सप्ताह के भीतर रोग हो, उसका घर जल जाय, वा स्वजनकी मृत्यु होजाय तो भी इसे मुद्देका ऋण और राजाका दंड देना होगा ॥ १०८ ॥

असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विचदमानयोः ।

अचिन्वंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत् ॥ १०९ ॥

परस्पर झगड़नेवाले दोनों पक्षवालोंमें यदि गवाह नहो तो ठीक २ बात नहीं जानता हुआ राजा दोनों पक्षवालोंसे शपथ लेकर सत्यका निर्णय करै ॥ १०९ ॥

महर्षिमिश्च देवैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः ।

वसिष्ठश्चापि शपथं शोपे पैजवने नृपे ॥ ११० ॥

महर्षि और देवताओंने अपने कार्य के लिये शपथें खाई थीं वसिष्ठ ऋषिने भी पिजवन के पुत्र सुदास के सामने शपथ लीथी ॥ ११० ॥

न वृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थं नरो बुधः ।

वृथा हि शपथं कुर्वन्नेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥

पण्डित जन छोटे विषयोंमें भी वृथा शपथ न करै क्योंकि वृथा शपथ करनेवा-
लोंका इस लोकमें और परलोकमें नाश होता है ॥ १११ ॥

कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने ।

ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥ ११२ ॥

जीसंभोग, विवाह, गौओं के लिये घास आदि लेनेमें, होम के लिये ईंधन लेनेमें और ब्राह्मणकी रक्षा करनेमें वृथा शपथ खानेसे भी पात नहीं होता ॥ ११२ ॥

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।

गोवीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥ ११३ ॥

ब्राह्मणको सत्यकी शपथ करावै, क्षत्रियको वाहन तथा आयुधकी, वैश्यको गौ, बीज और सुवर्ण आदिकी और शूद्रको सब पापोंकी शपथ करावै ॥ ११३ ॥

अग्निं वाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत् ।

पुत्रदारस्य चाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥

अथवा अग्नि परीक्षा करै, जलमें गोता लगवावै, अथवा स्त्री पुत्र के शिरको अलग २ स्पर्श करावै ॥ ११४ ॥

यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च ।

न चार्तिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ११५ ॥

जित्से यदि जलती हुई अग्नि न जलावै, जल न डुवावै, जो शीघ्र वर्षे दु खको न पावे तो शपथ विषयमें उसे पवित्र जाने ॥ ११५ ॥

वत्सस्य ह्यग्निशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा ।

नाग्निर्देदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः ॥ ११६ ॥

पूर्वकालमें वत्स नाम ऋषिको वैमात्र छोटे भाईने यह होष लगाया था कि तू ब्राह्मण नहीं है शूद्रसे पैदा है इसकी शपथ के लिये उसकी अग्निपरीक्षा हुईथी परंतु सत्य के कारण जगद्धापी अग्निने उसका एक रोम भी नहीं जलाया ॥ ११६ ॥

यस्मिन्वस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् ।

तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥ ११७ ॥

जिस मुकदमेंमें झूठी गवाही जान पड़े उन्हें फिरसे विचारै क्योंकि जो कुछ झूठा गवाही दे वह नहीं होने के समान है ॥ ११७ ॥

लोभान्मोहाद्भ्रयात्स्वप्नात्कामात्क्रोधात्तथैव च ।

अज्ञानाद्दालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥

लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और असावधानीसे जो गवाही दी जाती है वह झूठी होती है ॥ ११८ ॥

* माठ अंगुल और प्रचास ट्येकर लोहे के गोलेको तपाकर और शूद्र के हाथ पर धरवा कर उसे ७ कदम चलाने—

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमकृतं वदेत् ।
तस्य दण्डविशेषास्तु प्रवक्ष्याम्येतत्पूर्वशः ॥ ११९ ॥

इन लोग आदि कारणोंमेंसे किसी कारणों से होनेपर जो पुत्र
है उसके दंड विशेषोंको क्रमसे कहूंगा ॥ ११९ ॥

लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वं तु साहसम् ।
भयाद्भौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ १२० ॥

जो लोभसे झड़ी गवाही दे उसपर एक हजार पण, मोहसे दे उसपर प्रथम
साहस, भयसे दे उसपर दो मध्यम साहस और जो मित्रतासे दे उसपर चार
गुना प्रथम साहस दंड होना चाहिये ॥ १२० ॥

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम् ।
अज्ञानाद्दे शते पूर्णं वालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

कामसे गवाहीदे उसपर दशगुणा प्रथम साहस, क्रोधसे दे उसपर त्रिगुना
मध्यम साहस, दड होना चाहिये और बिना जाने झड़ी साक्षी देनेसे दोसी
और असावधानीसे देनेपर सौपण दंड होगा ॥ १२१ ॥

एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः ।
धर्मस्थाव्यमिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२ ॥

धर्म के पालन और अधर्म के रोकने के लिये झड़ी गवाही देनेपर पण्डित-
ोंने येही दंड कहे हैं ॥ १२२ ॥

कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः ।
प्रवासयेद्दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ १२३ ॥

क्षत्री, वैश्य और शूद्र यदि मिथ्या साक्षी दें तो धार्मिक राजा उन्हें
दंड देकर देशसे निकाल दे परंतु ब्राह्मणको बिना दंड दियेही देशसे
निकाले ॥ १२३ ॥

दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वार्थमुचोऽब्रवीत् ।
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत् ॥ १२४ ॥

स्वार्थमुच मनुने क्षत्री आदि तीन वर्णों को दंड देनेके लिये दश स्थान
कहे हैं परंतु ब्राह्मण अक्षत शरीरसे जा सक्ता है ॥ १२४ ॥

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।
अधुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥

लिंगेन्दी, उदर, जिह्वा, दोनों हाथ, दोनों पैर, नेत्र और पंचम नासिका,
दोनों कान, धन और शरीर ये दश दंड के स्थान हैं ॥ १२५ ॥

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तरषतः ।

सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डेषु पातयेत् ॥ १२६ ॥

राजाको चाहिये कि बार २ इच्छासे किये अपराधको जानकर और देश काल और अपराधीका बल और अपराध यथार्थ देखकर वंङनीय पुरुषों को दंड दे ॥ १२६ ॥

अधर्मदण्डनं लोके यशोभं कीर्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यं च परजापि तस्मात्तत्परिचर्जयेत् ॥ १२७ ॥

अन्यायपूर्वक दंड देनेसे इस लोकमें यश और कीर्तिका नाश होता है और परलोकमें स्वर्ग नहीं मिलता इसलिये अन्यायसे दंड नदे ॥ १२७ ॥

अदण्डयान्दण्डयन्राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ १२८ ॥

अदंडनीय पुरुषोंको दंड देनेसे और दंड योग्य पुरुषोंको दंड न देनेसे राजाका बड़ा अपयश होता है और वह नरकमें जाता है ॥ १२८ ॥

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डं तु धधदण्डमतः परम् ॥ १२९ ॥

प्रथम वचनसे झिडकै, उसके बाद धिक्कार वा निन्दा करै तीसरी बार धनदंड और सब के पीछे शारीरक दंड करै ॥ १२९ ॥

वधेनापि यदा त्वेतास्त्रिहीतुं न शक्नुयात् ।

तदैषु सर्वमप्येतत्प्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १३० ॥

शारीरक दंड करनेसे भी यदि दुरात्मा वधमें नहो, तो ऊपर कहे हुए सब चारो दंडोंका उसपर प्रयोग करै ॥ १३० ॥

लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि ।

ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥

ताबा, रूपा और सुवर्ण आदिकी जो पण आदि संज्ञा भोल लेना और वेचन आदि लोक के व्यवहार के लिये पृथ्वीपर प्रसिद्ध हैं उसे सब कहता हूँ ॥ १३१ ॥

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ १३२ ॥

सूर्यकी किरणें खिडकीमें भीतर पड़नेसे जो बहुत छोटे २ धुलिके कण दिखाई देते हैं, वे प्रमाणांश गिनतीमें प्रथम हैं उसे त्रस रेणु कहते हैं ॥ १३२ ॥

त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः ।

ता राजसर्पपस्तिस्सस्ते त्रयो गौरसर्वपः ॥ १३३ ॥

आठ त्रस रेणुकी एक लिखा होती है उन तीन लिखाओका एक राजसर्षप होता है और तीन राजसर्षपोंका एक गौरसर्षप होता है ॥ १३३ ॥

सर्षपाः षट् यवो मध्यस्त्रियचं त्वेककृष्णलम् ।

पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥ १३४ ॥

ॐ: गौरसर्षपोका एक मध्यम अर्थात् बहुत मोटा न बहुत छोटा जव होता है और तीन जवोंकी एक घोषची (रती) होती है, पाच रतियोंका एक मासा होता है और सोलह मासोंका एक सुवर्ण होता है ॥ १३४ ॥

पलं सुवर्णाञ्चत्वारः पलानि धरणं दश ।

द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ॥ १३५ ॥

चार सुवर्णका एक पल होता है और दश पलका एक धरण होता है और दो घोषची बराबर करके काटेमें धरी जाय तो उनका एक रूप्यमाषक जानना चाहिये ॥ १३५ ॥

ते षोडश स्याद्धरणं पुराणञ्चैव राजतः ।

कार्पापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कार्पिकः पणः ॥ १३६ ॥

सोलह रूप्यमाषकोंका एक रौप्य धरण और पुराण राजत अर्थात् राजत मन्थी होता है और तावे के कर्ष भरको कार्पापण तथा पण जानना चाहिये, पल के चौथाई भागको कर्ष कहते हैं ॥ १३६ ॥

धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः ।

चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७ ॥

दश धरणका एक रौप्य शतमान और चार सुवर्णका एक निष्क जानना चाहिये ॥ १३७ ॥

पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः ।

मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥ १३८ ॥

डाई सौ पणका प्रथम साहस और पाच सौ पणका मध्यम साहस तथा एक हज़ार पणका उत्तम साहस होता है ॥ १३८ ॥

ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति ।

अपह्वे तद्विगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

आसामी यदि ऋण देना स्वीकार करै तो राजा आसामीपर पाच गुण सैकड़ा दंड करै और यदि वह कहै कि ऋण नहीं देना है और पीछे ऋण सावित हो तो उसपर दूना अर्थात् दस पण सैकड़ा दंड करै यह मनुकी आज्ञा है ॥ १३९ ॥

वसिष्ठविहितां वृद्धिं सृजेद्विचविवर्धिनीम् ।

अशीतिभागं शृहीयान्मासाद्वाधुपिकः शते ॥ १४० ॥

व्याज देनेवाला मनुष्य वशिष्ठका कहा हुआ वृद्धि (धन बढ़ानेवाला) व्याज ग्रहण करै अर्थात् प्रतिमास सैकड़ेका अस्सीवा भाग (१०० रुपये प्रति सवा रुपया) ले ॥ १४० ॥

द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन् ।

द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्धकिल्विपी ॥ १४१ ॥

अथवा साधुओंके आचारका स्मरण करके सैकड़ा पीछे प्रति महीने २) ६ व्याज ले क्योंकि सैकड़ा पीछे दो रुपया व्याज लेता हुआ धनी पापका भागी नहीं होता ॥ १४१ ॥

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम् ।

मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्गणानामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

ऋण देनेवाला वर्ण के क्रमसे ब्राह्मणसे दो पण सैकड़ा, तीन पण सैकड़ा, क्षत्रीये, चार पण सैकड़ा वैश्यसे और पाच पण सैकड़ा व्याज शुरूसे प्रति मास ले ॥ १४२ ॥

न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात् ।

न चाधेः कालसंरोधानिसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥ १४३ ॥

यदि कोई घर आदि धनी के पास गिरवी रखकर आसामी रुपया लेंगे उस रुपये का व्याज अलग न लगेगा (अर्थात् मकान आदिका किरायाही उसे मिलेगा) और बहुत समय बीतनेपर भी आसामी इस गिरवी की वस्तुको न तो दूसरे के पास रख सकता है और न बेच सकता है ॥ १४३ ॥

न मोक्तव्यो बलादाधिर्भुञ्जानो वृद्धिसुत्सृजेत् ।

मूल्येन तोपयेच्चैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥ १४४ ॥

धनी गिरवी के बल आदि बलपूर्वक भोग न करै, यदि महाजन गिरवीको वस्तुको भोग करै तो व्याज छोड़ दे और भोग करनेसे यदि वस्तु विगड़ जाय तो मूल्य देकर आसामीको सन्तुष्ट करै नहीं तो उसे उस वस्तुकी जो पाप लगेगा ॥ १४४ ॥

आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न कालात्ययमर्हतः ।

अवहार्यौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १४५ ॥

गिरवी रखनी हुई वा भोगार्थ दी हुई वस्तु मागी जाय तभी देदे, बहुत समय तक रहनेपर भी वे उत्तीक्षण लेने के योग्य हैं ॥ १४५ ॥

संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन ।

धेनुकूपौ चहृत्तश्वो यश्च दस्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

गौ, ऊँट, चढ़ने के घोड़े, बैल आदि पशु जो गिरवी रखले जाय और धनी आसामीकी राजीसे उसका भोग करै तो बहुत समय बीत जानेपर भी, उनपर खासगीका दावा बना रहता है ॥ १४६ ॥

यत्किञ्चिद्दश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी ।

भुज्यमानं परैस्तूर्ण्णीं न स तल्लब्धुमर्हति ॥ १४७ ॥

यदि वस्तुके धनीके सामने कोई दूसरा उसकी वस्तुको दस बरसतक उपभोग करे और वह देखकर कुछ न कहै तो उस वस्तुसे उसका दावा जाता रहता है ॥ १४७ ॥

अजडश्चेदपोगण्डो विपये चास्य भुज्यते ।

भयं तद्व्यवहारेण भोक्ता तद्व्यमर्हति ॥ १४८ ॥

यदि धनी जड़ और सोलह वर्षसे कम उमरवाला नहो और वस्तु भी उसके सामने वर्ती गई हो, तो व्यवहारके अनुसार उसके स्वामीका दावा उस वस्तु परसे जाता रहता है और यह वस्तु भोक्ताकी हो जाती है ॥ १४८ ॥

आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः ।

राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४९ ॥

गिरवी, ग्राम अधिकारी सीमा, बालरुका धन, धरोहर, उपनिधि (वासनमें रक्खा हुआ बिना गिनाया वंद धन) स्त्री, राजधन, वेदपाठीका धन इन सब वस्तुओंका दावा भोगनेसे नष्ट नहीं होता है ॥ १४९ ॥

यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि भुङ्क्तेऽविचक्षणः ।

तेनार्थवृद्धिर्भोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५० ॥

जो बुद्धिमान् पुत्रपुत्र धनके स्वामीकी अनुमति बिना गिरवीकी वस्तुओंका ग करता है उसे उसके लिये नियत व्याजका आधा भाग छोड़ देना हिये ॥ १५० ॥

कुसीदवृद्धिर्द्वैगुण्यं नात्येति सकृदाहता ।

धान्ये सदे लवे चाहो नातिक्रामति पञ्चताम् ॥ १५१ ॥

मूल और व्याज एक साथही लिया जाय, तो व्याज मूल धन के दूनेसे अधिक न लेना चाहिये । धान्य, वृक्षों के फल, ऊर्ण आदि लोम और दैल इनमें मूलसे पांच गुना व्याज दिया जा सकता है ॥ १५१ ॥

कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्ध्यति ।

कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमर्हति ॥ १५२ ॥

विधिके अनुसार ठहरे हुएसे अधिक व्याज लेना वर्जित है, ज्यादा व्याज लेनेकी पण्डित लोग निन्दा करते हैं । सैकड़े पीछे पांचसे ज्यादा व्याज नहीं लिया जा सकता है ॥ १५२ ॥

नातिसांवत्सरीं वृद्धिं न चादृष्टां पुनर्हरेत् ।

चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥ १५३ ॥

एक, दो वा तीन महीनेमें वा एक वर्षमें एक बार व्याज लेनेके नियमसे ऋण दे, परंतु एक वर्षसे अधिक समयमें अर्थात् डेढ़ वा दो वर्षमें एकवार न. १८

व्याज लेनेका नियम न करै और शास्त्रके विरुद्ध व्याजभी न ले, व्याजका व्याज, प्रत्येक मासमें बढ़ाया गया व्याज, देह आदिसे सेवाके रूपमें व्याज, तथा धनीके भयसे जो व्याज बढ़ाया जाता है, इन सबका त्याग करना चाहिये ॥ १५३ ॥

ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्छेत्पुनः क्रियाम् ।

स दत्त्वा निर्जितां वृद्धिं करणं परिवर्तयेत् ॥ १५४ ॥

आसामी यदि ऋण चुकानेमें असमर्थ हो और फिर कागद लिखना चाहै तो व्याज देकर उसे फिर कागद लिखदे ॥ १५४ ॥

अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् ।

यावती संभवेद्द्विस्तावतीं दातुमर्हति ॥ १५५ ॥

यदि व्याज भी न दे सकै तो मूल और व्याज मिलाकर फिर कागद लिखदे पर जो व्याज मूलके साथ कागदमें लिखा जायगा उसपर भी उसे व्याज देना होगा ॥ १५५ ॥

चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः ।

अतिक्रामन्देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात् ॥ १५६ ॥

निश्चय किये देश और निश्चित कालमें गाड़ी आदिसे वस्तु न पहुंचानेपर पूरा भाड़ा नहीं दिया जाना चाहिये ॥ १५६ ॥

समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः ।

स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥

समुद्रमार्गसे जानेवाले, देशकालके ज्ञाता वणिक् जो भाड़ा निश्चय करें वही प्रमाणित होता है अर्थात् दिया जाता है ॥ १५७ ॥

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेद्दर्शनायेह मानवः ।

अदर्शयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादणम् ॥ १५८ ॥

जो मनुष्य जिस आसामीको हाजिर कर देनेका जामिन है और वह ठीक समय पर उसे हाजिर न करसकै तो उसे अपने धनमेंसे उसका ऋण देना होगा ॥ १५८ ॥

प्रातिभाष्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् ।

दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमर्हति ॥ १५९ ॥

जमानतका रुपय, हँसीमें जोकिसी गया के पंडा आदिको धन देने कहा हो, शूतमें जो ऋण किया हो, मद्यपानमें उठाया हो, राजाके दंडका जो शेष हो और महसूलका शेष धन घासी हो ये सब (पिताके मरने पर) पुत्र को नहीं देने चाहिये ॥ १५९ ॥

दर्शनप्रातिभाष्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः ।

दानप्रातिभुवि प्रेतं दायदानपि दापयेत् ॥ १६० ॥

आसामीको हाजिर करनेकी जमानत करने पर तो पूर्वोक्त नियम है परंतु जो पिता अपने मालका जामिन होकर मरजाय तो पुत्रादि उसके वारिसोंसे राजा ऋण दिवावै ॥ १६० ॥

अदातरि पुनर्दाता विश्वातप्रकृतावृणम् ।

पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥

जामिन धन देनेकी सामर्थ्य होने पर भी रुपये नदे और मरजाय तो धनी किससे अपना रुपया वसूल करै ॥ १६१ ॥

निरादिष्टधनश्चेत् प्रतिभूः स्यादलंधनः ।

स्वधनादेव तद्दद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥

जो आसामीने जामिनको धन दे दिया हो और उसके पुत्र महाजनको धन देनेमें समर्थ हों तो पिताके मरने पर अपने धनमेंसे ऋण चुका दें यही मर्यादा है ॥ १६२ ॥

मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनैर्वालेन स्थविरेण वा ।

असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति ॥ १६३ ॥

मत्त, उन्मादग्रस्त, रोगी, सेवक, नाबालिग और वृद्ध इनके साथ बिना मर्यादा भाई आदिकी आज्ञाके ऋण सिद्ध नहीं होता है ॥ १६३ ॥

सत्या न भावा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता ।

बहिश्चेद्भाष्यते धर्मान्नियताद्भ्यावहारिकात् ॥ १६४ ॥

जो वचन लेख आदिसे स्थिर होने पर भी शाल और व्यवहारके विरुद्ध हो वह सत्य न माना जाय ॥ १६४ ॥

योगाधमनविकीर्तं योगदानप्रतिग्रहम् ।

यत्र वाप्युपार्धि पश्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥

गिरवी, वेचना, दान और प्रतिग्रह अथवा अन्य जो कार्य छलसे किये जाय उन सबको राजा रद्द कर दे ॥ १६५ ॥

प्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थे कृतो व्ययः ।

दातव्यं बान्धवैस्तत्स्यात्प्रविभक्तैरपि स्वतः ॥ १६६ ॥

यदि कोई कुटुम्बमें खर्चकर ऋणी होकर मरजाय तो अलग वा शामिल रहनेवाले बाधवोंकोही वह ऋण अपने धनमेंसे देना होगा (क्योंकि उनहीके पालन पोषणके लिये रुपया लिया गया था) ॥ १६६ ॥

कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत् ।

स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायाञ्च विचालयेत् ॥ १६७ ॥

यदि सेवकमी स्वामीके कुटुम्बपोषणके लिये ऋण करै तो स्वामी, अपने देशमें हो वा परदेशमें हो उसे यह ऋण देना होगा ॥ १६७ ॥

बलाहत्तं बलाद्भुक्तं बलाद्यच्चापि लेखितम् ।

सर्वान्वलकृतानर्थानकृतान्मनुरज्रवीत् ॥ १६८ ॥

जो कुछ बलपूर्वक दिया, खाया वा लिखा जाता है तथा बलपूर्वक जो कुछ किया जाता है वह सब झूटा है यह मनुजीने कहा है ॥ १६८ ॥

त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ।

चत्वारस्तूपचीयन्ते निप्र आढ्यो वणिङ् नृपः ॥ १६९ ॥

अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः ।

न चादेयं समृद्धोऽपि सुहृममप्यर्थमुत्सृजेत् ॥ १७० ॥

साक्षी, जामिन और खजान ये तीनों दूसरोंके लिये क्लेश पाते हैं और ब्राह्मण, महाजन, वणिक् तथा राजा इन चारोंकी दूसरोंसे बढ़ती होती है ॥ १६९ ॥ राजा निर्धन होनेपर भी जो वस्तु लेने योग्य न हो उसे न ले और जो लेने योग्य हो उस अल्पवस्तुको समृद्ध होने पर भी फेंके क्योंकि ॥ १७० ॥

अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् ।

दौर्बल्यं ख्याप्यते राक्षः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥

नहीं लेने योग्य वस्तुको लेनेसे और लेनेके योग्य वस्तुको न लेनेसे रा की दुर्बलता प्रकट होती है और उसके दोनों लोक नष्ट होते हैं ॥ १७१ ॥

स्वादानाद्दर्पणसंसर्गात्त्ववलानां च रक्षणात् ।

बलं संजायते राक्षः स प्रेत्येह च वर्धते ॥ १७२ ॥

न्यायसे धन लेना, वणोंका उनकी जातिमें परस्पर सबन्ध कराना और दुर्बलोंकी रक्षा करना इन बातोंके करनेसे राजाका बल बढ़ता है और उसकी इस लोक और पर लोकमें वृद्धि होती है ॥ १७२ ॥

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये ।

वर्तेत याम्यथा वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥

इसलिये राजा जितेन्द्रिय और जितक्रोध होकर और अपने प्रिय और अप्रियोंका त्यागकर समताका अवलंबन कर यमराजके समान वर्ताव करे ॥ १७३ ॥

यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः ।

अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

जो राजा मोहके वश होकर अधर्मसे कार्य करता है उस दुरात्माको शत्रु शीघ्रही वशमे कर लेते हैं ॥ १७४ ॥

कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्धर्मेण पश्यति ।

प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥

जो राजा काम क्रोधको रोककर धर्मसे व्यवहार करता है प्रजा उसका अनुगमन इस प्रकार करती है जैसे नदिया समुद्रका ॥ १७५ ॥

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे ।

स राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ १७६ ॥

जो आसामी (अपनेको राजाका प्यारा समझ कर) अपनी इच्छासे जिक्रो साधित करवेहुए धनीकी राजासे शिकायत करै उसपर राजा ऋणका अनुयायि दंड करै और उधारका रुपया भी उससे दिलावै ॥ १७६ ॥

कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकायाधर्मणिकः ।

समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयास्तु तच्छनैः ॥ १७७ ॥

आसामी यदि महाजनका खजन वा निकृष्ट जाति हो और धन चुकानेमें प्रसमर्थ हो तो महाजन काम कराकरही अपना धन वसूल करै और जो श्रेणी श्रेष्ठ जाति हो तो अपनी आयके अनुसार धीरे २ धन देता रहै ॥ १७७ ॥

अनेन विधिना राजा मिथोविवदतां नृणाम् ।

साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत् ॥ १७८ ॥

कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि ।

महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥ १७९ ॥

राजा आपसमें झगडा करनेवाले लोगोंके साक्षी आदिसे निर्णय किये क्लामोंको इस भांति निवटावै ॥ १७८ ॥ बुद्धिमानको चाहिये कि कुलीन, सदाचारी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, अधिक कुटुम्बी, धनी और उत्तम पुरुषके पास धरोहर रखवै ॥ १७९ ॥

यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानवः ।

स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥

जो पुरुष, जिस प्रकार जिसके हाथमें धन दे, लेनेके समय वह उसी प्रकार उस द्रव्यको ले, जैसा देना वैसा लेना ॥ १८० ॥

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेमुर्न प्रयच्छति ।

स याच्यः प्राङ्निवाकेन तन्निक्षेपुरसंनिधौ ॥ १८१ ॥

धरोहरवालेके मांगने पर जो लेनेवाला नदे तो रखनेवालेके परोक्षमें न्याय-जर्जा उससे मागे ॥ १८१ ॥

साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितैः ।

अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥

न्यायकर्ता पहिली धरोहरमें गवाह न होनेपर युवा और रूपवान् राजाके इतोंसे बहाना करके यथार्थ रीतिसे उसके यहाँ सुवर्ण रखवा कर फिर मागे ॥ १८२ ॥

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् ।

न तत्र विद्यते किञ्चिद्यत्परैरभियुज्यते ॥ १८३ ॥

यदि वह सुवर्णकी धरोहर जैसी दूतरख गये हों उसे खीकार कर ले और

कह दे कि सत्य है तो न्यायकर्ता जान ले कि उसके पास पहिले कुछ न
रक्खा है और वह पहिले अभियोगसे छूट जायगा ॥ १८३ ॥

तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि ।

उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४ ॥

और यदि वह उन राजदूतोंके सुवर्णको न दे तो विधिपूर्वक राजा उसे द
देकर उससे दोनों धरोहर दिलवावे यही धर्मका निश्चय है ॥ १८४ ॥

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे ।

नश्यतो विनिपाते वावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥

निक्षेप और उपनिधि रखनेवालेके रहते उसके पुत्र आदिको कमी न दे
क्योंकि सोंपनेवालेके विनासमें ये नष्ट हो जाती हैं परंतु जीतेहुए नष्ट नहीं
होती ॥ १८५ ॥

स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे ।

न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेमुश्च वन्धुभिः ॥ १८६ ॥

जो पुरुष धरोहर रखनेवाले मृतपुरुषके पुत्रादिको स्वयं धरोहर दे दे तो
राजा वा धरोहर रखनेवालेके बांधव अन्य वस्तुभी वताकर उसपर दामा न
करें (कि हमारी तरे पास कमी और वस्तु भी है यदि शंका हो तो यह करें
कि) ॥ १८६ ॥

अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम् ।

विचार्य तस्य वा वृत्तं साक्षैव परिसाधयेत् ॥ १८७ ॥

छलरहित होकर प्रसन्नतासे शांतिपूर्वक इस धनका निर्णय करें और धरो
हर रखनेवालेके चरितका विचार करें ॥ १८७ ॥

निक्षेपेष्वेपु सर्वेषु विधिः स्यात्त्वरिसाधने ।

समुद्रे नाभुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत् ॥ १८८ ॥

नहीं मानीहुई सब धरोहरोंके साबित करनेमें यह पहिली विधि कही
परंतु मोहरकी हुई उपनिधिमेंसे कुछ न ले और ज्योंकी त्यों लौटा दे, जो
रखनेवालेको कुछ नहीं मिलता ॥ १८८ ॥

चौरैर्हृतं जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा ।

न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥ १८९ ॥

यदि सोंपनेवालेका द्रव्य चोर हर ले गए हों वा जलमें वह गया हो अथवा
अग्निमें जल गया हो और जिसके पास धरोहर रक्खी थी उसने उसमेंसे कुछ
न लिया हो तो सोंपनेवालेको कुछ नहीं देना चाहिये ॥ १८९ ॥

(१) जो गिनकर बिना मोहर लगाए सोंपा जाय उसको निक्षेप कहते हैं ।

(२) और जो बिना गिने मोहर लगाकर सोंपा जाय उसे उपनिधि कहते हैं ।

निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च ।

सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्चैव वैदिकैः ॥ १९० ॥

घरोहर हरनेवालेका तथा बिना सौंपकर मागनेवालेका वैदिक शपथ तथा
स्वामि आदि सब उपायोंके सहारेसे राजा निक्षेप करे ॥ १९० ॥

यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते ।

तावुमौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥ १९१ ॥

सौंपेहुये धनको नहीं देनेवाले और बिना सौंपको मागनेवाले दोनोंको
चोरके समान वा द्रव्यके अनुसार दंड दे ॥ १९१ ॥

निक्षेपस्यापहर्तारं सत्समं दापयेद्दमम् ।

तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः ॥ १९२ ॥

निक्षेप और उपनिधि हरनेवालोंको राजा समान रीतिसे उतनाही दंड दे
कि जितनी घरोहर थी ॥ १९२ ॥

उपघामिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः ।

ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्षवैः ॥ १९३ ॥

जो पुरुष छलसे पराया धन हरै उसे तथा उसके सहायको राजा अनेक
प्रकारके मारनेके उपायोंसे नष्ट करदे ॥ १९३ ॥

निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसंनिधौ ।

तावानेव स विज्ञेयो विवृण्वन्डमर्हति ॥ १९४ ॥

साक्षीके सामने जितनी घरोहर धरी जाती है वह उतनी ही माननी चाहिये,
बिरुद्ध कहनेसे आसानी दंडनीय होगा ॥ १९४ ॥

मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा ।

मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १९५ ॥

एकान्तमें रक्खी हुई घरोहर एकान्तमेंही लौटा देने चाहिये क्योंकि
आपसमें जैसा लेना वैसा देना ॥ १९५ ॥

निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च ।

राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वक्यासधारिणम् ॥ १९६ ॥

निक्षेप और प्रीतिसे रक्खे गए उपनिधिके धनकी बदल बदल करनेमें
राजा ऐसा निर्णय करे कि जिसमें रखनेवालेको कुछ पीडा नहो ॥ १९६ ॥

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः ।

न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥ १९७ ॥

जो स्वामी न हो और स्वामीकी अनुमति बिना उसकी वस्तु बेचदे वह
वास्तवमें चोर है और अपनेको चोर नहीं मानता तो राजा उसका किसी
विषयमें प्रमाण न समझे और न उसकी साक्षी माने ॥ १९७ ॥

अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः षट्शतं दमम् ।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम् ॥ १९८ ॥

यदि वह स्वामीके वंशका हो तो उसपर ६०० पण दंड करै और स्वामीके वंशका नहो अथवा स्वामीके संबन्धी पुत्रादिकसे वह धन उसे प्रतिग्रह वापुं लेकर न मिला होय तो वह चोरके पापको प्राप्त होता है अर्थात् चोरके सके दंडनीय होता है ॥ १९८ ॥

अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा ।

अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥ १९९ ॥

स्वामीके बिना जो दिया गया, बेचागया अथवा भोल लिया गया जे व्यवहारकी रीतिसे ठीक नहीं जाने ॥ १९९ ॥

संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ।

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥ २०० ॥

जहां किसी वस्तुका भोग देखा जाता हो परन्तु उसके वह आनेका को प्रमाण नहीं हो तो वहा आनेका निश्चय प्रमाण होता है भोग नहीं यही मर््याद है ॥ २०० ॥

विक्रयाद्यो धनं किञ्चिद्द्विहीयात्कुलसंनिधौ ।

क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम् ॥ २०१ ॥

बेचने योग्य स्थानसे व्यवहारियोंके सामने ठीक मूल्य पर जो वस्तु खरीदै वह विशुद्ध धन न्यायसगत होता है ॥ २०१ ॥

अधमूलमनाहार्यं प्रकाशक्रयशोधितः ।

अदण्ड्यो मुच्यते राक्षा नाष्टिको लभते धनम् ॥ २०२ ॥

जो खरीदनेवाला प्रकटमें पराई वस्तु खरीद करनेसे शुद्ध साबित हो तो उसका धन मष्ट नहीं होता और वह दंडनीय नहीं होता राजाको चाहिये कि उसे छोड़ दे ॥ २०२ ॥

नान्यदन्येन संस्पृष्टरूपं विक्रयमर्हति ।

न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम् ॥ २०३ ॥

एक वस्तुमें दूसरी वस्तु मिलाकर, दुरी को अच्छी कह कर, कम तोलकर और जो सामने न होनेसे ठीक २ मास नहो ऐसी वस्तु कोई नहीं बेच सका ॥ २०३ ॥

अन्यां चेद्दर्शयित्वान्या घोडुः कन्या प्रतीयते ।

उभे त एकशुल्केन वहेदित्यग्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥

यदि कोई उत्तम कन्या दिखाकर निकृष्ट कन्या दान करै तो वर एकही शुल्कसे (अर्थात् जो रुपया कन्याके ऊपर देना निश्चय हुआ है उससे) दोनों कन्याओंके साथ विवाह करै ऐसा मनुने कहा है ॥ २०४ ॥

नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमैथुना ।

पूर्वं दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति ॥ २०५ ॥

जो मनुष्य उन्मत्त कुष्ठ आदिसे प्रसूत और जिसके साथ मैथुन हो चुका
श्लेष्मी कन्याके दोषोंको पहिले कहकर वरको देता है वह दंडनीय नहीं
ता है ॥ २०५ ॥

ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत् ।

तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्तृभिः ॥ २०६ ॥

॥ यज्ञमें यदि ऋत्विज व्रती (रोगादिसे) अपने कर्मका त्याग करे तो
जितना काम उसने किया है उतनीही दक्षिणा उसे और करनेवालोंके साथ
देनी चाहिये ॥ २०६ ॥

दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन् ।

कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत् ॥ २०७ ॥

सब दक्षिणा लेकर यदि कार्यको पूरा न करे तो वह सब दक्षिणा रक्खें
परंतु शेष कार्य उसे किसीसे कराना होगा ॥ २०७ ॥

यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः ।

स एव ता आददीत भजेरन्सर्व एव वा ॥ २०८ ॥

जिस कार्यमें प्रत्येक अगकी जो दक्षिणा कही है उस सबको वह ऋत्विज
खयंहि लेले अथवा सब ऋत्विज उसे आपसमें बाटलें ॥ २०८ ॥

रथं हरेत चाध्वर्युर्ब्रह्माधाने च वाजिनम् ।

होता चापि हरेदश्वमुद्राता चाप्यनः क्रये ॥ २०९ ॥

आधान कार्यमें अध्वर्यु रथको, ब्रह्मा तथा होता अश्वको और उद्राता शकट-
को ग्रहण करे ॥ २०९ ॥

सर्वेषामर्द्धिनो मुख्यास्तदर्धेनार्थिनोऽपरे ।

तृतीयिनस्तृतीयंशाश्चतुर्थीशाश्च पादिनः ॥ २१० ॥

सब ऋत्विजोंमें जो मुख्य चार हैं वे आधी दक्षिणा, दूसरे चार उससे
आधी, तीसरे चार उसका तीसरा भाग और चौथे चार उसके चौथाईके
भागी होते हैं ॥ २१० ॥

संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्भिरिह मानवैः ।

अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना ॥ २११ ॥

जो लोग एकत्र मिलकर कार्य करैं उनके आपसके भागका भी कपर
कहीहुई रीतिसे निर्णय करै ॥ २११ ॥

धर्मार्थे येन दत्तं स्यात्कस्यैचिद्याचते धनम् ।

पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत् ॥ २१२ ॥

यदि किसी पुरुषने धर्मकार्यके लिये मांगनेवालेको कुछ धन दे दियाहो और याचक उस धनसे धर्मकार्य न करे तो उसे वह धन लौटा देना चाहिये ॥ २१२ ॥

यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाहोमेन वा पुनः ।

राज्ञा दाप्यः सुवर्णे स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥

यदि याचक अभिमान वा मोहके बशमें होकर प्राप्त धनको न लौटावे तो राजा उसपर पापशुद्धिके लिये एक सुवर्ण दंड करे ॥ २१३ ॥

दत्तस्यैषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम् ॥ २१४ ॥

यदातक दियेहुए धनके लौटानेका विषय कहा, अब वेतन न देनेका विषय वर्णन करता हूँ ॥ २१४ ॥

भृतोनातो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम् ।

स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥ २१५ ॥

जो सेवक स्वस्थ रहकर भी अपने कार्योंको अहकारसे नहीं करे उसपर राजा आठ कृष्णल सुवर्ण दंड करे और उसे कुछभी वेतन नदे ॥ २१५ ॥

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभापितमादितः ।

स दीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेतैव वेतनम् ॥ २१६ ॥

परंतु यदि वह पीड़ित हो और स्वस्थ होनेपर उसी प्रकार अपने कार्यको करे कि जैसा कहा था तो उसे पहिले समयका भी वेतन मिलेगा ॥ २१६ ॥

यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् ।

न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ २१७ ॥

पीड़ित हो चाहे स्वस्थ हो, यदि कार्य स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा पूरा न करे तथा उसमें थोड़ा भी बाकी रहै तो उसे उस कामका कुछ भी वेतन न देना चाहिये ॥ २१७ ॥

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयमेदिनाम् ॥ २१८ ॥

यह वेतन देनेकी विधि सपूर्ण रीतिसे कहीगई । अब व्यवस्था तोबनेवालोंके धर्म कहता हूँ ॥ २१८ ॥

यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम् ।

विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्धिप्रवासयेत् ॥ २१९ ॥

जो ग्रामवासी वा देशवासी धापथपूर्वक प्रतिज्ञा करे और फिर लोभसे भंग करे तो राजा उसे राज्यसे निकाल दे ॥ २१९ ॥

निशुद्धा दापयेच्चैनं समयव्यमिचारिणम् ।

चतुःसुवर्णान्पणिष्कांश्छतमानं च राजतम् ॥ २२० ॥

अथवा समयकी प्रतिज्ञा भंग करनेवालेको बाधकर चार सुवर्ण वा छ तिष्क वा शत रजत दंड करै ॥ २२० ॥

एतद्दण्डविधिं कुर्याद्भार्मिकः पृथिवीपतिः ।

ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥ २२१ ॥

धर्मोत्सा राजा ग्राम वा जातिसमूहमें प्रतिज्ञा भंग करनेवालेको भी इसी प्रकार दंड दे ॥ २२१ ॥

क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चिद्यस्येहानुशयो भवेत् ।

सोऽन्तर्दशाहात्तद्द्रव्यं दद्याच्चैवाददीत वा ॥ २२२ ॥

जो पुरुष किसी वस्तुको मोल लेने या बेचनेपर पीछे पश्चात्ताप करै वह उस वस्तुको दस दिनके भीतर लौटा दे वा लेछे ॥ २२२ ॥

परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत् ।

आददानो ददच्चैव राज्ञा दण्ड्यः शतानि पट् ॥ २२३ ॥

परंतु दस दिनके बाद न लेय और न देय । दस दिनके बाद वस्तु फेर-नेवालेपर राजा छ. सौ पण दंड करै ॥ २२३ ॥

यस्तु दोषवर्ती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ।

तस्य कुर्याच्चपो दण्डं स्वयं पणवर्ति पणान् ॥ २२४ ॥

जो पुरुष दोषयुक्त कन्याके दोषोंको बिना कहे यदि दान करै तो राजा स्वयं उसपर छयाणवें पण दंड करै ॥ २२४ ॥

अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद्भ्रूयेण मानवः ।

स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं तस्या दोषमदर्शयन् ॥ २२५ ॥

जो मनुष्य द्वेषसे कन्याको क्षतयोनि कहकर ऐसे दोषको साबित न कर सकै तो राजा उसपर सौ पण दंड करै ॥ २२५ ॥

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्त्रेव प्रतिष्ठिताः ।

नाकन्यासु कचिन्मृणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥ २२६ ॥

मनुष्योंमें विवाहविषयके सब मंत्र केवल कन्याके ही लिये कहे हैं क्षत-योनिके लिये नहीं क्योंकि वे धर्महीन होती हैं ॥ २२६ ॥

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् ।

तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७ ॥

विवाहके मंत्रही निश्चय कर्के स्त्रीके लक्षण हैं और उन मंत्रोंकी सिद्धि कन्या के सप्तवें पदमें पंडितोंको जाननी चाहिये (सातवा पौत्र रखनेके पहिले नहीं होती) ॥ २२७ ॥

यस्मिन्सिन्धुकृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत् ।

तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत् ॥ २२८ ॥

जिस २ कार्य के क्रिये पीछे जिस मनुष्य को पछनाता हो उस मनुष्य
राजा इसी विधिसे धर्म मार्गमें ग्यावन करे ॥ २२८ ॥

पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यक्तिक्रमे ।

विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावज्जमेतत्त्रतः ॥ २२९ ॥

अब पशुओं के विपन्नं जो खागी तथा ग्वालोंमें व्यक्तिक्रम होमाव
उस विवादको धर्मपूर्वक यथायं कटुंगा ॥ २२९ ॥

द्विचा वक्तव्यना पाले राशौ स्वामिनि तदृष्टे ।

योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात् ॥ २३० ॥

दिनमें पशुपालनेवालेको गोपिदुष्ट पशुओंने जो गौती क्षादिमें उपद्रव हो
जाय तो ग्वालने बुराई है और रात्रिमें चरगाएँ के लौटागेपर जो रात्रिमें
घरमें कोई पशु उपद्रव मचाय तो खागीका दोष है और जो दिनरत चरनेवाटै
के पास रहते हों तो चरवाहेकी ही बुराई है २३० ॥

गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुःखाद्दशतो चराम् ।

गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्वालेऽभृते भृतिः ॥ २३१ ॥

जो ग्वाल चेतनके बदलेमें दूध ले, तो यह सेवक खागीनी अनुमतिते दूध
गौओंमें जो श्रेष्ठ गौ हो उसका दूध ले सकता है यही ग्वालका चेतन होता
है ॥ २३१ ॥

नष्टं विनष्टं क्षमिभिः श्वहतं विपमे मृतम् ।

हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल पच तु ॥ २३२ ॥

यदि कोई पशु जो जाय, कीट अथवा कुत्तोंके काटनेसे नष्ट हो जाय तथा
कंचे नीचे स्थानमें गिरकर मरजाय अथवा ग्वालके पुरुषार्थ न करनेसे नष्ट
हो जाय तो ग्वालियाही खागीको देनदार है ॥ २३२ ॥

विधुष्य तु हतं चौरैर्न पालो दानुमर्हति ।

यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ २३३ ॥

जो ग्वालके पाससे चोर पशुको हरले और ग्वाल उसी देश और उसी
कालमें यह खबर अपने खागीको बकेकी बोटसे जतादे तो पशुपालक उस
हरेदुष्ट पशुका देनदार नहीं होगा ॥ २३३ ॥

कर्णौ चर्म च वालांश्च वस्त्रि ज्ञायुं च रोचनाम् ।

पशुषु स्वामिनां दद्यान्भृतेष्वङ्गानि दर्शयेत् ॥ २३४ ॥

यदि पशु स्वयं मरजाय तो उनके कान, चर्म, घाल, वस्त्रि, ज्ञायु, गौरोचन
खागियोंको दे दे और उनके (सींग खुर आदि) अंग दिखादे (कि जिससे
खागीको निश्चय हो जाय) ॥ २३४ ॥

अजाविके तु संख्द्रे वृकैः पाले त्वनायति ।

यां प्रसह्य वृको हन्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत् ॥ २३५ ॥

यदि मेड़िये आकर मेड़ बरूरीको पकड़लें और ग्वाल उनके बचानेको न धावै तो जिस बरूरी वा मेड़ीको मेड़िया बलपूर्वक मारि उसका ग्वालेपर पाप ईश्वर है अर्थात् उसका देनदार ग्वाला होगा ॥ २३५ ॥

तासां चेद्वरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने ।

धामुत्प्लुत्य वृको हन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ॥ २३६ ॥

परंतु यदि वनमें रोके हुए और साथ चरते हुए पशुओंमेंसे किसी एक पशुको मेड़िया कूदकर मारै तो उसमें ग्वालियेका दोष न होगा ॥ २३६ ॥

धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः ।

शम्यापातास्त्रयो वापि त्रिशुणो नगरस्य तु ॥ २३७ ॥

गांविके चारों ओर चारसौ हाथ अथवा तीन बार लकड़ी फेंकनेसे जहांतक पहुंचे उतना स्थान गौ चरानेके लिये रक्खै और नगरके पास इससे त्रिशुना होना चाहिये ॥ २३७ ॥

तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि ।

न तत्र प्रणयेद्वृण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥ २३८ ॥

जो इस स्थानमें विना वाड़वाधे धान्यको पशु नष्ट करै तो राजा पशु रक्षकोंको दंड न दे ॥ २३८ ॥

वृतिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकयेत् ।

छिद्रं च वारयेत्सर्वं श्वसूकरमुखानुगम् ॥ २३९ ॥

उस स्थानकी वाड़ इतनी ऊंची हो कि जिसमेंसे ऊंट न देख सके और उसमें ऐसे छेद न रक्खै कि जिसमें कुत्ते और शूकर मुख भीतर घुसेड़ सकें ॥ २३९ ॥

पथि क्षेत्रे परिवृत्ते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ।

सपालः शतदण्डोर्हा विपालान्वारयेत्पशून् ॥ २४० ॥

क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमर्हति ।

सर्वत्र तु सदा देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥

मार्गके किनारे वा ग्रामके पासके वाड़किये हुए खेतको यदि पशु नष्ट करै तो पशु पालक १०० पण दंडके योग्य होता है और जो पशुओंके साथ ग्वाला न हो और पशु चरने लगे तो खेतवाला पशुओंके खेतसे बाहर निकाल दे ॥ २४० ॥ यदि मार्ग ग्रामान्तके सिवाय अन्य खेतोंको पशु नष्ट करै तो पशुका स्वामी सवापण दंड योग्य होगा और सब खेतकी पशु नष्ट करदे तो स्वामीकी पूरी हानि देनी यही निश्चय है ॥ २४१ ॥

अनिर्देशाहं गां सूतां वृषान्देवपशूस्तथा ।

सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्मनुरग्रवीत् ॥ २४२ ॥

दश दिनके भीतरकी ब्याड़ हुई गऊ, चरु गूल्मे अंकित छोड़े हुए हैं तथा देवताओंको उद्देशसे छोड़े हुए पशुओंके साथ गाला हो चाहे न दंड नहीं दिया जायगा यह मनुजीने कहा है ॥ २४२ ॥

क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाद्दशगुणो भवेत् ।

ततोऽर्धदण्डो भूत्यानामघानात्क्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥

यदि किसानके दोपत्ते घेत नष्ट हो नो जितना कर राजाको मिलेगा ही, उसका दसगुणा धीर जो किसानके विना जाने नाकरोंकी असावधानीसे खेत नष्ट हुआ हो तो पांच गुणा दंड किसानपर होना चाहिये ॥ २४३ ॥

एतद्विधानमातिष्ठेऽधार्मिकः पृथिवीपतिः ।

स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥

स्वामी, पशु और गाले इनके अपराध करने पर धार्मिक राजाको दही प्रकार व्यवस्था करनी चाहिये ॥ २४४ ॥

सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोद्धयोः ।

ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥

यदि दो ग्रामोंकी सीमाके लिये विवाद उत्पन्न हो तो राजा जेठके महीनेमें सीमाके चिन्होंके प्रकट होनेपर सीमाका निर्णय करे ॥ २४५ ॥

सीमावृक्षांश्च कुर्वात न्यग्रोधाश्वत्थकिंशुकान् ।

शास्मलीन्सालतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान् ॥ २४६ ॥

गुल्मान्वेषूँश्च विविधाञ्जमीवह्नीस्थलानि च ।

शरान्कुड्जकगुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥

बट, पीपल, ढाक, सेमल, साल, ताल तथा गूलर आदि वृक्षके वृक्षोंकी सीमा चिन्हके लिये लगाना उचित है ॥ २४६ ॥ गुल्म, वास, अनेक प्रकारके शमीवृक्ष, बह्नी लता, मट्टीके टीले, सरपत्ते और कुञ्जक गुल्म आदि वृक्षोंकी सीमाके चिन्ह करनेसे सीमा कभी नष्ट नहीं होती ॥ २४७ ॥

तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्त्रवणानि च ।

सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥

सीमाके संधिस्थानोंमें तालाब, कुएँ, बावणी, झरने, देवस्थान निर्मित करने चाहिये ॥ २४८ ॥

उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् ।

सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ २४९ ॥

सप्सारमें मनुष्योंका सीमाके निर्णयमें सदासे भ्रम देखकर राजाको चाहिये कि और २ भी गुप्त चिन्ह करवा दे ॥ २४९ ॥

अद्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुपान्मस कपालिकाः ।

करीपमिष्टकाङ्गारांश्छर्करा वालुकास्तस्था ॥ २५० ॥

यानि चैवंप्रकाराणि कालाद्भूमिर्न भक्षयेत् ।

तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ २५१ ॥

पत्थरके डकड़े, हड्डी, गाँके बाल, तुस, राख, कपालिका, सूखा गोबर, ईंटे, पत्थरके कंकड़, कोयले और रेत तथा अन्य प्रकारकी वस्तु जिन्हें बहुत दिनोंमें भी पृथ्वी अपने रूपमें न मिला सके उनको गुप्त प्रकारसे सीमाके संधिस्थानों में रखवा दे ॥ २५० ॥ ॥ २५१ ॥

एतैर्लिङ्गैर्नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः ।

पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥

विवादयुक्त आमोंकी सीमाको इन पूर्वोक्त चिन्होंसे और पहिले जोतने बोनसे तथा जलके प्रवाहसे राजा सीमा निश्चय करे ॥ २५२ ॥

यदि संशय एव स्याल्लिङ्गानामपि दर्शने ।

साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावाद्बिनिर्णयः ॥ २५३ ॥

इन चिन्होंको देखकरमी यदि संदेह न जाय तो गवाहोंके द्वारा सीमाका निश्चय करे ॥ २५३ ॥

आमीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः ।

प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥ २५४ ॥

गांववालोंके तथा सीमाके बादी प्रतिवादी इन दोनोंके सामने राजा गवाहों से सीमाके चिन्होंको पूछे ॥ २५४ ॥

ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम् ।

निबधीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्चैव नामतः ॥ २५५ ॥

राजासे पूछे गए वे सब साक्षी जिस प्रकार सीमाका निश्चय कहें उसी प्रकार सीमाको और उन सब साक्षियोंके नामोंको राजा एक पत्र पर लिख दे ॥ २५५ ॥

शिरोमिस्ते गृहीत्वोर्वी स्रग्विणोरक्तवाससः ।

सुकृतैः श्यापिताः स्वैःस्वैर्नयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥

सब गवाह गलेमें माला धारण किये, रक्त बन्न पहिरे और माथेपर मृत्तिकाको रखकर और अपने २ पुण्योंकी सौगन्द ब्याकर यथाधरीतिसे सीमाका निर्णय करे ॥ २५६ ॥

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ।

विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्द्विंशतं दमम् ॥ २५७ ॥

सच्चे गवाह ज्यों की त्यों बात कह कर निष्पाप होते हैं और झूठी गवाही देनेवालो पर राजा दोसौ पण दंड करे ॥ २५७ ॥

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तग्रामिनः ।

सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयत्ना राजसंनिधी ॥ २५८ ॥

और जो साक्षियोंका अभावहो तो यमीगन्ध राज ग्राम सत्यधान हंइ राजके सामने सीमाका निर्णय करे ॥ २५८ ॥

सामन्तानामभावे तु मालानां मीमांसा साक्षिणाम् ।

इमानप्यनुयुक्षीत पुरुषान्वनगोचरान् ॥ २५९ ॥

यदि उक्त चार ग्राम और ग्राममें मद्रागे रहनेवाले साक्षियोंका अभाव होय तो राजा (आगे कहे) वनमें निरनेवाले पुरुषोंके धर्मज्ञोंका साक्षी ले ॥ २५९ ॥

व्याघ्रच्छाकनिकान्गोपान्कथतान्मूलखानकाम् ।

व्यालप्राह्वानुच्छृत्सीनन्याक्ष वनचारिणः ॥ २६० ॥

व्याध, पक्षियोंका माग धेननेवाले, गाले, मन्मरीही, वनमें अंदरसे संग्रह करनेवाले, सपेरे, उच्छृत् शक्तिवाले और कल फूल आदि कर्तार अलग इनसे सीमाकी बात पूछे ॥ २६० ॥

ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः सीमासंधिषु लक्षणाम् ।

तत्तथा स्यात्पथेद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्धयोः ॥ २६१ ॥

पूछनेपर वे लोग सीमाके विषयमें अपना लक्षण कहें उसी भांति राजा दोनो ग्रामोंकी सीमा धर्मसे बाधे ॥ २६१ ॥

क्षेत्रकूपनडागानामारामस्य गृहस्य च ।

सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥

खेत, कुआ, तालाब, बगीचा या गृह इनकी सीमाका निर्णय उस देशके रहनेवाले गवाहोंके द्वारा जाने ॥ २६२ ॥

सामन्ताश्चेन्मृषा ब्रूयुः सेतौ विवदतां नृणाम् ।

सर्वे पृथक्पृथक्द्रण्ड्या राक्ष मध्यमसादसम् ॥ २६३ ॥

यदि सीमाकी मर्यादा के विवाद करनेवाले मनुष्योंकी साक्षी देनेमें देहवाली झूठ बोलें तो राजा उन सबपर अलग २ मध्यम साहस दंड करे ॥ २६३ ॥

गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषथा हरन् ।

शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादक्षानाद्विशतो दमः ॥ २६४ ॥

जो पुरुष भय दिखाकर दूसरेका घर, तालाब, बगीचा और खेत हरें तो राजा उसपर पाचसौ पण दंड करे और जो अज्ञानसे हरें तो दोसौ पण दंड करे ॥ २६४ ॥

सीमायामविपह्यायां स्वयं राजैव धर्मवित् ।

प्रदिशेद्भूमिर्मेतेपामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥

यदि अन्य उपायोंसे सीमा ठीक नहो तो धार्मिक राजा स्वयं इनका उपकार समझ दोनोंको भूमि बांट दे ऐसीही व्यवस्था है ॥ २६५ ॥

पषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि चाकपारुष्यविनिर्णयम् ॥ २६६ ॥

सीमा निर्णयमें यह सब धर्म तुमसे कहा इसके उपरांत कठिन वचन के पूर्वार्धमें निर्णय कहंगा ॥ २६६ ॥

शतं ब्राह्मणमाकुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति ।

वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमर्हति ॥ २६७ ॥

ब्राह्मण को कठोर वचन कहने से क्षत्रिय एक सौ पण के, वैश्य डेढ़ वा दो सौ पण के दंड योग्य होता है और शूद्र वध के योग्य होता है ॥ २६७ ॥

पञ्चाशद्ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिर्शसने ।

वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्रे द्वादशको दमः ॥ २६८ ॥

क्षत्रियसे कठोर वचन कहनेपर ब्राह्मण को पचास, वैश्य को पच्चीस और शूद्रको बारह पण दंड होगा ॥ २६८ ॥

समवर्णे द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे ।

वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥ २६९ ॥

द्विजातियोंके आपसमें कठोर वचन कहनेसे बारह पण और (माता, भगिनी आदिके) अनुचित गाली बकने से इस से दूना दंड होगा ॥ २६९ ॥

एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ।

जिह्वायाः प्राभुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ २७० ॥

शूद्र यदि द्विजाति यों से कठोर वचन कहै तो उसे जिह्वा छेदनका दंड दिया जायगा क्योंकि वह अधम, पादसे उत्पन्न है ॥ २७० ॥

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ।

निक्षेप्योऽयोमयः शङ्खूर्ज्वलजास्ये दशाहुलः ॥ २७१ ॥

नाम और जाति लेकर यदि शूद्र द्रोहसे द्विजातियोंकी निन्दा करै तो जलते हुए दूध अगुल लोहकी शलाका उसके मुखमें डाली जाय ॥ २७१ ॥

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः ।

तसमासेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥

यदि शूद्र अभिमान से द्विजातियोंको धर्मका उपदेश करै तो राजा उसके मुख और कानोंमें तपाया हुआ तेल डालै ॥ २७२ ॥

श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च ।

वितथेन ब्रुवन्दर्पाहाप्यः स्याद्विशतं दमम् ॥ २७३ ॥

किसी मनुष्य के विद्या, देश, जाति, तथा शारीरक सस्कार इनको धमंड से शूद्रा बतावै तो उसपर सौपण दंड होना चाहिये ॥ २७३ ॥

कारणं वाप्यथवा खल्लमन्यं वापि तथाविधम् ।

तथ्येनापि वृवन्दाप्यो दण्डं कार्षीपणावरम् ॥ २७४ ॥

यथार्थमें होनेपर भी यदि कोई किसीसे काना, लंगवा और गंजा कुनवा
आदि कहै तो राजा उस पुरुषपर एक कार्षीपण दंड करै ॥ २७४ ॥

मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम् ।

आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ॥ २७५ ॥

जो माता, पिता, पत्नी, भाई, पुत्र और गुरुकी निन्दा करै वा गुरु के लिये
मार्ग न छोड़े उसपर एक सौ पण दंड होना चाहिये ॥ २७५ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता ।

ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥

ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें कहा सुनी होनेसे राजा ब्राह्मण पर पूर्वसाहस और
क्षत्रीपर मध्यम साहस दंड करै ॥ २७६ ॥

विद्रुद्रयोरैवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः ।

छेदवर्जं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥

वैश्य और शूद्र की आपसमें कहा सुनी होनेपर वैश्यको प्रथम साहस और
शूद्रको मध्यम साहस दंडदे परंतु शूद्रकी जीभ न काटै (जीभ तो ब्राह्मण
क्षत्रीको पतित बतानेमेंही काटै) इस दंडका यही निश्चय है ॥ २७७ ॥

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम् ॥ २७८ ॥

यह कठोर वचन की यथार्थ दंड विधि कही, अब इसके पीछे कठोर दंड
विधि कहूंगा ॥ २७८ ॥

येन केनचिद्द्वेन हिंस्याच्चेच्छ्लेषमन्यजः ।

छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ २७९ ॥

पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति ।

पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति ॥ २८० ॥

शूद्र जिस अगसे द्विजाति को मारे, राजा उसका वही अंग कटवाले, यह
मनुकी आज्ञा है ॥ २७९ ॥ जो शूद्र, द्विजातिको मारने के लिये हाथ वा
लकड़ी उठावै तो राजा उसका हाथ कटवाले और क्रोधकर लात मारनेपर
उसका पैर कटवाले ॥ २८० ॥

सहासनममिप्रेस्तुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ।

कथ्यां कृताङ्गो निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥ २८१ ॥

जो शूद्र ब्राह्मणके साथ एक आसनपर बैठना चाहै तो राजा उसकी कमर-
पर दगवाकर उसे देशसे निकलवा डे वा उसके चूतड़ कतरवाले ॥ २८१ ॥

अचनिष्ठीवतो दर्पाद्वाचोष्टौ छेदयेन्नृपः ।

अवमूत्रयतो मेढमचशर्धयतो गुदम् ॥ २८२ ॥

यदि शूद्र अभिमानसे ब्राह्मणके ऊपर थूकें तो राजा उसके दोनों होठ मारले, पेशाव करनेसे लिंगेन्द्रिय और अधोवायु करनेसे गुदाकी जगह कटवादे ॥ २८२ ॥

केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेद्विचारयन् ।

पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥

जो शूद्र अभिमानसे ब्राह्मणके केश, चरण, दाढी, ग्रीवा, वृषण पकड़ें तो राजाविना विचार कियें उस शूद्रके हाथ कटवा ले ॥ २८३ ॥

त्वग्मेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शकः ।

मांसभेत्ता तु पण्णिकान्प्रवास्यस्त्वस्थिमेदकः ॥ २८४ ॥

समान जातियोंमें चर्ममेद करने वा रुधिर निकालनेसे एक सौ पण और मांस मेद करनेवालेको छ निष्क दंड दे तथा हड्डी छेदनेवालेको तो राज्यसेही निकाल दे ॥ २८४ ॥

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथायथा ।

तथातथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥

वृक्ष आदि सब वनस्पतियोंका जैसा २ उपभोग होता है अर्थात् फल, पुष्प, पत्र आदिके जैसा २ उत्तम मध्यम और अधम रूप होता है वैसाही वैसा उनकी हिंसामेंभी (उत्तम साहस आदि) दंड करना चाहिये यह निश्चय है ॥ २८५ ॥

मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति ।

यथायथा महद्दुःखं दण्डं कुर्यात्तथातथा ॥ २८६ ॥

मनुष्य अथवा पशुओंको प्रहारसे पीडित करनेपर जैसा २ अधिक दुःखहो वैसाही वैसा अधिक दंड दे ॥ २८६ ॥

अङ्गावपीडनायां च व्रणशोणितयोस्तथा ।

समुत्थानव्यर्थं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥

अंगच्छेद, घाव करने वा रक्त बहानेकी पीडा देनेपर राजा घायल पुरुषके औषधि, पथ्य आदिका सब व्यय दिलावे और न देनेपर राजा व्ययके अनुसार प्रहार करनेवाको पूर्ण दंड दे ॥ २८७ ॥

द्रव्याणि हिंसाद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ।

स तस्योत्पादयेत्तुष्टिं राशे दद्याच्च सत्समम् ॥ २८८ ॥

जो मनुष्य ज्ञानसे वा अज्ञानसे जिसका द्रव्य नष्ट करे वह उतनाही द्रव्य देकर उसके स्वामीको संतुष्ट करे और राजाको भी दंडमें उतनाही द्रव्य दे कि जितना उसने नष्ट किया है ॥ २८८ ॥

चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ठमयेषु च ।

मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥

चमबा, चमड़ेके पात्र, काष्ठ, मट्टीके बर्तन, फूल, मूल फल आदि नष्ट करनेपर उनका पंचगुना दंड राजाको दे (और उनके स्वामीको प्रसन्न करै) ॥ २८९ ॥

यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च ।

दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥

सवारी, सारथी और यानका स्वामी इनके दश अपराधोंको छोड़ अन्य अपराधोंमें दंड कहा है ॥ २९० ॥

छिन्ननास्ये भग्नगुणे तिर्यक्प्रतिमुखागते ।

अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथैव च ॥ २९१ ॥

छेदने चैव यन्त्राणां योक्तरश्म्योस्तथैव च ।

आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरब्रवीत् ॥ २९२ ॥

वैलकी नाथ छिद जाय, जुआ टूट जाय, ऊंची नीची भूमिपर रथ तिरछा हो जाय वा पहिये के बीचका काठ टूट जाय या पहिया टूट जाय, चर्मबन्धन, पशुओंके गर्दनकी रस्ती वा रास टूट जाय तब और जोरसे लोगोंको पुकार कर (टूट जाओ २ ऐसा) सावधान करदेनेपर कुछ हानि होती किसीको दंड न होगा, यह मनु कहते हैं ॥ २९१ ॥ ॥ २९२ ॥

यत्रापवर्तते युग्यं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु ।

तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम् ॥ २९३ ॥

जहा सारथी के दोषसे रथके इधर उधर होनेके कारण प्राण हिंसा हो जाय वहा मूर्ख साथी के रखने के कारण रथके स्वामीपर दोसी पण दंड होगा २९३

प्राजकश्चेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति ।

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याः शतं शतम् ॥ २९४ ॥

यदि सारथी कुशल हो और उससे कुछ हानि हो जाय तो सारथीही दंडके योग्य है और यदि सारथी कुशल नहो तो रथमें बैठे हुए हरएक पुरुष तौ सौ पण दंडके योग्य होते हैं ॥ २९४ ॥

स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा ।

प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २९५ ॥

परंतु यदि सारथी मार्गमें गौ आदि पशु वा रथ आदि सवारियोंसे रुकने परमी रथ चलावे और उससे किसी प्राणी की हत्या हो जाय तो राजा बिना विचार किये ही उसे दंड दे ॥ २९५ ॥

मनुष्यमारणे क्षिप्तं चौरवृत्तिकल्पितं भवेत् ।

प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोद्गृहयादिषु ॥ २९६ ॥

यदि सारथीकी असावधानी से कोई मनुष्य मर जाय तो चौर के समान

उसे पाप होता है इसलिये उसे उत्तम साहस हजारपण दंडदे और यदि गौ, हाथी, ऊंट, घोड़ा आदि बड़े जीव मर जाय तो आधा पाप होता है अर्थात् उसे ५०० पण दंड दे ॥ २९६ ॥

शुद्रकार्णां पशूनां तु हिंसायां द्विशतो दमः ।

पञ्चशतु मेवदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७ ॥

सारथीसे छोटे पशुओंकी हिंसा होनेपर दोसौ पण और रुद्र, पृषत् आदि श्रेष्ठ मृग और शुक्र सारिका आदि श्रेष्ठ पक्षियोंके मरनेपर पचास पण दंड होना चाहिये ॥ २९७ ॥

गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः ।

माषिकस्तु भवेदण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ २९८ ॥

गधा, बकरी, भेड़ आदिके मारनेसे पाच मासे चाबीका दंड होगा और कुत्ता, शकर मारनेसे एक मासा चाबीका दंड होना चाहिये ॥ २९८ ॥

मार्यां पुत्रञ्च दासञ्च प्रेप्यो भ्राता च सोदरः ।

प्रासापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्ना वेणुदलेन वा ॥ २९९ ॥

स्त्री, पुत्र, दास, भूल और सहोदर भाइयोंके अपराध करनेपर रस्ती वा बाँसकी पतली लकड़ीसे उनकी ताड़ना करै ॥ २९९ ॥

पृथ्वस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचन ।

अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम् ॥ ३०० ॥

परंतु रस्ती आदिसे पीठपर ताड़ना करै मुखपर कदापि न मारै अन्यथा ताडन करनेवाला चोर के समान अपराधी होता है ॥ ३०० ॥

एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः ।

स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ ॥

यह सब कठिन दंडका विधान कहा अब चौर के दंडके निर्णय की विधि कहूंगा ॥ ३०१ ॥

परमं यत्नमातिष्ठेस्तेनानां निग्रहे नृपः ।

स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०२ ॥

चौराको दंड देनेमें राजा परम यत्न करै क्योंकि चोरोंको दंड देनेसे राजाके यश तथा राज्यकी वृद्धि होती है ॥ ३०२ ॥

अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः ।

सन्नं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम् ॥ ३०३ ॥

जो राजा प्रजाको अभय करता है उसका सदा पूजन करना चाहिये क्योंकि अभय की है दक्षिणा जिसमें ऐसा उस राजाका यज्ञरूप देश सदा बढ़ता है ॥ ३०३ ॥

सर्वतो धर्मं पद्मभागो राक्षोभवति रक्षतः ।

अधर्मादपि पद्मभागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥

रक्षा करनेवाले राजाका सबके धर्ममें से छटा भाग होता है और रक्षा न करनेवालेका अधर्ममें से छटा भाग होता है ॥ ३०४ ॥

यदधीते यद्यजते यद्दाति यदर्चति ।

तस्य षड्भागमात्राया सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

मनुष्य जो पढता है, यज्ञ करता है, दान देता है और देवताओंका पूजन करता है उन सबमें से प्रजाकी रक्षा के कारण राजा छटे हिस्से का भागी होता है ॥ ३०५ ॥

रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा बध्यांश्च घातयन् ।

यजतेऽहरहयैज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६ ॥

राजा धर्म से प्रजाकी रक्षा करता हुआ और बध योग्य लोगों को मारता हुआ प्रति दिन एक लाख गौ दक्षिणावाले यज्ञ के समान फल पाता है ३०६

योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः ।

प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं व्रजेत् ॥ ३०७ ॥

जो राजा प्रजा की रक्षा न कर के बलि, कर, शुल्क, प्रतिभाग और छेता है वह मरकर शीघ्र नरकमें जाता है ॥ ३०७ ॥

अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम् ।

तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥ ३०८ ॥

जो राजा प्रजाकी रक्षा न कर बलिका छटा भाग छेता है उस राजाको पण्डित जन सब लोकों के पापका भागी कहते हैं ॥ ३०८ ॥

अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम् ।

अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम् ॥ ३०९ ॥

शास्त्र के अनुसार नहीं बर्तनेवाला, नास्तिक, अधिक लोभी, अरक्षक और सर्वस्वहारी राजाको अधोगामी जानना चाहिये ॥ ३०९ ॥

अधार्मिकं त्रिमिर्न्यायैर्निगृहीयात्प्रयत्नतः ।

निरोधनेन बन्धेन विविधेन बधेन च ॥ ३१० ॥

हथकडी पहिराना, कैद करना, तथा हाथ पाव काटना आदि अनेक भाति से यज्ञपूर्वक दंड देना इन तीन उपायों से राजा चोर आदि को शारीरिक दंड दे ॥ ३१० ॥

- (१) अन्नका छटा भाग (२) जो प्रतिमास वा छटे मास लिया जाय
 (३) व्यापारियों से लिया गया सद्व्यय. (४) फल पुष्प शाक आदि की चुगी.
 (५) जुर्माना—

निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च ।

द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥

जैसे द्विजाति यज्ञ करके पवित्र होते हैं, उसी भाँति पापियोंको दंड देनेसे और साधुओंपर अनुग्रह करने से राजा लोग सदा पवित्र होते हैं ॥ ३११ ॥

क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्थिणां नृणाम् ।

वालवृद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः ॥ ३१२ ॥

अपना हित चाहनेवाले राजा को चाहिये कि वादीप्रतिवादी, वालक, बूढ़े और आतुरों के आक्षेपयुक्त वचनों को सदा क्षमा करे ॥ ३१२ ॥

यः क्षिप्तो मर्पयत्यातैस्तेन स्वर्गं महीयते ।

यस्त्वैश्वर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥

जो राजा पीड़ित मनुष्योंके कठोर वचन सहता है, वह स्वर्गमें पूजित होता है परंतु जो प्रभुतासे दुखियोंके कठोर वचनों को क्षमा नहीं करता वह नरकगामी होता है ॥ ३१३ ॥

राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता ।

आचक्षणेन तत्स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम् ॥ ३१४ ॥

स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम् ।

शार्किं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥

चोर, मूसल वा खैर का दंड अपने कंधेपर रखकर वा दोनों ओर पैनी बरछी वा लोहेका दंड रखकर बाल खोलें दौबता हुआ राजा के पास जाए और अपना अपराध कहै कि मैं चोरहूँ मुझे दंड दीजिये ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेन स्तेयाद्विमुच्यते ।

अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम् ॥ ३१६ ॥

चोरको शिक्षा देनेसे वा छोबनेसे चोर चोरी के पाप से छूटता है । यदि राजा चोरको दंड न दे तो चोरके पापका भागी होता है ॥ ३१६ ॥

अन्नादे भ्रूणहा मारिं पत्यौ भार्यापचारिणी ।

गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम् ॥ ३१७ ॥

ब्रह्महत्यारे का पाप उसके अन्न खानेवाले को, व्यभिचारिणी स्त्रीका पाप उसके पतिको, शिष्यका पाप गुरुको, यजमानका पाप यज्ञ करानेवालेको और चोरका पाप राजाको लगता है (इस लिये राजा चोरको अवश्य दंड दे) ३१७

राजमिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ।

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥

पापी पुरुष राजाके द्वारा दंड पानेपर, साधु तथा पुण्यात्माओं की भाँति निर्पाप होकर स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३१८ ॥

अग, चोरीके पापसे छूटनेके लिये कटवा डाले (कि जिसमें वह फिर चोरी न करे) ॥ ३३४ ॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ३३५ ॥

पिता, आचार्य, मित्र, माता, भार्या, पुत्र और पुरोहितको भी अपने धर्ममें तत्पर न रहनेसे राजा दंड दे सकता है ॥ ३३५ ॥

कार्पापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६ ॥

जिस अपराधपर साधारण मनुष्यको एक पण दंड होगा यदि राजा उसे स्वयं करे तो उसपर सहस्र पण दंड होनेकी शाल मर्यादा है ॥ ३३६ ॥

अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम् ।

षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्क्षत्रियस्य च ॥ ३३७ ॥

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं चापि शतं भवेत् ।

द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ ३३८ ॥

चोरीके गुणदोषोंको जाननेवाले शूद्रको चोरीसे आठ गुना, वैश्यको सोलह गुना, क्षत्रीको बत्तीस गुना और ब्राह्मणको चौंसठ गुना, सौ गुना एक एक सौ अठाईस गुना दंड होगा ॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥

वानस्पत्यं मूलफलं दार्विद्र्यर्थं तथैव च ।

तृणं च गोभ्यो प्रासार्थमस्तेयं मयुरव्रवीत् ॥ ३३९ ॥

वनस्पतियोंके फल मूल, होमकी अग्निके लिये काठ और गौके चरानेके लिये तृण ले जानेको मनुने चोरी नहीं कहा है ॥ ३३९ ॥

योऽदत्तादायिनो हस्ताङ्घ्रिप्सेत ब्राह्मणो धनम् ।

याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ३४० ॥

प्राप्तन यदि यज्ञ करानेकी और अध्यापनकी दक्षिणाका धन भी चोर के हाथसे लेनेकी इच्छा करे तो वह भी चोरके भाति गिना जायगा ॥ ३४० ॥

द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्वाविष्णुं द्वे च मूलके ।

आदानः परक्षेत्रात्त दण्डं दातुमर्हति ॥ ३४१ ॥

द्विजानि पथिक के पास यदि भोजनकी वस्तु न रहे और वह भूसा होने पर पराये खेतमेंसे दो ईश वा मूली ले ले तो वह दण्ड देनेके योग्य नहीं होता ॥ ३४१ ॥

असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः ।

दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चोरकिल्बिषम् ॥ ३४२ ॥

दस्तरके छूटे हुए पशुओंको वाधनेवाला, तथा दस्तरके बंधे हुए पशुओंको

खोलनेवाला और दास, घोड़े तथा रथका हरनेवाला चोरकी भांति दंडनीय है ॥ ३४२ ॥

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम् ।

यशोऽस्मिन्प्राभुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥

इस भाति जो राजा चोरोंको दंड देता है वह इस लोकमें यश और परलोकमें परम उत्तम सुख पाता है ॥ ३४३ ॥

ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेत्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥

जो राजा इन्द्रत्व पानेकी इच्छा करे और जो भक्षय, अव्यय यश चाहे वह क्षणभरके लिये भी साहसिक मनुष्यकी उपेक्षा न करे अर्थात् उसे तत्काल दंड दिये बिना न छोड़े ॥ ३४४ ॥

वाग्दुष्टान्तस्करान्चैव दण्डेनैव च हिंसतः ।

साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥

दुष्ट वचन बोलनेवाला, चोर तथा दंडसे मार पीट करनेवाला इनसे साहस करनेवाला मनुष्य अत्यन्त पापी है ॥ ३४५ ॥

साहसे वर्तमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः ।

स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥

जो राजा साहसिकोंको दंड न दे कर उनको क्षमा करता है वह शीघ्रही नष्ट हो जाता है और प्रजा उससे वैर करने लगती है ॥ ३४६ ॥

न मित्रधारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।

समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतमयावहान् ॥ ३४७ ॥

मित्रता वा अधिक धनके लोभसे सब लोगोंको डरानेवाले साहसीको राजा कमी न छोड़े ॥ ३४७ ॥

शस्त्रं द्विजातिमिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते ।

द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥

आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे ।

स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च घ्नन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥

जब द्विजोंके धर्मका मार्ग रुके, अथवा समयके प्रभावसे आश्रमवालोंका वर्ण विप्लव होने लगे उस समय अपनी रक्षाके लिये तथा दक्षिणा (धन, गौ आदि हरने) के समय, युद्धमें, स्त्रियों तथा ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये द्विजाति भी शस्त्र ग्रहण करें क्योंकि धर्मके युद्धमें शत्रुओंको मारता हुआ दोषका भागी नहीं होता (दूसरेके मारनेमेंभी यहां साहसका दंड नहीं करना चाहिये) ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥

गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि मारनेके लिये भाव और अपनी रक्षाका कोई उपाय न दीखै तो बिना विचारे उसका वध करै ॥ ३५० ॥

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।

प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥

प्रकाश वा गुप्त रीतिसे आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कुछ पाप नहीं होता क्योंकि क्रोधही क्रोधका नाश करता है अर्थात् क्रोध अपराधी है और क्रोधही मारनेवाला है ॥ ३५१ ॥

परदारामिमर्शेषु प्रवृत्तान्महीपतिः ।

उद्वेगजनकरैर्दण्डैश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥

राजाको चाहिये कि पराई ज़ियोसे विषय करनेवाले मनुष्योंको अनेक भातिके उद्वेगजनक दंडोसे नाक कान आदि कटवाकर देशसे निकाल दे ३५२

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः ।

येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥

पराई ज़ियोके साथ विषय करनेसे वर्णसंकर उत्पन्न होता है कि जिस संकरसे जगत्के मूलका नष्ट करनेवाला अधर्म सब जगत्का नाश कर देता है ॥ ३५३ ॥

परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन्नहः ।

पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥ ३५४ ॥

जो पहिलेसे परस्त्रीके दोषसे दूषित होकरभी यदि एकात्ममें पराई स्त्रीसे बातचीत करै तो वह प्रथम साहस दंड पावैगा ॥ ३५४ ॥

यस्त्वननाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात् ।

न दोषं प्राप्नुयार्त्किञ्चिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५५ ॥

जो पहिलेसे निर्दोष हो और यदि किसी कारणसे एकात्ममें परस्त्रीसे बातचीत करे, तो उसे कुछ दोष नहीं होगा क्योंकि उसका कोई अपराध नहीं है ॥ ३५५ ॥

परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा ।

नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात् ॥ ३५६ ॥

तीर्थ, जंगल, वन वा नदियोंके संगमस्थानमें जो पराई स्त्रीसे बातचीत करै उसे स्त्रीसंग्रहणका दंड मिलैगा ॥ ३५६ ॥

उपचारक्रिया केलिः स्पर्शां भूपणचाससाम् ।

सह खट्वासनं चैव सर्वे संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५७ ॥

पराई स्त्रीके पास सुगन्धित माला आदि मेजना, हंसी, आलिंगन आदि करना, गहने और वस्त्र छूना, एक शय्या पर सौना इन सबको मन्वादिकोंने संग्रहण कहा है ॥ ३५७ ॥

स्त्रियं स्पृशेद्देशे यः स्पृष्टो वा मर्पयेत्तया ।

परस्परस्यानुमते सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५८ ॥

यदि पुरुष अन्वकी स्त्रीके नहीं छूनेयोग्य (स्नान जघा आदि) स्थानको छुए और पुत्रका स्थान यदि स्त्री छुए और ऐसा करनेसे वे आपसमें स्पर्श न हो तो यह दोष परस्पर स्वीकार होनेसे संग्रहण कहा जायगा ॥ ३५८ ॥

अग्राहणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति ।

चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥

यदि शूद्र उक्त रीतिसे अकामा ब्राह्मणीका संग्रहण करे तो उसे बच दंड होगा क्योंकि चारों वर्णोंको चाहिये कि भार्याको अत्यंत रक्षित रखे ॥ ३५९ ॥

भिक्षुका चन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा ।

संभाषणं सह स्त्रीभिः कुर्युर्प्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥

भिक्षुक, बन्दी, ऋत्विक्, सूफकार, और कारीगर ये पराई स्त्रियोंके साथ बातचीत कर सकते हैं (ये संग्रहणके दंड भागी नहीं हैं) ॥ ३६० ॥

न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिपिद्धः समाचरेत् ।

निपिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमर्हति ॥ ३६१ ॥

पतिके मने करनेपर मनुष्य पराई स्त्रियोंसे बातचीत न करे । मने करनेपर भी जो मनुष्य संभाषण करेगा उसपर एक सुवर्ण दंड होगा ॥ ३६१ ॥

नैष चारणदारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु ।

सज्जयन्ति हि ते नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२ ॥

परस्त्री सवन्धमें जो विधि कही गई है वह नष्ट, गानेवाले और भार्यासे जीविका करनेवालोंके लिये नहीं है क्योंकि वे तो आपही अपनी स्त्रियोंको सजा कर दूसरोंके संग करदेते हैं और छिपकर दूसरेको स्त्रीके साथ विषय स्पर्शा देखते हैं ॥ ३६२ ॥

किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां तामिराचरन् ।

प्रौष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रव्रजितासु च ॥ ३६३ ॥

तोभी इन लोगोंकी स्त्रिया, दासी, बौद्धमतिस्त्री स्त्री, और ब्रह्मचारिणी इनके साथ एकांतमें बातचीत करनेपर कुछ दंड देना चाहिये ॥ ३६३ ॥

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स संधो बधमर्हति ।

सकामां दूषयंस्तुल्यो न बधं प्राप्नुयान्नरः ॥ ३६४ ॥

जो समान जातिका मनुष्य, नहीं चाहती हुई कन्याके साथ गमन करेगा

उसे सद्य प्राणदंड होगा परंतु जो वह कन्या सकामा होगी तो दंड न होगा ॥ ३६४ ॥

कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत् ।

जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्बृहत् ॥ ३६५ ॥

नीच जातिकी कन्या अपनेसे ऊंची जातिके पुरुषके साथ सग करे ॥ उसपर कुछ दंड न करे और जो नीच जातिसे गमन करे तो उसे रोककर घरमें बसावे ॥ ३६५ ॥

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति ।

शुल्कं दद्यात्सेवमानः समाभिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥

नीच जातिका पुरुष यदि उत्तम जातिकी कन्यासे भोग करे तो उसका वध होगा परंतु समान जातिकी सकामा कन्याके साथ भोग करनेसे कन्याका पिता चाहै तो उसे वह (नीच मनुष्य) मोल देकर उस कन्याके साथ विवाह कर ले ॥ ३६६ ॥

अमिषह्य तु यः कन्यां कुर्याद्दुर्पेण मानवः ।

तस्याशु कर्त्तव्यं अङ्गुल्यौ दण्डं चार्हति षट्शतम् ॥ ३६७ ॥

जो पुरुष बलपूर्वक अहंकारसे किसी कन्याकी योनिमें अगुली डाले तो उसी समय उसकी अगुलिया कटवा डाले और ६०० पण दंड करे ॥ ३६७ ॥

सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्नुयात् ।

द्विशतं तु दर्म दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥

सकामा कन्याकी योनिमें अगुली डालनेवाले सजातीय मनुष्यकी अगुली नहीं काटी जायगी परंतु आगेको इस प्रसंगसे रोकनेके लिये उसपर दोसौ पण दंड होगा ॥ ३६८ ॥

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद्विशतो दमः ।

शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्चैवाश्रुयाद्दश ॥ ३६९ ॥

यदि कोई कन्या दूसरी कन्याकी योनिमें अगुली डालकर उसका कन्यापन नष्ट करे तो उसपर दोसौ पण दंड हो और वह दूना दंड इस कन्याके वार्द्धको दे और राजा उसपर दस बैत पढ़वावे ॥ ३६९ ॥

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्ड्यमर्हति ।

अङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७० ॥

इस प्रकार यदि कोई स्त्री कन्याको नष्ट करे तो राजा उसका सिर तत्काल मुड़ादे वा अंगुली कटवा ले वा गधेपर चढ़ा कर उसे राजमार्गमें धुमावे ३७०

भर्तारं लह्वयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता ।

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बह्वसंस्थिते ॥ ३७१ ॥

जो स्त्री, जाति वा सुन्दरताके गर्वसे पर पुरुषसे गमन करती है उसे राजा बहुतसे लोगोंके सामने कुत्तोंसे नुचवा डाले ॥ ३७१ ॥

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे ।

अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत् पापकृत् ॥ ३७२ ॥

पापी जार पुरुषको तपाये हुए लोहेकी शय्यापर सुलाकर काष्ठ रख अभिसे जला दे कि जिसमें पापी जलजाय ॥ ३७२ ॥

संवत्सराभिश्शस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः ।

त्रायया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ ३७३ ॥

एकवार दंडित होकर यदि फिर कोई एक वर्षके भीतर परस्त्रीगमनसे दूषित हो, तो उस दुष्टको दूना दंड होगा, और त्रास्य जाति तथा चाण्डाल जातिकी स्त्रीके साथ भोग करनेसे भी यही दंड होगा ॥ ३७३ ॥

शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन् ।

अगुप्तमङ्गसर्वस्वैर्गुप्तं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥

यदि शूद्र, रक्षित वा अरक्षित जातिकी स्त्रीसे भोग करे तो अरक्षिता स्त्रीके साथ भोग करनेसे उसे मूत्रेन्द्रियरहित कर दे और रक्षित स्त्रीके साथ गमन करने से उसे सर्वस्व हरण कर प्राणवधका दंड दे ॥ ३७४ ॥

वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः ।

सहस्रं क्षत्रियो दण्ड्यो मौण्ड्यं मूत्रेण चार्हति ॥ ३७५ ॥

यदि क्षत्रिय और वैश्य, रक्षित ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो वैश्यको एक वर्षकी कैद और सर्वस्वहरणका दंड दे और क्षत्रियको एक हजार पण दंड होगा और गधेके मूत्रसे उसका शिर मुझाया जायगा ॥ ३७५ ॥

ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ ।

वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

यदि वैश्य और क्षत्रिय, अरक्षिता ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो वैश्य पर पाचसौ और क्षत्री पर एक हजार पण दंड करे ॥ ३७६ ॥

उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ।

विष्टतौ शूद्रवदण्ड्यौ दग्धव्यौ वा कटाग्निना ॥ ३७७ ॥

यदि वैश्य और क्षत्रिय रक्षिता ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो उन्हें शूद्रकी भांति दंड होगा अथवा राजा उन्हें तृणभिसे जला दे ॥ ३७७ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलाद्भजन् ।

शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ ३७८ ॥

यदि ब्राह्मण रक्षित ब्राह्मणीके साथ बलपूर्वक गमन करे तो एक हजार तथा सकामा ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो उसपर पाचसौ पण दंड होगा ॥ ३७८ ॥

मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते ।

इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ॥ ३७९ ॥

वध न करके ब्राह्मणके सिरका मुडनही करा दे यही प्राणातक दंड है और अन्य वर्णोंको प्राणान्त दंड ही सफा है ॥ ३७९ ॥

न जानु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रादेनं वहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम् ॥ ३८० ॥

सब पापोंमें स्थित होने पर भी ब्राह्मणका वध कदापि न करै, उसे धन-सहित अक्षत शरीरसे राज्यसे निकाल दे ॥ ३८० ॥

न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो विद्यते भुवि ।

तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥

वैश्यञ्चेत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो ब्रजेत् ।

यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभौ दण्डमर्हतः ॥ ३८२ ॥

ब्राह्मणवधके समान दूसरा अधिक पाप पृथ्वीपर नहीं है इसलिये राजा मनमें भी ब्राह्मणवधका विचार न करै ॥ ३८१ ॥ वैश्य यदि रक्षित क्षत्रियासे और क्षत्री वैश्यासे गमन करै तो इन दोनोंको अरक्षिता ब्राह्मणीगमनके समान दंड होगा ॥ ३८२ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते व्रजन् ।

शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वै भवेद्दमः ॥ ३८३ ॥

यदि ब्राह्मण रक्षित क्षत्रिया अथवा वैश्या स्त्रीसे गमन करै तो उसपर एक हजार पण दंड होगा, और क्षत्रिय तथा वैश्य यदि रक्षित शूद्रा स्त्रासे गमन करै तो उनपर भी एक हजार पण दंड होगा ॥ ३८३ ॥

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः ।

मूत्रेण मौण्ड्यमिच्छेत्क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥

यदि वैश्य अरक्षित क्षत्रियासे गमन करै तो उस पर पाचसौ पण दंड करै और क्षत्रियका मूत्रके सिर मुंडावै वा उसपर पाचसौ पण दंड करै ॥ ३८४ ॥

अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो व्रजन् ।

शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजस्त्रियम् ॥ ३८५ ॥

अरक्षित क्षत्रिया, वैश्या और शूद्राके साथ गमन करनेसे ब्राह्मणपर पाचसौ पण दंड होगा और चाडालकी स्त्रीके साथ गमन करने से एक हजार पण दंड होगा ॥ ३८५ ॥

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डमै स राजा शकलोकभाक् ॥ ३८६ ॥

जिस राजाके राज्यमें चोर, परस्त्रीगामी, कठोरवादी, साहसिक वा कठोर दंड देनेवाला ये नहीं हैं वह इन्द्रलोकको जाता है ॥ ३८६ ॥

पत्तेषां निग्रहो राक्षः पञ्चानां विषये स्वके ।

साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥ ३८७ ॥

अपने राज्यमें उक्त चोर आदि पाचोंका निग्रह करनेवाला राजा, अपने सजातीय राजाओंमें साम्राज्य करता है और इस लोकमें यश पाता है ॥ ३८७ ॥

ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्त्विष्यत्यजेद्यदि ।

शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् ॥ ३८८ ॥

जो यजमान, कर्म करानेमें समर्थ और साधु ऋत्विज् को त्याग दे अथवा जो ऋत्विज् साधु यजमानको त्याग दे उन दोनोंपर राजा सौ २ पण दंड करै ॥ ३८८ ॥

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति ।

त्यजन्नपतितानेताभ्राह्मा दण्ड्यः शतानि षट् ॥ ३८९ ॥

माता, पिता, स्त्री और पुत्र ये सब त्यागने योग्य नहीं होते और जो इन चारों अपतितोंका त्याग करता है उसको एक २ के त्याग पर राजा छ २ पण दंड दे ॥ ३८९ ॥

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां स्थिः ।

न विब्रूयात्पुत्रो धर्मं चिकीर्षन्हितमात्मनः ॥ ३९० ॥

गार्हस्थ्यादि आश्रमोंके धर्मसंबन्धमें यदि द्विजाती किसी कार्यमें वादविवाद करे तो उनके बीचमें, अपना हित चाहनेवाले राजाको "यह धर्म ठीक है यह ठीक नहीं है" यों न कहै ॥ ३९० ॥

यथार्हमेतानभ्यर्च्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

सांत्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ३९१ ॥

राजा उनका यथोचित सत्कार करके और ब्राह्मणोंके साथ पहिले उन्हें श्रुतिपूर्वक शांत करके उनका धर्म समझावै ॥ ३९१ ॥

प्रतिवेद्यानुवेद्यौ च कल्याणे विशतिद्विजे ।

अर्हावभोजयन्विप्रो दण्डमर्हति माषकम् ॥ ३९२ ॥

यदि किसी उत्सवमें वीस ब्राह्मणोंको भोजन कराना हो तो प्रतिवेद्य और अनुवेद्य योग्य ब्राह्मणों को भोजन न करानेसे ब्राह्मण एक माषा चांदीके दंड योग्य होता है ॥ ३९२ ॥

धोत्रियः धोत्रियं साधुं भूतिकृत्येवभोजयन् ।

तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव माषकम् ॥ ३९३ ॥

(१) जो निरतर धर्ममें रहै (२) जो निरतर-धर्ममें न रहै.

जो वेदपाठी, प्रतिवेद्य वा अनुवेद्य सज्जन वेदपाठीको मंगल कार्यों भोजन न करावै उसपर राजा भोजनसे दूली खानेकी वस्तु और एक भापा सौना दंड करै ॥ ३९३ ॥

अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्थनिरश्च यः ।

श्रोत्रियेषूपकुर्वैश्च न दाप्याः केनचित्करम् ॥ ३९४ ॥

अधा, जड़, पंगा, सत्तर वर्षका बृद्ध और जो पुरुष वेदपाठियोंका उपकार करते हैं उनसे राजा किसी प्रकारका कर न ले ॥ ३९४ ॥

श्रोत्रियं व्याधितार्तौ च बालवृद्धावकिञ्चनम् ।

महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥

वेदपाठी, रोगी और, दुखी, बालक, बृद्ध, दरिद्री, उत्तम कुलमें उत्पन्न और उत्तम आचरण करनेवाला इनका राजा दानमानसे सदा सम्मान करै ॥ ३९५ ॥

शालमलीफलके श्लक्ष्णे नैनिज्यात्रेजकः शनैः ।

न च वासांसि वासोभिर्निर्हरेन्न च वासयेत् ॥ ३९६ ॥

धोबी सैमरके चिकने पटे पर धीरे २ बख धोवै और एकके बख दूसरेके बखोंसे न मिलावै और दूसरेको पहिरनेको भी न दे ॥ ३९६ ॥

तन्नुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम् ।

अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥ ३९७ ॥

कपडा बुननेवाला दस पल सूत ले और (मासी आदि लगानेके कारण) ग्यारह पल तोलकर दे इससे कम देनेपर बारह पण दंड होगा ॥ ३९७ ॥

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यत्रिचक्षणाः ।

कुर्युरर्थं यथापह्यं ततो विंशं नृपो हरेत् ॥ ३९८ ॥

बेचनेके योग्य वस्तुओंके सार असारको जाननेवाले कुशल मनुष्य, वा जारमे वस्तुका जो मूल्य निर्णय करै उसके नफेमेंसे राजा बीसवा भाग ले ३९८

राक्षः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च ।

तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेत्क्षपः ॥ ३९९ ॥

राजाके प्रसिद्ध पात्र और जिन वस्तुओंकी राजाने बाहर ले जानेकी मनादी करदी है इनको जो मनुष्य लोभसे देशांतरोंको ले जाय राजा उस पुरुषका सर्वस्व हर ले ॥ ३९९ ॥

शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी ।

मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥ ४०० ॥

जो मनुष्य बुंगी घरको बचाकर अन्य मार्गसे अन्न आदि ले जाय, और जो कुसमयमें खरीद वै बेचै और जो वस्तुओंकी सख्या वा नाप तोलको झूठ बतावै तो जितना कर झूठ बोलकर बचाया हो उसका अठगुना दंड राजा उसपर करै ॥ ४०० ॥

आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयाजुभौ ।

विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१ ॥

वस्तुके आने, जाने, रखनेका समय, वृद्धि और हानि इनका निश्चय करके राजा बेचने और खरीदनेकी वस्तुओंका क्रय विक्रय करावे ॥ ४०१ ॥

पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते ।

कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥

पांच २ दिन वा पन्द्रह २ दिनके पीछे राजा व्यौपारियोंके सामने वस्तुओंका मूल्य निर्णय करे ॥ ४०२ ॥

तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात्सुलक्षितम् ।

पद्सु पद्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥

(सुवर्ण आदिके) तोलका प्रमाण और धान्य आदिके (नापने वा तोलके) लिये नापदान और तराजूको राजा विशेष ध्यानसे स्थिर करे और छ २ महीने बाद फिर उनकी परीक्षा करता रहे ॥ ४०३ ॥

पर्णं यानं तरे द्राप्यं पौरुषोऽर्धपर्णं तरे ।

पादं पशुश्च योपिच्च पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥

नावसे पार उतारनेमें, खाली गाड़ी आदि पर एक पण महसूल, एक पुरुषके होने योग्य भार पर आधा पण, पशु तथा स्त्रियोंके पार उतारनेमें चौथाई पण, और बोझरहित मनुष्यसे एक पणका आठवां भाग ले ॥ ४०४ ॥

भाण्डपूर्णाणि यानानि तार्यं द्राप्यानि सारतः ।

रिक्तभाण्डानि यर्तिकचित्पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५ ॥

चीजोंके भरे छकड़ोंके पार करनेमें वस्तुओंके सार असारके अनुसार महसूल देना होगा परंतु द्रव्यरहित शकट और दरिद्री लोगोंसे बहुत कम महसूल लिया जायगा ॥ ४०५ ॥

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥

नदीके मार्गसे दूरतक आनेजानेमें नदीकी प्रबलता, स्थिरता और प्रोष्ण वर्षा आदिका समय विचार कर किराया निश्चय करे परंतु समुद्रमें यह नियम नहीं है ॥ ४०६ ॥

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः ।

ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न द्राप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७ ॥

दो महीनेसे अधिककी गर्भिणी स्त्री, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और ब्राह्मणके पार जानेमें राजा किराया न ले ॥ ४०७ ॥

यज्ञादि किञ्चिद्वाशानां विशीर्येतापराधतः ।

तदाशैरेव दातव्यं समागम्य स्वर्तोऽशतः ॥ ४०८ ॥

जो कुछ द्रव्य नावमें केवटोंके दोपसे नष्ट हो जाय तो वेही अपने २ अशसे उसकी हानि भर देंगे ॥ ४०८ ॥

एष नौयाधिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः ।

दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥

नौकापर जानेवालोंके व्यवहारका यह निर्णय कहा है कि जो द्रव्य जलमें मल्लाहोंके अपराधसे नष्ट हो जाय उसको नाववाले दें और जो (अंधी तूफान आदि) दैवयोगसे नष्ट हो तो केवटोंकी हर्जा नहीं देना होगा ॥ ४०९ ॥

वाणिज्यं कारयेद्वैश्यं कुसीदं कृपिमेव च ।

पशूनां रक्षणं चैव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम् ॥ ४१० ॥

राजा, वैश्यसे वाणिज्य, व्याजकी जीविका, कृषि और पशुपालन करावे और शूद्रोंसे द्विजातियोंकी सेवा करावे ॥ ४१० ॥

क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणो वृत्तिकर्षितौ ।

विभूयादानृशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन् ॥ ४११ ॥

क्षत्रिय और वैश्य यदि अपनी वृत्तिसे अपना पोषण न कर सकें तो ब्राह्मण उनकी जातिका कार्य कराकर कर्णापूर्वक उनका पालन करे ॥ ४११ ॥

दास्यं तु कारयँल्लोभाद्ब्राह्मणः संस्कृतान्द्विजान् ।

अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥ ४१२ ॥

जो ब्राह्मण अपनी प्रभुतासे वा लोभसे यज्ञोपवीतयुक्त द्विजातियोंसे उनकी इच्छाविना दासका कार्य करावे तो राजा उसपर छ सौ पण दंड करे ॥ ४१२ ॥

शूद्रं तु कारयेदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ।

दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ ४१३ ॥

परंतु पालेहुए वा विनापाले हुए शूद्रसे दासका कार्य करावे क्योंकि ब्रह्मणे ब्राह्मणके दासकर्मके लियेही इस शूद्रको उत्पन्न किया है ॥ ४१३ ॥

न स्वामिना निःसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते ।

निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ ४१४ ॥

स्वामीसे त्यागा हुआभी शूद्र दासपनेसे नहीं छुटैगा क्योंकि दासपन उसका स्वाभाविक कार्य है वह उससे कैसे छूट सकता है ॥ ४१४ ॥

ध्वजाहतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदन्निमौ ।

पैत्रिको दण्डदासश्च ससैते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

युद्ध जीतनेसे मिला, भोजनके लोभसे आया, दासीका पुत्र, मोल खरीदा, दूसरेका दिया हुआ, पिताके भागेसे चला आया, दंड ऋण आदि चुकानेके लिये दास हुवा ये सात प्रकारके दास होते हैं ॥ ४१५ ॥

भायौ पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः ।

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥ ४१६ ॥

भार्या, पुत्र और दास ये तीनों शास्त्रमें निर्धन कहे गये हैं ये जो कुछ पैदा करें उस धनपर उनके स्वामीकाही अधिकार होता है ॥ ४१६ ॥

विश्वब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्रव्योपादानमाचरेत् ।

नहि तस्यास्तिकित्स्वं भर्तृहायधनो हि सः ॥ ४१७ ॥

ब्राह्मण निस्सन्देह शूद्रका धन ले सक्ता है क्योंकि उसका निजधन कुछ भी नहीं है सब धन उसके स्वामीका है ॥ ४१७ ॥

वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानिकर्माणि कारयेत् ।

तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत् ॥ ४१८ ॥

राजाको चाहिये कि वैश्योंकी और शूद्रोंको यत्नपूर्वक अपने २ कामोंमें लगा रक्खे; क्योंकि इनके अपने २ कार्योंमें न लगनेसे ये इस जगत्में (धनके मदसे) बड़ा दुःख मचाते हैं ॥ ४१८ ॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ॥

राजा प्रतिदिन आरंभ किये कार्योंकी समाप्ति, वाहन, आय, व्यय, खान और खजानों को देखता रहै ॥ ४१९ ॥

एवं सर्वानिमात्राणां व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य किंलिप्यं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ४२० ॥

राजा इस प्रकार सब व्यवहारोंको समाप्त करता हुआ सब पापोंसे छूट कर परम गति पाता है ॥ ४२० ॥ इति

पण्डित रामेश्वरमदकृत सरला टीकासहित मनुस्मृतिका

अष्टम अध्याय समाप्त हुआ—शुभम्.

अथ नवमोऽध्यायः ।

पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धर्मे वर्त्मनि तिष्ठतोः ।

संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥

धर्ममार्गमें स्थित स्त्रीपुरुषोंके संयोग तथा वियोगके नित्य धर्म कहता हूँ ॥ १ ॥

अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्यः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम् ।

विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २ ॥

अपने पति रातदिन स्त्रियोंको स्वतंत्रतासे न रहने दें, आनन्दित विषयोंमें लगी हों तो भी उन्हें अपने बशमें रक्खें ॥ २ ॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्यविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ ३ ॥

वाल्यावस्थामें पिता, युवावस्थामें पति और वृद्धावस्थामें पुत्र स्त्रियोंकी रक्षा करै, स्त्री कभी स्वतंत्र न रहै ॥ ३ ॥

कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः ।

मृते भर्तेरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिताः ॥ ४ ॥

योग्य समयमें (अर्थात् ऋतुकालके पूर्व) यदि कन्यादान न किया जाय तो पिताकी निन्दा होती है और ऋतुकालमें संगम न करनेसे पतिकी निन्दा होती है और जो पिताके मरने पर यदि पुत्र माताकी रक्षा न करै तो उसकी निन्दा होती है ॥ ४ ॥

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषताः ।

द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ५ ॥

थोड़े कुलंगसे भी स्त्रियोंकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये क्योंकि अरक्षित स्त्री, पिता और पतिके दोनों कुलोंको सतापित करती है ॥ ५ ॥

इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम् ।

यतन्ते रक्षितुं भार्या भर्तारो दुर्बला अपि ॥ ६ ॥

सब वर्णोंके इस उत्तम धर्मको देखकर दुर्बल पतियोंको भी अपनी रक्षियोंकी रक्षा करनेके लिये यत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च ।

स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन्धि रक्षति ॥ ७ ॥

जो अपनी स्त्रीकी रक्षा करता है वह अपनी सतान, चरित्र, कुल अपनी आत्मा और अपने धर्मकी भी रक्षा करता है ॥ ७ ॥

पतिभार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते ।

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥

पति भार्या के शरीरमें प्रविष्ट हो कर और गर्भ हो कर भार्यामें जन्म रेंगा है और स्त्रीमें फिर जन्म लेनेके कारण भार्याका नाम जाया होता है ॥ ८ ॥

यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम् ।

तस्मात्प्रजाविशुद्ध्यर्थं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ ९ ॥

स्त्री जैसे पतिका सेवन करती है वैसेही पुत्रको उत्पन्न करती है, इसलिये सतानकी शुद्धिके लिये भार्याकी रक्षा यत्नपूर्वक करै ॥ ९ ॥

न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् ।

पतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥

बल से कोई पुरुष स्त्री की रक्षा नहीं कर सका, इसलिये नीचे कहे हुए उपायोंसे उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १० ॥

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

शौचे धर्मेऽन्नपत्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥

धनसंग्रह, व्यय, शरीर आदिकी शुद्धि, पतिसेवा, रसोई बनाना तथा घरकी सामग्रीकी देख भाल इनमे क्रियोंको लगावै ॥ ११ ॥

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिमिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥

स्वजन, क्रियोंको घरमें बंद करके भी उनकी रक्षा नहीं कर सके परंतु जो स्वयं अपनी रक्षाकरती हैं वेही सुरक्षित रहती हैं ॥ १२ ॥

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगोहवासश्च नारीसंदूषणानि पद् ॥ १३ ॥

मद्यपीना, दुर्जनोका संसर्ग, पतिका विरह, इधर उधर घूमना, कुसमयमें सोना और दूसरेके घरमें रहना, ये क्रियोंके छ दोष हैं ॥ १३ ॥

नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः ।

सरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४ ॥

स्त्रिया न रूपकी परीक्षा करती हैं न अवस्थाविशेष पर ध्यान देती हैं; परन्तु सुरूप वा कुरूप चाहे जैसे पुरुषको पाकर उसके साथ संभोग करती हैं ॥ १४ ॥

पौंश्चल्याच्चलचित्ताच्च नैस्त्रेहाच्च स्वभावतः ।

रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ॥ १५ ॥

ये स्त्रिया, पुरुषके देखतेही भोगकी इच्छा, चित्तकी चंचलता और स्वाभाविक क्रैहहीनताके कारण स्वामीसे उत्तम रीतिसे रक्षित होने पर भी पतिके विरुद्ध आचरण करती हैं ॥ १५ ॥

एवंस्वभावं ज्ञात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम् ।

परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६ ॥

“ विधाताने स्वभावसे ही स्त्रियोंको ऐसा बनाया है ” इनका ऐसा स्वभाव जान कर पुरुषको स्त्रीकी रक्षाके लिये यत्न करना चाहिये ॥ १६ ॥

शय्यासनमलंकारं कामं क्रोधमनार्जवम् ।

द्रोहभावं कुचर्यां च स्त्रीभ्यो मनु रकल्पयत् ॥ १७ ॥

शय्या, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, द्रोह, कुटिलता और विन्दित आचरण ये मनुने स्त्रियोंके लिये ही बनाये हैं ॥ १७ ॥

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मं व्यवस्थितिः ।

निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ॥ १८ ॥

स्त्रियोंका सस्कार मंत्रोंसे नहीं होता यही शास्त्री मर्यादा है । स्मृति तथा धर्मशास्त्रमें और किसी मंत्रमें भी इनका अधिकार नहीं है इसलिये, ये दृष्ट के समान अशुभ हैं ॥ १८ ॥

तथा च श्रुतयो बह्व्यो निर्गीता निगण्मेष्वपि ।

स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं तासां शृणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥

वेदमें भी बहुतसी श्रुतिया कहीं हैं उनमें व्यभिचार प्रकाशित करनेवाली श्रुतिको तुम सुनों ॥ १९ ॥

यन्मे माता प्रलुलुमे विचरन्त्यपतिव्रता ।

तन्मे देतः पिता वृक्तामित्यस्यैतन्निदर्शनम् ॥ २० ॥

(कोई पुत्र अपनी माताके व्यभिचारको जान कर कहता है कि) मेरी माताजो पराये घरोंमें जाकर पतिव्रत धर्म रहित हुई है उस वीर्यको पितः शुद्ध करे यही मंत्र व्यभिचारका उदाहरण है ॥ २० ॥

ध्यायत्यनिष्टं यकिंचित्पाणिग्राहस्य चेतसा ।

तस्यैष व्यभिचारस्य निह्वयः सम्पद्युच्यते ॥ २१ ॥

मनसे परगमनकी इच्छा करके स्त्री पतिके साथ जो अप्रिय आचरण करती है, उस पापके छुड़ाने के लिये यह मंत्र कहा है ॥ २१ ॥

यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि ।

तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२ ॥

जैसे नदीका जल समुद्रमें मिलनेसे खारी हो जाता है उसी भाँति स्त्रीया भी अच्छे वा बुरे मनुष्योंके साथ विवाह होनेसे उन्हींके समान गुणयुक्त हो जाती है ॥ २२ ॥

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥ २३ ॥

अधम योनिमें उत्पन्न हुई अक्षमाला वसिष्ठके साथ व्याह होनेसे और शरङ्गी मंदपाल ऋषिके साथ विवाह होनेसे परम पूज्य हुई थी ॥ २३ ॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥ २४ ॥

ये तथा अन्य संसारमें कितनीही स्त्रिया अधमयोनिमें उत्पन्न होकर अपने-२ पतिके अच्छे गुणोंसे श्रेष्ठताको प्राप्त हुईं थी ॥ २४ ॥

प्रबोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा ।

प्रेत्येह च सुखोदकान्प्रजाधर्माच्चिबोधत ॥ २५ ॥

यह हमने स्त्रियोंका सदा शुभदायक लोकाचार कहा अब इसलोक तथा परलोकमें सुखदायक संतानके धर्म कहताहूँ उनको सुनों ॥ २५ ॥

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहटीसयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥

यद्यपि स्त्रियोंकी बहुतसी निन्दा करी परंतु) ये पुत्रोंको उत्पन्न करती हैं इसलिये भाग्यवती सत्कारके योग्य और गृहकी शोभा हैं । घरमें श्री और स्त्रीमें कुछभी विशेषता नहीं है अर्थात् जैसे लक्ष्मी विना घरकी शोभा नहीं ऐसेही स्त्रीके विना घरकी शोभा नहीं है ॥ २६ ॥

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ २७ ॥

संतानोत्पत्ति, उत्पन्न हुई संतानका पालन, और घरके धंधोंका देखना, भालना इनके लिये भार्याही मुख्य कारण है ॥ २७ ॥

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥

संतानोत्पत्ति, (अग्निहोत्र आदि) धर्मकार्य, सेवा, उत्तम रति, और पितरोंके तथा अपने स्वर्ग प्राप्तिके कार्यके केवल पत्नीकेही आधीन हैं ॥ २८ ॥

पतिं या नामिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकानाम्प्रोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥

जो स्त्री, शरीर, मन और वचनसे पतिकका अवलंबन नहीं करती वह मरने-पर पतिलोक आदि लोकोंको पाती है और इसलोकमें सज्जन उसे पतिव्रता कहते हैं ॥ २९ ॥

व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्धिताम् ।

सृगालयोनिं चाप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥ ३० ॥

और पतिका अवलंबन करनेसे स्त्रीकी इसलोकमें निन्दा होती है और मरनेकेबाद वह सियार योनिमें उत्पन्न होती है तथा बुरे २ रोगोंसे पीड़ित होती है ॥ ३० ॥

पुत्रं प्रत्युदितं सद्भिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः ।

विश्वजन्ममिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ३१ ॥

प्राचीन अच्छे ऋषियोंने पुत्रोत्पत्तिके विषयमें जो पुराना इतिहास कहा है वह सर्वोपकारक पवित्र उपाख्यान कहताहूँ तुम सुनों ॥ ३१ ॥

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तारि ।

आह्वरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥

सुनि कहते हैं कि पुत्र स्त्रीके पतिकाही होता है, परंतु पतिके संबन्धमें दो

प्रकारकी श्रुति हैं । कोई कहते हैं कि संतानोत्पन्न करनेवाले (देवर आदि) का पुत्र होता है और दूसरे कहते हैं कि क्षेत्रके स्वामीकाही पुत्र है ॥ ३२ ॥

क्षेत्रभूता स्मृता नारी वीजभूतः स्मृतः पुमान् ।

क्षेत्रवीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥

स्त्री क्षेत्ररूप कहा है और पुरुष वीजरूप कहा गया है और वीज और क्षेत्रके संयोगसे सब प्राणियोंका जन्म होता है ॥ ३३ ॥

विशिष्टं कुत्रचिद्वीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित् ।

उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥

कहीं वीज प्रधान है और कहीं २ क्षेत्र है परन्तु जहा दोनोंकी प्रधानता रहती है उससे उत्पन्न हुई सतान बहुत श्रेष्ठ गिनी जाती है ॥ ३४ ॥

वीजस्य चैव योन्याश्च वीजमुत्कृष्टमुच्यते ।

सर्वभूतप्रसूतिर्हि वीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥

वीज और क्षेत्रमें वीजकीही प्रधानता कही है क्योंकि वीजके लक्षणोंसे युक्त सब प्राणी उत्पन्न होते हैं ॥ ३५ ॥

यादृशं तूप्यते वीजं क्षेत्रे कालोपपादिते ।

तादप्रोहति तत्तस्मिन्वीजं स्वैर्व्यञ्जितं गुणैः ॥ ३६ ॥

समयपर जोते हुए खेतमें जैसा वीजबोया जाता है वह वीज उसमें अपने गुणोंके अनुसार ही उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥

इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते ।

न च योनिगुणान्कांश्चिद्वीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥

यह पृथ्वी प्राणियोंकी उत्पत्तिकी योनि सदासे कही गई है परन्तु अन्न उत्पन्न होनेमें खेतके समान कोई गुण नहीं होता ॥ ३७ ॥

भूमावप्येककेदारे कालोत्तानि कृषीवलैः ।

नानारूपाणि जायन्ते वीजानीह स्वभावतः ॥ ३८ ॥

भूमिमेंभी समयपर किसानोंके एक खेतमें बोये हुए वीज अपने २ स्वभावके अनुसार अनेक रूपके होते हैं ॥ ३८ ॥

त्रीहयः शालयो मुद्गास्तिला माषास्तथा यवाः ।

यथावीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥

साठीधान, चाबल, मूंग, तिळ, उरुद, जौ, लहसन और ईख सब अपने २ वीजके अनुरूप होते हैं ॥ ३९ ॥

अन्यदुसं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते ।

उप्यते यच्च यद्वीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥

एक बीज बोनेसे उनमें दूसरे बीजका अंकुर कदापि नहीं होता, जब जैसा बीज बोया जाता है तब वही वह उत्पन्न होता है ॥ ४० ॥

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।

आयुष्कामेन वसत्र्यं न जानु परयोपिति ॥ ४१ ॥

प्राज्ञ और विशेष करके नम्र और वेद आदि शास्त्रोंका जाननेवाला और दीर्घजीवी होनेका इच्छुक पुरुष कदापि पराई स्त्रीमें बीज न बोवै ॥ ४१ ॥

अत्र गाथा चायुगीताः कीर्तयन्ति पुराचिदः ।

यथा बीजं न वसत्र्यं पुंसां परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥

इस विषयमें पण्डितलोग, वायु देवताकी कथा कहा करते हैं कि पुरुषको कभी परस्त्रीमें बीज नहीं बोना चाहिये ॥ ४२ ॥

नश्यतीपुर्यथा विद्धः खे विद्धमनुविद्धतः ।

तथा नश्यति वै क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

जैसे अन्यके बंधे हुए मृगके शरीरके उमी छेदमें फँका गया दूसरेका बाण निष्फल होता है, उसी भाँति परस्त्रीमें बोया हुआ बीजभी निष्फल होता है (क्योंकि स्त्रीको सतसि मिलती है) ॥ ४३ ॥

पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्वविदो विदुः ।

स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम् ॥ ४४ ॥

पहिले समयमें पण्डितोंने पृथ्वीको राजा पृथुकी भी भार्या कहा है (क्योंकि उसने उसे समान किया) इसी प्रकार जो पुत्र जिस भूमिको छूंट आदि काटकर ठीक करते हैं वह भूमि उन्हींकी होती है और एक शिकारीसे विद्ध किया गया मृग दूसरेसे विद्ध होनेपरभी उसीका होता है ॥ ४४ ॥

पतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह ।

विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥

स्त्री अपना देह, और संतान ये तीनों मिलकर पुत्र होता है यह वेदके ज्ञाता पण्डित कहते हैं । अर्थात् जो भर्ता है वही भार्या है इनदोनोंमें कुछ नहीं है ॥ ४५ ॥

न निष्कयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते ।

एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥

विक्रय वा त्यागसे स्त्री पतिसे अलग नहीं होसकी । हम प्रजापतिके बनाए हुए पहिले इस धर्मको मानते हैं ॥ ४६ ॥

सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ ॥

पिताके धनका विभाग एकवार, कन्याका दान एकवार और गौ आदिक

दान एकवार से तीनों सज्जनोंके एकवारही होते हैं "भै एकवारही देताहूँ" ऐसा कहा जाता है ॥ ४७ ॥

यथा गोऽश्वोद्भूदासीषु महिव्यजाविकासु च ।

नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि ॥ ४८ ॥

गौ, घोड़ी, ऊटनी, दासी, भैंस, बकरी और भेंड़में उत्पन्न करनेवाला जैसे सतानको नहीं पाता है उभी भाति पराई ज़मीमें उत्पन्न करनेवाला सतान नहीं पाता ॥ ४८ ॥

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रचापिणः ।

ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित् ॥ ४९ ॥

जिसके पास क्षेत्र नहीं है केवल बीजही बीज है वह यदि दूसरोंके खेतमें बीज बोवै तो उसको कुछ भी धान्य आदि फल नहीं मिलता ॥ ४९ ॥

यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् ।

गोभिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितामार्षभम् ॥ ५० ॥

यदि किसीका बैल दूसरोंकी गल्लोंमें सैकड़ों बछड़े उत्पन्न करे, तो वे सब बछड़े उन गौओंके स्वामियोंके होते हैं, बैलका वीर्यसेचन घृया है ॥ ५० ॥

तथैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षेत्रप्रचापिणः ।

कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीजी लभते फलम् ॥ ५१ ॥

यदि क्षेत्ररहित पुरुष अपना बीज पराये क्षेत्रमें बोवै, तो बीजबोनेवालेका बीज खेतवालोंके लिये होता है बीजवाला उसके फलको नहीं पाता ॥ ५१ ॥

फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा ।

प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥

जो क्षेत्रका स्वामी और बीजबोनेवालेमें परस्पर यह निश्चय न होजाय कि इसकी सतान हम दोनोंकी है तो वह संतानरूपफल स्पष्ट रीतिसे क्षेत्रके स्वामीकाही होता है क्योंकि बीजसे योनि बलवती है ॥ ५२ ॥

क्रियाभ्युपगमात्वेतद्बीजार्थं यत्प्रदीयते ।

तस्यैह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥

जब बीजवाले और क्षेत्रके अधिकारीकी समतिसे बीज बोया जाता है तब इसमें दोनोंही सस्य फलके भागी देखे गये हैं ॥ ५३ ॥

ओघवाताहतं धीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति ।

क्षेत्रिकस्यैव तद्बीजं न वत्सा लभते फलम् ॥ ५४ ॥

बीज जिसके खेतमें पड़कर जल और पवनके सहारेसे उगता है तो उसके फलका अधिकारी खेतवालाही होता है बीजवाला उसके फलको नहीं पाता ॥ ५४ ॥

एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युह्राजाविकस्य च ।

विहंगमहिषीणां च विशेषः प्रसवं प्रति ॥ ५५ ॥

यही नियम घरमें पाले हुए गौ, घोड़ा, दासी, ऊँट, बकरी, भेड़, पक्षी तथा भैंसकी संतानके लिये भी है ॥ ५५ ॥

एतद्भः सारफल्गुत्वं वीजयोन्धोः प्रकीर्तितम् ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥

क्षेत्र और बीजके परस्पर संबन्धमें ये प्रधानता और अप्रधानता तुमसे कही, अब आपत्ति कालमें स्त्रियोंके धर्म कहताहूँ ॥ ५६ ॥

आतुज्येष्ठस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।

यवीयसस्तु या भार्या स्तुपा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ ५७ ॥

देवरके लिये नेठे भाईकी जो स्त्री है वह गुरु पत्नीके समान होती है और छोटे भाईकी जो स्त्री है वह जेठे भाईके लिये पुत्रवधूके तुल्य कही गई है ॥ ५७ ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाभ्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥

जेठा भाई छोटे भाईकी स्त्रीसे और छोटा भाई बड़े भाईकी स्त्रीसे आपत्कालके बिना सम्भोग करे तो (गुरुकी आज्ञा होनेपर भी) पतित होते हैं ॥ ५८ ॥

देवराद्वा सपिण्डाद्वास्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिरक्षये ॥ ५९ ॥

निज स्वामीसे संतान न होनेपर स्त्री पतिकी आज्ञासे अपने देवर वा अन्य सपिण्ड पुरुषसे इच्छित पुत्रकी लाभ कर सच्ची है ॥ ५९ ॥

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो चाग्यतो निशि ।

एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितियं कथंचन ॥ ६० ॥

रात्रिके समय, चुपचाप, गुरुके द्वारा नियुक्त पुरुष, अपने शरीरमें धी लगाकर विधवामें एक पुत्र उत्पन्न कर सक्ता है परंतु दूसरा पुत्र कदापि नहीं ॥ ६० ॥

द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः ।

अनिर्वृतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥

कोई २ विधिके जाननेवाले आचार्य्य यह देखते हुए कि एक संतानसे नियोगका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सक्ता (वह तो न होनेकेही समान है) इसलिये वह स्त्रियोंमें द्वितीय संतान उत्पन्न करनेकी आज्ञा देते हैं ॥ ६१ ॥

विधवायां नियोगार्थं निर्वृत्ते तु यथाविधि ।

गुरुवच्च स्तुपावच्च वर्तेयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥

विधवामे उद्देश्य सफल होनेसे जेठ भाई और छोटे भाईकी बधू पहिलेकी भांति शुक्र और पुत्र बधूके समान परस्पर व्यवहार करें ॥ ६२ ॥

नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वतैयातां तु कामतः ।

तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ॥ ६३ ॥

नियोजित बड़ा वा छोटा भाई यदि विधि छोड़कर केवल इन्द्रिय सुखमें रत हों तो बड़ा भाई पुत्रबधूगमन और छोटा भाई गुरुपक्षीगमनका दोषी होगा ॥ ६३ ॥

नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन्निह नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥ ६४ ॥

द्विजाति, देवर आदिमें विधवाको नियुक्त न करें क्योंकि जो देवर आदिमें नियुक्त करते हैं वे सनातन पतिव्रत धर्मको नष्ट करते हैं ॥ ६४ ॥

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु वियोगः कीर्त्यते कच्चित् ।

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥

विवाहके मन्त्रोंमें कर्हा नियोग नहीं कहा है और विवाह द्वाहोंमें भी विधवा विवाह नहीं कहा है ॥ ६५ ॥

अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥

शास्त्र जाननेवाले द्विजातियोंने इस पशु धर्मको निन्दित कहा है, मनुष्योंमें इसका प्रचार वेणु राजाके राज्यमें हुआ था ॥ ६६ ॥

स महीमखिलां भुक्षन्राजर्षिप्रवरः पुरा ।

वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥

संपूर्ण पृथ्वीके पालक तथा राजर्षियोंमें मुख्य उस वेणुने कामसे नष्ट बुद्धि होकर इस वर्णसंकरपनेको फैलाया था ॥ ६७ ॥

ततः प्रभृति यो मोहात्प्रसीतपत्तिकां स्त्रियम् ।

नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८ ॥

उसके राज्यके पीछे जो पुरुष मोहके वश होकर विधवाको सतानके लिये नियुक्त करता है साधुजन उसकी निन्दा करते हैं ॥ ६८ ॥

यस्या म्रियेत कन्याया चाचा सत्ये कृते पति ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६९ ॥

जो सगाई के पीछे वरकी मृत्यु होजाय तो इसी विधानसे उस कन्याको उसके देवरके साथ व्याहदे ॥ ६९ ॥

यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिप्रताम् ।

मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृद्वताचृतौ ॥ ७० ॥

नियमानुसार उसका विवाह करके जबतक उस कन्याके संतान न हो तब-
तक उसका देवर प्रतिश्रुतमें उस श्वेतवस्त्र धारण करनेवाली तथा पवित्र स्त्रीके
पास जाय ॥ ७० ॥

न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः ।

दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्निह प्राप्नोति पुरुषानृतम् ॥ ७१ ॥

विधिवत्प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम् ।

व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम् ॥ ७२ ॥

बुद्धिमान् एकसे सगाई करके अपनी कन्या दूसरेको न दे क्योंकि अन्यको
देनेसे उसे झूठका पाप लगता है ॥ ७१ ॥ निन्दित, रोगिणी, दुष्ट और छलसे
दी हुई कन्याको विधिपूर्वक ग्रहण करके भी पुरुष त्याग सकता है ॥ ७२ ॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत् ।

तस्य तद्वितथं कुर्यात्कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥ ७३ ॥

जो पुरुष, कन्याका दोष बिना कहे प्रदान करे तो बरको चाहिये कि उस
दुष्ट कन्याके दानको व्यर्थ करे अर्थात् उसको उस देनेवालेकोही लौटा दे ॥ ७३ ॥

विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवाह्वरः ।

अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥

कार्यवान् पुरुष, पत्नीको पोषणके योग्य वृत्ति देकर विदेश जाय क्योंकि
जीविकाका उपाय न रहनेपर मर्यादामें स्थित स्त्रियां भी दुष्ट होजाती हैं ॥ ७४ ॥

विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता ।

प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्परगर्हितैः ॥ ७५ ॥

निर्वाहके योग्य वृत्ति देकर जबतक पति विदेशमें रहै तबतक स्त्री नियम
पूर्वक अपना निर्वाह करे और जो पति जीवन निर्वाहका प्रबन्ध बिना किये
परदेश चला जाय तो स्त्री (सीनापिरोना आदि) अनिन्दित शिल्पोंसे अपना
निर्वाह करे ॥ ७५ ॥

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः ।

विद्यार्थं षट् यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥ ७६ ॥

जो पति धर्मकार्यके लिये विदेश जाय तो आठ वर्षतक, विद्या पढ़ने वा
यश प्राप्तके लिये छ वर्षतक और इन्द्रिय उपभोग के लिये तीन वर्षतक स्त्री
उसकी बाट देखे ॥ ७६ ॥

संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः ।

ऊर्ध्वं संवत्सरास्त्वेनां दायं हत्वा न संवसेत् ॥ ७७ ॥

स्वामीको चाहिये कि द्वेष करनेवाली अपनी स्त्रीकी एक वर्षतक राह देखे
वर्षके पीछे उससे आभूषण आदि छीनकर उसका सग छोड़दे ॥ ७७ ॥

अतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगान्तमेव वा ।

सा श्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८ ॥

जो स्त्री, जुआरी, (मरिदामें) मतवाला वा रोगी होनेसे रोगांकी अवज्ञा करे, उसके धन भूषण आदि छीनकर तीन मासितक उसका त्याग करे ॥ ७८ ॥

उन्मत्तं पतितं स्त्रीयमधीजं पापरोगिणम् ।

न त्यागोऽस्ति द्विपन्त्याश्च न च द्रायापचर्तनम् ॥ ७९ ॥

उन्मत्त, पतित, नपुंगक, शवोज (जिमका वीर्य न ठहरै) कृष्ट आदिके कारण जो स्त्री पतिकी सेवा नहीं करती वह परित्यागके तथा भूषण छीने जानेके योग्य नहीं होती है ॥ ७९ ॥

मद्यपा साधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत् ।

व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंस्रार्थघ्नी च सर्वदा ॥ ८० ॥

मद्य पीनेवाली, दुश्चरित्रा, पतिसे द्वेष करनेवाली, अमाध्य रोगवाली, गृह आदिको ताड़ना और सदा धन नष्ट करनेवाली स्त्रीके होतेभी दूसरा ब्याह करले ॥ ८० ॥

घन्ध्याष्टमेऽधिवेद्यान्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥

स्त्रीके सतान न होतो आठवें वर्ष, सतान होकर मर जाती होतो दशवें वर्ष, अथवा स्त्रीके केवल कन्याही कन्या होती हों तो ग्यारहवें वर्ष दूसरा विवाह करले और जो स्त्री अप्रिय वचन बोलनेवालीहो तो बुरतही दूसरा ब्याह करले ॥ ८१ ॥

या रोगिणि स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः ।

सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नाचमान्या च कर्हिचित् ॥ ८२ ॥

जो रोगिणी स्त्री अपने पतिमें रत और सुशीला होतो स्त्रीकी अनुमति लेकर पति दूसरा विवाह करे और उसकी कभी अवज्ञा न करे ॥ ८२ ॥

अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्दुषिता गृहात् ।

सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसंनिधौ ॥ ८३ ॥

दूसरा ब्याह करनेपर यदि स्त्री क्रोधके वश होकर घरसे निकलनेको तैयार होतो तत्काल उसे बाध रखलै अथवा स्वजनोके सामने उसे त्यागदे ॥ ८३ ॥

प्रतिपिद्वापि चेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि ।

प्रेक्षासमासं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट् ॥ ८४ ॥

जो (क्षत्री आदिकी) स्त्री पतिसे निषेध किये जानेपरभी (विवाह आदि) उत्सवके समय मद्यपिये वा नाचनेकी जगह वा भीड़में जाय तो राजा उसे छः कृष्णल दंड दे ॥ ८४ ॥

यदि स्वाश्रापराश्रैव विन्देरन्योषितो द्विजाः ।

तासां वर्णक्रमेण स्यात्स्यैष्ट्यं पूजा च वेद्यम् च ॥ ८५ ॥

यदि तीनों द्विज अपनी सजातीय और विजातीय स्त्रियोंको व्याहलें तो उनके वर्णक्रमसे उनका मान सहित भाषण, दायका भाग, और वस्त्राभूषणका क्रम होता है अर्थात् उत्तम वर्णकी स्त्रीके उत्तम और नीच वर्णवालीके नीच होते हैं ॥ ८५ ॥

भर्तुः शरीरशुश्रूषां धर्मकार्यं च नैत्यकम् ।

स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथंचन ॥ ८६ ॥

सब वर्णोंमें स्वामीके शरीरकी सेवा, और नित्यका धर्मकार्य केवल स्वजाती स्त्रीही करे, विजातीय कदापि नहीं ॥ ८६ ॥

यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया ।

यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः ॥ ८७ ॥

जो ब्राह्मण मोहसे स्वजातीय स्त्रीके होते अन्य जातिकी स्त्रीसे इन कार्योंको कारता है वह ब्राह्मणोंमें शूद्रसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण-चाण्डालके समान है ॥ ८७ ॥

उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च ।

अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥

सुन्दर श्रेष्ठ और रूपवान् वर मिलजाय तो कन्या विवाह योग्य न हो तोभी उसे विधिपूर्वक दे दे ॥ ८८ ॥

काममामरणात्तिष्ठेद्देहे कन्यर्तुमत्यपि ।

नचैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ ८९ ॥

ऋतुमती होनेपरभी बाहे कन्या जन्मभर घरमेंही रहै परतु इसे किसी निर्गुण पात्रको कभी न दे ॥ ८९ ॥

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्युतुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्भिन्देत सदृशं पतिम् ॥ ९० ॥

ऋतुमती कन्या तीन वर्षतक (पिताके दानकी) वाट देखे इसके पीछे तुल्यवरको स्वयं वर ले ॥ ९० ॥

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् ।

नैनः किञ्चिद्वाप्नोति न च यं साधिगच्छति ॥ ९१ ॥

पिता आदिके दान न करनेपर यथा समय कन्या किसी पुरुषको पतिरूपसे वरले तो उसे वा पतिको कुछ पाप नहीं होता ॥ ९१ ॥

अलंकारं नाददीत पित्र्यं कन्यां स्वयंवरा ।

मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत् ॥ ९२ ॥

इस प्रकार स्वयंवर करनेवाली कन्या पिता, माता अथवा भाईके दिये हुए आभूषण आदि न ले क्योंकि उनके लेनेसे वह चोर गिनी जायगी ॥ ९२ ॥

पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन् ।

स हि स्वाम्यादतिक्रामेदृत्नां प्रतिरोधनात् ॥ ९३ ॥

ऋतुमती कुमारीके साथ विवाह करनेवाला घर, कन्याके पिताको शुल्क नदे क्योंकि ऋतु अवरोध करनेके कारण उस कन्याके ऊपरसे पिताका अधिकार पस जाता रहता है ॥ ९३ ॥

त्रिंशद्वर्षोद्धहेत्कन्यां दद्यां द्वादशवर्षिकीम् ।

त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षी वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥ ९४ ॥

तीस वर्षकी युवक, मनोहर और बारह वर्षकी कन्याके साथ और चौबीस वर्षकी, आठ वर्षकी कन्याके साथ विवाह करे । और जो शीघ्रता करता है वह गृहस्थ धर्ममें दु ख पाता है ॥ ९४ ॥

देवदत्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः ।

तां सार्ध्यां विभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन् ॥ ९५ ॥

पति अपनी इच्छासे भार्या नहीं पासचा, उसे देवकी दी हुई भार्याही मिलती है इसलिये पुरुषको देवताओंकी प्रसन्नताके लिये सदा उस पत्नीका पोषण करना चाहिये ॥ ९५ ॥

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवाः ।

तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥ ९६ ॥

गर्भ धारणके लिये स्त्रिया और गर्भाधानके लिये पुरुष उत्पन्न हुए हैं इसलिये वेदमें कहा है कि साधारण धर्मोंकोभी स्त्री सहित करे (अकेला न करे) ॥ ९६ ॥

कन्यार्यां दत्तशुल्कार्यां त्रियेत यदि शुल्कदः ।

देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ ९७ ॥

यदि कोई पुरुष किसी कन्याको शुल्क देकर विवाहके पहिले मर जाय तो कन्याके सहमत होनेसे, शुल्क देनेवालेके छोटे भाईके साथ उसका विवाह कर दे ॥ ९७ ॥

आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन् ।

शुल्कं हि गृह्णन्कुरुते छत्रं दुहितृविक्रयम् ॥ ९८ ॥

कन्याके विवाहमें शूद्रभी शुल्क न ले, छिपाकर शुल्क लेना कन्याका बेचना है ॥ ९८ ॥

एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जानु साधवः ।

यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥

प्राचीन लोगोंमेंसे किसीने भी एकको वाग्दान करके अपनी कन्या दूसरेको कभी नहीं दी और न वर्तमान कालमें लोग ऐसा करते हैं ॥ ९९ ॥

नानुशुभ्रम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु ।

शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छत्रं दुहितृविक्रयम् ॥ १०० ॥

यह बात हमने पहिले कर्पों में भी कभी नहीं सुनी कि शुल्क है नाम जिसका ऐसे मूल्यसे किसीने कन्याका शुल्लविक्रय किया हो ॥ १०० ॥

अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः ।

एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥

स्त्री पुरुषका आपसमें यह धर्म जानना चाहिये कि जीवनपर्यन्त धर्म अर्थ काम आदिमें प्रपक् नहों ॥ १०१ ॥

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ ।

यथा नासिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ १०२ ॥

निवाहिता स्त्री और पुरुष धर्म, अर्थ, काममें किसी प्रकार पृथक् हों तो भी एक दूसरेके साथ व्यवहार न करे अर्थात् एक समति होकर रहें इसमें सदा सावधान रहना आवश्यक है ॥ १०२ ॥

एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो धो रतिसंहितः ।

आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोधत ॥ १०३ ॥

स्त्री पुरुषके परस्पर प्रीतियुक्त धर्म तथा आपत्तिमें (नियोग विधिसे) अंतानप्राप्तिकी बात हमसे कही अब हम दायभाग सुनों ॥ १०३ ॥

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम् ।

भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥

मातापिताके मरणपर सब भाई एकत्रित होकर पैतृक धनको बराबर बाटले, क्योंकि मातापिताके जीतेजी पुत्रोंको कुछ अधिकार नहीं है ॥ १०४ ॥

ज्येष्ठ एव तु शृद्धीयात्पितृभ्यं धनमशेषतः ।

शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥

जेठामाई ही पिताके सब धनको ग्रहण करे और अन्य भाई जेठे भाईके आधीन इस प्रकार रहें कि जैसे पिताके आधीन रहते थे ॥ १०५ ॥

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रीभवति मानवः ।

पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हति ॥ १०६ ॥

जेठे पुत्रके अन्मतेही मनुष्य पुत्रवान् होता है और पितरोंके ऋणसे मुक्त होता है, इसलिये जेठे पुत्र सब धनपाने योग्य है ॥ १०६ ॥

यस्मिन्नृणं संनयति येन चानन्त्यमश्नुते ।

स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥

जिसके उत्पन्न होतेही पिता पितरोंके ऋणसे छूटता है और स्वर्ग पाता है वह जेठे पुत्र धर्मसे उत्पन्न पुत्र है और अन्यान्य सतान केवल कामसे उत्पन्न है ऐसा कहा है ॥ १०७ ॥

पितेव पालयेत्पुत्राज्येष्टो भ्रातृन्यवीयसः ।

पुत्रवच्चापि चतैरज्येष्टे भ्रातर्नि धर्मतः ॥ १०८ ॥

जेठा भाई छोटे भाइयों का ऐसे पालन करे कि जो पितापुत्रोका करता था और छोटे भाई धर्मसे जेठे भाईके साथ पिताकी भांति पालाव करे ॥ १०८ ॥

ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः ।

ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सङ्घिरगादित ॥ १०९ ॥

जेठा भाईही कुलको बढ़ाता है और जेठाही कुलको नष्ट करता है, जेठाही लोकमें परम पूज्य होता है और उसकीही मज्जन प्रशंसा करते हैं ॥ १०९ ॥

यो ज्येष्टो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः ।

अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु चन्द्रवत् ॥ ११० ॥

जो जेठा भाई (छोटे भाइयोंके साथ) बड़ेकी भांति चर्चाव करे तो माता पिताके समान पूज्य है और जो जेठके समान आचरण न करे तो वह चंद्रके सदृश पूज्य होता है ॥ ११० ॥

एवं सह चसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया ।

पृथग्विवर्धते धर्मस्तस्माद्धर्म्या पृथङ्क्रिया ॥ १११ ॥

सब भाई इराप्रकार मिलकर रहें अथवा धर्मकी अभिलाषासे जुड़े रहें पृथक् पृथक् रहनेसे धर्मकी वृद्धि होती है इसलिये पृथक् रहना धर्म संगत है ॥ १११ ॥

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यत्परम् ।

ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥

अथ उद्धृत विभाग प्रकरणं—सब द्रव्यका वीसवा भाग और सबसे श्रेष्ठ वस्तु जेठे पुत्रको मिले, मझलेको चालीसवा और छोटेको अस्सीवा भाग मिलेगा ॥ ११२ ॥

ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम् ।

येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥ ११३ ॥

जेठा और सबसे छोटा पुत्र अपना भाग ऊपर लिखे अनुसार ग्रहण करे और इन ज्येष्ठ कनिष्ठ दोनोंके बीचके सब भाई चालीसवें भागके अधिकारी हैं ॥

सर्वेषां धनजातानामाददीताग्र्यमप्रजाः ।

यच्च सातिशयं किञ्चिद्दशतश्चाभुयाद्वरम् ॥ ११४ ॥

जेठा भाई सब धनमेंसे मुख्य धन, सब द्रव्योंमें से श्रेष्ठ वस्तु, और दस गँ आदि पञ्चओमेंसे एक श्रेष्ठ पशु इनको ले ॥ ११४ ॥

उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु ।

यत्किञ्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम् ॥ ११५ ॥

सब भाइयोंके, अपने कर्मोंमें समान गुणवान् होनेपर दस पशुओंमेंसे एक

अधिक पशु जेटेको नहीं दिया जायगा परंतु उसके सम्मानके लिये कुछ अधिक देना चाहिये ॥ ११५ ॥

एवं समुद्रतुष्टारे समानंशान्प्रकल्पयेत् ।

सूक्त ४ उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥

पिताका धन उपरोक्त रीतिसे बट जानेपर मेघ धनको सब भाई बगपर बांटले; यदि धर्मवां भाग आदि न बांटाहो तो वह धन इन रीतिसे बांटा जायगा ॥ ११६ ॥

एकाधिकं हरेज्यैष्टः पुत्रोऽध्यर्धं नतोऽनुजः ।

अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११७ ॥

जेटे पुत्रको दोभाग, जेटेसे छोटेको देड़ भाग और अन्यान्य पुत्रोंको एक २ भाग मिलता है यही धर्मकी व्यवस्था है ॥ ११७ ॥

स्वेभ्योऽश्वेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदस्युर्भातरः पृथक् ।

स्यात्स्यादंशाश्चतुर्भागं पतिताः स्युरदिस्तयः ॥ ११८ ॥

पिता विपारी सहनोंके विपारके लिये प्रत्येक भाईको अपने २ हिस्सोंमें चौथा हिस्सा अवश्य देना होगा, नहीं देनेवाले भाई पतित होते हैं ॥ ११८ ॥

अजाधिकं सैकशफं न जातु विपमं भजेत् ।

अजाधिकं तु विपमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९ ॥

मेघ, बकरी और घोड़े आदि पशुओंका भाग यदि बगपर नहीं बटसके तो पितापते पर्यं कुछ पशु जेटे भाईके होंगे ॥ ११९ ॥

यवीयाइयेष्टभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १२० ॥

अथ नियोगप्रकरणे—यदि छोटा भाई जेटे भाईकी स्त्रीमें पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र अपने कन्या स्त्रीके समान अंशका भागी होगा बरो धर्मकी व्यवस्था है ॥ १२० ॥

ज्येष्ठता होती है कि-जन्मके क्रमसे और उनके धन धान्यका विभाग कैसे हो तो ॥ १२२ ॥

एकं वृषभमुद्धारं संहरेत् स पूर्वजः ।

ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमावृतः ॥ १२३ ॥

पहिली स्त्रीसे उत्पन्न हुए पुत्रको कनिष्ठ होनेपर भी एक वृषभ अर्थात् मिलेगा और अपनी २ माताके क्रमसे जो उससे कनिष्ठ हैं उन्हें अधिक वृषभ नहीं मिलेगा ॥ १२३ ॥

ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायाम् हरेद्वृषभपोडशाः ।

ततः स्वमावृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४ ॥

परन्तु पहिली विवाहिता स्त्रीमें जेठा पुत्र उत्पन्न होनेसे वह पन्द्रह गज और एक बैल ले, और अन्य पुत्र अपनी माताकी ज्येष्ठतानुसार धनका विभाग करै यही शास्त्रका निर्णय है ॥ १२४ ॥

सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः ।

न मावृतो ज्यैष्ठ्यमस्ति जन्मतो ज्यैष्ठ्यमुच्यते ॥ १२५ ॥

समान जातिकी स्त्रीमें उत्पन्न पुत्रको (जातिकी विशेषता न होनेसे) माताकी ज्येष्ठतानुसार ज्येष्ठता नहीं मानी जाती वहां जन्मसे ही पुत्रकी ज्येष्ठता है अर्थात् पहिले जो जन्मा है वही जेठा है ॥ १२५ ॥

जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुव्राह्मण्यास्वपि स्मृतम् ।

यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥

स्वव्राह्मण्या मंत्रोंमें भी जन्मसे जेठे पुत्रकोही इन्द्रका आवाहन करना कहा है। यमज (शुद्धे) दो सन्तानोंमें भी प्रथम जन्मी सतान जेठी होती है ॥ १२६ ॥

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् ।

यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ १२७ ॥

अथ पुत्रिका प्रकरणं-इस कन्यासे जो पुत्र हो वह मेरे श्राद्धका अधिकारी होगा इस रीतिसे पुत्रहीन मनुष्य अपनी कन्याको पुत्रिका करै ॥ १२७ ॥

[अन्नावृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंछताम् ।

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥]

(मैं तुमको अपनी भ्रातृहीन भूषणयुक्त कन्याको देता हूँ। इससे जो पुत्र पैदा होगा वह मेरे पुत्रके समान होगा)

अनेन तु विधानेन पुरा ऋक्ऽथ पुत्रिकाः ।

चिवृक्ष्यथं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ १२८ ॥

स्वयं दक्ष प्रजापतिने इस विधानसे अपने वंशवृद्धिके लिये पहिले (साठ) पुत्रिका की थी ॥ १२८ ॥

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।

सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥ १२९ ॥

दक्ष प्रजापतिने प्रसन्न चित्तसे, धर्मराजको दस, कश्यपको तेरह, और सोमराजाको सत्ताईस कन्या सत्कारपूर्वक दी थीं ॥ १२९ ॥

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ।

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ १३० ॥

जैसे पुत्र आत्माके तुल्य है वैसेही कन्याभी पुत्रके समान है इसलिये पुत्रिका कन्याके होते अन्य पुरुष धनका भागी कैसे हो सकता है ॥ १३० ॥

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः ।

दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ॥ १३१ ॥

माताके विवाह समय जो धन मिला है वह कुमारीको मिलना चाहिये और पुत्रहीन नानाका सब धन दौहित्रही ग्रहण करे ॥ १३१ ॥

दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत् ।

स एव दद्याद्दौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥

दाहित्रही (अन्य पुत्र न हो तो) अपने पुत्रहीन पिताके भी धनको ग्रहण करे और वही दौहित्र अपने पिता और नानाको दो पिंड दे ॥ १३२ ॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोकं न विशोपोऽस्ति धर्मतः ।

तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥ १३३ ॥

लोकमें पौत्र और दौहित्रमें कुछ भी विशेषता नहीं है क्योंकि एकही देहसे इन दोनोंके मातापिता उत्पन्न हुए हैं ॥ १३३ ॥

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनु जायते ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ १३४ ॥

पुत्रिका करनेपर यदि किसी पुरुषके पुत्र उत्पन्न हो तो पुत्रिका और पुत्र दोनों समान भागी होंगे क्योंकि पुत्रीको ज्येष्ठता नहीं होती (पुत्रीके ज्येष्ठ होनेपर भी उसे पुत्रसे अधिक नहीं मिलेगा) ॥ १३४ ॥

अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथंचन ।

धनं तत्पुत्रिकामर्ता हरेतैवाविचारयन् ॥ १३५ ॥

जो कोई पुत्रिका पुत्रहीन रहकर मरजाय तो उस पुत्रिकाका पतिही विचारको छोड़कर अर्थात् निस्सन्देह उसका धन ले ले ॥ १३५ ॥

अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदृशात्सुतम् ।

पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

पुत्रिका कीहुई हो वा न कीहुई हो, लड़कीके गर्भसे समान जातीय पतिसे उत्पन्न हुए पुत्रसे नाना पौत्रवान् होगा और वह पौत्र नानाको पिंड देकर नानाका धन लेगा ॥ १३६ ॥

पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते ।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रह्मस्याप्नोति विष्टपम् ॥ १३७ ॥

मनुष्य पुत्रसे स्वर्गादिक लोकोको पाता है, पौत्रसे बहुत कालतक बड़ा रहता है और प्रपौत्रसे सूर्यलोकको जाता है ॥ १३७ ॥

पुंनासो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३८ ॥

पुत्र, पुत्राम नरकसे पिताकी रक्षा करता है इसलिये ब्रह्माने स्वयं उसका नाम पुत्र रक्खा है ॥ १३८ ॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोकं विशेषो नोपपद्यते ।

दौहित्रोपि ह्यमुत्रैतं संतारयति पौत्रवत् ॥ १३९ ॥

लोकमें पौत्र और दौहित्रमें कोई भी विशेष नहीं है क्योंकि दौहित्र भी पौत्रकी भांति नानाको परलोकमें तार देता है ॥ १३९ ॥

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः ।

द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्त्वृतीयं तत्पितुः पितुः ॥ १४० ॥

पुत्रिका का पुत्र पहिला पिंड माताको दे, उसके पीछे दूसरा पिंड नानाको दे और फिर तीसरा पिंड माताके दादाको दे ॥ १४० ॥

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दद्विमः ।

स हरेतैव तद्विकथं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१ ॥

अथ दत्तक प्रकरणं—जिसका दत्तक पुत्र सब गुणोंसे युक्त हो चाहे वह अन्य गोत्रसे भी आया हो तोमी पिताके सब धनको ले ॥ १४१ ॥

गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेद्द्विमः कश्चित् ।

गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥

दत्तक पुत्र जन्मदाताके गोत्र और धनको कभी नहीं पासकता, जिसके धन और गोत्रको ग्रहण करता है उसेही पिंड दे सकता है इसलिये दत्तक पुत्र देनेवालेके लिये (उस पुत्रके किये) स्वधा (श्राद्धादि) नाश हो जाते हैं ॥ १४२ ॥

अनियुक्तासुतश्चैव पुत्रिण्यासश्च देवरात् ।

उभौ तौ नार्हतौ भागं जारजातककामजौ ॥ १४३ ॥

नियुक्तायामपि पुमान्नार्या जातोऽविधानतः ।

नैवाहैः पैतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥

अथ क्षेत्रविभागप्रकरणं—यदि कोई स्त्री, गुरुजनों की अनुमतिके बिना, अन्य पुरुषके द्वारा संतान उत्पन्न करे, वा संतान होनेपर भी देवरसे संतान उत्पन्न करवै तो ये दोनों पुत्र जारज और कामज होनेसे धनके अधिकारी नहीं हो सके ॥ १४३ ॥ जो पुरुष गुरु आदिकी नियुक्त कीहुई स्त्रीमें भी (घृतके अभ्यंगनादि) शास्त्रोक्त विधिसे उत्पन्न नहीं हुआ

वह भी (क्षेत्रवाले) पिताके धनके योग्य नहीं होता क्योंकि वह पतितसे पैदा हुआ है ॥ १४४ ॥

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः ।

क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं धर्मतः प्रसवश्च सः ॥ १४५ ॥

१ गुरुजनकी आज्ञासे उत्पन्न हुआ पुत्र औरस पुत्रकी भांति पैतृक धनका अधिकारी होता है क्योंकि उसमें क्षेत्रस्वामी अर्थात् स्त्रीकाही बीज है और वह सतानमी वर्गसे है ॥ १४५ ॥

धनं यो विभृत्याद्भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियमेव च ।

सोऽपत्यं भ्रातुस्तपाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥ १४६ ॥

यदि कोई पुरुष सपत्ति छोड़कर निस्सतान मर जाय तो उसका छोटा भाई बड़े भाईकी स्त्री और धनकी रक्षा करे तथा उसकी स्त्रीमें पुत्र उत्पन्न करके जेठे भाईकी सब सपत्ति उसे दे दे ॥ १४६ ॥

या नियुक्तान्यतः पुत्रं देवराद्वाप्यवाप्नुयात् ।

तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४७ ॥

गुरु आदिकी आज्ञासे यदि कोई स्त्री देवर वा अन्य किसी पुरुषसे कामके लक्ष होकर पुत्र उत्पन्न करावे, तो वह पुत्र कामज और वृथा उत्पन्न होनेसे पैतृक धनका अधिकारी नहीं होसका ॥ १४७ ॥

एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु ।

वह्नीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥ १४८ ॥

विजातीयपुत्रविभागप्रकरणं—यह सर्वा स्त्रीमें उत्पन्न हुए पुत्रोंका विभागविधान जानना चाहिये । अब अनेक वर्णकी स्त्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्रोंके विभागका विषय सुनो ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्यानुपूर्वेण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः ।

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ १४९ ॥

यदि ब्राह्मणकी वर्णक्रमसे चार स्त्रिया हों तो उनके पैदा हुए पुत्रोंमें विभाग भी यह विधि कही गई है ॥ १४९ ॥

कीनाशो गोघृषो यानमलंकारश्च वैश्व च ।

विप्रस्यौद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १५० ॥

ब्राह्मणीके पुत्रको एक खेतीका बैल, सवारी, आभूषण, घर और अन्य सपत्तियोंमेंसे प्रधान भाग देना चाहिये ॥ १५० ॥

त्र्यंशं दायान्दरेद्विप्रो द्वावंशौ क्षत्रियास्तुतः ।

वैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शूद्रास्तुतो हरेत् ॥ १५१ ॥

ब्राह्मणीका पुत्र सब दायमेंसे तीन अंश, क्षत्रियाणीका पुत्र दो अंश, वैश्यानीका पुत्र डेढ़ अंश और शूद्राका पुत्र एक अंश ग्रहण करे ॥ १५१ ॥

सर्वे वा रिक्थजातं तद्वशधा परिकल्प्य च ।

धर्मं विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित् ॥ १५२ ॥

अथवा धर्मज्ञ पुरुष सब सपत्तिको दस भागमें बाटकर इसरीतिसे धर्मसे अनुसार विभाग करे ॥ १५२ ॥

चतुरोंऽशान्हरेद्विप्रस्त्रीनिंशान्क्षत्रियासुतः ।

वैश्यापुत्रो हरेद्द्वयंशमंशं शूद्रासुतो हरेत् ॥ १५३ ॥

ब्राह्मणीका पुत्र चार भाग ले, क्षत्रियाणीका पुत्र तीन भागले, वैश्यापुत्र दो भागले और शूद्रापुत्र एक भाग ले ॥ १५३ ॥

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् ।

नाधिकं दशमाद्दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५४ ॥

यद्यपि ब्राह्मणका (द्विजाति स्त्रियोंसे) पुत्र हो वा न हो परंतु शूद्रा स्त्रीके पुत्रको धर्मसे दशमे भागसे अधिक नहीं मिलेगा ॥ १५४ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् ।

यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥ १५५ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वा वैश्यका, शूद्रासे उत्पन्न हुआ पुत्र धनका भागी नहीं होता, पिता जो अपनी इच्छासे इसे दे वही इसका धन होता है ॥ १५५ ॥

समवर्णास्तु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम् ।

उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम् ॥ १५६ ॥

द्विजातियोंकी समान वर्णवाली स्त्रियोंमें पैदा हुए पुत्रोंमें जेठेको पूर्वोक्त उद्धाराश देकर श्रेय सपत्तिमेंसे सब पुत्र बराबर भाग बाट ले ॥ १५६ ॥

शूद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्या विधीयते ।

तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत् ॥ १५७ ॥

शूद्रकी स्वजातीयके सिवाय अन्य स्त्री नहीं कही है इसलिये उसमें एकसौ पुत्र होनेपरभी सबको समान भाग मिलेगा ॥ १५७ ॥

पुत्रान्द्वादश यानाह नृणां स्वार्यंभुवो मनुः ।

तेषां पद्भ्यन्धुदायादाः पडदायादवान्धवाः ॥ १५८ ॥

अथ द्वादशविधा पुत्रस्वरूपविभागप्रकरणं—स्वार्यंभुव मनुने जो बारह प्रकारके पुत्र मनुष्योंके कहे हैं उनमें छ. सगोत्रके दायभागी और बांधव हैं, परंतु अन्य छ. केवल बांधव हैं, वे गोत्र और दायके भागी नहीं हैं ॥ १५८ ॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च ।

गृहोत्पन्नोऽपविद्धश्च दाय्यादा यान्धवाश्च पट् ॥ १५९ ॥

औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृहोत्पन्न और अपविद्ध ये छ प्रकारके पुत्र गोत्रके धनके भागी और बांधव गिने जाते हैं ॥ १५९ ॥

कानीनश्च सहोदश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा ।

स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादवान्धवाः ॥ १६० ॥

कानीन, सहोद, क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त और शौद्र ये छः प्रकारके पुत्र गोत्र और दायके भागी नहीं होते केवल वाधव कहते हैं ॥ १६० ॥

यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवैः संतरञ्जलम् ।

तादृशं फलमामोति कुपुत्रैः संतरंस्तमः ॥ १६१ ॥

दूदी नावसे जलमें तरनेवाले मनुष्यको जैसा फल मिलता है उसी प्रकार कुपुत्रोंसे पुरुषको तम (संसार) पार करनेमें दुःख मिलता है ॥ १६१ ॥

यद्येकरिक्विथनौ स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ ।

यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद्वृद्धीत नेतरः ॥ १६२ ॥

एक पुरुषके औरस और क्षेत्रज दो प्रकारके पुत्र एक धनके भागी होजाय तो जिसके बापका धन है वह उसे ले दूसरा क्षेत्रज न ले ॥ १६२ ॥

एक पञ्चौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः ।

शेषाणामानृशंस्यार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् ॥ १६३ ॥

केवल औरस पुत्रही पितृधनका अधिकारी है, परंतु वह क्षेत्रज आदि शेष पुत्रोंको दोषनिवृत्तिके लिये भोजन वस्त्र आदि दे ॥ १६३ ॥

पुत्रं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात् ।

औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥

पितृधन बांटनेके समय औरस पुत्र, उस धनमेंसे क्षेत्रजकी अपने हिस्सेका छटा अथवा पाचवा भाग दे ॥ १६४ ॥

औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ ।

दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ १६५ ॥

औरस तथा क्षेत्रज पिताके धनके भागी होते हैं परंतु अन्य दत्तक आदि दस पुत्र क्रमसे गोत्रके भागी होते हैं और पूर्व २ के अभावमें पर २ धनके भागी होते हैं ॥ १६५ ॥

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम् ।

तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम् ॥ १६६ ॥

जिवाहित सवर्णां क्षीमें जिसे स्वयं उत्पन्न करे उस पुत्रको औरस जानना चाहिये और औरस पुत्रही मुख्य है ॥ १६६ ॥

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीवस्य व्याधितस्य वा ।

स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १६७ ॥

मृत पुरुष, क्लीव अथवा व्याधिग्रस्त पुरुष की क्षीमें नियोग होकर जो स्तान उत्पन्न होती है उसे क्षेत्रज कहते हैं ॥ १६७ ॥

माता पिता वा दद्यात्तां यमद्भिः पुत्रमापदि ।

सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स क्षेयो दत्त्रिमः सुतः ॥ १६८ ॥

पिता माता आपत्तिकालमें जिस सजातीय पुत्रका प्रीतिपूर्वक जलसे सकल्प करके दान करते हैं उसे दत्तक कहते हैं ॥ १६८ ॥

सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् ।

पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥ १६९ ॥

पुत्रके गुण और दोष जाननेमें चतुर और पुत्रके गुणोंसे युक्त और सजातीय ऐसे जिस पुत्रको मनुष्य पुत्र गोदले उसे कृत्रिम पुत्र जानना ॥ १६९ ॥

उत्पद्यते गृहे यस्य न च क्षायेत कस्य सः ।

स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ १७० ॥

जो पुत्र किसीकी छीमें सवर्णां जारसे उत्पन्न हो और ठीक २ विदित न हो कि वह किसका है तो वह जिसकी छीमें उत्पन्न हो उसकाही गूढोत्पन्न पुत्र होगा ॥ १७० ॥

मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा ।

यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥

मातापिताने अथवा दोनोंमेंसे एकने जिसे त्याग दिया हो ऐसे पुत्रको जो पुरुष ग्रहण करता है उसका वह अपविद्ध पुत्र ही कहाता है ॥ १७१ ॥

पितृवैश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः ।

तं कानीनं वदेन्नाम्ना बोद्धुः कन्यासमुद्भवम् ॥ १७२ ॥

पिताके घरमें रहकर कन्या गुप्तभावसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है उस पुत्रको कानीन कहते हैं और उस कन्याका जिसके साथ विवाह हो वह उसीका पुत्र है ॥ १७२ ॥

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती ।

बोद्धुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३ ॥

जानकर वा बिना जाने गर्भवती कन्याको व्याहनेपर जो पुत्र उत्पन्न होता है वह विवाह करनेवालेका सहोढ पुत्र कहता है ॥ १७३ ॥

क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकत् ।

स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥ १७४ ॥

जो पुरुष, जिसे अपत्यके निमित्त उसके मातापिताको मूल्य देकर ले वह सवर्ण हो वा असवर्ण हो उसे क्रीत (मोलका लिया) पुत्र कहते हैं ॥ १७४ ॥

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥

पतिके द्वारा त्यागी हुई अथवा विधवा स्त्री स्वेच्छापूर्वक फिर दूसरेकी भाग्यां होकर जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे पौनर्भव कहते हैं ॥ १७५ ॥

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्भ्रतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्मवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १७६ ॥

यह जी यदि अक्षतयोनि रहकर दूसरे पुरुषके पास जाय और वह उसे छोड़ले वा पूर्वपतिके पास लौट आवै और पति फिरसे उसके साथ विवाह करे तो यह पतिकी पुनर्मूःत्री होगी ॥ १७६ ॥

मातापितृविहीनो यस्स्वको वा स्यादकारणात् ।

आत्मानं स्पृशेद्यस्यै स्वयंदत्तस्तु सः स्मृतः ॥ १७७ ॥

पिता मातासे रहित अथवा उनके द्वारा बिना कारणही ब्यागा हुआ पुत्र अपनेको जिसे स्वयंदान करे तो वह उसका स्वयंदत्त पुत्र कहा जाता है ॥ १७७ ॥

यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम् ।

स पारयन्नेव शकस्तं स्यात्पारशवः स्मृतः ॥ १७८ ॥

ब्राह्मण कामके वश होकर विवाहित शूद्रा स्त्रीमें जिस पुत्रको उत्पन्न करता है उस पुत्रको पारशव कहते हैं क्योंकि वह पीता हुआ भी मरेके समान है ॥ १७८ ॥

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् ।

सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १७९ ॥

दासी वा दासकी स्त्रीमें शूद्रका जो पुत्र हो वह पिताकी आज्ञासे पिताके औरस पुत्रके बराबर भाग ले यही धर्म व्यवस्था है ॥ १७९ ॥

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान् ।

पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥

भावादि लोप न हो, इसलिये क्रमसे कहे हुए इन क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकारके पुत्रोंको पण्डितजन पुत्रके प्रतिनिधि (एवजी) कहते हैं ॥ १८० ॥

य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यवीजजाः ।

यस्य ते वीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥

ये प्रसववश अन्यके वीजसे पैदा हुए पुत्र वर्णन किये हैं वे जिसके वीजसे हुए हों उसके ही पुत्र होते हैं अन्यके नहीं ॥ १८१ ॥

आतृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् ।

सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुखवीत् ॥ १८२ ॥

एक मातासे पैदा हुए सद्दोदर-भाइयोंमें यदि एकही पुत्रवान् हो तो उस एक पुत्रसे सब भाई अपनेको पुत्रवान् जानें ॥ १८२ ॥

सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत् ।

सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३ ॥

जिन तिर्योका एतही पति है, उनमें गरि एत मी पुत्रगनी हो तो उम एक पुत्रसे मय नियों अपनेको पुत्राती जाने ॥ १८३ ॥

श्रेयसः श्रेयसोऽलामे पापीयान्निन्धमर्हति ।

बहवश्चेत्तु सदशाः सर्वे रिक्त्यस्य भागिनः ॥ १८४ ॥

अथ द्वादश पुत्र दायभागप्रकरणं—गेष्ट २ पुत्रके अभागमें अघर्म र पुत्र बनाधिकारी होता है और गरि बहुतेसे पुत्र एकसे हो तो वे मय धनके भागी होते हैं ॥ १८४ ॥

न भ्रातरौ न पितरः पुत्रा रिन्धहराः पितुः ।

पिता हरेदपुत्रस्य रिन्धं भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥

अपुत्र धनविभागप्रकरणं—पिताके धनके पुत्रही अधिकारी होते हैं भाई और पिता नहीं होते परन्तु पुत्रहीन पुत्रका धन पिता वा भई ले ले ॥ १८५ ॥

त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते ।

चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥

[असुतास्तु पितुः पत्न्याः समानांशाः प्रकीर्तिताः ।

पितामहश्च ताः सर्वा मातृकल्पाः प्रकीर्तिताः ॥]

पिता, पितामह, और प्रपितामह इन तीनोंका जलदान और पिंडदान होता है चौथा पिण्डकदाता होता है इसमें पांचवेका कोई संबन्ध नहीं ॥ १८६ ॥ (जो पुत्रहीन है वे सब और पितामह, पिता और पत्नीके समान भागी कहे हैं और सब त्रियां माताके समान होती हैं)

अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत् ।

अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥ १८७ ॥

जो सपिंडसे अत्यंत निकटका संबन्धी होगा वही सबसे पहिले धनका अधिकारी होगा, और सपिंडके न रहनेपर समानोदक आचार्य और शिष्य होंगे ॥ १८७ ॥

सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्त्यभागिनः ।

त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८ ॥

जो कोई (पास वा दूरका) संबन्धी न हो तो तीनों वेदोंके ज्ञाता, पवित्र, जितेन्द्रिय ब्राह्मण अधिकारी होते हैं इस प्रकार मृत पुरुषके भाद्र आदि धर्मकी धानि नहीं होती (क्योंकि वे ही पिंडके दाता होते हैं) ॥ १८८ ॥

अहार्थं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ।

इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेच्चूपाः ॥ १८९ ॥

पुत्रहीन ब्राह्मणको धन राजाको लेना उचित नहीं है यह शास्त्रकी

सदाकी मर्यादा है । (सन्तान-आदि) अन्य वर्णोंके धनको सबके अभावमें राजा ग्रहण करै ॥ १८९ ॥

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ।

तत्र यद्विकथजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत् ॥ १९० ॥

१. अहीन मृत पुरुषकी स्त्री, सगोत्र पुरुषसे पुत्र उत्पन्न करके मरे हुए पुरुषका सब धन उस पुत्रको दे दे ॥ १९० ॥

द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने ।

तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृहीत नेतरः ॥ १९१ ॥

यदि जो पिताओंसे पैदा हुए (औरस और पौनर्मव) दो पुत्र स्त्रीधनके ऊपर विवाद करै तो धन जिसके जन्मदाताका हो वही धन उसे मिळे दूसरा नहीं ॥ १९१ ॥

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः ।

भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२ ॥

माताके मरनेपर उसका धन सब सहोदर भाई और सहोदर बहनें समान भाग करके बाट लें ॥ १९२ ॥

यास्तासां स्युर्दृष्टितरस्तासामपि यथाहंतः ।

मातामह्या धनार्त्किञ्चित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ १९३ ॥

यदि इन कन्याओंकी कन्या हों तो उनको भी सन्मानके लिये नानीके धनमेंसे प्रसन्नता और यथोचित रीतिसे कुछ देना चाहिये ॥ १९३ ॥

अध्ययध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि ।

भ्रातृमातृपितृप्रार्त्तं पद्विधे स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ १९४ ॥

स्त्रीधनस्वरूपनिर्णयः—स्त्रीधन छ. प्रकारका कहा गया है, (१) अध्ययि, (२) अध्यावाहनिक, (३) प्रतिदत्त (४) माताका दिया, (५) पिताका दिया, और (६) भाईका दिया हुआ ॥ १९४ ॥

अन्वाधेयं च यहत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत् ।

पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ १९५ ॥

१. विवाहके अनंतर पिताके वा पतिके कुलसे जो धन मिलै उसे अन्वाधेय कहते हैं यह अन्वाधेय और प्रीतिसे पतिका दिया हुआ वन- पतिकी जीवित अवस्थामें स्त्रीके मरनेपर उसके पुत्रपुत्रियोंका होता है ॥ १९५ ॥

ब्राह्मदैवार्पणान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु ।

अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥

ब्राह्म, वैव, आप्ये, गान्धर्व, और प्राजापत्य इन पांच प्रकारके विवाहोंमें मिला हुआ छ. प्रकारका जो स्त्रीधन है वह स्त्रीके चंतानरहित मरजानेपर उसके पतिको मिलता है ॥ १९६ ॥

यत्त्वस्याः स्यात्तन्नं दत्तं त्रिवाह्येभ्यामुरादिषु ।

अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तद्विष्यते ॥ १९७ ॥

अमुर, राक्षस, जो पैशान विवाहमें मिया हुआ तो मोहन हो वह श्रीके नि गन्तान मरनेपर मातापिताका हांगः ॥ १९७ ॥

स्त्रियां तु यद्व्यवेष्टितं पिना दत्तं कथंचन ।

ब्राह्मणी तद्दत्तेऽन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ १९८ ॥

ब्राह्मणसे पिपाही हुई अनेक जातिकी स्त्रियोंमें यदि दत्तिकाकी अति श्री नि सन्तान मरजाय तो उसके पिताका दिया हुआ धन मरती ब्राह्मणकी कन्याको मिटेगा जोर उसके न रहनेपर उसकी संतानको मिटेगा ॥ १९८ ॥

न निर्हारं स्त्रियः कुयुः कुटुम्बाद्बहुमभ्यगान् ।

स्वकादपि च वित्तादि स्वस्य भतुंगनाप्तया ॥ १९९ ॥

कोई श्री बहुत कुटुम्बियोंके साधारण धनमेंसे और अपने भी धनमेंसे बिना पतिकी आशिके (भूषणादिके दिने) धन इकट्ठा वा खप न कर सकेंगी ॥ १९९ ॥

पत्यो जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो घृतो भवेत् ।

न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २०० ॥

पतिके जीतेजी स्त्रियोंने जो आभूषण पहिन लिये हों उन्हें भर्ताके मरने पर पुत्र आदि दायाद (श्रीके जीवित रहते) न ले सनेने, यदि लेने तो वे पापी होंगे ॥ २०० ॥

अनंशौ स्त्रीयपतितौ जात्यन्धवधिरौ तथा ।

उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्त्रियाः ॥ २०१ ॥

अथ विभागनधारिप्रकरणं—स्त्रीय, पतित, जन्मांध, बधिर उन्मत्त, जड़, मूक और (करचरणादि) इन्द्रियरहित पुरुष विनृधनके अधिकारी नहीं होते ॥ २०१ ॥

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं दातया मनीषिणा ।

ग्रासाच्छादनमत्सन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥ २०२ ॥

बुद्धियान् मनुष्यको चाहिये कि इन स्त्रीय आदि सबको यथाशक्ति जीवन पर्यन्त भोजन बस्त्र दे, न देनेसे वह अधिक पापी होता है ॥ २०२ ॥

यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्स्त्रीवादीनां कथंचन ।

तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति ॥ २०३ ॥

स्त्रीय आदिकोंको यदि विवाहकी इच्छा हो और उनकी स्त्रियोंमें किसी तरह यदि क्षेत्रज पुत्र जन्में तो वे पितामहके धनके अधिकारी होते हैं ॥ २०३ ॥

यत्किंचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति ।

भोगो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥ २०४ ॥

पिताके मरनेपर यदि जेठा भाई भाइयोंके संग रहता हो और अपनी सामर्थ्यसे जो कुछ घनापैदा करे तो उसमें विया पढ़नेवाले छोटे भाइयोंकामी भाग होता है ॥ २०४ ॥

२. अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनं भवेत् ।

समस्तत्र विभागः स्यादपिञ्च इति धारणा ॥ २०५ ॥

यदि विद्याहीन सर्व भाई व्यापार करके धनकी वृद्धि करे तो पिताके धनको छोड़कर वे समान भागी होंगे यह शास्त्रका नियम है ॥ २०५ ॥

विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत् ।

मैत्र्यमौद्वाहिकं चैव मधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥

अभिभाज्य प्रकरणं—जिसका जो धन, विद्यासे, मित्रसे, विवाहके समय और यज्ञमें मिला हो वह जिसे मिला हो उसीका होता है ॥ २०६ ॥

भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा ।

स निर्भोज्यः स्वकार्दशात्किञ्चिद्वोपजीवनम् ॥ २०७ ॥

भाइयोंमेंसे जो भाई स्वयं उपार्जन करनेमें समर्थ होनेसे पिताके धनको न चाहे, तो पितृधनमेंसे कुछ धन देकर सब भाई उसे अलग कर दें (नहीं तो दुसरेके लड़के पीछे झगडा मचावेगे) ॥ २०७ ॥

१. अनुपपन्नपितृद्रव्यं ध्रमेण यदुपार्जितम् ।

स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमर्हति ॥ २०८ ॥

पिताके धनको नष्ट न करके जिस पुरुषने अपने परिश्रमसे वा अपनी चेष्टासे धन पैदा किया है वह यदि न चाहे तो उस धनमेंसे किसीको कुछ न दे ॥ २०८ ॥

पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाशुयात् ।

न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥ २०९ ॥

यदि पितृक संपत्ति पिताकी असामर्थ्यसे स्वानांतरित होगईहो और पुत्र अपनी शक्तिसे उसका उद्धार करे तो वह धन उसका स्वयं उपार्जित गिना जायगा और यदि वह न चाहे तो अपने पुत्रोंको उसमेंसे भाग न दे ॥ २०९ ॥

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्यं तत्र न विद्यते ॥ २१० ॥

अथ संसृष्टिधनविभागः—भाई पहिले अलग रहकर पीछे मिलकर रहें तो फिर विभागके समय सबको बराबर भाग मिलेगा, जेठा भाई उदाराराज नहीं पावेगा ॥ २१०-॥

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः ।

त्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ॥ २११ ॥

सौदर्या विभजेरस्तं समेत्य सहिताः समम् ।

भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनामयः ॥ २१२ ॥

यदि माइयोंमेंसे जेठा वा छोटा भाई (संन्यासी पतित आदि होनेसे) अशरहित होजाय वा मरजाय तो उसके भागका लोप न होगा उसने पुत्रको देदेना चाहिये (और जो पुत्र नहींतो) उस धनको सय सगे भाई, ससष्टभाई और सगी बहिन इकट्ठे होकर समान रीतिसे आपसमें बाँटें ॥ २११ ॥ २१२ ॥

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभान्द्रातृन्व्यवीयसः ।

सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ २१३ ॥

जो जेठा भाई लोभसे छोटे भाइयोंको ठगै अर्थात् उन्हें पूरा भाग न दे तो उसे वड़ा नहीं मानना चाहिये, उसे जेठके योग्य उद्धारारा भी नहीं मिलेगा और राजाके द्वारा उसे दंड मिलना चाहिये ॥ २१३ ॥

सर्व एव विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरौ धनम् ।

न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् ॥ २१४ ॥

(द्यूत वेश्यागमन आदि) कुकर्म करनेवाले सब भाई धनके भागी नहीं होते, छोटे भाइयोंको विना दिये जेठा भाई साधारण धनकोभी अपने आधीन न करे ॥ २१४ ॥

भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ।

न पुत्रभागं विभक्तं पिता दद्यात्कथंचन ॥ २१५ ॥

यदि अविभक्त भाई साथ रहकर धन पैदा करे तो पिता उनमेंसे किसीको थोड़ा किसीको बहुत कमी न दे ॥ २१५ ॥

ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् ।

संस्पृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥

यदि कोई पुत्र धन बंटनेके अनंतर जन्में तो उसे पिताका धन मिलेगा और यदि कुछ भाई पिताके साथ होगए हों तो उनके साथ सब धन मिलाकर वह विभाग करे ॥ २१६ ॥

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् ।

मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ २१७ ॥

नि.संतान पुत्रका धन माता पावैगी, माताके मरणपर वह दादीको मिलेगा ॥ २१७ ॥

ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि ।

पश्चाद्भुञ्जेत यत्किञ्चित्तसर्वं समतां नयेत् ॥ २१८ ॥

पिताके सब ऋण और धन विधिपूर्वक बंटनेके पीछे भी यदि कहीं पैतृक धन वा ऋण दीखे तो उसमें भी पहिलेकी भाति सब समान भाग कर ले ॥ २१८ ॥

घृत्नं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं क्षियः ।

योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९ ॥

वज्र, सवारी, आभूषण, पक्वान्न, कूपादि, दासी आदि जिया, पुरोहित मंत्री छत्र चामर आदि, और घर आदिके प्रवेशका मार्ग, इनका विभाग करना अयोग्य कहा है ॥ २१९ ॥ (इति दायभागः)

अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ।

क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत ॥ २२० ॥

अह तुमसे विभागकी व्यवस्था और क्षेत्रज आदि पुत्रोंका दाय भाग कर्मसे कहा अब द्यूतधर्म सुनों ॥ २२० ॥

द्यूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्राभिवारयेत् ।

राजान्तकरणान्नेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ २२१ ॥

राजा अपने राज्यसे जुएका खेलना और समाह्वय बंद करै क्योंकि ये दोनों दोष राजाओंके नाशक हैं ॥ २२१ ॥

प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद्देवनसमाह्वयौ ।

तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यत्नवान्मवेत् ॥ २२२ ॥

जुआ और समाह्वय ये दोनों प्रत्यक्ष चोरी हैं इसलिये राजाको सदा इन दोनोंके रोकनेका सदा यत्न करना चाहिये ॥ २२२ ॥

अप्राणिमिर्धत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते ।

प्राणिमिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ २२३ ॥

पासा आदि खेलनेको जुआ कहते हैं और घोषा भेक आदि प्राणियोंके द्वारा बाजी बंदकर जो खेला जाता है उसे समाह्वय जानना ॥ २२३ ॥

द्यूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत् वा ।

तान्सर्वान्घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥

जो पुरुष जुआ वा समाह्वय खयं करै वा दूसरेसे करावै उन सबको राजा प्राणवधपर्यन्त दंड दे और द्विजचिन्हधारी शूद्रोंको भी ऐसीही दंड दे ॥ २२४ ॥

कितवान्कुशीलवान्कूरान्पापण्डस्थांश्च मानवान् ।

विकर्मस्थाञ्छौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्घासयेत्पुरात् ॥ २२५ ॥

कितव अर्थात् जुआ समाह्वय करनेवाले, नाचने और गानेवाले, कूर, पाखंडी मनुष्य, अवैदिकधर्ममें प्रीति करनेवाले, और मद्य पीनेवाले आदिको राजा नगरके बाहर क्षिप्र निकाल दे ॥ २२५ ॥

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः ।

विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ २२६ ॥

ये सब और छिपे हुए चोर राज्यमें रहकर अधर्म करके राजाको और उत्तम प्रजाको सदा बहुत हेग पहुँचाते हैं ॥ २२६ ॥

द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत् ।
तस्माद्द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥ २२७ ॥

पहिले कल्पमें भी जुआ बड़ी शत्रुता करनेवाला देखा गया है इसलिये बुद्धिमान् पुरुष इसीके लिये भी जुआ न खेले ॥ २२७ ॥

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः ।
तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥

जो पुरुष छुपकर वा प्रकाशरूपसे जुआ खेले उसे राजाकी इच्छानुसार दंड होता है ॥ २२८ ॥

क्षत्रविद्वशद्वयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन् ।
आनृप्यं कर्मणा गच्छेद्विप्रो दद्याच्छनैः शनैः ॥ २२९ ॥

क्षत्री, वैश्य और शूद्र आदि यदि दंड देनेमें असमर्थ हों तो राजा उनके योग्य काम कराकर दंडका बदला चुका ले परंतु ब्राह्मणसे धीरे २ दंडका घन वसूल करे ॥ २२९ ॥

स्त्रीवालोन्मत्तबुद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम् ।
शिफाविदलरज्ज्वाद्यैर्विदध्याष्टपतिर्दमम् ॥ २३० ॥

स्त्रियां, बालक, उन्मत्त, बृद्ध, दरिद्री, और रोगी इन्हें वैत, बास अथवा रस्सीआदिसे राजा दंड दे ॥ २३० ॥

ये निशुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्याणाम् ।
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेच्छृपः ॥ २३१ ॥

कर्मचारी यदि लोभसे रिश्वत लेकर वादीप्रतिवादियोंके कार्योंको बिगाड़ें तो राजा उनका सर्वस्व हरले ॥ २३१ ॥

कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दुष्कान् ।
स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च हन्याद्विदसेविनस्तथा ॥ २३२ ॥

राजाकी आज्ञाको छलसे लिखनेवाले, प्रजाओंमें भेद करनेवाले, स्त्री, बालक तथा विप्रघातक, तथा शत्रुकी सेना करनेवाले इनका राजा वध करे ॥ २३२ ॥

तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत् ।
कृतं तद्भर्तुः विद्यान्न तद्भूयो निवर्तयेत् ॥ २३३ ॥

[तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विकर्मणा ।
द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत् ॥]

व्यवहारमें किसी कार्यको धर्मके अनुसार समाप्त कर दिया हो अथवा किसीको दंड दे दिया हो तो उसे किया हुआही समझे उसे फिर न दए ॥ २३३ ॥

(धर्मके अनुसारः क्री हुई व्यवस्था, चा दंडके प्रतिकूल कार्य करके जो उसका अपमान करे उसपर दूना दंड करके राजा उससे उस धर्म-निश्चित निर्णयके अनुकूल फिर कार्य करावे)

अमात्याः प्राङ्निवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा ।

तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥ २३४ ॥

मंत्री वा न्यायकर्ता जिस कामको अन्याया कर दें अर्थात् शास्त्रानुसार न करें तो राजा उसको फिरसे स्वयं करे और उनको सहस्र पण दंड दे ॥ २३४ ॥

ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुस्तल्पगः ।

एते सर्वे पृथग्भेया महापातकिनो नराः ॥ २३५ ॥

ब्राह्मणघाती, मद्यप, चोर और गुरुपत्नीगामी इन सब पुरुषोंको अलग २ महापापी जानें ॥ २३५ ॥

चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् ।

शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥

जो ये चारों प्रायश्चित्त न करें तो राजा उन्हें धर्मपूर्वक, धनसंयुक्त नीचे लिखा शारीरक दंड दे ॥ २३६ ॥

गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुरापञ्चजः ।

स्तेये च भ्रुवपदे कार्यं ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥ २३७ ॥

गुरुपत्नीगामीके मस्तकपर बोहा तपाकर भगका चिन्ह, मद्यपके मस्तकपर मद्यपात्रका चिन्ह, चोरके मस्तकपर कुत्तेके पाँवका चिन्ह और ब्रह्महत्याके मस्तकपर एक धारहीन पुरुषका चिन्ह अंकित कर दे ॥ २३७ ॥

असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्यांविवाहिनः ।

चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मवह्निष्कृताः ॥ २३८ ॥

ये महापातकी भोजन, यज्ञ और अध्यापन कराने योग्य नहीं हैं, इनके साथ कन्यादानका भी संबन्ध न करे, ये चारों सब धर्मोंसे रहित होकर दीन हुए पृथ्वीपर घूमते रहें ॥ २३८ ॥

श्रुतिसंबन्धिस्त्वैते स्वकन्याः कृतलक्षणाः ।

निर्दया निर्भस्कारास्तन्मनोरनुशासनम् ॥ २३९ ॥

इन चिन्हित महापापियोंको स्वजन तथा अन्य संबन्धी छोड़ दे, उनपर दया न करे, उन्हें नमस्कार न करे, यह मनुकी आज्ञा है ॥ २३९ ॥

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णा यथोदितम् ।

नाङ्ग्या राक्षा ललाटे स्युर्दाप्यास्तूचमसाहसम् ॥ २४० ॥

यदि ये सब अर्पने २ वर्षके अनुसार प्रायश्चित्त करें तो उनके मस्तकपर राजा चिन्ह अंकित न करे परंतु उन्हें उत्तम साहस दंड दे ॥ २४० ॥

आगःसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः ।

विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

ब्राह्मण अज्ञानसे यह पातक करै तो राजा उसे भी मध्यम साहस दंड दे और जानकर करै तो उसे धनवस्त्रसहित राज्यसे बाहर निकाल दे ॥ २४१ ॥

इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः ।

सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

यदि क्षत्रिय आदि अज्ञानसे इन सब महापातकोंको करै तो उन्हें सर्वस्व हरणका दंड होगा और जानकर करनेपर वे देशसे निकाल दिये जायगे ॥ २४२ ॥

नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो धनम् ।

आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥

धार्मिक राजा महापातकोंका धन कदापि न ले और जो लोभसे ले ले तो वह महापातकके दोषसे लिप्त होता है ॥ २४३ ॥

अण्डु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।

श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्रह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ २४४ ॥

महापातकोंको दंड देनेसे जो धन मिलै उसे जलमें फेंककर वरुण देवताके अर्पण कर दे अथवा वेद और सदान्तरसे युक्त ब्राह्मणको दे दे ॥ २४४ ॥

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः ।

ईशः सर्वस्य जगतो ब्रह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥

क्योंकि वरुण राजाओंके शासक हैं और दंडके धनके स्वामी हैं और वेदपाठी ब्राह्मण सब जगतका प्रभु है ॥ २४५ ॥

यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् ।

तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥

निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोत्तानि विशां पृथक् ।

वालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥

जहा राजा पापियोंका धन नहीं लेता है वहा मनुष्य उचित समयमें जन्मते और दीर्घजीवी होते हैं ॥ २४६ ॥ वहा वैश्य जैसा २ अन्न बोते हैं वैसेही सब शस्य भी अलग २ उपजते हैं, बाल्यावस्थामें कोई नहीं मरता और (कुब्ज, पंगु आदि) विकृत पुरुष पैदा नहीं होते ॥ २४७ ॥

ब्राह्मणान्वाधमानं तु कामादघरवर्णजम् ।

हन्याच्चिन्नैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः ॥ २४८ ॥

यदि शूद्र जान बूझकर ब्राह्मणोंको क्लेश दे तो राजा शूद्रको अनेक प्रकारके उद्वेजनक वधउपायोंसे मारै ॥ २४८ ॥

यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे ।

अधर्मो नृपतेर्दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥

राजाको अवध्यके मारनेसे जितना पाप होता है उतनाही वध्यके छोड़ देनेमें झूझता है, शास्त्रके अनुसार दंड देना राजाका धर्म देखा गया है ॥ २४९ ॥

उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः ।

अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥

आपसमें झगड़नेवाले वादी प्रतिवादीका व्यवहारनिर्णय मैंने अठारह मार्गोंमें विस्तरपूर्वक कहा ॥ २५० ॥

एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुर्वन्महीपतिः ।

देशानलब्धांल्लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत् ॥ २५१ ॥

इसभाति राजा धर्मपूर्वक कार्योंको अच्छीतरह करता हुआ अलब्ध देशोंके पानेकी इच्छा करे और अपने आधीन देशोंका पालन करे ॥ २५१ ॥

सम्यक्निविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः ।

कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ॥ २५२ ॥

राजा पूर्वोक्त जगल सत्य संपन्नके देशोंमें शास्त्रानुसार किला बनाकर है और चोर साहस आदि कंटकोंके नष्ट करनेके सदा उत्तम यत्न करे ॥ २५२ ॥

रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात् ।

नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥

सदाचारी लोगोंकी रक्षा करनेसे और दुष्टोंको दंडित कर देनेवाले प्रजापालक राजा स्वर्गमें जाते हैं ॥ २५३ ॥

अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं शृणाति पार्थिवः ।

तस्य प्रभुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ २५४ ॥

चोरोंको बिना दंड दिये जो राजा प्रजासे कर लेता है उसका राज्य त्रिगद जाता है और उसे स्वर्गलोक नहीं मिलता ॥ २५४ ॥

निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम् ।

तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥ २५५ ॥

जिस राजाके बाहुबलके आसरे सब देश निर्भय रहता है उसका देश इस प्रकार बढ़ता है जैसे लीचनेसे वृक्ष बढ़ता है ॥ २५५ ॥

द्विविधांस्तस्करान्विघात्परद्रव्यापहारकान् ।

प्रकाशाश्चाप्रकाशांश्च चारचक्षुर्महीपतिः ॥ २५६ ॥

दूतही हैं नेत्र जिसके ऐसा राजा दूतोंके द्वारा प्रकाश और गुप्त दोनों प्रकार के परधनहारी चोरोंको जाने ॥ २५६ ॥

प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः ।

प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वैते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७ ॥

उनमेंसे बेचनेकी अनेक वस्तुओंके मूल्य वा तोल आदिमें ठगें वे प्रत्यक्ष वंचक हैं और जो सेंध लगाकर चोरी करें अथवा जंगलमें रहकर पशुनाश धन हरें उन्हें गुप्त वंचक जानना चाहिये ॥ २५७ ॥

उत्कोचकाश्चोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा ।

भङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्चक्षणिकैः सह ॥ २५८ ॥

असम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः ।

शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥

पृथमादीन्विजानीयात्प्रकाशांल्लोककण्टकान् ।

निगूढचारिणश्चान्याननार्यान्ार्यलिङ्गिनः ॥ २६० ॥

रिशबत लेनेवाले, भय दिखाकर धन लेनेवाले, ठग, जुआरी, अच्छी २ बातें मारकर धन लेनेवाले, उत्तम वेशसे पाप छुपाकर धन लेनेवाले, हाथकी रेखा देखकर शुभाशुभ फल कहनेवाले, अशिक्षित महावत, अशिक्षित चिकित्सक शिल्पकी जीविकावाले, धन हरनेमें निपुण वेदया, और उत्तम वेशधर कर गुप्त विचरनेवाले शूद्र आदि इनको प्रत्यक्ष लोककण्टक जानें ॥ २५८ ॥ २५९ ॥ २६० ॥

तान्विदित्वा सुचरितैर्गूढैस्तत्कर्मकारिमिः ।

चारैश्चानेकसंस्थानैः प्रोत्साद्य वशमानयेत् ॥ २६१ ॥

उस कर्मकेही करनेवाले, गुप्त और उत्तम चरित्रवाले और अनेक स्थानोंमें टिके हुए चारोंसे उन पूर्वोक्त वंचकोंको जानकर और उचित ताड़ना देकर अपने वशमें करें ॥ २६१ ॥

तेषां दोषानमिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः ।

कुर्वीत-शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥

राजाको चाहिये कि जो कर्म जिसने किया हो उसमें दोषोंकी प्रत्यक्ष घोषणा करके उनके अपराधोंके अनुसार भली प्रकार दंड दे ॥ २६२ ॥

नहि दण्डादते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः ।

स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥

चोर, पापबुद्धि और गुप्त रीतिसे पृथ्वीपर विचरनेवाले चोरोंके प रोकना बिना दंड किये अपने आप नहीं हो सका ॥ २६३ ॥

समाप्रपापुपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः ।

चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥

जीर्णोद्यानान्धरण्यानि कारुकावेशनानि च ।

शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥

एवंविधानृपो देशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः ।

तस्करप्रतिषेधार्थं चरैश्चाप्यनुचारयेत् ॥ २६६ ॥

समा, प्याऊ, मालपुए आदिकी विक्रीकी जगह, वेद्याघर, मद्यघर, अन्न वेचनेके स्थान, चौराहे, वृक्षमूल, लोगोंके एकत्र होनेके स्थान, मैले पुराने, अमीचे, जंगल, शिल्पगृह, निर्जनघर, वन और उपवन, ऐसे स्थानोंमें चोरोंके नाशके लिये राजा एकस्थानमें रहनेवाली तथा चळती हुई प्यादोंकी सेनाको तथा अन्य दूतोंको नियुक्त करै ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥

तत्सहायैरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः ।

विद्यादुत्सादयेच्चैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७ ॥

जो लोग चोरोंके सहायक वा चोरोंकी भांति सन्विच्छेद आदि कार्योंमें निपुण हों अथवा पहिलेके चोर हों उन्हीके सहारे राजा चोरोंको जानकर उनका नाश करै ॥ २६७ ॥

भक्ष्यभोज्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दर्शनैः ।

शौर्यकर्मापदेशैश्च कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥

भक्ष वा भोजनका लोभ दिखाकर वा ब्राह्मणोंका दर्शन तथा शौर्यकर्म दिखानेके बहाने उन नवीन चोरोंको राजदूतोंके द्वारा बुला कर एकत्र करै ॥ २६८ ॥

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रणिहिताश्च ये ।

तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्समिन्नज्ञातिवान्धवान् ॥ २६९ ॥

यदि नवीन चोर (दूतोंके बुलानेपरभी) पकड़नेका सदेह कर न आवें तो राजा स्वयं बलपूर्वक उनके मित्र, ज्ञाति और वायवोंका वध करै ॥ २६९ ॥

न होटेन विना चौरं घातयेद्भार्मिको नृपः ।

सहोढं सोपकरणं घातयेद्विचारयन् ॥ २७० ॥

धर्मात्मा राजाको चाहिये कि चोरीका माल धरामद न हो और चोरका निषेध न हो तो उसे विनष्ट न करै, परंतु जो चोरीका माल तथा संध कीड़नेके औजारसहित चोर निश्चित हो जाय तो विना विचारे उसका वध करै ॥ २७० ॥

भ्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः ।

भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वास्तानपि घातयेत् ॥ २७१ ॥

यदि गावोंमें कोई चोरोंको बल देनेवाले हों अर्थात् भोजन मन्त्रादिसे सहायता करते हों अथवा चोरोंको चोरीके उपयोगी अन्न वासन वा रहनेकी स्थान देते हों तो राजा उन सबका भी वध करै ॥ २७१ ॥

राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्चैव चोदितान् ।

अभ्याघातेषु मध्यस्थान्छिप्याच्चौरानिव द्रुतम् ॥ २७२ ॥

जो राज्यमें रक्षाके लिये नियुक्त हों अथवा राजसामंत जो सीमापर नियुक्त हों और चोरी करानेमें मिले हुए हों तो राजा चोरकी भांति उन्हें भी शीघ्र दंड दे ॥ २७२ ॥

यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः ।

दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम् ॥ २७३ ॥

धर्मजीवी ब्राह्मण यदि धर्मसे भ्रष्ट होजाय अर्थात् यज्ञादि न करे तो उस अपने धर्मसे पतितको राजा दंडसे ताड़ना दे ॥ २७३ ॥

ग्रामघाते हितामङ्गे पथि मोषामिदर्शने ।

शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४ ॥

गांव छटनेमें, पुल टूटनेमें, मार्गमें चोरोंको देखकर जो अपनी शक्तिके अनुसार नहीं दौड़ते अर्थात् रक्षा नहीं करते उन्हें भी राजा बल धनसहित देशसे निकाल दे ॥ २७४ ॥

राक्षः कोषापहर्तृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान् ।

घातयेद्विधैर्दण्डैररीणां चोपजापकान् ॥ २७५ ॥

राज्यके खजानेको चुरानेवाले, राजाके विरोधी और राजाके साथ शत्रुओं का वैर बढ़ानेवाले लोगोंको अनेक प्रकारका दंड देकर राजा उनका वध करे ॥ २७५ ॥

संधि छित्त्वा तु ये चौर्ये राजौ कुर्वन्ति तस्कराः ।

तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत् ॥ २७६ ॥

जो चोर संधि लगाकर रातको चोरी करते हैं, राजा उनके हाथ काटकर पैनी सूलीपर बद्धावे ॥ २७६ ॥

अङ्गुलीर्ग्रन्थिमेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे ।

द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति ॥ २७७ ॥

जो लोग गाठ काटकर चोरी करते हैं उनका पहिली वार अंगूठा और तर्जनी अंगुली कटवा दे, दूसरी वार हाथ पाव कटवा दे, तीसरी वार उसे वधका दंड दे ॥ २७७ ॥

अग्निदान्मकदांश्चैव तथा शस्त्रावकाशदान् ।

संनिधातृश्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥

जो चोरोंको अग्नि, भोजन देते हों अथवा उनको शस्त्र और मौका देते हों और चुराई हुई वस्तुओंको पास रखते हों उनको राजा चोरकी भांति दंड दे ॥ २७८ ॥

तडागमेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा ।

यद्यापि प्रतिस्स्क्रुयाद्वाप्यस्तुत्तमसाहसम् ॥ २७९ ॥

चाड़ तोड़कर तालाबको नष्ट करनेवालेको जलमें डुबाकर वा साधारण रीति से वध करे और जो घह तालाब ज्योंका स्यों कर दे तो राजा उसे उत्तम साहस दंड दे ॥ २७९ ॥

कोष्ठागारायुधानारदेवतागारमेदकान् ।

हस्त्यश्वरथहर्तृश्च हन्यादेघाविचारयन् ॥ २८० ॥

राजाका कोठार, अन्नशस्त्रोंका घर और देवालय इनको नष्ट करनेवाले भ्रष्टवा रथ, हाथी और घोड़ोंको हरनेवाले इनको राजा बिना विचारे बध करे ॥ २८० ॥

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् ।

आगमं वाप्यतां मिघात्स दाप्यः पूर्वसाहसम् ॥ २८१ ॥

जो किसीके पहिले बनाये हुए तालाबका जल हरे अथवा जल आनेके मार्गको नष्ट करदे उसे राजा प्रथम साहस दंड दे ॥ २८१ ॥

समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि ।

स द्वौ कार्पापणौ दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ २८२ ॥

जो पुरुष अनापत्कालमें राजमार्गमें (विष्टा आदि) अपवित्र वस्तु डाल दे उसपर राजा दो कार्पापण दंड करे और वह वस्तु उसीसे उठवा कर साफ करावे ॥ २८२ ॥

आपद्रुतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा ।

परिमापणमर्हन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३ ॥

यदि विपतमें पदा हुआ वृद्ध, वा गर्भिणी वा बालक ऐसा करे तो उसको शिडकै और उनसे वह वस्तु उठवा कर साफ करावे यह मर्यादा है ॥ २८३ ॥

चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः ।

अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥

जो चिकित्सक मनुष्योंको छोड़ गऊ आदिकी ठीक २ चिकित्सा न करे उन सब पर प्रथम साहस दंड और जो मनुष्योंकी कुछ से कुछ चिकित्सा करे उनपर मध्यम साहस दंड होना चाहिये ॥ २८४ ॥

संकमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च मेदकः ।

प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥

जलके ऊपरसे जानेका छोटा पुल, ध्वजा, पूजनका स्तंभ तथा प्रतिमा इनके तोड़नेवालेपर राजा पाचसौ पण दंड करे और इन सबको उससे फिर बनवावे ॥ २८५ ॥

अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे मेदने तथा ।

मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥

समैर्हि विपमं यस्तु चरेद्द्वै मूल्यतोऽपि वा ।

समाश्रुयाद्दमं पूर्वं नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥

अदूषित द्रव्योंको (निन्दित वस्तु-मिलाकर) दूषित करनेमें, माणिक आदि

रत्नोंके तोड़नेमें अथवा मुक्ता, प्रवाल आदिको अयोग्य स्थानमें वेधनेमें मनुष्यपर प्रथम साहस दंड करै ॥ २८६ ॥ जो पुरुष समान मूल्य देनेवालों में किसीको अच्छा और किसीको बुरा द्रव्य देता है अथवा समान मूल्यकी वस्तुको एकको अधिक और एकको थोड़े मूल्यमें देता है वह मनुष्य प्रथम मध्यम साहस दंड पाता है ॥ २८७ ॥

वन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गं निवेशयेत् ।

दुःखिता यत्र दृश्येरन्विकृताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥

राजाको चाहिये कि कारागार आदि बधनगृह राजमार्गमें बनावे कि जिससे दुःखित (बेसी डले लले लंगड़े आदि) विकृत और पापी लोगोंको सब देख सकें ॥ २८८ ॥

प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम् ।

द्वाराणां चैव भङ्गारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ २८९ ॥

राजगृह वा नगरका परकोटा तोड़नेवाले, खाईको मरनेवाले और द्वार भंग करनेवाले लोगोंको राजा तत्काल देशसे निकाल दे ॥ २८९ ॥

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः ।

मूलकर्मणि चानासेः कृत्यास्तु विविधास्तु च ॥ २९० ॥

सब मारणके उपायोंमें, वशीकरणके कामोंमें तथा अनेक प्रकारके उच्चाटन आदि कार्योंमें यदि किसीका मरण न हो तो दोसी पण दंड होगा (और जो कोई मरजाय तो बधदंड होहीगा) ॥ २९० ॥

अबीजविक्रयी चैव बीजोत्कृष्टं तथैव च ।

मर्यादाभेदकञ्चैव विकृतं प्राप्नुयाद्बधम् ॥ २९१ ॥

जो पुरुष उपजनेके अयोग्य बीजोंको बेचै वा निकृष्ट बीजको उत्तम बीज कहकर बेचै और जो गांवकी सीमा नष्ट करै उसके नाक, कान, पांव आदि कटवा दे ॥ २९१ ॥

सर्वकण्टकपापिष्टं हेमकारं तु पार्थिवः ।

प्रवर्तमानमन्याये छेदयेच्छ्वशः क्षुरैः ॥ २९२ ॥

सब पापियोंमें सुवर्णकार अधिक पापी है इसलिये उसे अन्यायमें प्रवृत्त देखकर राजा धुरोंसे उसके टुकड़े काटनेकी आज्ञा दे ॥ २९२ ॥

सीताद्भव्यापहरणे शस्त्राणामौपधस्य च ।

कालमासाद्य कार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ २९३ ॥

हल, कुदाली आदि खेतकी वस्तुओंको चुरानेमें वा शस्त्र अथवा औषधी की चोरीमें राजा समयके अनुसार दंड कल्पना करै ॥ २९३ ॥

स्वाम्यमास्त्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तथा ।

सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥

राजा, मंत्री, पुर, देश, कोष, दंड (सेना) और सुहृत् ये सात अंग हैं इसलिये राज्यको सप्तांग कहते हैं ॥ २९४ ॥

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम् ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं ज्ञानीयाद्वासनं महत् ॥ २९५ ॥

राज्यकी इन सात प्रकृतियोंमें पूर्व २ व्यसनको यथाक्रम महान् और अति गुरु व्यसन जानें अर्थात् दूसरेकी अपेक्षा पहिलेकी रक्षाका यत्न करै जैसे मित्रसे सेनाको, सेनासे खजानेको बचा जाने इत्यादि ॥ २९५ ॥

सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् ।

अन्योन्यगुणवैशेष्यान्न किञ्चिदतिरिच्यते ॥ २९६ ॥

सत्यासीके तीन दंडोंके समान मिले हुए सप्तांग राज्यमें आपसके गुणोंकी विशेषताके कारण कोई किसीसे बढकर नहीं है ॥ २९६ ॥

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते ।

येन यत्साध्यते कार्यं तत्तस्मिञ्छ्रेष्ठमुच्यते ॥ २९७ ॥

जिस २ कार्यमें जो २ अंग श्रेष्ठ होता है और उस अंगसे जो कार्य पूरा होता है उस कार्यमें वही अंग श्रेष्ठ होता है ॥ २९७ ॥

चारेणोत्साहयोगेन क्रियथैव च कर्मणाम् ।

स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८ ॥

दूतोंसे उत्साह योगसे और काय्योंके करनेसे राजा सदा शत्रुकी शक्ति और अपनी शक्तिको सदा जाने ॥ २९८ ॥

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च ।

आरमेत ततः कार्यं संचिन्त्य गुरुलाघवम् ॥ २९९ ॥

(अपने तथा शत्रुके देशमें) सब प्रकारकी बीमारी और व्यसनोंके न्यूनाधिक भावको विचार कर राजा कार्य आरंभ करै ॥ २९९ ॥

आरमेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ।

कर्माण्यारम्भाणं हि पुरुषं श्रीर्निपेवते ॥ ३०० ॥

।का हुआ राजा भी चार २ काय्योंका आरंभ करै, क्योंकि कार्य आरंभ करनेवाले मनुष्यकी लक्ष्मी-स्वयं सेवा करती है (इसलिये राजा हार जानेपर भी वार २ शत्रुपर चढ़ाई करै उदासीन न रहै) ॥ ३०० ॥

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च ।

राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१ ॥

सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब राजाके ही आचरण विशेष हैं इसलिये राजाही युग कहा जाता है ॥ ३०१ ॥

कलिः प्रसृतो भवति स जाग्रद्वापरं युगम् ।
कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥ ३०२ ॥

उद्यमरहित राजा कलियुग होता है, जानकर भी कार्य न करनेवाला राजा
द्वापर, राज्यकार्यमें उद्योगी राजा त्रेता और सब कार्योंको करता हुआ त्रेते
स्वच्छन्द विचरता है वह सतयुग होता है ॥ ३०२ ॥

इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च ।
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत् ॥ ३०३ ॥

राजाको चाहिये कि इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अग्नि और पृथ्वी
इनके तेजके अनुसार वर्तें ॥ ३०३ ॥

वार्षिकान्श्चतुरो मासान्यथेन्द्रोऽमिप्रवर्षति ।
तथामिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् ॥ ३०४ ॥

जैसे इन्द्र वर्षाके चारों महीनेमें जल बरसाता है वैसेही राजाभी इन्द्रव्रत
प्रहणकर देशकी कामनाओंको पूर्ण करै ॥ ३०४ ॥

अग्नौ मासान्यथादित्यस्तोर्यं हरति रश्मिभिः ।
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यमर्कव्रतं हि तत् ॥ ३०५ ॥

जैसे सूर्य आठ महीनेतक धीरे २ अपनी किरणोंसे जल खींचता है
उसी भाँति राजाभी धीरे २ राज्यसे कर प्रहण करै यही उसका अर्क-
व्रत है ॥ ३०५ ॥

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः ।
तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम् ॥ ३०६ ॥

जैसे प्राणवायु सब प्राणियोंके भीतर प्रविष्ट होकर विचरता है उसी भाँति
राजाभी दूतोंके द्वारा सर्वत्र प्रवेश करै, यही वायुव्रत है ॥ ३०६ ॥

यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति ।
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमव्रतम् ॥ ३०७ ॥

समय आनेपर जैसे यम, मित्र और शत्रुको मारता है उसी भाँति
राजाभी मित्र और शत्रुका विचार न कर प्रजाको न्यायपूर्वक दंड दे, यही
यमव्रत है ॥ ३०७ ॥

वरुणेन यथा पार्श्वेर्द्ध पवामिदृश्यते ।
तथा पापान्निगृह्णीयाद्भ्रतमेतद्धि वारुणम् ॥ ३०८ ॥

जैसे वरुणको फालीमें बाधने योग्य मनुष्य उससे वंधा हुआही दीखता
है उसी भाँति राजाभी पापियोंका निग्रह करै यही वरुणव्रत है ॥ ३०८ ॥

परिपूर्णं यथा चन्द्रं दृष्ट्वा दृष्यन्ति मानवाः ।
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रव्रतिको नृपः ॥ ३०९ ॥

जैसे पूर्णचन्द्रमाको देख कर मनुष्य प्रसन्न होते हैं उसी भांति राजाको देखकर प्रजा आनन्दित हो यही चन्द्रव्रत है ॥ ३०९ ॥

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु ।

दुष्टसामन्तहिंस्रश्च तदाज्ञेयं व्रतं स्मृतम् ॥ ३१० ॥

राजा पापियोंके लिये सदा प्रतापयुक्त, तेजस्वी और प्रतिकूल मंत्रियोंका मारनेवाला हो यही अग्नि व्रत है ॥ ३१० ॥

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम् ।

तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः प्रार्थिवं व्रतम् ॥ ३११ ॥

जैसे पृथ्वी सब प्राणियोंको समभावसे धारण करती है वैसेही राजा संपूर्ण प्रजाका समभावसे प्रतिपालन करे यह पृथ्वीव्रत है ॥ ३११ ॥

एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः ।

स्तेनान् राजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२ ॥

इन सब तथा अन्यान्य उपायोंसे राजा सदा आलस्यरहित होकर अपने और पराये राज्यके चोरोंको पकड़े ॥ ३१२ ॥

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणात् प्रकोपयेत् ।

ते होनं कुपिता हन्युः सद्यः सवलवाहनम् ॥ ३१३ ॥

अत्यन्त विपद्ग्रस्त होनेपरभी राजा कभी ब्राह्मणोंपर क्रोध न करे; क्योंकि ब्राह्मण कुपित होनेसे सेना और वाहनयुक्त राजाको तत्काल नष्ट कर देते हैं ॥ ३१३ ॥

यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्निरपेयश्च महोदधिः ।

क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्य तान् ॥ ३१४ ॥

जिन ब्राह्मणोंने क्रुद्ध होकर, अग्निको सर्व भक्षी बनाया समुद्रका जल पीनेके अयोग्य किया और क्षयीरोगयुक्त चन्द्रमाको फिर पूरा किया अर्घात् उसका क्षयरोग दूर किया ऐसे ब्राह्मणोंको क्रोधित करके कौन नष्ट न करेगा ॥ ३१४ ॥

लोकानन्यान्सृजेयुर्लोकपालांश्च कोपिताः ।

देवान्कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्सृष्टुयात् ॥ ३१५ ॥

जो ब्राह्मण अन्य लोक और लोकपालोंको रच सके हैं और देवताओंको अदेवता कर सके हैं ऐसे ब्राह्मणोंको कुपित करके कौन श्रद्धि पा सक्ता है ॥ ३१५ ॥

यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा ।

ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्ताज्जिजीविषुः ॥ ३१६ ॥

जिन ब्राह्मणोंके सहारे लोक और देवता सदा टिकते हैं और जिनका वेद

ही धन है ऐसे ब्राह्मणोंके जीवनको चाहनेवाला कौन उनकी हिंसा करेगा ॥ ३१६ ॥

अविद्यांश्चैव विद्यांश्च ब्राह्मणो वैचतं महत् ।

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्देवतं महत् ॥ ३१७ ॥

शास्त्रोक्त विधिसे स्थापन की हुई अथवा नहीं स्थापन की हुई अग्नि परम देवता है वैसेही विद्वान् हो वा अविद्वान् हो ब्राह्मणभी परम देवतारूप है (इसलिये किसी ब्राह्मणका अपमान नहीं करना चाहिये) ॥ ३१७ ॥

श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ।

ह्ययमानश्च यज्ञेषु भूय एवामिवर्धते ॥ ३१८ ॥

जैसे तेजस्वी अग्नि श्मशानमें होनेपरभी अपवित्र नहीं होती वरन् यहाँमें जो उसमें होम किया जाय तो वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ३१८ ॥

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं देवतं हि तत् ॥ ३१९ ॥

वैसेही यद्यपि ब्राह्मण सब निन्दित कार्य्य भलेही करें तो भी ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय हैं क्योंकि ब्राह्मणरूप परम देवता है ॥ ३१९ ॥

क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वशः ।

ब्रह्मैव संनियन्तु स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥

अतिसमृद्ध क्षत्रिय यदि ब्राह्मणोंको पीड़ा दे तो ब्राह्मण उनको दंड दें क्योंकि क्षत्री ब्राह्मणसे पैदा हुआ है ॥ ३२० ॥

अद्भ्योऽग्निर्वह्नतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम् ।

तेषां सर्ववर्गं तेजः स्वास्तु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥

जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय, और पत्थरसे अस्त्रशस्त्र उत्पन्न हुए हैं, इससे इनका तेज सर्वत्र कारगर होनेपरभी अपने २ उत्पत्तिस्थानमें जाकर शांत हो जाता है ॥ ३२१ ॥

नाब्रह्म क्षत्रमृद्भ्योति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते ।

ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिह चासुन्न वर्धते ॥ ३२२ ॥

ब्राह्मण विना क्षत्रियकी और क्षत्रीके विना ब्राह्मणकी कभी वृद्धि नहीं होती परन्तु ब्राह्मण और क्षत्रीके मिलनेसे इस लोक और परलोकमें उनकी वृद्धि होती है ॥ ३२२ ॥

दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् ।

पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥

राजाको चाहिये कि दंडसे प्राप्त हुआ सब धन ब्राह्मणोंको देकर और पुत्रको राज्य सौंपकर युद्धमें प्राणत्याग करे ॥ ३२३ ॥

एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः ।

हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्भृत्यान्नियोजयेत् ॥ ३२४ ॥

राजा सदा इसी भाति राजधर्ममें तत्पर रहकर सब सेवकोंको लोकोंके इतके कामोंमें लगावै ॥ ३२४ ॥

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः ।

इमं कर्मविधिं विद्यात्कर्मशो वैश्यशूद्रयोः ॥ ३२५ ॥

राजाकी यह सनातन कार्यविधि पूर्ण रीतिसे कही, अब वैश्य और शूद्रकी इससे कर्मविधि जानो ॥ ३२५ ॥

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम् ।

वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे ॥ ३२६ ॥

वैश्य जनेक होनेपर विवाह करके कृषि और बाणिज्य आदिमें तथा पशुओं की रक्षामें सदा लगा रहै ॥ ३२६ ॥

प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून् ।

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७ ॥

प्रजापतिने पशुओंको उत्पन्न करके वैश्यको दिये और सपूर्ण प्रजाको उत्पन्न करके उसका भार राजा और ब्राह्मणको सौंपा ॥ ३२७ ॥

नच वैश्यस्य कामः स्वाभ रक्षेयं पशूनिन्ति ।

वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ ३२८ ॥

वैश्य यह कमी न समझे कि मैं पशुपालन कमी नहीं करूंगा । जब तक वैश्य पशुपालन की इच्छा करै तबतक राजा पशुपालन अन्यसे कमी न करवै ॥ ३२८ ॥

मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च ।

गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घवलावलम् ॥ ३२९ ॥

वैश्यको चाहिये कि मणि, मोती, प्रवाल, लोहा, वस्त्र, सुगन्धित वस्तु और (रत्नपादि) रस इत्यादिके मूल्यका न्यूनाधिक भाव जानें ॥ ३२९ ॥

वीजानामुत्तिविच्च स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च ।

मानयोगं च जानीयात्तुलायोगांश्च सर्वशः ॥ ३३० ॥

वैश्यको बीजबोनेकी रीति, खेतके गुणदोष, सब तरहके परिमाणके उपाय, तथा तोलके उपाय भी जानने चाहिये ॥ ३३० ॥

सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणानुष्ठानम् ।

लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम् ॥ ३३१ ॥

सब वस्तुओंकी उत्तमता, हीनता, देशोंके गुणदोष, विक्रीकी वस्तुओंकी लाभ, हानि, पशुओंकी वृद्धिका उपाय ॥ ३३१ ॥

भृत्यानां च भृतिं विद्याद्वापाञ्च विविधा वृणाम् ।
 द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ ३३२ ॥
 धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ।
 दद्याच्च सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥
 विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् ।
 शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥

नोकरोंकी मजदूरी, मिला २ देशोंके मनुष्योंकी भाषा, सब वस्तुओंके उपयोगी स्थान और उनके परस्पर संयोग (अर्थात् इस वस्तुके संयोगसे यह नहीं विगड़ेगी) और देनेके खरीदनेके सब विषय इनको वैश्य जाने ॥ ३३२ ॥ वैश्यको चाहिये कि धर्मपूर्वक धन बढ़ानेका विशेष यत्न करे और यत्नपूर्वक सब प्राणियोंको अन्न दान करे ॥ ३३३ ॥ वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी और यशस्वी गृहस्थियोंकी सेवा करनाही शूद्रका परम कल्याणकारी धर्म है ॥ ३३४ ॥

शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मुदुवागनहंक्रतः ।

ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टं जातिमश्नुते ॥ ३३५ ॥

(देह और मनसे) शुद्ध, अपनी जातिसे ऊंची जातिकी सेवा करनेवाला, मधुरभाषी, अहंकाररहित, और ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंका सेवक ऐसा शूद्रभी है—
 (अपनी जातिसे) उत्तम जाति हो जाता है ॥ ३३५ ॥

पणोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः ।

आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तन्नियोधत ॥ ३३६ ॥

यह चारों वर्णोंके अनापद्कालकी शुभविधि कही गई, अब इनके आपत्कालके धर्म क्रमसे सुनो ॥ ३३६ ॥ इति—

पण्डित रामेश्वरमहोदय सरला टीकासहित मनुस्मृतिका

नवम अध्याय समाप्त हुआ—शुभम्.

अथ दशमोऽध्यायः ।

अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः ।

प्रब्रूयाद्ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ १ ॥

अपने २ कर्म करते हुए तीनों द्विजाति वेद पढ़े, परन्तु इनमेंसे ब्राह्मणही इनको वेद पढ़ावे, वैश्य और क्षत्रिय नहीं, यह निश्चय है ॥ १ ॥

सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याहृत्युपायान्यथाविधि ।

प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥ २ ॥

ब्राह्मण शास्त्रके अनुसार सब वर्णोंके जीविकाके उपायोंको जानकर और स्वयंभी सदा अपने कर्ममें रत रहकर सब वर्णोंको विधिपूर्वक उपदेश करे ॥ २ ॥

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रैष्ठ्यान्नियमस्य च धारणात् ।

संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ३ ॥

जातिकी श्रेष्ठतासे, उत्पत्तिस्थानकी श्रेष्ठतासे, वेदके पढने पढ़ानेसे तथा उपनयन संस्कारकी विशेषतासे, ब्राह्मण सब वर्णोंका प्रभु है ॥ ३ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ ४ ॥

(उपनयन संस्कारयुक्त होनेसे) ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजाति कहाते हैं, (उपनयन संस्कारहीन चौथा वर्ण) शूद्र एकजाति है इनके सिवाय पांचवां वर्ण नहीं है ॥ ४ ॥

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ।

आनुलोम्येन संभूता जात्या क्षेत्र्यास्त एव ते ॥ ५ ॥

चारों वर्णोंमें विवाहिता, सवर्णों, अक्षतयोनि स्त्रियोंमें जो ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, इस क्रमसे पैदा हुए हैं उन्हें मातापिताकी जातिकाही जानना चाहिये ॥ ५ ॥

स्त्रीष्वनन्तरजातास्तु द्विजैरुत्पादितान्भुतान् ।

सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥

मनु आदिने कहा है कि अपनेसे अनन्तर वर्णकी स्त्रियोंमें जो द्विजोंने पुत्र उत्पन्न किये हों (जैसे ब्राह्मणने क्षत्रियामें, क्षत्रियने वैश्यामें) वे पिताके समान (अर्थात् पिताकी जातिसे निकृष्ट) और माताके दोषसे विन्दित होते हैं ॥ ६ ॥

अनन्तरासु जातानां विधिरेव सनातनः ।

द्वैकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिसं विधिम् ॥ ७ ॥

अनन्तर वर्णकी स्त्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्रोंकी यह सनातन विधि कही और पतिसे दो एक वर्णके अनन्तरकी स्त्रियोंमें उत्पन्न पुत्रोंकी धर्मासुकूल यह विधि नै सो जानना ॥ ७ ॥

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ।

निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ॥

ब्राह्मणसे विवाहिता वैश्या कन्यासे पैदा हुई सतान अम्बष्ठ, और विवाही शूद्रासे जो उम्बष्ठ हो वह निषाद वा पारशव कही जाती है ॥ ८ ॥

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् ।

क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुरुग्रौ नाम प्रजायते ॥ ९ ॥

क्षत्रियसे शूद्राके गर्भमें उत्पन्न संतान का उपनाम होता है वह - संतान क्षत्रियशूद्र (पितामाता) के स्वभावयुक्त, क्रूर चेष्टावाली और क्रूर कर्मकारी होती है ॥ ९ ॥

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयोः ।

वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥

1. ब्राह्मणके द्वारा क्षत्रिया आदि तीनों वर्णोंकी स्त्रियोंसे पैदा हुए, क्षत्रियके वैश्या आदि दो वर्णकी स्त्रियोंसे, और वैश्यके द्वारा एक वर्णकी स्त्रियोंसे उत्पन्न हुए—ये छ प्रकारके पुत्र (सबर्ण पुत्रसे) अधम हैं ॥ १० ॥

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ।

वैश्यान्मागधवैदेहौ राजचिप्राङ्गनासुतौ ॥ ११ ॥

(अनुलोमसे पैदा हुए पुत्रोंको कहकर अब प्रतिलोमसे पैदा हुए पुत्रोंको कहते हैं) क्षत्री द्वारा ब्राह्मणीसे उत्पन्न हुए पुत्रको “सूत” वैश्यके द्वारा क्षत्रियासे उत्पन्नको “मागध” और वैश्यसे ब्राह्मणीमें उत्पन्नको “विदेह” कहते हैं ॥ ११ ॥

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाम् ।

वैश्यराजन्यचिप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२ ॥

शूद्रके द्वारा वैश्यासे उत्पन्न सतानको “आयोगव” शूद्रसे क्षत्रियमें उत्पन्न सतानको “क्षत्ता” और शूद्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न सतानको मनुष्योंमें नीच “चाण्डाल” कहते हैं ये शूद्रसे उत्पन्न होनेके कारण तीनों वर्णसंकर होते हैं ॥ १२ ॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादस्वष्ट्रोश्रौ यथा स्मृतौ ।

क्षत्रवैदेहकौ तद्वत्प्रातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३ ॥

अनुलोमक्रमसे एक वर्णके व्यवधानमें पैदा हुए “अवष्ट” और “उग्र” जैसे स्पर्शके योग्य कहे हैं इसी प्रकार प्रतिलोम विधिसे पैदा हुए क्षत्ता और वैदेह जाति भी स्पर्श योग्य कही गई हैं ॥ १३ ॥

पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम् ।

ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १४ ॥

जो पुत्र अनन्तर वर्णकी स्त्रियोंमें क्रमसे उत्पन्न हुए द्विजातियोंके कहे हैं उनको माताके दोषसे जिस अनन्तर वर्णकी स्त्रियोंमें पैदा हुए हों उन स्त्रियोंकी ही जातिवाले कहते हैं (यद्यपि ये मातापिताकी जातिसे भिन्न स्त्रीर्ण जातिके होते हैं तो भी इनको माताकी जातिवाले इसलिये कहा है कि इनके संस्कार माताकी जातिकेही अनुसार होते हैं) ॥ १४ ॥

ब्राह्मणादुभ्रकन्यायामावृतो नाम जायते ।

आभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ १५ ॥

ब्राह्मणके द्वारा उग्र कन्याके गर्भसे उत्पन्न पुत्र “आवृत” ब्राह्मणसे अवष्ट कन्याके गर्भमें पैदा हुआ पुत्र “आभीर” और ब्राह्मणसे आयोगवी कन्याके गर्भमें उत्पन्न पुत्र “धिग्वण” होता है ॥ १५ ॥

आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम् ।

प्रातिलोभ्ये न जायन्ते शूद्रादपसदास्त्रयः ॥ १६ ॥

शूद्रके द्वारा (वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणोंकी कन्याओंमें) प्रतिलोभ विधिसे आयोगव, क्षत्ता, और मनुष्योंमें नीच चाण्डाल ये तीनों नीच शूद्र हैं ॥ १६ ॥

वैश्यान्मागधवैदेहौ क्षत्रियात्सूत एव तु ।

प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ १७ ॥

वैश्यके द्वारा प्रतिलोभ विधिसे उत्पन्न “मागध” और “वैदेह” होते हैं (अर्थात् वैश्यसे क्षत्रीकी कन्यामें उत्पन्न “ मागध ” और वैश्यसे ब्राह्मणीमें पैदा हुआ “वैदेह” होता है) तथा प्रतिलोभ क्रमसे क्षत्रीके द्वारा ब्राह्मणीमें उत्पन्न “सूत” होता है ये तीनों नीच होते हैं (अर्थात् इनको पुत्रके कार्य करनेका अधिकार नहीं है) ॥ १७ ॥

जानो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः ।

शूद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकः स्मृतः ॥ १८ ॥

निषादके द्वारा शूद्र कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र जातिका “पुक्कस” और शूद्रके द्वारा निषाद कन्यामें उत्पन्न पुत्र “कुक्कुट” कहा गया है ॥ १८ ॥

क्षत्रुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्यते ।

वैदेहकेन त्वस्वध्यामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥

क्षत्ताके द्वारा उग्र कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र “श्वपाक” कहा गया है और वैदेहके द्वारा अवष्ट कन्यामें उत्पन्न पुत्रको “वेण” कहते हैं ॥ १९ ॥

द्विजातयः सवर्णास्तु जनयन्त्यत्रतांस्तु याव् ।

तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्ब्रात्यानिति त्रिनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

तीनों द्विजाति अपने २ वर्णकी स्त्रियोंमें जिन पुत्रोंको पैदा करते हैं यदि वे यज्ञोपवीत संस्कारसे हीन और गायत्रीसे रहित हों तो उन पुत्रोंको “ब्रात्य” कहते हैं ॥ २० ॥

ब्रात्यास्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः ।

आचन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैख एव च ॥ २१ ॥

ब्रात्य ब्राह्मणकी सवर्णा स्त्रीमें उत्पन्न पुत्र पापी “भूर्जकण्टक” होता है । देशभेदसे इसके चार नाम और हैं जैसे आचन्त्य, वाटधान, पुष्पध और शैष ॥ २१ ॥

क्षलो मल्लश्च राजन्याद्ब्रात्यान्निच्छिविरेव च ।

नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥

ब्रात्य क्षत्रियद्वारा सवर्णा स्त्रीसे उत्पन्न पुत्रके देशभेदसे सात नाम होते हैं जैसे-क्षल, मल्ल, निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड ॥ २२ ॥

वैश्यास्तु जायते ब्राह्म्यास्तु धन्वाचार्य एव च ।

कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च ॥ २३ ॥

ब्राह्म वैश्यकी सवर्णा स्त्रीसे उत्पन्न पुत्रके ये नाम हैं जैसे, “धुधन्वा”-
चार्य, कारुष, विजन्मा, मैत्र और सात्वत ॥ २३ ॥

व्यसिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च ।

स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥

स्त्रीगमन, अपने गोत्रमें विवाह और अपने कर्मोंका त्याग इनके करनेसे
ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंमें वर्णसंकर होते हैं ॥ २४ ॥

संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः ।

अन्योन्यव्यतिपक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २५ ॥

अन्योन्य स्त्रीगमनसे और अनुलोम प्रतिलोमसे जो संकीर्ण वर्ण पैदा होते
हैं उन सबको मैं कहता हूँ ॥ २५ ॥

सूतो वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः ।

मागधः क्षत्तुजातिश्च तथाऽऽयोगव एव च ॥ २६ ॥

सूत, वैदेह, मनुष्योंमें अधम चाण्डाल, मागध, क्षत्ता जाति और आयोगव,
ये वर्णसंकर हैं ॥ २६ ॥

एते पट्ट सदृशान्वर्णाङ्गनयन्ति स्वयोनिषु ।

मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७ ॥

ये छ वर्णसंकर, निजजाति, मातृजाति और अपनेसे श्रेष्ठ जातिकी
कन्याओंमें भी अपनेही वर्णके पुत्र उत्पन्न करते हैं ॥ २७ ॥

यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरत्मास्य जायते ।

आनन्तर्यात्स्वयोर्न्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात् ॥ २८ ॥

जैसे क्षत्री, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोंमेंसे क्षत्रिया और वैश्या पत्नियोंमें
ब्राह्मणके द्वारा उत्पन्न सतान और ब्राह्मणकी सवर्णा स्त्रीसे उत्पन्न सतान
द्विज कहाती है वैसेही इतर जातिमें वैश्यके द्वारा क्षत्रिया स्त्रीमें पैदा हुई
सतान और क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुई सतान, शूद्रकी प्र-
तिलोम सतानसे कुछ श्रेष्ठ है ॥ २८ ॥

ते चापि बाह्यान्सुवहंस्ततोऽप्यधिकदूषितान् ।

परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ २९ ॥

आयोगव आदि छ तरहके वर्णसंकर अनुलोम विधिसे परस्पर स्वजातीय
स्त्रियोंमें जो पुत्र उत्पन्न करते हैं वे पितामातासे भी अधिक दूषित निन्दित
और सक्रियासे बाहिर होते हैं ॥ २९ ॥

यथैत्र शूद्रो ब्राह्मण्यां यातुं जन्तुं प्रसूयते ।

तथा बाह्यतरं बालश्चातुर्वर्ण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥

जैसे शूद्र ब्राह्मणोंमें नीच चांडाल प्राणीको पैदा करता है इसी प्रकार नीच चांडालभी चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें अपनेसेभी नीच प्राणीको उत्पन्न करता है ॥ ३० ॥

प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्याबाह्यतरान्पुनः ।

हीना हीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चदशैव तु ॥ ३१ ॥

आयोगव आदि छ' प्रकारके हीन जातिवाले नीच, प्रतिशोम विधिसे चारों वर्णोंकी और अपनी जातिकी स्त्रियोंमें पन्द्रह प्रकारके अपनेसे भी नीच पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥

प्रसाधनोपचारश्चमदासं दासजीवनम् ।

सैरिन्द्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

दस्यु जातिके द्वारा आयोगव स्त्रीसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे "सैरिन्द्र" कहते हैं, यह जाति केश आदिके प्रसाधनमें चतुर होती है, दास न होकर दास कर्मसे तथा पात्रसे हरिण आदि भाकर जीविका करती है ॥ ३२ ॥

मैत्रेयकं तु वैदेहो माधुकं संप्रसूयते ।

वृत्रशंसत्यजशं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ ३३ ॥

वैदेह जातिके द्वारा आयोगव स्त्रीमें जो संतान जन्मती है, उसे मैत्रेय कहते हैं, यह भीठा बोलनेवाली है और नित्य प्रातः काल घंटा बजाकर राजा आदिकी स्तुति करती है ॥ ३३ ॥

निषादो मार्गवं सूते दासं नौकर्मजीविनम् ।

कैश्वर्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ ३४ ॥

निषादके द्वारा आयोगव स्त्रीमें जन्मी हुई संतानको "मार्गव" वा "दास" कहते हैं वह नाव चलाकर जीविका करती है और आर्योंवर्तके निवासी इसे "कैश्वर्त" कहते हैं ॥ ३४ ॥

मृतघ्नश्चभृत्सु नारीषु गर्हिताज्ञाशनासु च ।

भयन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥ ३५ ॥

आयोगव स्त्रियोंके गर्भसे मुँदका बच्चा पहिरनेवाली तथा जड़न खानेवाली सैरिन्द्र, मैत्रेय और मार्गव ये तीन हीन जातियाँ पिताके मेदसे उत्पन्न होती हैं ॥ ३५ ॥

कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते ।

वैदेहिकादन्धमेदौ बहिर्ग्रामप्रतिश्रयौ ॥ ३६ ॥

निषादके द्वारा वैदेही स्त्रीमें "कारावर" नामकी चमार जाति उत्पन्न होती है और वैदेह जातिके द्वारा कारावरी और निषादी स्त्रियोंमें अन्न और मेद जाति उत्पन्न होती है, ये दोनों गाँवके बाहर रहती हैं " ३६ "

चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् ।

आहिण्डिको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥

चाण्डालके द्वारा वैदेही स्त्रीमें वासोंके व्यवहारसे जीविका निभानेवाली पाण्डु सोपाक जाति और निषादके द्वारा वैदेही स्त्रीमें आहिण्डिक जाति पैदा होती है ॥ ३७ ॥

चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान् ।

पुङ्गव्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥

चाण्डालके द्वारा पुङ्गवी स्त्रीमें सोपाक जाति जन्मती है और (राजाकी आज्ञासे) सज्जनोंसे निन्दित और अत्यन्त पापजनक अपराधियोंको मारनेका काम इस जातिकी जीविका है ॥ ३८ ॥

निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्यावसायिनम् ।

श्मशानगोचरं सूते वाह्यानामपि गर्हितम् ॥ ३९ ॥

चाण्डालके द्वारा निषादी स्त्रीके गर्भसे अन्यावसायी जाति पैदा होती है । श्मशानकार्यकी इसकी जीविका है और यह सब निरुद्ध जातियोंसे भी निरुद्ध है ॥ ३९ ॥

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः ।

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ ४० ॥

वर्णसङ्घर्षमें पिता और माताओंसे दिखाई हुई इन जातियोंको इनके गुप्त वा प्रकट कार्योंसे जानलेना चाहिये ॥ ४० ॥

सजातिजानन्तरजाः पट्टसुता द्विजधर्मिणः ।

शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥

तीनों द्विजातियोंमें मजातीय स्त्रियोंमें उत्पन्न हुए और अनन्तर वर्णकी स्त्रियोंमें अर्थात् अनुलेम विधिसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिया और वैश्यामें दो और क्षत्रियसे वैश्यामें एक यो छ प्रकारके पुत्रोंका उपनयन संस्कार होता है और जो पुत्र प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न होते हैं (सूत आदि) वे सब शूद्रके समान धर्मवाले होते हैं (इसलिये उनका उपनयन नहीं होता) ॥ ४१ ॥

तपोधीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ।

उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥

उक्त छ प्रकारके पुत्र युग २ में तप और वीर्यके प्रभावसे जन्मकी अपेक्षा मनुष्योंमें उत्तम और नीच होजाते हैं (जैसे तपके प्रभावसे विश्वामित्र क्षत्रीसे ब्राह्मण होगए) ॥ ४२ ॥

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ४३ ॥

ये क्षत्रिय जातिया (उपनयन आदि) कर्मोंके लोप होनेसे और (यान्त्र

अध्यापन प्रायश्चित्तादि वतानेके लिये) ब्राह्मणोंको न देखनेसे धीरे २ शूद्र होगई ॥ ४३ ॥

पौण्ड्रकाश्रौद्रविडाः काम्बोजा यचनाः शकाः ।

पारदापह्नुवाश्रीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥

पौंड्रक, ओड्र, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पह्नुव, चीन, किरात, दरद और खस इन देशोंके निवासी कियेके लोप होनेसे धीरे २ शूद्र होगए ॥ ४४ ॥

मुखवाह्यरूपज्ञानां या लोके जातयो वहिः ।

म्लेच्छवाचश्चार्यवान्चः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ ४५ ॥

ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णोंके लोग जो संसारमें बाह्य कहे जाते हैं चाहे आर्य्य भाषा बोलें चाहे म्लेच्छ भाषा बोलें दस्यु कहाते हैं ॥ ४५ ॥

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः ।

ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥

जो द्विजातियोंमें नीच हैं और जो अपध्वंससे पैदा हुये हैं वे द्विजातिके (उपकारक) निन्दित कर्मोंसे (जो आगे कहेंगे) अपनी २ जीविका करें ॥ ४६ ॥

सूतानामश्वसारथ्यमभ्यष्टानां चिकित्सनम् ।

वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वाणिकपथः ॥ ४७ ॥

सूतोंका कर्म रथ जोतना अथ साधन आदि, अवष्टोंका कर्म चिकित्सा करना, वैदेहिकोंका कर्म रतनामकी रक्षा करना, और मागधोंका कर्म वाणिज्य है ॥ ४७ ॥

मत्स्यघातो निपादानां त्वष्टिस्त्रयायोगवस्य च ।

मेदान्धचुञ्चुमद्गूनामारण्यपशुहिंसनम् ॥ ४८ ॥

निपादोंका कर्म मछली मारना, आयोगवोंका काठ चीरना, और मेद, चंडु, क्षुप्र और मद्गू इनांका कर्म वनके पशुओंकी हिंसा है ॥ ४८ ॥

क्षुश्रुप्रपुक्कसानां तु विलौकोवधवन्धनम् ।

धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥

क्षुश्रु, उग्र, पुक्कस इनका कर्म विलेमें रहनेवाले जानवरोंको मारना और वाधना है, धिग्वणोंका कर्म चर्म वेचना, और वेणोंका कर्म, कास (कांसीका बंटा आदि) मुरज आदि बाले बजाना है ॥ ४९ ॥

चैत्यद्रुमश्मशानेषु शैलेषूपचनेषु च ।

वसेयुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥

ये सब अपने २ कमासे आजीविका करके प्रसिद्ध वृक्षकी जड़में, पर्वतपर, श्मशान और उपवनमें रहते हैं ॥ ५० ॥

चण्डालश्वपचानां तु वहिर्गामात्प्रतिश्रयः ।

अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेपां श्वगर्दभम् ॥ ५१ ॥

वासांसि मृतचेलानि मिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।

कार्ण्यायसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ ५२ ॥

चाण्डालों और श्वपचोंका निवास गावके बाहर होना चाहिये । ये पात्र रहित हों तथा कुत्ते और गधे इनका माल हो, और ये मुर्देका कफन पहिरें फूटे वर्तनोंमें खोंय, लोहेके आभूषण पहिरें और सदा घूमते रहें यह इनका कार्य है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् ।

व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ ५३ ॥

धर्मात्मा मनुष्य उनके साथ वातचीत न करे, उनका लेनदेन और विवाह सजातियोंके साथही होता है ॥ ५३ ॥

अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने ।

रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

इनका अन्न दूसरोंके आधीन होता है और वह दूटे फूटे पात्रमें दिया जाता है और ये गावमें वा नगरमें रात्रिके समय न विचरें ॥ ५४ ॥

दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्निता राजशासनैः ।

अधान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥

राजाकी आज्ञासे (चपरास) बिन्ह धारण कर कार्यसाधनके लिये ये दिनमें इधर उधर घूमें और अनाथ मुर्देको श्मशानपर ले जाय यह शास्त्रकी मर्यादा है ॥ ५५ ॥

वर्ध्याश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाक्षया ।

वध्याचासांसि शृङ्गीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६ ॥

शास्त्रके अनुसार राजाकी आज्ञासे वध्व मनुष्योंको (शृङ्गीपर चढ़ा कर) निरतर मारें और वध्व पुरुषोंके वस्त्र, शय्या और आभूषण लें ॥ ५६ ॥

वर्णापेतमविश्वातं नरं कलुषयोनिजम् ।

आर्यरूपमिचानार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ॥ ५७ ॥

वर्णसे पतित, अप्रसिद्ध, सकर जातिमें उत्पन्न, देखनेमें सज्जन और यथार्थमें असज्जन ऐसे पुरुषको उसके कार्योंको देखकर पहिचानें ॥ ५७ ॥

अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता ।

पुरुषं व्यजयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ ५८ ॥

असज्जनता, निष्ठुरता, क्रूरता और विहित कर्म न करना ये बातें लोकमें संकीर्ण जातिके मनुष्यको प्रकट कर देती हैं ॥ ५८ ॥

पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वीभयमेव वा ।

न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥

पूर्वोक्त दुष्ट योनिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य पिताके, वा माताके वा दोनोंके स्वभावका होता है और यह अपने बुरे स्वभावको कभी नहीं छिपा सक्ता ॥ ५९ ॥

कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः ।

संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥

उत्तम कुलमें जन्मनेमें भी यदि योनिसंकर हो जाय तो अवश्य ही वह योवा या बहुत अपने जन्मदाताके स्वभावको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः ।

राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६१ ॥

जिस देशमें वर्णोंके दूषित करनेवाले ये वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं वह देश जीघ्रही प्रजासहित नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः ।

स्त्रीवालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥ ६२ ॥

पुरस्कारकी आशा न करके गौ, ब्राह्मण, स्त्री और बालक इनमेंसे किसीके लियेभी प्राणत्याग करना प्रतिलोमज जातिवालोंके लिये सिद्धिका कारण होता है अर्थात् इससे वे स्वर्गको जाते हैं ॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

पतं सामासिकं धर्मं चार्तुवर्ण्येऽववीन्मनुः ॥ ६३ ॥

हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना और इन्द्रियोंका सयम करना यह चारों वर्णोंका धर्म मनुने संक्षेपसे कहा है ॥ ६३ ॥

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेतप्रजायते ।

अश्रेयात् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद्युगात् ॥ ६४ ॥

ब्राह्मणके द्वारा शूद्रांश उत्पन्न हुई पारशव कन्या यदि उत्तम स्त्री हो जाय तो वह अनुत्तम पारशवमी सातवें जन्ममें ब्राह्मण जातिका हो जात है ॥ ६४ ॥

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यान्तथैव च ॥ ६५ ॥

जैसे शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है वैसेही क्षत्री और वैश्यसे उत्पन्न हुए शूद्रमी क्षत्रिय और वैश्य हो जाते हैं ॥ ६५ ॥

अनार्याणां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदृच्छया ।
 ब्राह्मणयामप्यनार्यास्तु श्रेयस्त्रं केति चेद्भवेत् ॥ ६६ ॥
 जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भवेद्गुणैः ।
 जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ ६७ ॥

ब्राह्मणके द्वारा (विना विवाही) शूद्रामें उत्पन्न और शूद्रके द्वारा ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुई सतानमेंसे कौनसी श्रेष्ठ है उसका उत्तर यह है कि ब्राह्मणसे शूद्रामें उत्पन्न हुई सतानही गुणयुक्त होनेसे श्रेष्ठ गिनी जाती है परंतु शूद्रके द्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुई सतान निश्चयही नीच होती है यह शास्त्री नर्थादा है ॥ ६८ ॥ ६७ ॥

तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः ।
 वैगुण्याज्जनमनः पूर्वं उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥

शास्त्रीकी व्यवस्थाके अनुसार (पारश्व वा चाडाल) इन दोनोंमेंसे कोईभी ब्रह्मोपवीत संस्कारके योग्य नहीं क्योंकि पहिले तो निन्दित क्षेत्रमें पैदा हुआ और दूसरा प्रतिलोमत है (अर्थात् शूद्रसे ब्राह्मणीमें पैदा होनेसे संस्कारके योग्य नहीं) ॥ ६८ ॥

सुवीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा ।
 तथार्याज्जात आर्याणां सर्वे संस्कारमर्हति ॥ ६९ ॥

उत्तम वीज उत्तम खेतमें बनेसे जैसे बहुत वृद्धिको प्राप्त होता है उसी भाँति द्विजातियोंके द्वारा द्विजाति क्षेत्रोंमें पैदा हुई सतान सब संस्कारोंके योग्य होती है ॥ ६९ ॥

वीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः ।
 वीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रैयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥

पण्डितोंमें कोई वीजकी, कोई क्षेत्रकी और कोई क्षेत्र तथा वीज दोनोंकी ही प्रशंसा करते हैं इस सदेहमें आगेकी व्यवस्था है ॥ ७० ॥

अक्षेत्रे वीजमुत्सृष्टमन्तरैव विन्द्यति ।
 अवीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्पण्डिलं भवेत् ॥ ७१ ॥

ऊसर भूमिमें बोया हुआ वीज अकुरित होनेसे पहिलेही नष्ट हो जाता है और विना वीज बोए उर्वरा भूमिमी निष्फल हो जाती है ॥ ७१ ॥

यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन् ।
 पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्मद्बीजं प्रशस्यते ॥ ७२ ॥

केवल वीजकेही प्रभावसे तिर्यक् योनिमें उत्पन्न होकर भी ऋषयर्द्रंग आदि नमस्कारके योग्य और पूजित हुए ये स्मृतिये उत्तम वीजकी पण्डित प्रशंसा करते हैं ॥ ७२ ॥

अनार्यमार्यकर्माणमार्यं चानार्यकर्मिणम् ।

संप्रधार्याब्रवीद्भाता न समौ नासमाविति ॥ ७३ ॥

ब्रह्माने यह निश्चय किया है कि द्विजकर्म करनेवाला शूद्र और शूद्रका कर्म करनेवाला द्विज ये दोनों न समान हैं और न असमान हैं अर्थात् कर्मसे शूद्र द्विज और द्विज शूद्र नहीं हो सक्ता ॥ ७३ ॥

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिताः ।

ते सम्यगुपजीवेयुः पङ्कमाणि यथाक्रमम् ॥ ७४ ॥

जो ब्राह्मण ब्रह्मध्यानमे तत्पर और अपने कर्ममें स्थित है उन्हें विधिपूर्वक अध्यापन आदि पदकर्मोंसे जीविका करनी चाहिये ॥ ७४ ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव पङ्कमाण्यग्रजन्मनः ॥ ७५ ॥

पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना ये ब्राह्मण-के छ. कर्म हैं ॥ ७५ ॥

पण्यां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।

याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥

पदकर्मोंमेंसे पढ़ाना, यज्ञ कराना और विशुद्ध (द्विजाति) से दान लेना ये तीनों ब्राह्मणकी जीविका कर्मा हैं ॥ ७६ ॥

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति ।

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥

परंतु ब्राह्मणकी अपेक्षा यज्ञ कराना, पढ़ाना और दान लेना ये तीनों क्षत्रिय-के लिये वर्जित हैं ॥ ७७ ॥

वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरन्निति स्थितिः ।

न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥

क्षत्रियकी भांति वैश्यको भी ये तीनों कर्म लाज्य हैं यही शास्त्रकी व्यवस्था क्योंकि प्रजापति मनुने क्षत्री और वैश्यके लिये इन कर्मोंको नहीं कहा ॥ ७८ ॥

शस्त्रास्त्रभृत्स्वं क्षत्रस्य वाणिकपशुकृषिविंशः ।

आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यज्ञिः ॥ ७९ ॥

क्षत्रीकी आजीविकाके लिये शस्त्र अस्त्र धारण करना, वैश्यकी आजीविकाके लिये पशुपालन, कृषि और वाणिज्य करना है और दान, यज्ञ तथा पढ़ना दोनोंका धर्म है ॥ ७९ ॥

वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम् ।

वार्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८० ॥

अपने २ कर्मोंमें, ब्राह्मणको वेदका अभ्यास, क्षत्रीका प्रजापालन और वैश्यका वाणिज्य ये कर्म श्रेष्ठ हैं ॥ ८० ॥

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा ।

जीवेत्क्षत्रियघर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥

यदि ब्राह्मण निज जीविकासे जीवन निर्वाह करनेमें असमर्थ हो । क्षत्रियकी वृत्तिसे जीविका करे क्योंकि यह उसके पासका वर्ण है ॥ ८१ ॥

उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥ ८२ ॥

वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा ।

हिंसाप्रार्थां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत् ॥ ८३ ॥

अपनी वृत्ति और क्षत्रियकी वृत्तिसेभी ब्राह्मणको जीविका करना कठिन हो तो खेती, गोरक्षा वाणिज्य आदि वैश्यकी जीविकासे निर्वाह करे ॥ ८२ ॥ जो ब्राह्मण वा क्षत्री वैश्यवृत्तिसे आजीविका किया चाहै तो हिंसायुक्त और (पशु आदि) दूसरोंके आधीन कृषि कार्यको यत्नपूर्वक छोड़ दे ॥ ८३ ॥

कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगर्हिता ।

भूमिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥ ८४ ॥

कोई कृषिकी प्रशंसा करते हैं तथापि सज्जनोंने उसे निन्दित कही है क्योंकि लोह मुखवाला हल भूमि और भूमिमें सोनेवाले जीवोंको नष्ट कर देता है ॥ ८४ ॥

इदं तु वृत्तिवैकल्यात्स्यजतो धर्मनैपुणम् ।

विद्वपण्यमुद्धृतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम् ॥ ८५ ॥

ब्राह्मण, क्षत्री, अपनी आजीविकाके भ्रष्ट होनेपर अपनी धर्मनिष्ठता छोड़ दे और (आगे कही) निषिद्ध वस्तुओंको छोड़ कर वैश्यके वेचनेके योग्य धन बढ़ानेवाली वस्तुओंको बेच कर अपनी आजीविका करे ॥ ८५ ॥

सर्वान्प्रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह ।

अश्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः ॥ ८६ ॥

सब रस, तिल, पक्वान्न, पाषाण, लवण और मनुष्योंके उपकारी पशु इन्हें सबका वेचना त्याग दे ॥ ८६ ॥

सर्वं च तान्तत्वं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च ।

अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥ ८७ ॥

रंगे हुए सब भातिके वस्त्र, रेशम, तथा ऊनके रंगे या बिना रंगे कपड़े तथा फल, मूल और औषध इनका वेचनाभी त्याग दे ॥ ८७ ॥

अपः शस्त्रं विपं मांसं सोमं गन्धांश्च सर्वशः ।

क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान् ॥ ८८ ॥

जल, शुद्ध, विष, मांस, सोमरस, सब भातिकी सुगन्धित वस्तुएं, दूध, मौम, दही, घृत, तेल, घाहद, शुद्ध, और कुण्डिका मी वेचना त्याग दे ॥ ८८ ॥

आरण्यांश्च पशुन्सर्वान्दग्निंश्च वयांसि च ।

मद्यं नीलं च लाक्षां च सर्वांश्चैकशफांस्तथा ॥ ८९ ॥

सय भांतिके जंगली पशु, ढाड़वाले जानवर, पत्नी, नील, मद्य, लाख और एक छुरवाले पशु इनका वेचना मी वर्ज दे ॥ ८९ ॥

काममुत्पाद्य रुण्यां तु स्वयमेव कृपीवलयः ।

विक्तीणीत तिलाच्छूद्रान्धर्मार्थमन्विरस्थितान् ॥ ९० ॥

किसान, अपनी खेतीमें खयं तिलोंको किसी अन्नके साथ अच्छी भाति उत्पन्न करके धर्म (होम आदि) के लिये बहुत शीघ्र वेच दे (ब्राह्मण क्षत्रीणी खेती करने लगे हों तो उनको भी धर्मके लिये तिल वेचना दूषित नहीं है) ॥ ९० ॥

भोजनाभ्यङ्गनादानाद्यदन्यत्कुरुते तिलैः ।

कृमिभूतः श्वविष्टायां पितृभिः सह मज्जति ॥ ९१ ॥

भोजन, उषटन, और दानके सिवाय यदि कोई तिलोंका अन्य रीतिसे व्यवहार करे तो वह कीटा होकर अपने पितरोंसहित कुत्तोंकी विष्टामें द्रवता है ॥ ९१ ॥

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ।

त्र्यह्णेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ ९२ ॥

ब्राह्मण, मास, नमक और लाख वेचनेसे तुरत पतित होता है और तीन दिन दूध वेचनेसे शूद्र हो जाता है ॥ ९२ ॥

इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः ।

ब्राह्मणः सतरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥

इच्छापूर्वक मास आदिके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओंके सात दिनतक वेचनेसे ब्राह्मण वैश्य हो जाता है ॥ ९३ ॥

रसा रसैर्निमातव्या न त्वेव लवणं रसैः ।

कृतान्नं चाकृतान्नेन तिला धान्येन तस्समाः ॥ ९४ ॥

शुद्ध आदि रसोंके दूसरे भातिके (घृत आदि) रस बदले जा सके हैं परंतु तिलोंका रससे साथ पटला नहीं होता । पक्वान्नके बदले कच्चा अन्न बदला जा सकता है और तिल धान्यसे बदले जासके हैं परंतु तोलमें वतनेही होने चाहियें ॥ ९४ ॥

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।

न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमस्मिन्नेत कर्हिचित् ॥ ९५ ॥

आपत्तिको प्राप्त हुआ क्षत्रियभी इस पूर्वोक्त सपूर्ण निषिद्ध भी रस आदि-
के विक्रयसे जीविका करै परतु ब्राह्मणकी जीविकाकी अमिलाषा कर
न करै ॥ ९५ ॥

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।

तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ ९६ ॥

यदि नीच जाति लोभसे ऊंची जातिकी वृत्तिका अवलंबन करके जीविका
करै तो राजा उसे निर्धन करके दुरत देशसे निकाल दे ॥ ९६ ॥

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः ।

परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः ॥ ९७ ॥

अपना धर्म निरूढ होनेपर भी अच्छा है और पराया धर्म उत्तम भी बुरा
है क्योंकि पराये धर्मसे जीता हुआ मनुष्य दुरत अपनी जातिसे पतित हो
जाता है ॥ ९७ ॥

वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत् ।

अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान् ॥ ९८ ॥

वैश्य निजधर्मसे जीविका करनेमें असमर्थ हो तो निषिद्ध कर्मोंको छोड़
कर शूद्रवृत्तिसे जीविका करे परतु समर्थ होनेपर शूद्रवृत्ति छोड़ दे ॥ ९८ ॥

अशक्तुर्वस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् ।

पुत्रदारपालयं प्राप्तो जीवेत्कारुण्यकर्मभिः ॥ ९९ ॥

जो शूद्र द्विजातियोंकी सेवा करनेमें असमर्थ हो और जिसके स्त्रीपुत्र भ्रुषासे
पीड़ित हों वह कारीगरीसे जीविका करै ॥ ९९ ॥

यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।

तानि कारुण्यकर्मणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १०० ॥

जिन कार्योंके करनेसे द्विजातकी सेवा होती है ऐसे अनेक प्रकारके शिल्प
और कारीगरीके कर्म शूद्र करै ॥ १०० ॥

वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्ब्राह्मणः स्ये पथि स्थितः ।

अवृत्तिकर्षितः सीदन्निर्मं धर्मं समाचरेत् ॥ १०१ ॥

निजमार्गमें स्थित ब्राह्मण जीविकाके अभावसे पीड़ित और दुखी होकर
यदि वैश्यवृत्तिका अवलंबन करै तो उसे (आगे कहा) यह धर्म करना
चाहिये ॥ १०१ ॥

सर्धतः प्रतिगृहीयाद्ब्राह्मणस्त्वनयं गतः ।

पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥

विपद्ग्रस्त ब्राह्मण सबसे प्रतिग्रह ले क्योंकि जो स्वयं पवित्र है उसका
अपवित्र वस्तुसे दूषित होना धर्मपूर्वक सिद्ध नहीं हो सक्ता ॥ १०२ ॥

नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हितद्वा प्रतिग्रहात् ।

दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ १०३ ॥

ब्राह्मण जल और अग्नि की भांति पवित्र है इसलिये आपत्कालमें निन्दित-
यज्ञ कराने, पढ़ाने और उससे दान लेनेसे उसे दोष नहीं होता ॥ १०३ ॥

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यत्तस्ततः ।

आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥

ब्राह्मण, प्राणसकटमें यदि इधर उधर नीचका भी अन्न भक्षण करले तो
भी वह इस प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जैसे कीचसे आकाश ॥ १०४ ॥

अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्षद्बुभुक्षितः ।

न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतीकारमाचरन् ॥ १०५ ॥

भूखा अजीगर्त ऋषि अपने पुत्र शुन शेरफके मारनेके लिये तैयार हुआ
तो भी क्षुधाका उपाय करनेके कारण वह पापसे लिप्त नहीं हुआ ॥ १०५ ॥

श्वर्मांसमिच्छन्नातोऽर्चुं धर्माधर्मविचक्षणः ।

प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १०६ ॥

धर्म अधर्म जाननेवाले, क्षुधासे पीड़ित, वामदेव ऋषिने प्राण रक्षाके लिये
श्वेका मांस खाना चाहा तो भी वह पापसे लिप्त नहीं हुए ॥ १०६ ॥

भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सपुत्रो विजने वने ।

वह्नीर्गाः प्रतिग्रहाद् वृधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७ ॥

महातपस्वी भारद्वाज मुनिने पुत्रोसहित क्षुधासे पीड़ित होकर निर्जन वनमें
शु वदइसे बहुतसी गौएं लीं ॥ १०७ ॥

क्षुधार्तश्चात्तुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् ।

चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥

वर्म अधर्मके ज्ञाता विश्वामित्र मुनि भूखे होनेपर, चाण्डालके हाथसे कुत्ते
की जंघाका मांस खानेको तयार हुये ॥ १०८ ॥

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि ।

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विग्रस्य गर्हितः ॥ १०९ ॥

ब्राह्मणके निन्दित अध्यापन, याजन और दान इनमेंसे प्रतिग्रह ही बहुत
निकृष्ट है क्योंकि यह परलोकमें नरकका कारण है (इसलिये अध्यापन और
यज्ञ करानेसे जो कुछ भी न मिले तो दान ले) ॥ १०९ ॥

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् ।

प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्यजन्मनः ॥ ११० ॥

जपहोमैरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् ।

प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १११ ॥

यज्ञ कराना और वेद पढाना ये दोनों तो सदा (अर्थात् आपत्तिके बिना और आपत्तिमें) उनके ही किये जाते हैं जिनका उपनयन संस्कार होता है और प्रतिग्रह तो निकृष्ट जाति शूद्रसे भी लिया जाता है (इसलिये यह उन दोनोंसे निन्दित है) ॥ ११० ॥ निषिद्ध याजन और अध्यापनका पाप, जूप और होमसे नष्ट हो जाता है और प्रतिग्रहका पाप तो प्रतिग्रह लिये द्रव्यके त्यागसे और (आगे कहे) तपसे दूर होता है ॥ १११ ॥

शिलोञ्छमप्याददीत त्रिप्रोऽजीवन्यतस्ततः ।

प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते ॥ ११२ ॥

अपनी वृत्तिसे जीविका न चल सके तो ब्राह्मण चाहे जहासे शिलोञ्छ लेले क्योंकि निषिद्ध प्रतिग्रहसे शिल् श्रेष्ठ है और शिल्से उञ्छ श्रेष्ठ है ॥ ११२ ॥

सीदद्भिः कुप्यसिच्छद्भिर्धने वा पृथिवीपतिः ।

याच्यः स्यात्स्नातकैर्विप्रैरदित्संस्वागमर्हति ॥ ११३ ॥

बुखी स्नातक ब्राह्मणोंको यदि धान्य वस्त्र आदिकी वा धनकी इच्छा हो तो क्षत्रीसे मागे और वह न देना चाहे तो उसे त्याग दे अर्थात् उससे न मागे ॥ ११३ ॥

अकृतं च कृतात्क्षेत्राद्गौरजाविकमेव च ।

हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्व पूर्वमदोषवत् ॥ ११४ ॥

जोती हुई भूमिकी अपेक्षा बिना जोती भूमि, गौ, बकरी, मेढ़, सुवर्ण, धान्य और अन्न (सरसों आदि) इनमेंसे पहिले २ का प्रतिग्रह अदूषित है अर्थात् पहिलेका दान न मिले तो दूसरेका ले (बिना जोता हुआ खेत न मिले तो गौ ले, गौ न मिले तो बकरी ले इत्यादि) ॥ ११४ ॥

सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः ।

प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ ११५ ॥

दाय (वंशका धन) लाभ (मित्रादिसे मिला धन) क्रय (मोल लेना) जय (जो विजयसे मिले) प्रयोग (ब्याज आदि) और कर्मयोग (खेती वाणिज्य आदि) ये सात धनकी प्राप्तिके उपाय धर्मके अनुकूल होते हैं ॥ ११५ ॥

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः ।

धृतिर्भैक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥

विद्या, शिल्पकार्य, वेतन, सेवा, गौरक्षा, वाणिज्य, खेती, सतोप, भिक्षा और ब्याजके लिये धन लगाना ये दस जीविकाके हेतु हैं ॥ ११६ ॥

१ खेतमेंसे एक २ अन्नकी बाल बीनकर छानेको शिल कहते हैं

२ खेतमेंसे अन्नके एक २ दानेको बीनकर छानेको उञ्छ कहते हैं.

ब्राह्मणः क्षत्रियो चापि वृद्धिं नैव प्रयोजयेत् ।

कामं तु खलु धर्मार्थं दद्यात्पापीयसेऽल्पिकाम् ॥ ११७ ॥

ब्राह्मण व क्षत्रियको व्याज लेकर कन्या उचार न देना चाहिये परतु धर्मसमर्थके लिये थोड़े व्याजपर निरुद्ध कर्म करनेवालेकोभी वह ऋण दे सकता है ॥ ११७ ॥

चतुर्थमाद्दानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि ।

प्रजा रक्षन्परं शक्त्या किल्विपात्प्रतिमुच्यते ॥ ११८ ॥

जो राजा सामर्थ्यके अनुसार प्रजाकी रक्षा करता हुआ आपत्कालमें (आठवे हिस्सेके पदले) चौथा हिस्सा भी कर लेता है वह पापमें लिप्त नहीं होता ॥ ११८ ॥

स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः ।

शस्त्रेण वैश्यान्रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्वलिम् ॥ ११९ ॥

विजय करना राजाका धर्म है, राजा कदापि युद्धमें पीछे न हटे और शत्रुओंसे सदा वैश्योंकी रक्षा करता हुआ राजा धर्मपूर्वक कर ले ॥ ११९ ॥

धान्येऽष्टमं विशां शूलकं विशां कार्पाषणाचरम् ।

कर्मापकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥

आपत्कालमें राजाको वैश्योंसे धान्यका आठवा भाग और सुवर्णादिका बीसवा भाग कर लेना चाहिये और शूद्र कारीगर, शिल्पी आदिके अपना कार्य करालेना चाहिये ॥ १२० ॥

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्क्षत्रमाराधयेद्यदि ।

धनितं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत् ॥ १२१ ॥

ब्राह्मणकी सेवासे यदि शूद्रकी जीविका न चले तो क्षत्रियकी सेवा करे और वह भी न मिले तो शूद्र धनी वैश्यकी सेवा करके जिये ॥ १२१ ॥

स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत्तु सः ।

जातब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥

विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते ।

यदतोऽन्यद्धि कुर्वते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥ १२३ ॥

स्वर्गके लिये अथवा स्वर्ग और अपनी जीविका दोनोंके लिये शूद्र ब्राह्मणकी सेवा करे । शूद्र ब्राह्मणकी आराधनाके लिये ही उत्पन्न हुआ है इसलिये वह ब्राह्मणोंकी सेवासे ही कृतार्थ होता है ॥ १२२ ॥ शूद्रके लिये ब्राह्मणोंकी सेवा ही श्रेष्ठ कार्य है यह शास्त्रकार विद्वानोंने कहा है और इसके सिवा जो कुछ वह और करता है सो उसका निष्फल है ॥ १२३ ॥

प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यथार्हतः ।

शक्तिं चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥ १२४ ॥

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।
 पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ॥ १२५ ॥
 न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।
 नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिपेधनम् ॥ १२६ ॥
 धर्मेऽवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः ।
 मन्त्रवर्ज्यं न दुप्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ १२७ ॥

ब्राह्मणोको चाहिये कि शूद्रकी सेवाकी सामर्थ्य, कर्ममें उत्साह और नोक-रोके स्त्रीपुत्रादिका प्रमाण देखकर अपने घरसे उसकी आजीविका नियत कर दें ॥ १२४ ॥ (जो अपनी सेवा करे ठस) शूद्रको जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, निष्कृष्ट धान्य और घरकी निष्कृष्ट सामग्री दे देनी चाहिये ॥ १२५ ॥ लज्जन आदि शुरी वस्तुओंके खानेसे शूद्रको पाप नहीं है । वह उपनयन संस्कारके योग्य नहीं और अग्निहोत्र आदि यज्ञोंमें उसका अधिकार नहीं और पाकयज्ञ आदि धर्मकार्योंका उसे निषेध भी नहीं है वह भले ही करे ॥ १२६ ॥ वर्मज्ञ और धर्मके अभिलाषी तथा सत्पुरुषों केसे आचरण करनेवाले शूद्र पंचमहायज्ञोंको मंत्ररहित करनेसे निन्दनीय नहीं होते वरन उनकी प्रशंसा होती है ॥ १२७ ॥

यथायथा हि सद्दत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।
 तथातथैर्म चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८ ॥
 शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।
 शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव वाधते ॥ १२९ ॥

पराई निन्दा न करनेवाला शूद्र जिस प्रकार द्विजातियोंकी सेवा करता है उसी भाति अनिन्दित होकर इगलोक और परलोकमें सुख पाता है ॥ १२८ ॥ समर्थ होनेपर भी शूद्रको धनसंचय करना उचित नहीं है क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मणोंको ही पीडा देता है ॥ १२९ ॥

एते चतुर्णां वर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः ।

यान्सम्भ्यगनुतिष्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम् ॥ १३० ॥

ये चारों वर्णोंके आपत्कालके धर्म कहे, उनको भले प्रकारसे करके लोग परम गतिको पाते हैं ॥ १३० ॥

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम् ॥ १३१ ॥

चारों वर्णोंकी यह सपूर्ण धर्मविधि मैंने विस्तारपूर्वक कही अब प्रायश्चित्तकी उत्तम विधिों कहुंगा ॥ १३१ ॥ इति

पं रामेश्वरभट्टकृत सरलटीकासहित मनुस्मृतिका दशवा

अध्याय समाप्त हुआ-शुभम् ॥

अथ एकादशोऽध्यायः ।

सांतानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् ।

गुर्धर्थं पितृमात्रर्थं स्वाध्यायार्थ्युपतापिनः ॥ १ ॥

नवैतान्स्नातकान्विद्याद्ब्राह्मणान्धर्ममिक्षुकान् ।

निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २ ॥

विवाहका अमिलापी, ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करनेका अमिलापी, मार्गमें जानेवाला, सर्वस्व देकर विश्वजित यज्ञका कर्ता, विद्यागुरुके भोजन वस्त्रादिके लिये चाहनेवाला, माता वा पिताके लिये याचना करनेवाला, वेदपाठी और रोगी इन नौ स्नातक ब्राह्मणोंको धर्ममिक्षुक जाने और इन निर्धनोंको विद्याके अनुसार दान दे ॥ १ ॥ २ ॥

एतेभ्यो हि द्विजाद्येभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम् ।

इतरेभ्यो बहिवैदि कृतान्नं देयमुच्यते ॥ ३ ॥

इन पूर्वोक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको वेदीके भीतर बुलाकर दक्षिणासहित सिद्धान्त-को दे और इनके सिवा अन्य ब्राह्मणोंको वेदीके बाहर सिद्धान्त देना कहा है ॥ ३ ॥

सर्वरत्नानि राजा तु यथार्हं प्रतिपादयेत् ।

ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥

राजा यज्ञके लिये संपूर्ण रत्न और दक्षिणाके लिये धन वेदके ज्ञाता ब्राह्मणों को यथायोग्य दे ॥ ४ ॥

कृतदारोऽपरान्दाराभिस्त्विन्वा योऽधिगच्छति ।

रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदानुस्तु संततिः ॥ ५ ॥

जो एकवार विवाह हो बुरेपर द्रव्य मागकर दूसरी स्त्रियोंसे विवाह करता है उसे रतिमात्र ही फल होता है, सतति तो धन देनेवाले की होती है ॥ ५ ॥

धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत् ।

वेदवित्सु विकिकेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ॥ ६ ॥

जो मनुष्य वेदपाठी और पुत्र की भाँतिसे युक्त ब्राह्मणोंको यथाशक्ति धन देता है वह मरनेके पीछे स्वर्ग भोगता है ॥ ६ ॥

यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ।

अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ ७ ॥

जिस मनुष्यके यहाँ तीन वर्षके लिये अथवा तीन वर्षसे अधिकके लिये भोजनकी सामग्री, सेवक और अपने कुटुंबके लिये पूरी हो वह सोमयज्ञ करने के योग्य होता है ॥ ७ ॥

अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः ।

स पीतसोमपूर्वाऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम् ॥ ८ ॥

जो द्विज तीन वर्षके व्ययके योग्य धनसे थोडा धन होनेपर भी सोम-यज्ञ करता है उसका पहिले किया हुआ सोम यज्ञ भी सुफल नहीं होता, (फिर दूसरा कैसे होगा) ॥ ८ ॥

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि ।

मध्वापातो विपास्वादः सधर्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥

जो दान देनेमें समर्थ मनुष्य स्वजनोके दुखित होनेपर भी दूसरों को दान देता है उसका दान पहिले भीठा और अतमें विषके समान धर्मका पारख है ॥ ९ ॥

भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौर्ध्वदेहिकम् ।

तद्भवत्यसुखोदकं जीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥

[बुद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः ।

अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुज्रवीत् ॥]

जो पालन करने योग्य स्त्रीपुत्रादिको पीडा देकर परलोककी धर्मबुद्धि से दान आदि करता है उसका दान उसके जीतेजी और मरे पीछे भी कुछ दायक होता है ॥ १० ॥

(बूढ़े मा, याप, पतिव्रता स्त्री और बालक पुत्र ये सौ बुरे काम करें तो भी इनका पालन करना चाहिये । यह मनुका वचन है) ॥

यक्षध्वेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः ।

ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥

यो वैश्यः स्याद्बहुपशुर्हीनकतुरसोमपः ।

कुटुम्बात्तस्य तद्भव्यमाहरेद्यज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥

जो यज्ञ करनेवालेका और विशेष करके ब्राह्मणका यज्ञ केवल एक अंगसे पूरा होनेसे रहजाय और राजा धार्मिक हो तो जिस वैश्यके यज्ञ बहुतसे पशु हो और वह यज्ञसे हीन हो और सोमयज्ञ न करता हो तो उसके कुटुम्बसे यज्ञको पूर्ण करनेके लिये उस द्रव्यको ले आवे ॥ ११ ॥ १२ ॥

आहरेर्ब्राह्मिणो वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वेदमनः ।

न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥

शूद्रके घरसे (यज्ञके) तीन अथवा दो अंगोको पूर्ण करनेके लिये धनको बलपूर्वक ले आवे क्योंकि शूद्रको यज्ञमें कोई सबन्ध नहीं होता ॥ १३ ॥

१ "न यद्यत्र मन शूद्राय विप्रो निजिन" इस वचनके अनुसार जो यज्ञके लिये शूद्रके धनका निषेध है वह निषेध दानका है वत्पूर्वक धन लानेका नहीं है ।

योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः ।

तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेद्विचारयन् ॥ १४ ॥

जो मनुष्य सौ गौ होनेपर अग्निहोत्र न करता हो और जो हजार गौ होत्रेपर यज्ञ न करता हो इन दोनोंके कुटुंबोंसेभी (यज्ञके) तीन वा दो अग्निको ि करनेके लिये विना विचार धन ग्रहण करलावे ॥ १४ ॥

आदाननित्याच्चादातुराहरेदग्रयच्छतः ।

तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

जिसका धन ग्रहण किया जासका है ऐसा मनुष्य यदि मांगने परभी यज्ञके लिये दान न दे तो उसके यहासेभी बलपूर्वक दो वा तीन यज्ञके अग्नियों पूर्ण करनेके लिये ग्रहण करलावे इससे हरण करनेवालेका यश होना है और धर्म बढ़ता है ॥ १५ ॥

तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि पडनश्रता ।

अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥

जिस मनुष्यको छ. समयतक भोजन नहीं मिला हो अर्थात् तीन व्रत हो चुके हों वह चौथे दिन सबेरे नीच कर्म करनेवाले मनुष्यसेभी एक दिनके निर्वाहके योग्य धन चोरी आदिसे हर लावे ॥ १६ ॥

खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते ।

आख्यातव्यं तु तत्तस्यै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥

खलियानमें, खेतमें, रहनें वा लीर किसी स्थानमें हीनकर्मवालेकाही धान्य मिले तो उसे ले लेना चाहिये और जो मालिक पूछे कि तूने मेरे मालको क्यों लिया तो उसमें कहदे कि भोजनके लिये लिया है ॥ १७ ॥

ब्राह्मणस्य न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन ।

दस्युनिष्क्रिययास्तु स्वमजीवन्हर्तुमर्हति ॥ १८ ॥

(पूर्वांक कथित कारणोंके होनेपरभी) क्षत्री ब्राह्मणके धनको कसी न ले इसी प्रकार वैश्य क्षत्रीका धन न ले) जो ब्राह्मण क्षत्री चौर और शाल्भोक कर्मके लागी हो तो आपत्तिसमय में उनके धनको ग्रहण करलें ॥ १८ ॥

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति ।

स कृत्वा प्लवमात्मानं संतारयति तावुभौ ॥ १९ ॥

जो मनुष्य, नीच कर्मकरनेवाले मनुष्योंसे धन लेकर (ऋत्विज् आदि) साधुओंको देता है वह मनुष्य अपनी आत्माको नाश बनाकर उन दोनोंको दु खसे पार करता है अर्थात् वनवालेके पापको और जिसे देता है उसके दरिद्रको नाश करता है ॥ १९ ॥

यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्त्वं तद्विदुर्बुधाः ।

अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्त्वं तदुच्यते ॥ २० ॥

यज्ञ करनेवालेका जो धन है उसे पण्डितोंने देवताओंका धन कहा है और जो यज्ञ न करनेवालोंका धन है उसे राक्षसोंका धन कहा है ॥ २० ॥

न तस्मिन्धारयेद्दण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

क्षत्रियस्य हि वालिश्याद्ब्राह्मणः सीदति भ्रुधा ॥ २१ ॥

धार्मिक राजा, उपरोक्त निमित्तके लिये चोरी धादि करनेवालेको दंड न दे क्योंकि राजाकीही भूर्खतासे ब्राह्मण क्षुभासे पीड़ित होता है ॥ २१ ॥

तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपतिः ।

श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

उस ब्राह्मणके अवश्य पालने योग्य पुत्रादि जनोको जानकर और फिर ब्राह्मणको विद्या और स्वभावको जानकर राजा अपने कुटुम्बसे धर्मके अनुसार उसकी आजीविका नियत करदे ॥ २२ ॥

कल्पयित्वास्य वृत्तिं च रक्षेदेनं समन्ततः ।

राजा हि धर्मपङ्कगं तस्मात्प्राप्नोति रक्षितात् ॥ २३ ॥

राजा उस ब्राह्मणकी आजीविका नियत करके उसकी सब भाति रक्षित करे क्योंकि उसकी रक्षा करनेसे राजा उसके छोटे भागको पाता है ॥ २३ ॥

न यज्ञार्थं धनं शूद्राद्विप्रो भिक्षेत कर्हिचित् ।

यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥

ब्राह्मण यज्ञके लिये शूद्रसे कभी धन न मागे क्योंकि शूद्रसे धन मागकर जो ब्राह्मण यज्ञ करता है वह मरनेपर चाण्डाल होता है (और बिना-मागे शूद्रका धन यज्ञमें लगादे तो दोष नहीं) ॥ २४ ॥

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति ।

स याति भासतां विप्रः काकर्ता वा शतं समाः ॥ २५ ॥

जो ब्राह्मण यज्ञके लिये मागे हुए सब धनको यज्ञमें नहीं लगाता है चूह सौ वर्षतक मुर्गे वा काककी योनिको पाता है ॥ २५ ॥

देवस्त्वं ब्राह्मणस्त्वं वा लोभेनोपहितस्ति यः ।

स पापात्मा परे लोके गृध्रोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥

जो ग्नुष्य लोभसे देवताके वा ब्राह्मणके धनको हरता है वह पापी दूसरे जन्ममें गिद्धोंकी जूठन खाकर जीता है ॥ २६ ॥

इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये ।

हृतानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥

प्रथम वर्षके अतमें और दूसरे वर्षके—आरभमें सदा वैश्वानर यज्ञको करे

और जो शास्त्रविहित पशु और सोमयज्ञ न होयके तो उनका दोष दूर करनेके लिये शूद्र आदिसेही धन लेकर वैश्वानर यज्ञको कर दे ॥ २७ ॥

आपत्कल्पेन यो धर्मं कुरतेऽनापदि द्विजः ।

सनाप्तोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

जो द्विज आपत्काल न होने परभी आपत्कालकी विधिसे धर्मको करता है वह द्विज परलोकमें उसके फलको नहीं पाता है ऐसा मनु आदिका विचार है ॥ २८ ॥

विश्वैश्च देवैः सान्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ।

आपत्सु मरणाद्भीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥

विश्वेदेवा, साध्य, और मरनेसे डरे हुए महर्षि तथा ब्राह्मणोंने विधिकी प्रतिनिधि अर्थात् मोम यागके न होसकनेमें वैश्वानर यज्ञ आपत्कालके समयही किया है ॥ २९ ॥

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ।

न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥ ३० ॥

जो मनुष्य मुख्य कर्म करनेमें असमर्थ होकर आपत्कालमें करनेके योग्य विधिसे कर्म करता है उस दुष्टका परलोकमें अभ्युदयरूप और पापका नाशरूप फल नहीं होता ॥ ३० ॥

न ब्राह्मणोऽवेदयेत् किञ्चिद्राजनि धर्मवित् ।

स्ववीर्येणैव ताञ्छिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥

धर्मका ज्ञाता ब्राह्मण राजासे किसीके अपराधको न कहै । अपने पराक्रमसेही अपराधी मनुष्यको दंड दे ॥ ३१ ॥

स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च स्ववीर्यं बलवत्तरम् ।

तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयादरीन्दिजः ॥ ३२ ॥

अपनी सामर्थ्य और राजाकी सामर्थ्य इन दोनोंमें अपनी सामर्थ्य बलवती होती है इसलिये ब्राह्मण अपनी सामर्थ्यसेही शत्रुओंको दंड दे ॥ ३२ ॥

शुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् ।

वाक्शस्त्रं चै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्दिजः ॥ ३३ ॥

(तद्वत् सर्ववर्णानामनिवार्यं च शक्तिः ।

तपोवीर्यप्रभायेण अवध्यानपि वाधते ॥)

अशर्वण नेदमें अनिरा ऋषिकी कही हुई दुष्टोंके मारणकी श्रुतियोंको बिना विचारे करे क्योंकि ब्राह्मणका शास्त्र वाणीही होता है उससे ब्राह्मण शत्रुओंको नाश करे ॥ ३३ ॥

(यह सब वर्णोंका शस्त्र है और शक्तिसे रोका नहीं जासक्ता, तप और वीर्यके प्रभावसे यह अवधियोंको भी दुःख देता है)

स्त्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः ।
 (तद्धि कुर्वन्मथाशक्तिं प्राप्नोति परमां गतिम् ।)
 धनेन वैश्यं शूद्रौ तु जपहोमैर्द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥

धत्री अपनी आपत्तिको भुजाओंके बलसे दूर करे (क्योंकि यथाशक्ति पूसा करनेसे उष्णी परमगति होती है) और वैश्य शूद्र धनेसे और ब्राह्मण जप-होमसे अपनी आपत्तिको दूर करे ॥ ३४ ॥

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।
 तस्मै नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत् ॥ ३५ ॥

प्राज्ञोक्त कर्मोंका करनेवाला, पुत्रशिष्यादिकोंका शिक्षक, और प्रावधित्तादि कर्मोंका उपदेशक ब्राह्मण सब प्राणियोंका मित्र कहा जाता है इसलिये उससे न बुरा बचन करे और न शुष्क अर्थात् निन्दापूर्ण बचन करे ॥ ३५ ॥

न वै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न वालिशः ।
 होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥

कन्या, जवान स्त्री, योषा पढा हुआ, मूर्ख, रोगी और यज्ञोपवीत रहित मनुष्य वे अग्निहोत्रके कर्ता नहीं हो सके ॥ ३६ ॥

नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स च यस्य तत् ।
 तस्माद्धैतानकुशलो होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७ ॥

होम करते हुए वे (कन्याआदि) सब नरकको जाते हैं और जिसकी होमने वे करते हैं वहभी नरकको जाता है इसलिये होता वेदोक्त कर्ममें कुशल और संपूर्ण वेदोक्तोंका ज्ञाता होना चाहिये ॥ ३७ ॥

प्राजापत्यमदस्वाश्वमइयाधेयस्य दक्षिणाम् ।
 अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८ ॥

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धधानो जितेन्द्रियः ।
 न त्वल्पदक्षिणैर्यज्ञैर्यजन्ते ह कथञ्चन ॥ ३९ ॥

जो ब्राह्मण संपत्ति होनेपर भी प्रजापति देवताके क्रिये अग्निहोत्रकी दक्षिणाम् अर्थात् वेदोक्तों न केवल अग्निहोत्रका ग्रहण करता है उसे अग्निहोत्र करनेपर भी उष्ण कर नहीं होता ॥ ३८ ॥ श्रद्धावान् जितेन्द्री ब्राह्मण यज्ञमें जो अल्प पुण्योक्तों करे परन्तु शान्तेया दक्षिणा में उन दक्षिणावाले रथोंको नहीं न करे ॥ ३९ ॥

इन्द्रियाणि दशः स्वर्गमायुः कीर्तिं प्रजाः पशून् ।
 हन्त्यल्पदक्षिणो यजस्वसाशालपधनो यजेत् ॥ ४० ॥

पञ्चोक्त योर्धे दक्षिणावाला दश इन्द्रिय, दश, स्वर्ग, आयु कीर्ति, प्रजा और पशु इनका नाश करता है इनकीने पाँच धनसे दान न करे ॥ ४० ॥

(अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः ।

दीक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥)

(ऐसा कहा है कि अन्नहीन यह देशको जला देता है, मन्त्रहीन ऋत्वि-
जोंका नाश करता है और दक्षिणाहीन दीक्षितको नष्ट कर देता है, सो यज्ञके
लिए अन्य शत्रु नहीं होता)

अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन्ब्राह्मणः कामकारतः ।

चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥

अग्निहोत्री ब्राह्मण अपनी इच्छासे अग्निओंका त्याग करके (अर्थात् अत-
काल सायंकालके होमको न करके) एक महीनेतक चान्द्रायण व्रतको करै
क्योंकि अग्निहोत्रका त्याग पुत्रकी हत्याके समान है ॥ ४१ ॥

ये शूद्रादधिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते ।

ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥ ४२ ॥

जो ब्राह्मण शूद्रसे धन लेकर अग्निहोत्र करते हैं वे निश्चयही शूद्रोंका यज्ञ
करनेवाले हैं और वे ब्राह्मण वेदवादिओंमें निन्दित होते हैं अर्थात् उनको
उस अग्निहोत्रका फल नहीं मिलता ॥ ४२ ॥

तेषां सततमज्ञानां वृषलाश्रुपसेविनाम् ।

पदामस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥ ४३ ॥

शूद्रकी अग्निके सेवन करनेवाले, और अज्ञानी ऐसे उन ब्राह्मणोंके मस्तकपर
चरण रखकर दान देनेवाला शूद्र, परलोकमें मदा दुखोंसे तर जाता है
(अर्थात् उस यज्ञका फल धन देनेवाले शूद्रको होता है) ॥ ४३ ॥

अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।

प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥

शास्त्रोक्त कर्मको नहीं करता हुआ और निन्दित कर्मको करता हुआ और
वेपथ्योंमें आसक्त मनुष्य प्रायश्चित्तके योग्य होता है ॥ ४४ ॥

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः ।

कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥ ४५ ॥

पण्डितोंने अज्ञानसे कियेहुए पापका प्रायश्चित्त कहा है और कोई आचार्य
श्रुतिमें देखकर जानकर कियेहुए पापकामी प्रायश्चित्त कहते हैं (इन्द्रने
तान बृद्धकर सन्यासियोंको कुत्तोंको सोप दिया था फिर बटोरवाणीने
भाकर इन्द्रसे कहा कि प्रायश्चित्त करो इन्द्र ब्रह्माके समीप गये ब्रह्माने उनको
वन विशेष करना बताया इससे स्पष्ट है कि जानकर किये हुए पापका
ही प्रायश्चित्त है) ॥ ४५ ॥

अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति ।

कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥

अज्ञानसे किया हुआ पाप वेदके अभ्याससे शुद्ध होता है और मोहसे जानकर किया हुआ पाप अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तसे शुद्ध होता है ॥ ४६ ॥

प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य-दैवात्पूर्वकृतेन वा ।

न संसर्गं व्रजेत्सद्भिः प्रायश्चित्तेऽकृते द्विजः ॥ ४७ ॥

(प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥)

पूर्व जन्मके किये हुए कर्मके कारण वा प्रमादसे प्रायश्चित्तके योग्य होकर बिना प्रायश्चित्त किये सजनोंके साथ संसर्ग न करे ॥ ४७ ॥

(प्राय का अर्थ तप और चित्तका अर्थ निश्चय है, तप और निश्चय मिलकर ही प्रायश्चित्त होता है)

इह दुश्चरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा ।

प्राप्तुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥ ४८ ॥

कोई दुष्ट मनुष्य इस जन्मके दुष्टाचरणोंसे कोई पूर्व जन्मके बुरे कर्मोंसे विपरीत रूपके (काणे, लले आदि) हो जाते हैं ॥ ४८ ॥

सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम् ।

ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चर्म्यं गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥

सुवर्णचोरके नर बुरे हो जाते हैं, मदिरा पीनेवालेके दात काले होजाते हैं, ब्रह्म हत्याका क्षयीरोगी और गुरुस्त्रीगामी शिथिलेन्द्रिय होजाता है ॥ ४९ ॥

पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्रताम् ।

धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥

सुगलखोरकी नाकमेंसे दुर्गन्धि धानि लगती है, जो झूठे दोषोंको कहै उसके मुखमें दुर्गन्धि होजाती है, धान्यका चौर अगहीन होजाता है और जान्यमें कोई निन्दित वस्तु मिलनेसे मनुष्यके अधिक अंग हो जाते हैं ॥ ५० ॥

अन्नहर्तामयावित्त्वं मौक्यं वागपहारकः ।

वस्त्रापहारकः श्वैड्यं पद्भुतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥

अन्न चुरनेवालेको नदामि हो जाती है, गुरकी आज्ञाके बिना पदनेवालेको गूणा हो जाता है, वस्त्र चुरानेवाला श्वेतकुण्ठी होता है और घोडाचोरके लंगण होता है ॥ ५१ ॥

(दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत् ।

हिंसया व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिंसया ॥)

(दिक्के चुरानेवाला अंधा और दिक्के चुरानेवाला काणा होता है । हिंसा करनेवाला अनेक व्याधियुक्त और परस्त्रीगामी वातरोगी होता है)

एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्भिर्हिंताः ।

जडमूकान्धधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥

इस प्रकार कर्मकी विशेषतासे मनुष्य सज्जनोंमें निन्दित, जड़, मूक, अंधे, बहिरे और कुरूप हो जाते हैं ॥ ५२ ॥

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।

निन्दोर्है लक्ष्णैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैःसः ॥ ५३ ॥

इस कारण पापसे शुद्ध होनेके लिये सदा प्रायश्चित्त करै क्योंकि जिन्होंने प्रायश्चित्त नहीं किया उनके देहमें पूर्वोक्त निन्दित चिन्ह हो जाते हैं ॥ ५३ ॥

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः ।

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥ ५४ ॥

ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण आदिकी चोरी, गुरुस्त्रीगमन और इन पापोंके करनेवालोंके साथ संसर्ग ये बड़े भारी पातक हैं ॥ ५४ ॥

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् ।

गुरोश्चालीकनिर्वन्धः समानि ब्रह्महत्याया ॥ ५५ ॥

अपनी जाति बड़ाईके लिये झूठ बोलनेवाला, राजासे ऐसी चुगली खाना जिससे किसीका मरण हो, और गुरुसे मिथ्या हठ करना ये ब्रह्महत्याके समान हैं ॥ ५५ ॥

ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः ।

गर्हितानाद्ययोज्जिग्धिः सुरापानसमानि षट् ॥ ५६ ॥

पदे हुए वेदका भूलजाना, वेदनिन्दा, झूठी साक्षी देना, मित्रका वध, तथा निन्दित और अमक्ष्य पदार्थोंका भक्षण ये छः सदिरापानके तुल्य हैं ॥ ५६ ॥

निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च ।

भूमिबज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम् ॥ ५७ ॥

रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्यजासु च ।

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५८ ॥

धरोहर, मनुष्य, घोड़ा, चादी, भूमि, बज्र और मणि इनकी चोरीको पण्डितोंने सुवर्णकी चोरीके समान कहा है ॥ ५७ ॥ सगी बहन, कुर्बारी, चाडाली, और मित्र तथा पुत्रकी स्त्री इनमें वीर्यसिंचन करना गुरुस्त्रीगमनके समान कहा है ॥ ५८ ॥

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यमारदार्यात्मत्रिक्रयाः ।

गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाभ्रयोः सुतस्य च ॥ ५९ ॥

परिवित्तितानुजेऽनूढे परिवेदनमेव च ।

तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६० ॥

गौका वध, जो यह कराने योग्य नहीं है उससे यह कराना, परस्त्रीगमन, अपनी आत्माको बेचना, गुरु, माता, पिता, वेदपाठ, अग्निसेवन और इनका

स्याग ॥ ५९ ॥ परिवेत्ता (बड़े भाईसे पहिले ब्याह करनेवाला छोटा भाई)
और परिविति (बडाभाई) इन दोनोंको कन्या देना, और इनको यह
कराना ॥ ६० ॥

कन्याया दूषणं चैव वार्धुष्यं व्रतलोपनम् ।
तडानारामद्वाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥

कन्याको दूषित करना, व्याज खाना, व्रतको नष्ट करना, तालाब, बगीचा
और स्त्रीपुत्रोंको बेचना ॥ ६१ ॥

व्रात्यता वान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च ।
भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥

समयपर यहोपवीत न होना, बन्धुओंका त्यागना, द्रव्य लेकर पढ़ाना, द्रव्य
देकर पढ़ना, बेचनेके अयोग्य वस्तुओंको बेचना ॥ ६२ ॥

सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम् ।
हिंस्रौषधीनां रुयाजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३ ॥

सब (पाषाण आदिकी) खानोंमें अधिकारी होना, बड़े २ प्रवाहोंके बंधन
करनेवाले यंत्रोंकी प्रवृत्ति करना, औषधीका फूंकना, अपनी स्त्रीके व्य-
भिचारसे जीविका करना, मारणप्रयोग तथा नशीकरण ॥ ६३ ॥

इन्धनार्थमशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम् ।
आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दिताद्वादनं तथा ॥ ६४ ॥
अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रिया ।
असञ्छास्त्राधिगमनं कौशील्यस्य च क्रिया ॥ ६५ ॥
धान्यकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम् ।
स्त्रीशूद्रविद्वक्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ॥ ६६ ॥

इंधनके लिये गीले वृक्षोंको कटवाना, केवल अपने लियेही रसोई बनाना,
और निन्दित वस्तुओंका भक्षण करना, ॥ ६४ ॥ अभिहोत्रका त्याग, चोरी,
ऋणोंको न देना, श्रुतिस्मृतिसे विरुद्ध शास्त्र सीखना, नाचना, गाना, बजाना,
धान्य, तावा और लोहा आदि, और पशु इनका चुराना, मदिरा पीनेवाली
स्त्रीके साथ भोग करना, स्त्री, शूद्र, वैश्य और क्षत्री इनका वध, और नास्तिक-
कता ये सब उपपातक हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

ब्राह्मणस्य रुजःकृत्या व्रातिरग्रेयमद्ययोः ।
जैहयं च मैथुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम् ॥ ६७ ॥

ब्राह्मणको पीडा देना, सूंधनेके अयोग्य वस्तु तथा मद्यका सूंधना, कुटिलता
और पुरुषके संग मैथुन ये सब कर्म जातिसे भ्रष्ट करनेवाले हैं ॥ ६७ ॥

खराश्वोऽमृगोमानामजाविकवधस्तथा ।
संकरीकरणं श्रेयं मीनाहिमहिपस्य च ॥ ६८ ॥

गधा, घोड़ा, ऊँट, सूंग, हाथी, बकरा, मेदा, मछली, सर्प और भैंसा इ-
नका मारनेवाला वर्णसकर होजाता है ॥ ६८ ॥

निन्दितेभ्यो धनादानं चाण्डाल्यं शूद्रसेवनम् ।

अपात्रीकरणं श्रेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥

निन्दित पुरुषसे धन लेना, व्यापार करना, शूद्रकी सेवा करना, और असत्य
बोलना इनके करनेवालेको अपात्र जानना चाहिये ॥ ६९ ॥

कृमिकीटवयोहत्या मद्यालुगतभोजनम् ।

फलैश्चःकुसुमस्तेयमर्घ्यं च मलाचहम् ॥ ७० ॥

छोटे कीड़े, बड़े कीड़े और पक्षी इनकी हत्या, मदिराके संग लाए हुए पदा-
र्थका भोजन, फल, ईंधन और फूलोंकी चोरी और अधीरता ये सब मलीन
करनेवाले जानने चाहिये ॥ ७० ॥

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक् ।

यैर्यैर्ब्रह्मैरपोह्यन्ते तानि सम्यङ्ब्रह्मोद्यत ॥ ७१ ॥

अलग २ वर्णन किये गए ये सब पाप जिन २ ब्रह्मोंसे दूर होते हैं उनको
यथायं रीतिये सुना ॥ ७१ ॥

ब्रह्महा द्वादश समाः कुटीं कृत्वा वने वसेत् ।

भैक्ष्याश्यात्मविशुद्ध्यर्थं कृत्वा शचशिरोध्वजम् ॥ ७२ ॥

ब्रह्मघाती अपनी श्रद्धिके लिये वनमें कुटी बनाकर बारह वर्षतक
उसमें वास करे और उनी ब्राह्मणके कपालका चिन्ह धारण कर भिक्षामाग
भोजन करे ॥ ७२ ॥

लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः ।

प्राप्त्येदात्मानमज्ञौ वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ ॥

अथवा अपनी इच्छासे विद्वान् शस्त्रधारी शूर वीरोंके शस्त्रका निशाना
हो जाय वा जलती हुई अग्निमें नीचेको धिर करके अपनी देहको तीन
वार गैरे ॥ ७३ ॥

यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा ।

अभिजिद्विश्वजिज्ञां वा त्रिवृताग्निष्टुतापि वा ॥ ७४ ॥

अथवा अश्वमेध, स्वर्जित, गोसव, अभिजित, विश्वजित यज्ञ वा तीनवार
अग्निष्टोम यज्ञ करे ॥ ७४ ॥

अपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं ब्रजेत् ।

ब्रह्महत्यापनोदाय मितभुङ्क्षियतेन्द्रियः ॥ ७५ ॥

अथवा अल्प भोजन और इन्द्रियोंको बशमें करके ब्रह्महत्या दूर करनेके
लिये कोईसा वेद जपता हुआ सौ योजनतक गमन करे ॥ ७५ ॥

सर्वस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ।

धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ ७६ ॥

अथवा वेदपाठी ब्राह्मणको सर्वस्व दान दे अथवा जीवनपर्यन्त भोजनके योग्य धन वा अन्न आदि सामग्रीसहित घरका दान दे ॥ ७६ ॥

हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ।

जपेद्वा नियताहारस्त्रिवै वेदस्य संहिताम् ॥ ७७ ॥

अथवा हविष्यको खाता हुआ सरस्वती नदी जहातक बहती हो बहातक गमन करै अथवा अल्प भोजन करता हुआ तीनवार वेदकी संहिताको जपै ॥ ७७ ॥

कृतवापनो निवसेद्भामान्ते गोव्रजेपि वा ।

आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥

अथवा मुंडन कराकर गौ ब्राह्मणका उपकार करता हुआ गामके पास, गौशालामें, आश्रममें, अथवा वृक्षके नीचे वास करै ॥ ७८ ॥

ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत् ।

मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ७९ ॥

अथवा जो (ब्रह्महत्याया) ब्राह्मण वा गौके लिये अपने प्राणोंको त्याग दे-
तो वह गौब्राह्मणका रक्षक ब्रह्महत्यासे छूट जाता है ॥ ७९ ॥

त्रिचारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा ।

विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालामे विमुच्यते ॥ ८० ॥

ब्राह्मणके सर्वस्वको तीन वार रोकनेवाला वा उसके सर्वस्वको चोरोंसे जीतकर उसे अर्पण करनेवाला अथवा उसके निमित्त प्राणोंका त्यागनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है ॥ ८० ॥

एवं दृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः ।

समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८१ ॥

इसप्रकार नित्य दृढ व्रत धारण करनेवाला, ब्रह्मचारी मनको बशमें करवै, बाह्य वर्षेकी समाप्ति होने पर ब्रह्महत्याको दूर करता है ॥ ८१ ॥

शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे ।

स्वमेनोऽवभृथस्त्रातो हयमेघे विमुच्यते ॥ ८२ ॥

धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते ।

तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्ध्यति ॥ ८३ ॥

अथवा अभ्येध यज्ञमें राजाओंके समागममें अपने पापको ब्राह्मणोंसे निवेदन करके यज्ञान्मन्त्रानसे ब्रह्महत्यारा शुद्ध होता है ॥ ८२ ॥ क्योंकि प्राण्य धर्मका मूल है और क्षत्रिय धर्मका अग्रभाग कहा गया है इसलिये

उन दोनोंके अश्वमेधमें खानेपर दोनोंको अपना पाप जताकर मनुष्य शुद्ध होता है ॥ ८३ ॥

ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामपि दैवतम् ।

प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥

ब्राह्मण उत्पत्तिसेही देवताओंका देवता है और संसारमें वह प्रमाण माना- जाता है इसमें वेदही कारण है ॥ ८४ ॥ -

तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतिम् ।

सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८५ ॥

उन ब्राह्मणोंमेंसे तीन वेदपाठी ब्राह्मण पापके प्रायश्चित्तका उपादेश करें क्योंकि पण्डितोंकी वाणी पवित्र होती है और वह पापियोंको पवित्र करने- वाली है ॥ ८५ ॥

अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः ।

ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥

ब्राह्मण साधधान होकर इन पूर्वोंक प्रायश्चित्तोंमेंसे किसी एक प्रायश्चित्तको करके और आत्मज्ञानी होकर ब्रह्महत्यासे उत्पन्न हुए पापको दूर करता है ॥ ८६ ॥

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव-वतं धरेत् ।

राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम् ॥ ८७ ॥

विनाजाने गर्भको, यज्ञ करते हुए क्षत्री और वैश्यको और रजस्वला स्त्रीको मारकर यही प्रायश्चित्त करें ॥ ८७ ॥

उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुद्धय गुरुं तथा ।

अपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्भ्रमम् ॥ ८८ ॥

गवाहीमें झूठ बोलकर, गुरुको झूठा दोष लगाकर, किसीकी धरोहर मार- कर, तथा स्त्री और मित्रको मारकर ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करें ॥ ८८ ॥

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् ।

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ८९ ॥

अज्ञानसे ब्राह्मणको मारनेमें यह प्रायश्चित्त है और जान बूझकर ब्राह्मणके मारनेका प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ८९ ॥

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिबेत् ।

तया स काये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिषपात्ततः ॥ ९० ॥

ब्राह्मण मोहसे (जानकर) मदिरापान करें तो अग्निसमान वर्णवाली गरम २ मदिराका पान करें और उस मदिरासे जब उसका शरीर जल जाय तब वह उस-पापसे छुटता है ॥ ९० ॥

गोमूत्रमग्निचर्णं वा पिबेदुदकमेव वा ।

पयो घृतं वामरणाद्गोशकृद्रसमेव वा ॥ ९१ ॥

अथवा गोमूत्र, जल, घृत, दूध और गौके गोबरका रस इनमेंसे किसीको अग्निके वर्णके समान गरम कर तबतक पिए कि जबतक मर न जाय ॥ ९१ ॥

कणान्वा भक्षयेद्द्वंदं पिण्याकं वा सकृच्चिदि ।

सुरापानापनुत्त्यर्थं चालवासा जटी ध्वजी ॥ ९२ ॥

अथवा सुरापानका दोष दूर करनेके लिये वर्षे दिनतक मलिन वल पहिरे, जटा बढावै, और मदिरापानके चिन्हयुक्त ध्वजा धारण करै, और रात्रिको चावलकी कनी अथवा तिलोंकी खल एकवार खाय ॥ ९२ ॥

सुरां वै मलमन्त्रानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥ ९३ ॥

अत्रोंके मलको सुरा कहते हैं और मलपापको कहते हैं इसलिये ब्राह्मण क्षत्री और वैश्य सुराको न पियें ॥ ९३ ॥

गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।

यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ९४ ॥

यश्चरक्षःपिशाचाच्च मद्यं मांसं सुरासवम् ।

तद्ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्रता हविः ॥ ९५ ॥

गौडी, पैष्टी और माध्वी तीन प्रकारकी सुरा जाननी चाहिये और इन तीनोंमें जैसी एक तैसी सब इसलिये द्विजोत्तमोंको इन्हें नहीं पीनी चाहिये ॥ ९४ ॥ मद्य, मांस, सुरा और आसव ये यक्ष राक्षस और पिशाचोंके भक्षण योग्य हैं इसलिये देवताओंके साकत्यको भक्षण करता हुआ ब्राह्मण उन चारोंका भक्षण न करै ॥ ९५ ॥

अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत् ।

अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदभोहितः ॥ ९६ ॥

मदके नशेमें ब्राह्मण मतवाला होकर अशुद्ध स्थानमें गिरेगा वा वेदवाक्यको उच्चारण करेगा वा जीरही कोई न करनेका काम करेगा ॥ ९६ ॥

यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत् ।

तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥ ९७ ॥

जिस ब्राह्मणके देहमें स्थित जीवात्मा एकवारभी मद्यसे भीगता है (अर्थात् जो ब्राह्मण एकवारभी मद्य पीता है) उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वह शूद्र होजाता है ॥ ९७ ॥

एषा चिच्चित्रामिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ९८ ॥

मदिरापानका यह प्रायश्चित्त अनेक प्रकारसे कहा । अब इसके आगे सुवर्णकी चोरीके प्रायश्चित्तको कहताहूँ ॥ ९८ ॥

सुवर्णस्तेयद्विप्रो राजानमभिगम्य तु ।

स्वकर्म ख्यापयन्ब्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥ ९९ ॥

सुवर्णका सुरानेवाला ब्राह्मण राजाके पास जाकर अपने कर्मको कहता हुआ यह कहै कि तुम मुझे दंड दो ॥ ९९ ॥

शृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम् ।

वधेन शुद्ध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १०० ॥

राजा मूसल लेकर एकवार उसे छुद मारै, जो चोर, ब्राह्मणसे इतर जाति हो तो वधसे शुद्ध होता है और ब्राह्मण हो तो तपसेही शुद्ध हो जाता है ॥ १०० ॥

तपसापनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् ।

चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्ब्रह्महृणो व्रतम् ॥ १०१ ॥

सुवर्णकी चोरीके दोषको दूर करनेकी अभिलाषा करता हुआ, द्विज, जीर्ण वस्त्रोंको धारण कर और वनमें बसकर ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करै ॥ १०१ ॥

एतैर्व्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।

गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥

द्वेज इन व्रतोंसे चोरीके पापोंको दूर करै और गुरुस्त्रीगमनके पापको आगे कहे इन व्रतोंसे दूर करै ॥ १०२ ॥

शुरुतल्प्यमिभाष्यैनस्तप्ते स्वप्यादयोमये ।

सूर्मां ज्वलन्तीं स्वाम्निष्येन्मृत्युना स विशुद्ध्यति ॥ १०३ ॥

गुरुभार्यागमन करनेवाला अपने पापको जतलाकर तत्ती लोहेकी सेज पर सोवै अथवा लोहेकी वनी और जलती हुई लोकी प्रतिमाका आलिंगन करै ऐसी मृत्युसे वह शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥

स्वयं वा शिश्रुवृण्णावुत्कृत्याधाय चाञ्जलौ ।

नैऋतीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्मगः ॥ १०४ ॥

अथवा स्वयं अपने लिंग और अङ्कशोको काट कर और अपनी अंजलीमें रखकर, कुटिल सभावको त्याग, मरे नहीं तबतक सीधा नैऋति दिशामें चला जाय ॥ १०४ ॥

खट्वाङ्गी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजने वने ।

प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रमब्दमेकं समाहितः ॥ १०५ ॥

चान्द्रायणं वा भीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः ।

हविष्येण यचाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥

अथवा खट्वाङ्गीको धारण किये, चीथड़े पहिरें केश, नख, लोम और दाह्नी मूँहोंको बड़ाएँ निर्जन वनमें एक वर्षतक सावधान होकर प्रजापत्य व्रतको

करै ॥ १०५ ॥ अथवा गुरुभार्यागमनका पाप दूर कर देनेके लिये जितेन्द्री होकर तीन मास तक फलमूल आदि हविष्यसे वा नीवार आदिकी लक्ष्मी चाद्रायण व्रत करै ॥ १०६ ॥

एतैर्व्रतेरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् ।

उपपातकिनस्त्वैवमेभिर्नानाविधैर्व्रतैः ॥ १०७ ॥

महापातकी इन व्रतोंसे और उपपातकी इन आगे लिखे नाना प्रकारक व्रतोंसे पापको दूर करै ॥ १०७ ॥

उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिबेत् ।

कृतवापो वसेद्दोष्टे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०८ ॥

उपपातकसे युक्त गोहत्यारा मनुष्य एक महीनेतक गौका सतुआ पिए और मुढन कराकर उस गौके चर्मको पहिर गौशालामें रहै ॥ १०८ ॥

चतुर्थकालमश्रीयाद्धारलवणं मितम् ।

गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ १०९ ॥

और चौथे कालमें अर्थात् एक दिन उपवास करके दूसरे दिन प्रथम प्रहरमें धार और लवणको छोड़कर थोड़ा भोजन करै और जितेन्द्री होकर दो महीने तक गोमूत्रसे स्नान करै ॥ १०९ ॥

दिवानुगच्छेद्वास्तास्तु तिष्ठभूर्ध्वं रजः पिबेत् ।

शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥ ११० ॥

दिनमें गौओंके पीछे २ चले और ठहरकर गौओंके खुरसे उड़ी हुई धूलिको पीवै अर्थात् रजका खाद ले और रात्रिको गौओंकी सेवा और नमस्कार करके वीरासनसे वसे ॥ ११० ॥

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्सु ब्रजन्तीष्वप्यनुव्रजेत् ।

आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १११ ॥

जो गौए राइ हों तो आपसी सड़ा हो जाय और चलती हुई गौओंके पीछे २ जाय । और जब गौए बैठें तो आपसी बैठे, यह नियमपूर्वक द्वेपरहित होकर करै ॥ १११ ॥

आतुरामभिदास्तां वा चौरव्याघ्रादिभिर्भयैः ।

पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायैर्विमोचयेत् ॥ ११२ ॥

जो गाय रोगिणी हो वा चौर व्याघ्र आदिकोंके भयसे युक्त हो वा कहीं गिर गट हो अथवा कीचम फगी हो तो उसे सब उपायोंसे छुटावै ॥ ११२ ॥

उष्णे चर्पति शीते वा मायते वाति वा भृशम् ।

न कुर्यात्तात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ११३ ॥

गर्भा, वर्षा और शीतमें वा अधिक वायु चलनेमें शक्तिपूर्वक बिना गौरी रक्षा करै अपनी रक्षा न करै ॥ ११३ ॥

आत्मनो यदि चान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले ।

भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम् ॥ ११४ ॥

अपने वा दूसरोंके घरमें, खेतमें अथवा खलिहानमें अन्न आदिको भक्षण करती हुई गौको और पीतेहुए वछड़ेको न बतावै ॥ ११४ ॥

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति ।

स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासैर्व्यपोहति ॥ ११५ ॥

इस विधिसे जो गोहत्यारा गौकी सेवा करता है वह गोहत्याके किए हुए पापको तीन मासमें नष्ट करता है ॥ ११५ ॥

वृषभैकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितव्रतः ।

अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत् ॥ ११६ ॥

अच्छीतरहसे व्रत करके गोहलारा एक बैल और दस गौभोका दान करै और जो इतना न हो सके तो जो कुछ अपने पास हो वह सब वेदपाठी ब्राह्मणोंके अर्पण कर दे ॥ ११६ ॥

एतदेव व्रतं कुर्युस्वपातकिनो द्विजाः ।

अवकीर्णवर्ज्यं शुद्ध्यर्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११७ ॥

अवकीर्णको छोड़कर जो द्विज उपपातकी हों वे शुद्धिके लिये यही प्रायश्चित्त करै अथवा चन्द्रायण व्रत करै ॥ ११७ ॥

अवकीर्णां तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे ।

पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्ऋतिं निशि ॥ ११८ ॥

अवकीर्णां चौराहेमें काणे गधेसे अर्थात् उसकी चर्वा पकाकर उससे पाक यज्ञकी विधिसे रात्रिके समय निर्ऋति देवताके निमित्त याग करै ॥ ११८ ॥

हुत्वाशौ विधिवद्धोमानन्ततश्च समेत्युचा ।

वातेन्द्रगुरुवहीनां जुहुयात्सर्पिपाहुतीः ॥ ११९ ॥

विधिपूर्वक अग्निमें हुवन करके पीछे (समासिचन्तु मास्त) इस ऋचासे वायु, इन्द्र, बृहस्पति और अग्नि इनके निमित्त अग्निमें घीसे आहुति दे ॥ ११९ ॥

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः ।

अतिक्रमं व्रतस्याद्दुर्धर्मज्ञा ब्रह्मदादिचः ॥ १२० ॥

जो द्विज व्रतमें स्थित होकर इच्छासे वीर्यका सिंचन करै (अर्थात् स्त्रीका संग करै) उसको धर्मके हाता ब्रह्मवादियोंने व्रतका उल्लंघन करनेवाला कहा है ॥ १२० ॥

मास्तं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव च ।

चतुरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१ ॥

व्रती अवकीर्णका ब्राह्मतेज पवन, इन्द्र, बृहस्पति, और अग्नि इन चारोंके पास जाता है ॥ १२१ ॥

एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् ।
सप्तागारांश्चरेद्भैक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥ १२२ ॥

जो मनुष्यसे यह अवकीर्णरूप पाप हो जाय तो गधेके चर्मको धारण करके अपने कर्मको प्रगट करता हुआ सात घरोसे भिक्षा मागे ॥ १२२ ॥

तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तयन्नेककालिकम् ।
उपस्पृशंस्त्रिपवर्णं त्वन्देन स विशुद्ध्यति ॥ १२३ ॥

उन सात घरोंसे मिले हुए भोजनको एक समय करै और तीन बार स्नान करै तो वह अवकीर्णी एक वर्षमें शुद्ध होता है ॥ १२३ ॥

जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतममिच्छया ।
चरेत्सातपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥

जातिभ्रष्ट करनेवाले कर्मोंसे किसीभी कर्मको अपनी इच्छासे करै तो सातपन कृच्छ्रको और अज्ञानसे करै तो प्राजापत्य कृच्छ्रको करै ॥ १२४ ॥

संकरापात्रकृत्यास्तु मासं शोधनमैन्दवम् ।
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकैत्यहम् ॥ १२५ ॥

संकर और अपात्र करनेवाले कर्मोंमें एक मासतक चान्द्रायणसे और मलीन करनेवाले कर्मोंके करनेसे तीन दिनतक गरम लपसी खानेसे शुद्धि होती है ॥ १२५ ॥

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः ।
वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शूद्रे क्षेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥

क्षत्रीकी हत्यामें ब्रह्महत्याका चौथा भाग और सदाचारी वैश्यके वधमें अष्टम भाग और शूद्रके वधमें सोलहवा भाग व्रत करना प्रायश्चित्त कहा है ॥ १२६ ॥

अकामतस्तु राजन्यं चिनिपात्य द्विजोत्तमः ।
वृषभैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ १२७ ॥

उत्तम ब्राह्मण अज्ञानसे क्षत्रीका वध करके अच्छीभाति व्रतपूर्वक एक बैल और एक हजार गौबोंका दान करे ॥ १२७ ॥

व्यवृद्धं चरेद्वा नियतो जट्टी ब्रह्महणो व्रतम् ।
यमन्दूरतरे प्रामाहृश्रमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥

एतदेव चरेद्व्यवृद्धं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः ।
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दद्यात्शकशतं गवाम् ॥ १२९ ॥

अथवा दण्डियोंकी गन्धमें करके और जटा धारण करके गांवसे दूर किसी वृक्षके नीचे गुट्टों बनाकर यम और तीन वर्षतक प्रामहृश्रमूलनिकेतन ॥ १२८ ॥ अपने कर्मोंमें स्थित वैश्यका वध करके भी ब्राह्मण एक वर्षतक दण्डोंके ब्रह्महत्याके व्रतकी वदं और दण्डोंका एक गौदान करे ॥ १२९ ॥

एतदेव व्रतं कृत्वां पण्मासान् शूद्रहा चरेत् ।

वृषभैकादशा चापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥ १३० ॥

शूद्रका वध करनेवाला ब्राह्मण भी इसी सपूर्ण व्रतको छ- मासतक करै
अथवा एक बैल और दश खेत गौ ब्राह्मणको दान करै ॥ १३० ॥

मार्जारनकुलौ हत्वा चापं मण्डूकमेव च ।

श्वगोधोलूककाकांश्च शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १३१ ॥

बिलाव, नौला, नीलकंठ, मैडक, कुत्ता, गोह, उलू और काक इनको मार-
कर शूद्रकी हत्यारा व्रत करै ॥ १३१ ॥

पयः पिबेन्निरात्रं वा योजनं वाध्वनो व्रजेत् ।

उपस्पृशेत्स्नवन्त्यां वा सूक्तं वाव्दैवतं जपेत् ॥ १३२ ॥

तीन रात्रितक या तो दूध पिये, अथवा एक योजनतक गमन करै अथवा
नदीमें स्नान करै अथवा “आपोहिष्ठा” इस मंत्रको जपै ॥ १३२ ॥

अग्निं कार्णायसीं दद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः ।

पलालभारकं पण्डे सैसकं चैकमाषकम् ॥ १३३ ॥

ब्राह्मण सर्पको मारकर लोहदंडका दान करै और नपुंसक को मारकर एक
भार पयार और एक मासा सीसा दान करै ॥ १३३ ॥

घृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तिच्चिरौ ।

शुके द्विहायनं चत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

शूकरको मारकर घृतका घडा, तीतरके मारनेपर द्रोणभर तिल, तोतेके
मारनेपर दो वर्षका बछड़ा और कौच पक्षीको मारकर तीन वर्षका बछड़ा
दान करै ॥ १३४ ॥

हत्वा हंसं बलाकां च वकं वार्हिणमेव च ।

वानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेद्ब्राह्मणाय गाम् ॥ १३५ ॥

हंस, बलाका, बगला, मोर, बन्दर, बाज और मास इनको मारकर ब्राह्मण-
को एक गोदान करै ॥ १३५ ॥

वासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च नीलान्वृपान्नाजम् ।

अजमेषावनङ्गाहं खरं हत्वैकहायनम् ॥ १३६ ॥

घोडा मारकर चन्नका, हाथीको मारकर पांच नीले बैलको, बैलको मारकर
ककरी और भेड़का और गधेको मारकर एक वर्षके बछड़ेका दान ब्राह्मणको
दे ॥ १३६ ॥

ऋग्व्यादांस्तु सृगान्हत्वा श्रेतुं दद्यात्पयस्त्रिनीम् ।

अऋग्व्यादान्वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वा तु कुण्डलम् ॥ १३७ ॥

कच्चे मासके भक्षक व्याघ्र आदिकोंको मारकर अधिक दुधारी गौका, कच्चा मास न खानेवाले हरिण आदिकोंको मारकर जवान बछियाका, और जंटको मारकर एक रत्ती सौनेका दान करै ॥ १३७ ॥

जीनकार्मुकवस्तावीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये ।

चतुर्णामपि वर्णानां नारीहत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥

ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी व्यभिचारिणीका बध क्रमसे चर्मपुट, धनुष, बकरी और भेड़ अपनी शुद्धिके लिये अलग २ दान करै (अर्थात् ब्राह्मणीको मारकर चर्मपुटका, क्षत्राणीको मारकर धनुष, इत्यादिका और ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्यकी स्त्रीका अनजाने बध करनेपर मनुष्य शूद्रकी हत्याका व्रत करै ॥ १३८ ॥

[वर्णानामानुपूर्व्येण त्रयाणामविशेषतः ।

अमात्या च प्रमाप्य स्त्रीं शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥]

(ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य इन तीनों वर्णोंकी क्रमसे स्त्रीको बिना जाने बध करके मनुष्य शूद्रकी हत्याका व्रत करै ॥)

दानेन बधनिर्णेकं सर्पादीनामशक्नुवन् ।

एकैकशश्चरेत्कृच्छ्रं द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥

अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे ।

पूर्णं चानस्यनस्त्र्यां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १४० ॥

जो द्विज दानसे सर्पादिके बधके पापके छुटानेमें असमर्थ हो तो पाप दूर करनेके लिये एक २ के बधमें एक २ कृच्छ्रव्रत करै ॥ १३९ ॥ हड्डीवाले एक हजार शूद्र जीव मारनेपर और बिना हड्डीवाले गादीभर मारनेपर शूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करै ॥ १४० ॥

किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।

अनस्त्र्यां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १४१ ॥

हड्डीवाले जीवोंके बधमें ब्राह्मणको चोड़ासाही दे और जिनमें अस्थि नहीं हैं उनकी हिंसा होनेपर मनुष्य प्राणायामसे ही शुद्ध होता है ॥ १४१ ॥

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृकशतम् ।

शुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ १४२ ॥

फल देनेवाले वृक्ष, शुल्म (अगूर आदि) वाग्ने (गिलोह आदि) बेल और पुष्पवाले (कृष्णाऽऽदि वीरुध्) इनके काटनेमें सौवार गायत्री जपै ॥ १४२ ॥

अध्यायजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वेशः ।

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥

अन्न आदिमें, रसमें, फलमें और फूलोंमें उत्पन्न हुए सब जीवोंके बधमें घृत भक्षण करनेसे शुद्धि होती है ॥ १४३ ॥

कृष्टजानामोपधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्भेऽनुगच्छेद्वा दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥

जोतनेसे उत्पन्न और वनमें स्वयं उत्पन्न औपधियोको वृथा काटनेसे एक दिन दूधका आहार करके गौके पीछे २ गमन करे ॥ १४४ ॥

एतैर्व्रतैरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुद्भवम् ।

ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्वां शृणुतानाद्यभक्षणे ॥ १४५ ॥

ज्ञान वा अज्ञानसे कीहुई हिंसासे उत्पन्न हुए सपूर्ण पापोंको इन व्रतोंसे दूर करे । अब अमक्ष्य भक्षणका प्रायश्चित्त सुनो ॥ १४५ ॥

अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुच्यति ।

मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६ ॥

मनुष्य अज्ञानसे वारुणी पीकर संस्कारके करनेसे शुद्ध होता है और यदि जानकर पिये तो बिनाही कहे मरणही प्रायश्चित्त है यह शास्त्रकी मर्यादा है ॥ १४६ ॥

अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा ।

पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीश्रितं पयः ॥ १४७ ॥

सुरा तथा मद्यके पात्रोंमें भरे जलको पीकर शंखपुष्पी जडीके साथ ओंटे हुए दूधको पाच रात्रि पीवे ॥ १४७ ॥

स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां त्रिधिवत्प्रतिगृह्य च ।

शूद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेज्जयहम् ॥ १४८ ॥

ब्राह्मण मदिराको छूकर, देकर और विधिपूर्वक लेकर, और शूद्रके जूठे जलको पीकर कुशाओंके साथ ओंटेहुए जलको तीन दिनतक पिये ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमात्राय सोमपः ।

प्राणान्पुत्रु त्रिरायम्य घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥ १४९ ॥

सोमयज्ञ करनेवाला ब्राह्मण सुरा पीनेवालेके मुखकी गंध सूँघकर जलमें तीनवार प्राणायाम करके घृतभक्षणसे शुद्ध होता है ॥ १४९ ॥

अज्ञानात्प्राश्य विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ।

पुनःसंस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५० ॥

तीनों द्विजाति वर्ण अज्ञानसे, विद्या, मूत्र और सुरासे छुए पदार्थको भक्षण करके फिरसे (यज्ञोपवीत) संस्कारके योग्य होते हैं ॥ १५० ॥

वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च ।

निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ १५१ ॥

तीनों द्विजातियोंके फिर संस्कार करनेमें, मुँबन, मेखला, दंडधारण, भिक्षा, और ब्रह्मचारीके व्रत ये सब नहीं होतेहैं ॥ १५१ ॥

अमोज्यानां तु भुक्त्वान्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च ।

जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबेत् ॥ १५२ ॥

जिनका अन्न अभक्ष्य है उनके अन्नको, स्त्री और शूद्रके जूठेको तथा अभक्ष्य मांसको भक्षण करके सात रात्रि जौका सत्तू पिये ॥ १५२ ॥

शुक्रानि च कपायांश्च पीत्वा मेध्यान्यपि द्विजः ।

तावद्भवत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः ॥ १५३ ॥

सिरका और काथ ये शुद्ध भी हों तो भी इनको पीकर द्विज, तबतक अशुद्ध रहता है जबतक वे बाहर नहीं निकल जाते हैं ॥ १५३ ॥

विह्वराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः ।

प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चांद्रायणं चरेत् ॥ १५४ ॥

गावना सूकर, गधा, ऊंट, गृगाल, वानर और काकका मूत्र और विषा भक्षण करके द्विज चान्द्रायण व्रत करे ॥ १५४ ॥

शुष्कानि भुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च ।

अज्ञातं चैव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत् ॥ १५५ ॥

सूरा मांस और भूमिमें उत्पन्न हुए छत्राक, और विना जाना हुआ हैसक्री दुकानपर धरा हुआ मांस इनका भक्षण करके भी चान्द्रायण व्रत करे ॥ १५५ ॥

क्रव्यादसूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे ।

नरकाकखराणां च तप्तकृच्छ्रं विशोधनम् ॥ १५६ ॥

कथे मांसके भक्षक, सूकर, ऊंट, मुरगा, नर, काक और खर इनके भक्षण-में तप्त कृच्छ्रसे शुद्धि होती है ॥ १५६ ॥

मांसिकान्नं तु योऽश्रीयादसमावर्तको द्विजः ।

स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत् ॥ १५७ ॥

जो ब्रह्मचारी द्विज, मांसिक श्राद्धका अन्न भक्षण करे वह तीन दिन उपवास करे और एक दिन जलमें वसे ॥ १५७ ॥

ब्रह्मचारी तु योऽश्रीयान्मधु मांसं कथंचन ।

स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ्रं व्रतशेषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

जो ब्रह्मचारी किसी प्रकार मधु और मांसको भक्षण करे तो वह साधारण प्राणापन्न कृच्छ्रको करके ब्रह्मचर्यके शेषव्रतको समाप्त करे ॥ १५८ ॥

चिडालकाकाखूच्छिष्टं जग्ध्वा श्वानकुलस्य च ।

केशकीटाघपन्नं च पिवेद्ब्रह्मसुवर्चलाम् ॥ १५९ ॥

चिडाल, काक, मूसा, कुत्ता, और नौला इनके जूठेको और केश, कीट गिरे अन्नको भक्षण करके ब्रह्मसुवर्चला औषधके काथको पिये ॥ १५९ ॥

अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।

अज्ञानमुक्तं तृत्तार्यं शोध्यं वाप्याशु शोधनैः ॥ १६० ॥

अपनी शुद्धि चाहनेवाला द्विज, निपिद्ध अन्नको भक्षण न करे और जो अज्ञानसे भक्षण कर लिया हो तो वमन कर दे अथवा शीघ्र अपनेको प्राय-
श्चित्तसे शुद्ध करे ॥ १६० ॥

एषोऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः ।

स्तेयद्रोपापहर्तृणां व्रतानां श्रूयतां विधिः ॥ १६१ ॥

अभक्ष्य पदार्थ भक्षणके जितने व्रत हैं उनकी यह अनेक प्रकारकी विधि
मैंने कही । अब चोरीके दोष हरनेवाले व्रतोंकी विधि सुनो ॥ १६१ ॥

धान्यान्नधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्विजोत्तमः ।

स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राद्येन विशुद्ध्यति ॥ १६२ ॥

ब्राह्मण ब्राह्मणके ही घरसे धान्य, अन्न और धन इनकी चोरी जान बूझकर
करे तो एक वर्षपर्यन्त कृच्छ्र करनेसे शुद्ध होता है ॥ १६२ ॥

मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च ।

कूपवापीजलानां च शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥ १६३ ॥

मनुष्य, स्त्री, पेत, घर और कूप, बावड़ीका जल इनके हरण करनेपर
चान्द्रायणव्रतसे शुद्धि कही गई है ॥ १६३ ॥

द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यत्रेऽमतः ।

चरेत्सातपनं कृच्छ्रं तन्निर्यात्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥

थोड़े मूल्यके द्रव्योंकी दूसरेके घरसे चोरी करके अपनी शुद्धिके लिये
सातपनकृच्छ्रको करे और वस्तुओंको उसे फिर लौटा दे ॥ १६४ ॥

भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च ।

पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम् ॥ १६५ ॥

भक्ष्य (लडू आदि) भोज्य (क्षीर आदि) सवारी, शय्या, आसन, पुष्प,
मूल, और फल इनकी चोरी करनेपर पंचगव्य पीनेसे ही शुद्धि होती है ॥ १६५ ॥

तृणकाष्ठद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ।

चेलचर्माभिषाणां च त्रिरात्रं स्याद्भोजनम् ॥ १६६ ॥

तृण, काठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, बखर, चर्म और मास इनमेंसे किसीकी
चोरी करनेका प्रायश्चित्त तीन रात्रितक उपवास है ॥ १६६ ॥

मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च ।

अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६७ ॥

मणि, मोती, मूंगा, ताबा, चाँदी, लोहा, काँसा और पत्थर इनमेंसे किसी-
की चोरी करनेमें बारह दिनतक चावलकी कनकीका भोजनही प्रायश्चित्त
है ॥ १६७ ॥

कार्पासकीटजीर्णानां द्विजसकलकफस्य च ।

पश्चिमन्धौपधीनां च रज्ज्वाद्यैश्च उपरतं पयः ॥ १६८ ॥

कपड़े, रेशम, ऊन, दो रुते (गी मरि) और एत रुते (पाँडे आदि) पशु, और पक्षी, गाँ, चाँदण और सड़ी इनमेंसे किसी भी चीज़ को मिलाकर दिनतक दूध आकार करे ॥ १६८ ॥

पनेर्धनैरपोहेन पापं स्वेयमुक्तं द्विजः ।

अगम्यागमनीयं तु प्रनैरेभिग्मानुयेन् ॥ १६९ ॥

द्विजको चाहिये कि जोसिने हुए पदार्थों में प्रवेश करे ॥ और गमन करनेके अयोग्य स्त्रीके साथ गमन करनेके पापको जो पदार्थों में करके इकट्ठा करे ॥ १६९ ॥

शुस्तल्पवतं कुर्याद्विनः निस्त्रया स्वयोनिसु ।

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्वयजामृ च ॥ १७० ॥

सगी बहन, मित्र और पुत्री की, पुत्री और चाचा की इनमें तीनों मित्र करके गुरुश्रागमनका प्रत्यभिज्ञ करे ॥ १७० ॥

पैतृष्वसेर्या भगिनी स्वर्त्र्यायां प्रानुयेव च ।

मातुश्च भ्रातृस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७१ ॥

माँसीकी बेटी, पुआली बेटी, और माताके गये भाईकी बेटी, इनमेंसे किसी के संग गमन करे तो चान्द्रायण तत् करे ॥ १७१ ॥

पतास्तिष्ठस्तु भार्यायै नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान् ।

ज्ञातिव्येनानुपेयास्ताः पतति लुपयन्नधः ॥ १७२ ॥

बुद्धिमान् इन तीनोंके साथ विचार न करे प्रतीति ये अपनी माथप होनेके विवाहयोग्य नहीं हैं इनसे व्याहनेवाल, मनुष्य नरकमें जाता है ॥ १७२ ॥

अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिसु ।

रेतः सिक्त्वा जले वैव कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ १७३ ॥

मानुषीसे मित्र (घोषी आदिमें) और रजखलामें, योनिसे मित्र वस्तु में और जलमें वीर्यसिक्चन करके मनुष्य सातवन कृच्छ्रव्रत करे ॥ १७३ ॥

मैथुनं तु समासेव्य पुंसि योपिति वा द्विजः ।

गोयानेऽप्यु दिवा चैव सवासाः ज्ञानमाचरेत् ॥ १७४ ॥

गाईमें, जलमें, और दिनमें पुरुष अथवा स्त्रीके साथ मैथुन करके द्विजक व्रतसहित ज्ञान करना चाहिये ॥ १७४ ॥

चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च ।

पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५ ॥

प्राह्मण अज्ञानसे चाडाली और म्लेच्छनी लियोंके साथ गमन, भोजन कर

से और उनसे दान लेनेसे पतित होता है और जो जानकर करै तो उनके समान हो जाता है ॥ १७५ ॥

विग्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि ।

यत्पुंसः परदारेषु तत्रैनां आरयेद्भ्रतम् ॥ १७६ ॥

भर्ता, व्यभिचारिणी स्त्रीको एक घरमें रोक कर रखे और जो प्रायश्चित्तपुरुषको परस्त्री गमनमें है वही उस स्त्रीसे करवे ॥ १७६ ॥

सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्तु सदृशेनोपयञ्चिता ।

कृच्छ्रं चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥ १७७ ॥

यदि स्त्री सजातीयके साथ गमन करके एकवार दूषित हो (और प्रायश्चित्त करके) वह फिर दूषित हो जाय तो इसका प्रायश्चित्त कृच्छ्रवान्द्रायण ही कहा है ॥ १७७ ॥

यत्करोत्येकरात्रेण वृपलीसेवनाद्विजः ।

तत्रैक्षुभुजपत्नित्यं त्रिमिर्वैर्वैर्षपोहति ॥ १७८ ॥

द्विज, चाढाली स्त्रीके साथ एक रात्रि गमन करके जो पाप करता है उस पापको वह, तीन वर्षतक नित्य भिक्षात्र खाकर और गायत्री जप कर दूर करता है ॥ १७८ ॥

एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः ।

पतितैः संप्रयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृतीः ॥ १७९ ॥

चार प्रकारके (हिंसा, भ्रम-व्यभक्षण, चोरी और अगम्यागमन) पापोंके करनेवालोंका यह प्रायश्चित्त कहा—अब पातक करनेवालोंके जो सर्गी हैं उनके प्रायश्चित्तोंको सुनो ॥ १७९ ॥

संचत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन् ।

याजनाध्यापनाद्यौनास्र तु यानासनाशनात् ॥ १८० ॥

पतितके साथ एक वर्षतक एक सवारी वा एक आसन पर बैठे वा एक पंचमे भोजन करै तो पतित हो जाता है और जो उनको यज्ञ करावै वा जनेऊ कराकर गायत्री सुनावे वा विवाह आदि सन्ध करै तो तुरत पतित हो जाता है ॥ १८० ॥

यो येन पतितेनैषां संसर्गं याति मानवः ।

स तस्यैव व्रतं कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८१ ॥

जो मनुष्य इन पतितोंमेंसे जिस पतितके साथ संसर्ग करै तो वह उसके संसर्गकी शुद्धिके लिये उसी पापके प्रायश्चित्तको करै ॥ १८१ ॥

पतितस्योदकं कार्यं सपिण्डैर्वान्धवैर्वैदिः ।

निन्दितेऽहनि सायाह्ने ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधौ ॥ १८२ ॥

सपिण्ड बाधवोंको जीवित महापातकीकी जलदान किया नवमी तिथिको

संध्यासमय ज्ञाति, ऋत्विज, थीर गुरु इनके निकट ग्रामके बाहर जाकर करनी चाहिये ॥ १८२ ॥

दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्येत्प्रेतचतुपदा ।

अहोरात्रमुपासीरन्नशौचं चान्धवैः सह ॥ १८३ ॥

जलसे पूर्ण घटको दासी अपने पैरसे प्रेतके समान अर्थात् दक्षिणको मुख करके फेंक दे और सब सर्पिड, अपने बाधवोंसहित एक दिनरात अशौच करें ॥ १८३ ॥

निवर्तेरंश्च तस्मान्नु संभाषणसहासने ।

दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥ १८४ ॥

और उस पतितके साथ बैठना, बोलना, उसे माग देना और उसके साथ लोकव्यवहार करना इन सबको त्यागकर दे ॥ १८४ ॥

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम् ।

ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य यचीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥

इस जेठेकी ज्येष्ठता जाती रहती है और जेठेके मिलनेयोग्य जो धन है वहभी जाता रहता है, इस ज्येष्ठके भागको गुणोंमें अधिक छोटाभाँ पावे ॥ १८५ ॥

प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम् ।

तेनैव सार्धं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥

स त्वण्डु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम् ।

सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥ १८७ ॥

प्रायश्चित्त करकेने पीछे सब सर्पिड, उस पतितको साथ लेकर जलसे पूर्ण नये घटको पवित्र नदी आदिमें स्नान करके फेंक दे ॥ १८६ ॥ जिसने प्रायश्चित्त किया है वह उस घटको फेंक कर और अपने घरमें प्रवेश करके जातिके सब कार्योंको पूर्वके समान करे ॥ १८७ ॥

एतदेव विधिं कुर्याद्योषित्सु पतितास्वपि ।

वस्त्रान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ १८८ ॥

पतित स्त्रियोंमेंसे इसी विधिको करे और वाषव इन स्त्रियोंको वस्त्र, अन्न-पान दे और वे स्त्रिया घरके पास (कुटीमें) वास करे ॥ १८८ ॥

एनस्विसिरनिर्णिकैर्नार्थं किंचित्सहाचरेत् ।

कृतनिर्णैर्जनांश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित् ॥ १८९ ॥

जिन पापियोंने प्रायश्चित्त नहीं किया है उनके साथ कुछ व्यवहार न करे और जिन्होंने प्रायश्चित्त करलिया है उनकी कमी निन्दा न करे ॥ १८९ ॥

वालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः ।

शरणागतहन्तृंश्च स्त्रीहन्तृंश्च न संवसेत् ॥ १९० ॥

वालरूके हत्यारे, कृतघ्न, शरणागतके और स्त्रीके घातक ये सब चाहे प्राय-
क्षित्तभी कर चुकेहों तोभी उनके साथ ससर्ग न करे ॥ १९० ॥

येषां द्विजातां सावित्री नानूचयेत् यथाविधि ।

तांश्चारयित्वा व्रीह्युच्यन्त्याविध्युपनाययेत् ॥ १९१ ॥

जिन द्विजोंको विधिपूर्वक गायत्री उपदेश न हुआहो उनसे तीन प्राजापत्य
कृच्छ्र कराकर शास्त्ररीतिसे उनका यज्ञोपवीत करवै ॥ १९१ ॥

प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः ।

ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥ १९२ ॥

निषिद्ध कर्म करनेवाले, वेदसे हीन जो द्विज प्रायश्चित्त किया चाहते हैं
उनकोभी इन तीन प्राजापत्योंका उपदेश करे ॥ १९२ ॥

यद्गर्हितेनार्चयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् ।

तस्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १९३ ॥

ब्राह्मणोंने जिस धनको बुरे कर्मसे एकत्रित किया है वे उस धनके त्यागसे,
गायत्रीके जपसे और तपसे शुद्ध होजाते हैं ॥ १९३ ॥

जपित्वा व्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः ।

मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात् ॥ १९४ ॥

ब्राह्मण सावधानीसे तीन सहस्र गायत्रीका जप करके और गौशालामें एक
मासतक दूध पीकर निन्दित वस्तुके प्रतिग्रहके पापसे छूट जाता है ॥ १९४ ॥

उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीति किम् ॥ १९५ ॥

फिर वाधवजन, गौशालासे आएहुए और उपवाससे दुर्बल उस नम्र
ब्राह्मणसे यह पूछें कि हे सौम्य ? क्या तू हमारे समान होनेकी इच्छा करता
है ॥ १९५ ॥

सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेधवसं गवाम् ।

गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥ १९६ ॥

ब्राह्मणानां याजनं कृत्वा परेषामन्यकर्म च ।

अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति ॥ १९७ ॥

शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च द्विजः ।

संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १९८ ॥

श्वसृगालखरैर्दृष्टो ब्राह्मैः क्रव्याद्भिरेव च ।

नराश्वोपूवराहैश्च प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १९९ ॥

[शुनाघ्रातावलीढस्य दन्तैर्विदलितस्य च ।

अङ्गिः प्रक्षालनं प्रोक्तमग्निना चोपचूलनम् ॥]

वह ब्राह्मणोंसे सत्य २ प्रतिज्ञा करे, (कि अब निन्दित प्रतिग्रह नहीं लेंगा) और गोओंको घास दे तथा जिस जगह गाँए घास चर रहेंहो वहा चापुत उसका ग्रहण करे ॥ १९६ ॥ ब्राह्मणोंका यज्ञ, दूसरेका क्रियाकर्म, अग्निवार, और अहीन यज्ञ, ये कराकर ब्राह्मण तीन कृच्छ्र करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९७ ॥ शरणागतको त्याग कर, दुष्टको वेद पढाकर, ब्राह्मण एक वर्षतक यवका भोजन करनेसे उस पापको दूर करता है ॥ १९८ ॥ कुत्ता, गीदक, गया, मनुष्य, घोड़ा, ऊँट और शूकर और ग्रामके रुखे मांसभक्षक जीवोंसे काटो गया ब्राह्मण प्राणायामसे शुद्ध होता है ॥ १९९ ॥ (जिस स्थानको कुत्ते सूधलें, चाटलें, वा जिसमे दात गढा दें उसे जलसे धोवें तथा अग्निसे सेकें)

षष्ठाक्षकालता मासं संहिताजप एव वा ।

होमाश्च सकला नित्यमपाङ्क्यानां विशोधनम् ॥ २०० ॥

जो पंक्ति बाहर हैं, वे एक मासतक तीसरे दिनसंध्याको भोजन अथवा संहिताका जप अथवा नित्य सपूर्ण होम करें यही उनकी शुद्धि है ॥ २०० ॥

उद्भूयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः ।

ज्ञात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ २०१ ॥

ऊँट अथवा गधोंकी सवारीपर इच्छापूर्वक चढकर और जलमें नंगे स्नान करके ब्राह्मण प्राणायामसे शुद्ध होता है ॥ २०१ ॥

विनाङ्गिरप्सु वाप्यार्तः शारीरं खनिवेश्य च ।

सचैलो बहिरासृत्य गामालभ्य विशुद्ध्यति ॥ २०२ ॥

रोगी मनुष्य, जलके विना वा जलमें शरीरके मलमूत्रको त्यागकर वस्त्रसहित स्नान करे, और जलसे बाहर आकर गौका सर्श करनेसे वह शुद्ध होता है २०२

वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ।

ज्ञातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३ ॥

नित्य करने योग्य वेदोक्त कर्मोंके न करनेसे और ब्रह्मचर्यके व्रतोंका लोप होनेसे एक दिनका उपवासही प्रायश्चित्त है ॥ २०३ ॥

हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः ।

ज्ञात्वानभ्रन्नहःशेषमग्निवाद्य प्रसादयेत् ॥ २०४ ॥

ब्राह्मणसे " हुं चो बैठे रहो " ओं कहकर और वडे लोगोंसे " तु " कहकर स्नान करे, और उनके चरणोंको नमस्कार कर, उन्हें प्रसन्न करे और दो दिनमें भोजनको न करे ॥ २०४ ॥

ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वावध्य वाससा ।

त्रिवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ २०५ ॥

तृणसेमी ब्राह्मणको ताड़ना करके अथवा ब्राह्मणके कंठमें वस्त्र बाधकर अथवा शास्त्रार्थमें जीतकर उसे नमस्कार कर प्रसन्न करै ॥ २०५ ॥

अचगूर्यं त्वच्छतं सहस्रमभिहत्य च ।

जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥

ब्राह्मणको मारनेकी इच्छासे दंडको उठाकर सौ वर्षतक और दंडसे प्रहार करके हजार वर्षतक नरक भोगता है ॥ २०६ ॥

शोणितं यावतः पांसुसंगृह्णाति महीतले ।

तावन्स्यद्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥ २०७ ॥

ब्राह्मणके शरीरसे निकले रुधिरसे पृथ्वीके जितने रज कण भीगें उतनेही सहस्र वर्षपर्यन्त रुधिर निकालनेवाला नरकमें वसता है ॥ २०७ ॥

अचगूर्यं चरेत्कृच्छ्रमतिकृच्छ्रं निपातने ।

कृच्छ्रमतिकृच्छ्रौ कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम् ॥ २०८ ॥

ब्राह्मणके मारनेके लिये दंड उठाकर कृच्छ्र और ब्राह्मणको दंड मारकर अतिकृच्छ्र और ब्राह्मणकी देहमें रुधिर निकालकर कृच्छ्र और अतिकृच्छ्र करै ॥ २०८ ॥

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये ।

शक्तिं चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥

जिन पापोंका प्रायश्चित्त नहीं कहा उनके दूर करनेके लिये शक्ति और पापको देखकर प्रायश्चित्त बतावै ॥ २०९ ॥

यैरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकर्षति ।

तान्बोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान् ॥ २१० ॥

मनुष्य जिन उपायोंसे पापोंको नष्ट करता है देवता, ऋषि, और पितरोंके किये हुए उन उपायोंको तुमसे कहता हूँ ॥ २१० ॥

२ इयहं प्रातरुयहं सायं इयहमद्याद्याक्षितम् ।

१ इयहं परं च नाश्रीयात्प्राजापत्यं चरन्ध्वजः ॥ २११ ॥

प्राजापत्य करनेवाला द्विज तीन दिन प्रातः काल और तीन दिन सायंकाल, तीन दिन जो विना मागे मिले उसका भोजन करै और तीन दिन उपवास करै ॥ २११ ॥

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् ।

एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सातपनं स्मृतम् ॥ २१२ ॥

गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशजल इनको मिठाकर पहिले दिन पिये और दूसरे दिन उपवास करै यह सातपन कृच्छ्र कहा है ॥ २१२ ॥

एकैकं प्रासमश्रीयाञ्चयहाणि त्रीणि पूर्ववत् ।

अथहं चोपवसेदन्त्यमतिच्छुच्छं चरन्दिजः ॥ २१३ ॥

अतिच्छुच्छो करना हुआ द्विज तीन दिनतक प्रातः काल, और सायंकाल विना माया एक २ प्रास भक्षण करै और अत्यन्त तीन दिन उपवास करै ॥ २१३ ॥

तप्तच्छुच्छं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान् ।

प्रतिञ्चयहं पिबेद्दुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ २१४ ॥

तप्तच्छुच्छ करनेवाला ब्राह्मण ज्ञान करके सावधानीसे जल, दूध, घृत और वायु इन चारोंमेंसे एक २ को गरम २ तीन २ दिन पीवै (इसका प्रमाण पाराशरजीने, छ पल जल, तीन पल दूध, और एक पल घी कहाहै) ॥ २१४ ॥

यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ।

पराको नाम कृच्छ्रोर्ध्वं सर्वपापापनोदनः ॥ २१५ ॥

मनुष्य सावधान और जितेन्द्री होकर बारह दिनतक भोजन न करै यही पराक नाम कृच्छ्र, सब पापोंको नाश करनेवाला है ॥ २१५ ॥

एकैकं हासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत् ।

उपस्पृशंस्त्रिपवणमेतच्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१६ ॥

कृष्णपक्षमें एक २ प्रास कम करै और शुक्लपक्षमें एक २ प्रास बढ़ावै और प्रतिदिन त्रिकाल स्नान करै यह चान्द्रायण व्रत कहा गयाहै ॥ २१६ ॥

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१७ ॥

और जो शुरु पक्षकी आदिसे, इसी चान्द्रायण व्रतको संपूर्ण विधिसे करै तो यवमध्यम चान्द्रायण होता है ॥ २१७ ॥

अष्टावधौ समश्रीयात्पिण्डान्मध्यदिने स्थिते ।

नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

यतिचान्द्रायणजी करता हुआ मनुष्य जितेन्द्री होकर दो पहरको हविष्यान आठ २ ग्राम भोजन करै ॥ २१८ ॥

चतुरः प्रातरश्रीयात्पिण्डान्बिप्रः समाहितः ।

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१९ ॥

ब्राह्मण सावधान होकर चार प्रास प्रातः काल और चार प्रास सूर्यास्तके समय भोजन करै यह शिशुचान्द्रायण व्रत कहा है ॥ २१९ ॥

यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः ।

मासेनाश्रन्धविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥ २२० ॥

मनुष्य सावधान होकर जैसे दो मके तैयै हविष्य अथके २६० प्रास एक मासमें भक्षण करै तो चन्द्रलोकको जाता है ॥ २२० ॥

एतद्बुद्रास्तथादित्या वसवश्चाचरन्व्रतम् ।

सर्वाङ्कुशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥

ऋ, आदित्य, वसु, महर्षि और मरुतने भी इस व्रतको सपूर्ण पापोंकी निवृत्तिके लिये किया था ॥ २२१ ॥

महाव्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम् ।

अहिंसासत्यमक्रोधमार्जयं च समाचरेत् ॥ २२२ ॥

प्रतिदिन (भू भुवः स्व) इन तीन महा व्याहृतियोंसे स्वयं (घृतका) पूजन करे और सदा हिंसा न करे, सत्यबोले, क्रोध छोड़े और सरलतासे रहे ॥ २२२ ॥

त्रिरहस्त्रिनिशायां च सवासा जलमाविशेत् ।

स्त्रीशूद्रपतितार्थैव नाभिभापेत कर्हिचित् ॥ २२३ ॥

दिन और रात्रिमें तीन २ बार वस्त्रसहित जलमें स्नान करे तथा स्त्री शूद्र और पतितोंके साथ कदापि बात चीत न करे ॥ २२३ ॥

स्थानासनाभ्यां विहरेदशकोऽधः शयीत वा ।

ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्गुरुदेवद्विजार्चकः ॥ २२४ ॥

खड़ा रहै वा वैठा रहै और जो सामर्थ्य न हो तो पृथ्वीपर शयन करे, ब्रह्मचर्यसे और दंडमेखलासे युक्त रहै और गुरु, देवता तथा ब्राह्मणका पूजन करे ॥ २२४ ॥

सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ।

सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमादृतः ॥ २२५ ॥

मनुष्य सब व्रतोंमें प्रायश्चित्तके लिये इसी प्रकार आदरसे नित्य यथाशक्ति पायत्रीका और पवित्र मंत्रोंका जप करे ॥ २२५ ॥

एतैर्द्विजातयः शोष्या व्रतैराविष्कृतैः नसः ।

अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत् ॥ २२६ ॥

जिनका पाप प्रकट है ऐसे द्विजातियोंको इन पूर्वोक्त व्रतोंसे शुद्ध कर ले और जिनका पाप अप्रकट है उनकी शुद्धि, मंत्र और होमोंसे करे ॥ २२६ ॥

ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च ।

पापकृन्मुच्यते पापात्तथादानेन चापदि ॥ २२७ ॥

अपने पापोंको विदित करनेसे, पछतानेसे, तपसे, वेदके अध्ययनसे और आपत्तिके समय दानसे पापी अपने पापसे छूट जाता है ॥ २२७ ॥

यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वानुभापते ।

तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मण मुच्यते ॥ २२८ ॥

मनुष्य पाप करके जैसे २ स्वयं प्रकट करता है तैसेही तैसे उस अधर्मसे ऐसे छूटताहै कि जैसे सर्प कांचलीसे छूटता है ॥ २२८ ॥

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति ।

तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२९ ॥

उस पापीका मन जैसे २ बुरे कर्मकी निन्दा करता है तैसेही तैसे उस पापीका शरीर उस अधर्मेसे छूटता है ॥ २२९ ॥

कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।

नैवं कुर्या पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥ २३० ॥

मनुष्य पाप करके पछतानेसे उस पापसे छूट जाता है और “फिर ऐसा न करूंगा” इस निवृत्तिरूप सकल्पसे तो वह पवित्र हो जाता है ॥ २३० ॥

एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्मफलोदयम् ।

मनोवाङ्मूर्तिभिर्नित्यं शुभं कर्म समाचरेत् ॥ २३१ ॥

मरकर परलोकमें शुभाऽशुभ कर्मका फल मिलेगा ऐसा मनसे विचार कर मनुष्य मन, वाणी और देहसे नित्य शुभकर्म करे ॥ २३१ ॥

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्भूमिमुक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत् ॥ २३२ ॥

ज्ञानसे वा अज्ञानसे निन्दित कर्म करके उस कर्मसे मुक्ति चाहनेवाला मनुष्य फिर उस कर्मको न करे ॥ २३२ ॥

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम् ।

तस्मिंस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्सुष्टिकरं भवेत् ॥ २३३ ॥

जो प्रायश्चित्तके करनेपर इस पापीके मनको सतोष नहो तो जबतक सतोष नहो तबतक तप करता रहै ॥ २३३ ॥

तपोमूलमिदं सर्वं देवमानुषकं सुखम् ।

तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोन्तं वेददर्शिभिः ॥ २३४ ॥

देवता और मनुष्योंका जो सब सुख है उसका तपही कारण है और तपही उसका अंत और मध्य है यह वेदके ज्ञाता विद्वानोंने कहा है ॥ २३४ ॥

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३५ ॥

ब्राह्मणका तप ज्ञान है, क्षत्रीका तप प्रजाकी रक्षा है, वैश्यका तप कृषि, व्यापार और गोरक्षा है तथा शूद्रका तप द्विजोंकी सेवा है ॥ २३५ ॥

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।

तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २३६ ॥

फल मूल और वायुको संक्षण करनेवाले जितेन्द्री ऋषिजन तपसे ही चराचर त्रैलोक्यको देखते हैं ॥ २३६ ॥

औपधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः ।

तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥ २३७ ॥

औषधि, नीरोगता, विद्या और देवताओंकी अनेक प्रकारकी स्थिति तपसेही सिद्ध होती हैं क्योंकि इनका साधन तपही है ॥ २३७ ॥

यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वे तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ २३८ ॥

जो कठिन है, जो दुःखसे प्राप्य है, जो दुःखसे गमन करने योग्य है और जो दुष्कर है ये सब बातें तपसे साध्य हो सक्ती हैं क्योंकि तपका कोई अड़थक नहीं कर सक्ता है ॥ २३८ ॥

महापातकिनश्चैव शेषाश्चाकार्यकारिणः ।

तपसैव सुततेन मुच्यन्ते किल्विपात्ततः ॥ २३९ ॥

महापातकोंके और अन्यमी उपपातकोंके कर्ता, अच्छी भातिसे कियेहुए तपसेही उस पापसे मुक्त हो जाते हैं ॥ २३९ ॥

कीटाश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च ।

स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात् ॥ २४० ॥

कीट, सर्प, पतंग, पशु, पक्षी और गुल्म वृक्ष लता आदि, जीव ये सब तपके ही बलसे स्वर्गको जाते हैं ॥ २४० ॥

यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः ।

तत्सर्वं निर्देहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥ २४१ ॥

मनुष्य, मन, वाणी और देहसे जो कुछ पाप करते हैं उस सब पापको तपसी तपसे शीघ्र नष्ट कर देते हैं ॥ २४१ ॥

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवोकसः ।

इत्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्लंबवर्धयन्ति च ॥ २४२ ॥

तपसे परम शुद्ध ब्राह्मणके यज्ञमे देवता हविको ग्रहण करते हैं और फिर उमकी कामनाओंको पूर्ण करते हैं ॥ २४२ ॥

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवास्मृजत्प्रभुः ।

तथैव वेदानुपयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

समर्थ ब्रह्माने तपकेही बलसे इस शास्त्रको रचा और वसिष्ठ आदि ऋषिमी तपसे वेदके ज्ञाता हुए ॥ २४३ ॥

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥ २४४ ॥

सुपूर्ण इन जीवोंका दुर्लभ जन्म तपसेही उत्पन्न होता है यह देवनेवाले देवता पूर्वोंके तपका माहात्म्य कहते हैं ॥ २४४ ॥

वेदाभ्यासोऽन्वयं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा ।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥

प्रतिदिन यथाशक्ति वेदका अन्याग, पंच महायज्ञोंका करना और क्षमा के महापातकोंसे उत्पन्न हुएभी पापोंको क्षीण नष्ट कर देते हैं ॥ २४५ ॥

यथैधस्तेजसा वरिः प्राप्तं निर्देहति क्षणात् ।

तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् २४६ ॥

जैसे अग्नि काष्ठको पाकर क्षणभरमें भस्म करदेती है ऐसी वेदका ज्ञान, अपनी ज्ञानरूपी अग्निसे सब पापको नष्ट कर देता है ॥ २४६ ॥

इत्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि ।

अत ऊर्ध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४७ ॥

(ब्रह्महत्या आदि) प्रकट पापोंका यह विधिपूर्वक प्रायश्चित्त फल, इसके आगे गुप्त पापोंके प्रायश्चित्तको तुम सुनो ॥ २४७ ॥

सव्याहृतिप्रणचकाः प्राणायामास्तु षोडश ।

अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥

प्रतिदिन कियेहुए व्याहृति और ओंकार गायत्री आदिसहित सोलह प्राणायाम, भ्रूणहत्यारेको भी एक मासमें पवित्र करदेते हैं ॥ २४८ ॥

कौत्सं जम्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम् ।

माहित्रं शुद्धचत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४९ ॥

कौत्स ऋषिकी कही हुई (अपन शोशुचददाम्) ऋचाओं, और वसिष्ठकी कही (प्रतिस्तोमेभिरुपस) ऋचाको और (माहित्रीणामचोस्तु) इस सूक्तको और (एतोन्विन्द्र स्वाम शुद्धम्) इन तीनोंको एक मासतक प्रतिदिन सोलह बार पाठकर मदिरा पीनेवाला भी शुद्ध होता है ॥ २४९ ॥

सकृज्जम्वास्यवामीर्यं शिचसंकल्पमेव च ।

अपहृत्य सुवर्णं तु क्षणाद्भवति निर्मलः ॥ २५० ॥

सुवर्णं चुरानेवाला (अंस्यवाम) सूक्तको और (यज्जाप्रतो इह) इसको महीने भर एकवार जपकर ही उसी क्षण शुद्ध होजाता है ॥ २५० ॥

हविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च ।

जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५१ ॥

“हविष्पान्तीय” २१ ऋचाओंको अथवा “नतमंहो न दुरितम्” इन आठ ऋचाओंको वा “इतिवा इति मे मनः” “शिवसंकल्पमस्तु” इस सूक्तको वा “सहस्रशीर्षी” इस पुरुषसूक्तको एक माहिनेतक प्रतिदिन एकवार जपकर गुरुस्त्रीगमनवाला शुद्ध होता है ॥ २५१ ॥

एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीर्षन्नपनोदनम् ।

अवेत्यृचं जपेदध्वं शक्तिचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

छोटे वड़े पापोंका नाश चाहनेवाला पुरुष “अथ ते हीळो वरुण नमोभिः” इस ऋचाको वा “यत्किंचेदं वरुण दैव्ये जने” इस ऋचाको वर्ष भर एक बार जपै ॥ २५२ ॥

प्रतिग्रह्याप्रतिग्राह्यं भुक्त्वाचान्नं विगर्हितम् ।
जपन्तरत्समन्दीयं पूयते मानवरुयहात् ॥ २५३ ॥

प्रतिग्रह लेनेके अयोग्य वस्तुका प्रतिग्रह लेकर और निषिद्ध अन्नको भक्षण करके मनुष्य “तरत्समं दी धावति” इस ऋचाका तीन दिन तक जप करनेसे पवित्र होता है ॥ २५३ ॥

सोमारौद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य शुध्यति ।
स्वन्त्यामाचरन्त्रानमर्यम्णामिति च तृचम् ॥ २५४ ॥

बहुत पाप करनेवाला मनुष्य “सोमारुद्रा धारयेथामसुर्यम्” ये चार और “अर्यमर्णं वरुणं मित्रं” इन तीन ऋचाओंको महीने भर जपनेसे अथवा वहती हुई नदीमें स्नान करनेसे शुद्ध होजाता है ॥ ५५४ ॥

अब्दार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्त्री संसर्कं जपेत् ।
अप्रशस्तं तु छत्वाप्सु मासमासीत भैक्षमुक् ॥ २५५ ॥

“पापी मनुष्य “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निं” इत्यादि सात ऋचाओंको छ महीने-तक जपै और जलमें मूत्र करनेवाला एक मासतक भिक्षा मांग कर भोजन करै ॥ २५५ ॥

मन्त्रैः शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा घृतं द्विजः ।
सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जलवा वा नम इत्युचम् ॥ २५६ ॥

द्विज साकल होमके मंत्रोंसे एक वर्ष तक घृतका हवन करके अथवा “नम इन्द्रश्च” इस ऋचाको जपकर भारीसे भारी पाप नाश होजाता है ॥ २५६ ॥

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्वाः समाहितः ।
अभ्यस्याब्दं पावमानीर्षेक्षाहारो विशुद्ध्यति ॥ २५७ ॥

महापातकी पुरुष सावधान होकर भिक्षाका अन्न खाता हुआ एक वर्षके गौओंकी सेवा करनेसे “यः पावमानीरध्येति” इत्यादि ऋचाओंका जप करनेसे शुद्ध होजाता है ॥ २५७ ॥

अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् ।
मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोषितस्त्रिभिः ॥ २५८ ॥

तीन पराक मतोंसे शुद्ध होकर द्विज वनमें सावधानीसे तीनवार वेदसंहिताका अभ्यास करै तो सब पातकोंसे छूट जाता है ॥ २५८ ॥

व्यहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिंहोऽभ्युपयन्नपः ।
मुच्यते पातकैः सर्वैस्त्रिर्जपित्वावमर्षणम् ॥ २५९ ॥

जो मनुष्य नित्य त्रिकाल ज्ञान करे, खानके समय तीन २ वार अघमर्षण को जपे और सावधान होकर तीन दिनतक उपवास करे वह सब पातकोंसे छूट जाता है ॥ २५९ ॥

यथाश्वमेधः ऋतुराट् सर्वपापापनोदनः ।

तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

जैसे सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ अश्वमेध यह, सब पापोंको दूर कर देता है उमी भाति अघमर्षण सूक्त सब पापोंको दूर कर देता है ॥ २६० ॥

इत्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्नन्नपि यतस्ततः ।

ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किञ्चन ॥ २६१ ॥

इन तीनों लोकोंका वध कर, और जहा तहां भोजन करता हुआ ब्राह्मण जो ऋग्वेद का अभ्यास करता है उसे कुछ भी पाप नहीं होता है ॥ २६१ ॥

ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः ।

साक्षां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमच्यते ॥ २६२ ॥

ऋग्वेदकी, वा आयुर्वेदकी, वा ब्राह्मण और उपनिषदयुक्त सामवेदकी संहिताको सावधानीसे तीन्वार पढकर द्विज सब पापोंसे छूट जाय है ॥ २६२ ॥

यथा महाइदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति ।

तथा दुश्चरितं सर्वं वेदे त्रिवृत्ति मज्जति ॥ २६३ ॥

जैसे फेंका हुआ मट्टीका डेला घड़े तालावमें जाकर नष्ट होजाता है वैसेही त्रिवृत् वेदमें सब पाप नष्ट हो जाता है ॥ २६३ ॥

ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि चिविधानि च ।

एष श्रेयस्त्रिवृद्धेदो यो वेदैर्न स वेदवित् ॥ २६४ ॥

ऋग्वेदके मंत्र, यजुर्वेदके मंत्र, अनेक प्रकारके सामवेद, इन तीनोंके जुड़े २ मंत्र और ब्राह्मण इनको त्रिवृत् वेद जानना, जो इस त्रिवृत् वेदको जानता है वही वेदज्ञ होता है ॥ २६४ ॥

आद्यं यज्ञयक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता ।

स गुह्योऽन्यस्त्रिवृद्धेदो यस्तं वेद स वेदवित् ॥ २६५ ॥

जो सब वेदोंकी आदि है, जिसमें तीन अक्षर है, जो ब्रह्मरूप है, जिसमें तीन वेद स्थित हैं वह दूसरा त्रिवृत् वेद (ओ) गुप्त रखने योग्य है, जो उसको जानता है वह वेदज्ञ है ॥ २६५ ॥ इति

पण्डित रामेश्वरभट्टकृत सरला टीकासहित मनुका

एकादश अध्याय समाप्त हुआ—शुभम्.

अथ द्वादशोऽध्यायः ।

चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ ।

कर्मणां फलनिर्वृत्तिं शंस नस्तत्त्वतः पराम् ॥ १ ॥

हे पापरहित, आपने चारों वर्णोंके सब धर्म कहे अब कर्मोंका शुभाऽशुभ-फल विधिपूर्वक कहिये ॥ १ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृशुः ।

अस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥ २ ॥

धर्मात्मा मनुपुत्र शृणु उन महर्षियोंसे बोले कि सब कर्मोंके शुभाऽशुभ-फलका निर्णय सुनो ॥ २ ॥

शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम् ।

कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः ।

दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥

शरीर, मन और वचनसे जो शुभाऽशुभफलयुक्त कर्म किया जाता है उस कर्मके अनुसार ही मनुष्यकी उत्तम, मध्यम तथा अधम गतियां होती हैं, (कर्म नीचे लिखे दस प्रकारके हैं) ॥ ३ ॥ ४ ॥

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् ।

चित्ताभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ५ ॥

पराया धन अन्यायसे लेनेकी चिन्ता, मनसे अनिष्टकी चिन्ता और परलोक नहीं है यह शरीर ही आत्मा है ऐसा मिथ्या आग्रह ये तीन प्रकारके कर्म मानसिक हैं ॥ ५ ॥

पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः ।

असंचद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् ॥ ६ ॥

बडोर वचन, मिथ्या बोलना, पीठ पीछे दूसरोंके दोष कहना और बिना प्रयोजन बकना ये चार प्रकारके वाचिक कर्म हैं ॥ ६ ॥

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः ।

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ७ ॥

बिना दिया हुआ वन लेना, मिथिरहित हिंसा, पराई लीकी सेवा ये तीन शारीरिक कर्म हैं ॥ ७ ॥

मानसं मनसैवायमुपमुक्ते शुभाशुभम् ।

वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ ८ ॥

[त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम् ।

मनसा त्रिविधं कर्म-दश धर्मपर्यास्त्यजेत् ॥]

जीव, मानसिक शुभाऽशुभ कर्मोंका फल मनसे, वाचिकका वाणीसे और शारीरिकका शरीरसे भोगता है ॥ ८ ॥

(तीन प्रकारके शारीरिक, चार प्रकारके वाचिक, और तीन प्रकारके मानसिक, इन दस प्रकारके कर्मोंको छोड़ना चाहिये ।)

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिसृगतां मानसैरन्यजातिताम् ॥ ९ ॥

[शुभैः प्रयोगैर्देवत्वं व्यामिश्रैर्मानुषो भवेत् ।

अशुभैः केवलैश्चैव तिर्यग्योनिषु जायते ॥]

शरीरके कर्मोंके दोषसे मनुष्य स्थावर होता है, वाचिक कर्मोंके दोषसे पक्षी तथा पशु होता है और मानसिक कर्मोंके दोषसे चांडाल होता है ॥ ९ ॥
(प्राणी शुभकर्मोंसे देवता और मिश्रित कर्मोंसे मनुष्य होता है तथा केवल अशुभ कर्मोंसे तिर्यक् योनिमें पैदा होता है)

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥

जिसकी बुद्धिमें, मानसिक, वाचिक और शारीरिक दंड स्थित हैं अर्थात् जो मन, वचन और शरीरको वषामें रख सकता है उसेही त्रिदंडी कहते हैं
(केवल दंड ग्रहण करनेसे दंडी नहीं होता) ॥ १० ॥

त्रिदण्डमेतद्विद्विष्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ११ ॥

काम, क्रोधको रोककर जो मनुष्य सब प्राणियोंमें त्रिदंड व्यवहार करते हैं वे सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥

जो इस शरीरसे कार्य करता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और जो कर्मोंको करता है उसे पण्डित भूतात्मा कहते हैं ॥ १२ ॥

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ।

येन वेद्यते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥

सब शरीरधारियोंका, जीव नामका स्वाभाविक अंतरात्मा है । प्राणी प्रतिजन्ममें सुराट्ट सका अनुभव करता है ॥ १३ ॥

तावुभौ भूतसंपृक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ एव च ।

उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥

महान् तथा क्षेत्रज्ञ ये पंचभूतोंसे मिले हुए, दोनों छोटे बड़े सब भूतोंमें स्थित उस परनात्माके सहारेरी रहते हैं ॥ १४ ॥

असंख्या मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः ।

उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५ ॥

उस परमात्माके शरीरसे असंख्य जीव निकल कर उत्तम अधम प्राणियोंकी भूमि २ कर्ममें प्रवृत्त करते हैं ॥ १५ ॥

पञ्चभ्य यव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां वृणाम् ।

शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

पापी मनुष्योंका (पृथ्वी आदि) पंचभूतोंसेही, परलोकमें यातना भोगने के लिये दूसरा (बरायुजते भिन्न) शरीर निश्चय उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥

तेनाञ्जुभूयता यामीः शरीरेणेह यातनाः ।

तास्वैव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७ ॥

प्राणी, इस शरीरसे यमलोकमें यमयातना भोगकर उन्हीं पंचभूतोंकी मात्राओंमें यथायोग्य लीन-होजाते हैं ॥ १७ ॥

सोऽञ्जुभूयासुखोदकान्दोषान्विषयसङ्गजान् ।

व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥ १८ ॥

वह जीव दुःखपूर्ण शब्द स्पर्श आदि विषयोंसे उत्पन्न हुए दुःख भोग कर निष्पाप हो इन दोनों महापराकामी महत् और परमात्माका आश्रय लेता है ॥ १८ ॥

तौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह ।

याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम् ॥ १९ ॥

वे दोनों महत् और परमात्मा, आलस्यरहित होकर जीवके धर्मअधर्मको नाश २ देखते रहते हैं कि जिनसे जीव इस लोक तथा परलोकमें सुख दुःख पाता है ॥ १९ ॥

यथाचरति धर्मं स प्रायशोऽधर्ममल्पशः ।

तैरेव चावृतो भूतैः स्वर्गं सुखमुपाश्रुते ॥ २० ॥

जीव यदि अधिक धर्म और थोड़ा अधर्म करे तो पृथ्वी आदि पंचभूतोंसे युक्त होकर स्वर्गमें सुख भोगता है ॥ २० ॥

यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्ममल्पशः ।

तैर्भूतैः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥ २१ ॥

यदि वह जीव अधिक अधर्म और धर्म थोड़ा करता है तो पंचभूत उसे त्याग देते हैं और वह यमयातनाओंकी भोगता है ॥ २१ ॥

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः ।

तान्येव पञ्च भूतानि पुनरभ्येति भागशः ॥ २२ ॥

और सतोगुणका लक्षण धर्म होता है इनमें कामसे अर्थ और अर्थसे धर्म श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥

येन यस्तु गुणेनैषां संसारान्प्रतिपद्यते ।

तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥

इनमेंसे जिस कर्मसे जीव जिन २ योनियोंको पाते हैं उस सबको संक्षेपसे क्रमपूर्वक कहता हूँ ॥ ३९ ॥

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः ।

तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४० ॥

सतोगुणी लोग देवयोनिको, रजोगुणी मनुष्ययोनिको और तमोगुणी तिर्यक्योनिको पाते हैं । सदा यही तीन प्रकारकी गति है ॥ ४० ॥

त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः ।

अधमा मध्यमाग्र्या च कर्मविधा विशेषतः ॥ ४१ ॥

यह सत्त्वादि गुणके कारण तीन प्रकारकी गति है वह कर्म तथा विद्या आदिकी विशेषतासे फिर तीन प्रकारकी अधम, मध्यम और उत्तम होती है ॥ ४१ ॥

स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः ।

पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥

स्थावर, कृमि, कीट, मछली, सर्प, कछुआ, प्रष्टु तथा मृग यह तमोगुणसे उत्पन्न हुई निकृष्ट योनि है ॥ ४२ ॥

हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥

हाथी, घोड़े, शूद्र, निन्दित म्लेच्छ, सिंह, व्याघ्र और वाराह ये तमोगुणसे उत्पन्न हुई मध्यम योनि है अर्थात् इस योनिमें तमोगुणी जन्मते हैं ॥ ४३ ॥

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुपाश्चैव दाम्भिकाः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपूत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥

नट आदि, पक्षी, दाम्भिक पुरुष, राक्षस, पिशाच ये तमोगुणसे पैदा हुई उत्तम योनि हैं ॥ ४४ ॥

अल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुपाः शस्त्रवृत्तयः ।

धूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥

झाल, मट्ट, नट, शस्त्रजीवी, जुआरी और (मद्य) पीनेवाले पुरुष ये रजोगुणसे पैदा हुई निकृष्ट योनि है ॥ ४५ ॥

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।

वाद्युद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥

राजां, क्षत्रिय, राजपुरोहित और जिन्हें शास्त्रार्थका कलह प्यार हो ये रजोगुणसे पैदा हुई मध्यम गति है ॥ ४६ ॥

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये ।

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥

गंधर्व, गुह्यक, यक्ष, देवानुचर, तथा अप्सरा ये सब राजसी गतियोंमें उत्तम राजसी गति है ॥ ४७ ॥

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ४८ ॥

वानप्रस्थ, यती, ब्राह्मण, विमानचारी, नक्षत्र और दैत्य यह सत्तोगुणसे उत्पन्न हुई अधम गति है ॥ ४८ ॥

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीरपि वत्सराः ।

पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ४९ ॥

यज्ञ करनेवाले, ऋषि, देवता, वेद, (इतिहासमें प्रसिद्ध विप्रहचारी, ध्रुव आदि) तारागण, वत्सर सौमप आदि, पितृगण और साध्यलोग ये सत्तोगुणकी मध्यम गति है ॥ ४९ ॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ।

उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५० ॥

ब्रह्मा, मरीचि आदि, प्रजापति, शरीरधारी धर्म (सांख्य शास्त्रमें प्रसिद्ध दोनो तत्व) महान् और अव्यक्त, ये सब सत्तोगुणकी उत्तम गति है ऐसा पंडित लोग कहते हैं ॥ ५० ॥

एष सर्वैः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्मणः ।

त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सावैश्वैतिकः ॥ ५१ ॥

तीन प्रकारके कर्मोंका तीन प्रकारका फल और फिर उसका तीन प्रकारका सब प्राणियोंका यह संसार तुमसे कहा ॥ ५१ ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च ।

पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२ ॥

मूर्ख और नीच मनुष्य अपनेको इन्द्रियोंके विषयोंमें लगानेसे और धर्म न करनेसे निन्दित गतिको पाते हैं ॥ ५२ ॥

यां यांथोनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा ।

क्रमशो याति लोकेऽस्मिस्तत्तत्सर्वं निबोधत ॥ ५३ ॥

वह्नुन्वर्षगणान्धोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात् ।

संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान् ॥ ५४ ॥

यह जीव जिस २ कर्मसे जिस २ योनिको इस लौकिकमें क्रमसे पाता है वह

सब सुनों ॥ ५३ ॥ महापातकी अनेक वर्ष घोर नरक भोगकर, दूषित कर्मका नाश होनेपर इन (नीचे लिखी) योनियोंमें जन्मते हैं ॥ ५४ ॥

श्वसूकरखरोट्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम् ।

चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ५५ ॥

ब्रह्महत्या, कुत्ता, शूकर, गधा, कंट, गल, छाग, भेड़, मृग, पक्षी, चाडाल और पुक्कस इन योनियोंको पाता है ॥ ५५ ॥

कृमिकीटपतङ्गानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम् ।

हिंसाणां चैव सस्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो ब्रजेत् ॥ ५६ ॥

सुरापयी ब्राह्मण, कृमि, कीट, पतंग, विष्ठा खानेवाले पक्षी और हिसक जन्तुओंकी योनिमें जन्मता है ॥ ५६ ॥

लूताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम् ।

हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ ५७ ॥

चोर ब्राह्मण, मकड़ी, सर्प, तिरगट, जलचर, पक्षी और हिसाकील पिशाच आदिकी योनियोंमें सहस्रों वार जन्मता है ॥ ५७ ॥

तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि ।

कूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८ ॥

गुरकीगामी, तृण, गुल्मलता, कच्चा मांस खानेवाले, दाढ़वाले, कूरकर्म करनेवाले इनकी योनिमें सैकड़ों वार जन्मता है ॥ ५८ ॥

हिंसा भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽभक्ष्यभक्षिणः ।

परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्यस्त्रीनिषेचिनः ॥ ५९ ॥

हिंसक, कच्चा मांस खानेवाले होते हैं, अभक्ष्य भक्षक, कृमि होते हैं, चोर परस्परके मांस भक्षक होते हैं और अत्यज स्त्रीगामी, प्रेत होते हैं ॥ ५९ ॥

संयोगं पतितैर्गत्वा परस्यैव च योपितम् ।

अपहृत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥

पतितका चसर्गां, परस्त्रीगामी, और ब्राह्मणके धनका चुरानेवाला ब्रह्मराक्षस होता है ॥ ६० ॥

मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा लोभेन मानवः ।

विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ६१ ॥

ननुष्य लोभसे मणि, मोती, प्रवाल तथा अनेक प्रकारके रत्न चुरानेसे चुराकी योनिमें जन्मता है ॥ ६१ ॥

धान्यं हत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलं मूवः ।

मधु दंश. पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ ६२ ॥

धान्य चुरानेवाला चूहा होता है, कासा चुरानेवाला हंस, जल हरनेवाला

जलसुर्ग, मधु हरनेवाला बांस, दूध हरनेवाला कौआ, रस हरनेवाला कुत्ता और घृत हरनेवाला नौला होता है ॥ ६२ ॥

मांसं गृध्रो वपां महुस्तैलं तैलपकः खगः ।

चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधि ॥ ६३ ॥

मांस चुरानेवाला गिद्ध, चर्बी चुरानेवाला जलचरपक्षी, तेल चुरानेवाला एक नाम पक्षी, नमक चुरानेवाला चीरीवाक नाम कीट और दही चुरानेवाला बगुला पक्षी होता है ॥ ६३ ॥

कौशेयं तिच्चिरिर्हृत्वा क्षीमं हृत्वा तु दर्दुरः ।

कार्पासतान्तवं क्रौञ्चो गोघा गां वाग्गुदो गुडम् ॥ ६४ ॥

रेशमी बखरका चोर तीतर होता है, धूमबखरका हरनेवाला मैदक, कपासके बखर हरनेवाला क्रौंच पक्षी, गऊ हरनेवाला गोघा, और गुड़ चुरानेवाला वाग्गुद नाम पक्षी होता है ॥ ६४ ॥

लुचलुन्दरिः शुभ्रान्गन्धान्पत्रशाकं तु वह्निणः ।

श्ववित्कृतात्रं विविधमरुतात्रं तु शल्यकः ॥ ६५ ॥

सुगंधित वस्तु चुरानेवाला छट्टंदर, पत्तोंका शाक चुरानेवाला मोर, अनेक सुकारके (मोदक आदि) सिद्धात्र हरनेवाला श्ववित्, कचा अत्र हरनेवाला शल्यक होता है ॥ ६५ ॥

वको भवति हृत्वाग्निं गृहकारी ह्युपस्करम् ।

रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥

वृको मृगेभं व्याघ्रोऽश्वं फलमूलं तु मर्कटः ।

स्त्रीमृक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ट्रः पशूनजः ॥ ६७ ॥

अग्नि हरनेवाला वगुला होता है, कामकी वस्तुओंका हरनेवाला, और मछी आदिसे घर तयार करनेवाला पक्षयुक्त कीड़ा और रंगे बखोंका चोर, चकोर होता है ॥ ६६ ॥ मृग वा हाथी चुरानेवाला भेड़िया, घोड़ों चुरानेवाला व्याघ्र, फलमूल चुरानेवाला बंदर, स्त्री चुरानेवाला भालू, जल चुरानेवाला चातक, चवारी चुरानेवाला ऊंट और पशु चोर बकरा होता है ॥ ६७ ॥

यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः ।

अवश्यं याति तिर्यक्त्वं जग्ध्वा चैवाद्भुतं हविः ॥ ६८ ॥

किसीकी छोटीसी भी वस्तु बलपूर्वक चुरानेसे अथवा बिना होमों हुई हविका भोजन करनेसे अवश्यही तिर्यक् योनि पाता है ॥ ६८ ॥

स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवामुयुः ।

पतेषामेव जन्तूनां भार्योत्वमुपयान्ति साः ॥ ६९ ॥

स्त्रियां भी अपनी ह्मलासे पराई वस्तु चुरावे तो उन्हें भी दोष लगता है और वे पूर्वोंके जन्तुओंकी भार्यो होती है ॥ ६९ ॥

स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वणा ह्यनापदि ।
पापान्संसृज्य संसारान्प्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ७० ॥

चारों वर्णोंके लोग यदि आपदकाल को छोड़ अन्यकालमें अपने २ कर्म न करें तो वे निन्दित योनियों जन्मकर फिर जन्मान्तरमें शत्रुओंके दास होते हैं ॥ ७० ॥

वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्युतः ।
अमेध्यकुणपाकी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥

निजधर्मको त्यागनेवाला ब्राह्मण, वमनभङ्गी ज्वालके समान मुखवाला प्रेत होता है और (धर्मत्यागी) क्षत्री मुर्दा तथा विष्णु खानेवाला कटपूतन नाम प्रेत होता है ॥ ७१ ॥

मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक् ।
चैलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाच्युतः ॥ ७२ ॥

निजधर्मको त्यागनेवाला वैश्य राद खानेवाला मैत्राक्षज्योतिक नाम प्रेत होता है तथा शूद्र चैलाशक नाम प्रेत होता है ॥ ७२ ॥

यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः ।
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥

विषयी जैसे २ विषयोंको भोगते हैं तैसेही तैसे उनकी रुचि विशेष होता जाती है ॥ ७३ ॥

तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः ।
संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥

अल्पबुद्धि लोग उन पाप कर्मोंके वारंवार करनेसे इस लोकमें (तिर्यक् आदि) योनियोंमें दुःख भोगते हैं ॥ ७४ ॥

तामिस्रादिषु चोश्रेषु नरकेषु विवर्तनम् ।
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥
विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम् ।
करम्भघालुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान् ॥ ७६ ॥

फिर वे घोर तामिस्र आदि नरकमें दुःख असिपत्र वन आदि नरक त बन्धन छेदन आदि यातनाएँ भोगते हैं ॥ ७५ ॥ वन्हें अनेक प्रकारकी अत्यंत पीडा, काक और उल्लूकोंके द्वारा भक्षण, तपेहुए बालमें ताप और कुंभीपाक आदि भयानक नरक भोगने पड़ते हैं ॥ ७६ ॥

संसर्वाश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः ।
शीतातपामिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥
असकृद्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम् ।
बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥

बहुतसा है दु ख जिनमें ऐसी तिर्यक् योनिमें जन्म लेकर वे निल्य सर्दी गर्माकी पीडासे बहुत भयको पाते हैं ॥ ७७ ॥ उन्हें चार २ गर्भवास, दाहण दु खसहित जन्म, काठके बन्धन आदि अनेक प्रकारके कष्ट और दूसरेका दास-भाँव मिलता है ॥ ७८ ॥

वन्धुप्रियवियोगांश्च संघासं चैव दुर्जनैः ।

द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम् ॥ ७९ ॥

वे बन्धु और प्रियजनका वियोग, दुर्जनोके साथ सहवास, कष्टसे धनसंचय और उसका नाश, कष्टसे मित्रलाम तथा शत्रुका प्रादुर्भाव आदि अनेक भाँति की दुर्गतिको पाते हैं ॥ ७९ ॥

जरां चैवाप्रतीकारां व्याधिमिश्रोपपीडनम् ।

क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुर्जयम् ॥ ८० ॥

यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेचते ।

तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्रुते ॥ ८१ ॥

और जिसकी चिकित्सा नहीं ऐसी बृद्धावस्था, अनेक भाँतिकि व्याधिके क्लेश, अनेक प्रकारके कष्ट और दुर्निवार मृत्यु इनको पाते हैं ॥ ८० ॥ आश्रितिक, राजस और तामस इनमेंसे जिस २ भावसे मनुष्य जैसे २ कर्म करता है वैसेही वैसे शरीर पाकर उन कर्मोके फल भोगता है ॥ ८१ ॥

एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः ।

नैश्वेयसकरं कर्म विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२ ॥

यह सब कर्मोके फलोदय तुमसे कहे, अब जिन कर्मोंसे ब्राह्मणका मोक्ष होता है सो सुनो ॥ ८२ ॥

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।

अहिंसा गुरुसेवा च निःश्वेयसकरं परम् ॥ ८३ ॥

वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा, गुरुसेवा, ये सब ब्राह्मणोंके अत्यंत कल्याण करनेवाले कर्म हैं ॥ ८३ ॥

सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम् ।

किञ्चिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति ॥ ८४ ॥

इस लोकमें किये हुए इन सब शुभ कर्मोंमेंसे एक कर्म पुरुषके लिये अत्यन्त कल्याणकारक कहागया है ॥ ८४ ॥

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।

तद्व्यग्रयं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यस्मृतं ततः ॥ ८५ ॥

इन सब मोक्षसाधन कर्मोंमें आत्मज्ञानही श्रेष्ठ कहा है; वह सब विद्याओंमें प्रधान है और उससेही मोक्ष मिलती है ॥ ८५ ॥

घण्टामेपां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च ।
श्रेयस्करतरं श्रेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ८६ ॥

इन सब छ (मोक्षके साधन) कर्ममें वैदिक धर्मको ही सदा इस लोकमें तथा मरनेके अनंतर कल्याणकारी जानना चाहिये ॥ ८६ ॥

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः ।
अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिन्स्तस्मिन्क्रियाविधौ ॥ ८७ ॥

उपरोक्त सब उस २ क्रियाविधिमें क्रमसे वैदिक कर्मयोगके ही अन्तर्गत हुआ करते हैं ॥ ८७ ॥

सुखाम्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च ।
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥ ८८ ॥

वैदिककर्म दो प्रकारके हैं "प्रवृत्ति" और "निवृत्ति" । प्रवृत्तिकर्मसे सुखकी उत्पत्ति होती है और निवृत्ति कर्मसे मोक्ष प्राप्त होती है ॥ ८८ ॥

इह चासुत्रं वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते ।
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ ८९ ॥
[अकामोपहतं नित्यं निवृत्तं च विधीयते ।
कामतस्तु कृतं कर्म प्रवृत्तमुपदिश्यते ॥]

इस लोक तथा परलोकमें किसी कामनासे जो कर्म किया जाता है उसे प्रवृत्त कर्म कहते हैं, परंतु जो ज्ञानपूर्वक निष्काम कर्म किया जाता है उसे निवृत्त कर्म कहते हैं ॥ ८९ ॥ (जो कर्म निष्काम होकर किया जाता है उस को निवृत्त कहते हैं और जो कामनासे कियाजाय उसे प्रवृत्त कहते हैं)

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् ।
निवृत्तं सेषमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥ ९० ॥

प्रवृत्त कर्म करनेसे मनुष्यको देवताओंकी समानता प्राप्त हो सक्ती है और निवृत्त कर्म करनेसे (मनुष्य) पंचभूतोंका अवलंबन करता है अर्थात् मोक्ष पाता है ॥ ९० ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
समं पश्यन्नात्मयाजी-स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥

आत्मयाजी पुरुष सब भूतोंमें आत्माको तथा आत्मामें सब भूतोंको समान देखकर ब्रह्मत्व पाता है ॥ ९१ ॥

यथोक्तान्यपि क्रमणि परिहाय द्विजोत्तमः ।
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्देवाभ्यासे च यत्नवान् ॥ ९२ ॥

उत्तम द्विज शार्ङ्गोक्त सब कर्मोंको छोड़कर सी आत्मज्ञान, इन्द्रिय जय और वेदाभ्यासमें यत्न करे ॥ ९२ ॥

यतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः ।

प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ९३ ॥

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् ।

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥

या वेदचाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ ९५ ॥

विशेषकर यही ब्राह्मणके जन्मको सफल करनेवाला है इसलिये ब्राह्मण इसको करके ही कृतकृत्य होता है और तरहसे नहीं ॥ ९३ ॥ वेदही पितरों, देवताओं और मनुष्यके सनातन नेत्र हैं ये अपौरुषेय और अप्रमेय हैं अर्थात् न तो कोई वेदको बना सक्ता है और न उनका परिमाण कर सक्ता है यही स्थिति है ॥ ९४ ॥ जो स्मृतियां वेदसे बाहिर हैं, जो सब शास्त्र वेदविरुद्ध कृतके मूलक हैं, उन सबको परलोकमें निष्फल जानों, वे सब नरककी साधन कहीं हैं ॥ ९५ ॥

उत्पद्यन्ते व्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित् ।

तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ९६ ॥

जो कोई शास्त्र वेदमूलक नहीं हैं (पुरय कल्पित है) वे उत्पन्न होते हैं क्षिप्त होते हैं और आधुनिक होनेसे निष्फल और मिथ्या हैं ॥ ९६ ॥

चानुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥ ९७ ॥

चारों वर्ण, तीनों लोक, चारों अलग २ आश्रम, और भूत भविष्यत् वर्तमान सब वेदसेही सिद्ध होता है ॥ ९७ ॥

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः ।

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिशुणकर्मतः ॥ ९८ ॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पाचवा गंध ये तीनों गुण और कर्महेतु होनेसे वेदसेही उत्पन्न होते हैं ॥ ९८ ॥

विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥ ९९ ॥

सनातन वेद, सबभूतोंको धारण करता है इसलिये मैं वेदकोही मनुष्योंके परम पुरुषार्थका कारण समझता हूँ ॥ ९९ ॥

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥ १०० ॥

सेनापति, राज्य, दंड देनेवाला, और सब लोकोंका अधिपति वेदशास्त्रका ज्ञाताही हो सक्ता है ॥ १०० ॥

यथा जातयलो वह्निर्दहत्यार्द्रानपि द्रुमान् ।

तथा वहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥

[न वेदचलमाश्रित्यं पापकर्मवचिर्भवेत् ।
अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दहते कर्म नेतरत् ॥]

जैसे प्रज्वलित अग्नि गीले घृथोंको भी जला देती है वैसेही वेदज्ञ अपने कर्मजनित सब दोषको नष्ट करता है ॥ १०१ ॥ (वेदका सहारा लेकर मनुष्य पाप कर्ममें रुचि न करे, अज्ञान या प्रमादसे ऐसा करने पर क्षितनी होती है उतनी अन्य किसी भाति नहीं होती) ॥

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् ।

इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥

वेदशास्त्रका तत्त्वज्ञ पुरुष चाहे जिस आश्रममें रहकर इसही लोकमें वैद्य ब्रह्मत्व को पाता है ॥ १०२ ॥

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः ।

धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३ ॥

अज्ञ लोगोंसे ग्रन्थ पढ़नेवाले श्रेष्ठ हैं, प्रपोंके केवल पढ़नेवालोंसे प्रथम विषयोंके धारण करनेवाले श्रेष्ठ हैं और धारण करनेवालोंसे ज्ञानी श्रेष्ठ हैं और ज्ञानियोंसे कर्म करनेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ १०३ ॥

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् ।

तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाऽऽमृतमश्नुते ॥ १०४ ॥

ब्राह्मणका तप और आत्मज्ञान परममोक्षसाधन है, ब्राह्मण तपसे पाप नष्ट करता है और आत्मज्ञानसे वह मुक्ति पाता है ॥ १०४ ॥

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५ ॥

धर्मतत्त्वके जाननेके अमिलापी मनुष्योंको प्रत्यक्ष, अनुमान और अनेक प्रकारके शास्त्र इन तीनोंको मली भाति जानना चाहिये ॥ १०५ ॥

आर्षे धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ १०६ ॥

जो वेद और धर्मशास्त्रको, वेदशास्त्रके अनुकूल तर्कके सहारे विचारता है वही धर्मको जानता है दूसरा नहीं जानता ॥ १०६ ॥

नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः ।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥

मैंने मोक्षसाधन कर्म पूर्ण रीतिसे कहा अब मानवशास्त्रके रहस्यका उपदेश किया जाता है ॥ १०७ ॥

अनास्रातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशुद्धितः ॥ १०८ ॥

इस शास्त्रमें सामान्य रीतिसे सर्व प्रकारके धर्म कहे गये हैं परंतु जो नहीं कहे गये उनके विषयमें यदि शंका हो, तो शिष्ट ब्राह्मण जो कहे, उसेही निस्सन्देह धर्म जानों ॥ १०८ ॥

धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥

ब्रह्मचर्य आदि धर्मसे जिन्होंने अर्ग, भीमांसा पुराण और धर्मशास्त्रसहित वेद पढा है उन शिष्ट ब्राह्मणोंको वेदके प्रत्यक्ष उपदेशक जानना चाहिये ॥ १०९ ॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ ११० ॥

[पुराणं मानवो धर्मः साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः ।

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥]

अथवा जिसमें दस अथवा तीनसे कम न हों ऐसे सदाचारी धर्मज्ञ ब्राह्मणोंकी सभा जिस धर्मका निर्णय करे उसेही धर्म स्वीकार करे और उससे न लिये ॥ ११० ॥

(पुराण, मानवसंहिता, धर्म और सांगोपाग चिकित्सक, ये चारों आज्ञा सिद्ध हैं; इनका तर्कनाशे नाश न करे) ॥

त्रैविद्यो हेतुकस्तर्को नैरुक्तो धर्मपाठकः ।

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं परिपत्स्याद्दशावरा ॥ १११ ॥

तीनों वेदोंके पढ़नेवाले, न्यायशास्त्री तार्किक, निरुक्तपाठी और धर्मशास्त्रज्ञ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थ, इस प्रकारके कमसे कम दस ब्राह्मणोंकी सभा होनी चाहिये ॥ १११ ॥

ऋग्वेदविद्यञ्जुर्विच्च सामवेदविदेव च ।

त्र्यवरा परिपञ्चयेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥

धर्मसंशयके निर्णयमें जो कमसे कम तीन ब्राह्मणोंकी सभा हो वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनोंके ज्ञाता तीन ब्राह्मणोंकी हो ॥ ११२ ॥

एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्थेद्विजोत्तमः ।

सं विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ११३ ॥

वेदज्ञ एक ब्राह्मणनी जिसका निश्चय कर दे उसेही परमधर्म जानना और दस हजार मूर्ख जिसका निश्चय करें उसे धर्म नहीं जानना चाहिये ॥ ११३ ॥

अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिपत्स्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥

प्रतरहित, अवेदपाठी, केवल जातिमात्रके ब्राह्मण हजारों इकठे होजाय तो भी सभा नहीं हो सक्ती ॥ ११४ ॥

यं घ्नन्ति तमोभूतां मूर्खा धर्ममताद्विदः ।
 तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्रं नुगच्छति ॥ ११५ ॥
 एतद्वोऽभिहितं सर्वे निःश्रेयसकरं परम् ।
 अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ११६ ॥

तमोगुणी, मूर्खें, धर्मशास्त्र न जाननेवाले, जिस धर्मका उपदेश करते हैं उसका सौगुना पाप उपदेशावोंको होता है ॥ ११५ ॥ यह परमकल्याण करने-वाला धर्म (मोक्षसाधन) तुमसे कहा इस धर्मको करता हुआ ब्राह्मण परम-गतिको पाता है ॥ ११६ ॥

एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया ।
 धर्मस्य परमं शुभं ममेदं सर्वमुक्त्वान् ॥ ११७ ॥

इस प्रकार उन भगवान् मनुदेवताने लोकोंके हितके लिये यह धर्मका सब रहस्य मुझसे कहाथा ॥ ११७ ॥

सर्वमात्मनि संपश्येत्सच्चासच्च समाहितः ।
 सर्वे ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मं कुरुते मनः ॥ ११८ ॥

सब सत् और असतरूपको सावधान होकर आत्मामें देखे क्योंकि जो सब-को अपनी आत्मामें देखता है उसका मन अधर्मकी ओर नहीं दौड़ता ॥ ११८ ॥

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् ।
 आत्मा हि जनयत्येपां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥ ११९ ॥

आत्माही सब देवता हैं आत्मामें ही सब स्थित है और आत्माही शरीर-धारियोंको शुभाऽशुभ कर्ममें नियुक्त करता है ॥ ११९ ॥

खं संनिवेशयेत्खेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम् ।
 पक्तिदृष्टयोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२० ॥
 मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुं चले हरम् ।
 वाच्यस्त्रिं मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२१ ॥

शरीरके छिद्रोंमें आकाशकी, शरीरकी वायुमें वायुकी, उदर तथा नेत्रोंके तेजमें तेजकी, देहके जलमें जलकी, देहके पार्थिवभागमें पृथिवीकी, मनमें चंद्रमाकी, कानमें दिशाओंकी, पादमें विष्णुकी, बलमें हरकी, वाणीमें अग्नि-की गुदमें मित्रकी और उपस्थमें प्रजापतिकी एकताकी भावना करे ॥ १२० ॥ १२१ ॥

प्रदासितारं सर्वेषामभीर्यासमणोरपि ।

रुक्मामं स्वमघीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ १२२ ॥

जो सबका नियंता है और जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है और जिसकी सुवर्णके समान कान्ति है और जो स्वप्नके समान बुद्धिसे जाना जाता है उसे परमात्मा जाने ॥ १२२ ॥

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२३ ॥

उस परमात्माको कोई अग्नि कहते हैं, कोई प्रजापतिमनु कहते हैं, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं ॥ १२३ ॥

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः ।

जन्मवृद्धिक्षयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४ ॥

यह परमात्माही पंचभूतोंके द्वारा प्राप्त होकर सब प्राणियोंको जन्मवृद्धि और नाशसे चक्रके समान इस संसारमें भ्रमाता है ॥ १२४ ॥

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥

[चतुर्वेदसमं पुण्यमस्य शास्त्रस्य धारणात् ।

भूयो वाप्यतिरिच्येत पापनिर्यातनं महत् ॥]

इस प्रकारसे जो पुरुष आत्माके द्वारा सब भूतोंमें आत्मदर्शन करता है वह सब सनातोंको प्राप्तकर ब्रह्म परमपदको पाता है ॥ १२५ ॥

(इस शास्त्रके पढ़नेसे चारों वेदोंके समान पुण्य होता है, वाणी श्रेष्ठ होती और बड़ा पाप नाश होता है ॥)

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुश्रोतं पठन्दिजः ।

भवत्यांचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्भक्तिम् ॥ १२६ ॥

[मनुः स्वार्थंभुवो देवः सर्वशास्त्रार्थपारगः ।

तस्यास्यनिर्गतं धर्मं विचार्य बहुविस्तरात् ॥

ये पठन्ति द्विजाः केचित्सर्वपापोपशान्तिदम् ।

ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्यः शाश्वतम् ॥]

भृगु श्रोत इस मानवशास्त्रके पढ़नेसे द्विज नित्य आचारवान् होता है और यथेष्ट गति पाता है ॥ १२६ ॥

(स्वार्थंभुव मनु सब शास्त्रोंके पारगामी देवता हैं, उनके निर्मित इस सब पापोंके नाशक धर्मशास्त्रको विस्तारपूर्वक बहुत विचार कर जो कोई द्विज पढ़ते हैं वे ब्रह्मके सनातन स्थान परमपदको पाते हैं) इति-

पण्डित रामेश्वरभट्टकृत सरला टीकासहित ^{पुस्तक} सरला टीकासहिता
वारहवां अध्याय समाप्त ^{शुभम्} हयम् शुभम् ।

मनुस्मृतिके श्लोकोंकी अकारादि अनुक्रमणिका.

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
अ		अभ्या सर्वेषु वेदेषु ..	७०	अदरगा तु य एतेभ्य	६१
अकन्येति तु य कन्याम् २१५		अथ स केवलं पुत्रे ..	६१	अद्वैतयित्वा तैरेव	२०६
अकामत द्युत पापम् ३११		अङ्गावपीडनाया च ..	२२३	अदातरि पुनर्दाता	२०७
अकामत द्युते पापे ३११		अङ्गुलीर्मैथिल्येदस्य ...	२७८	अदीयमाना नर्तारम्	२५३
अकामतस्तु राजन्यम् ३२२		अङ्गुष्ठमूलस्य तले ..	३३	अद्वैतताया द्रव्याणाम्	२७९
अकामस्य क्रिया काचित् १६		अचक्षुर्विषय दुर्गम् .	९२	अद्वैतस्य यथा दिशति	१९१
अकामोपहित नित्यम् ३५२		अच्छलेनेष चाग्निश्छेत् २१०		अद्विरेव द्विजाभ्याणाम्	५१
अकारणपरित्यक्ता ..	६६	अनलद्वन्द्वेदपीगण्ड ...	२०५	अद्विर्गाथाणि शुच्यन्ति	१३१
अकार वायुकार च	२६	अजाविक सेकयकम् ...	२५७	अद्विस्तु मोक्षार्थं शौचम्	१३२
अपानिर्वाह कर्म	३११	अजाविके तु सख्ये .	२१७	अद्वैतोर्ध्वमेतत् क्षवम् .	२८४
अकृतं च कृतास्त्रेवात्	३०२	अजीगर्तः सुत हन्तुम् ३०१		अद्यात्काक पुरोडाशम्	१५५
अकृता वा कृता वापि	२५९	अजीवस्तु ययोत्तेन ...	२९८	अद्भौरेणैव भूतानाम् ...	८३
अकृता वैश्वरगम् ३९		अज्ञानात्मादय विष्णुदम् ३२५		अद्भ्यरेण च नातीयात्	९२
अक्रोधनाम्सुमसादात्	७३	अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् ३३६		अधमर्णार्थं सिद्धयर्थं ..	१९१
अक्रोधना शौचपरा	७१	अज्ञानाद्गुरुणी पीत्वा .	३२५	अधर्मदण्डन लोके ..	२०२
अक्षमाला वसिष्ठेन	२४४	अज्ञेभ्यो मन्थिन भेषा ३५४		अधर्ममग्नय वैव .	१४७
अक्षाररूपणात् स्यु	१२६	अज्ञो भवति वै बालः ३५		अधर्मेण च ऋ माए	३०
अक्षेने कीजस्तुच्छम् .	२९६	अण्डजा पक्षिण सर्पा ७		अधर्मैर्गेषुते तापत् .	१०५
अभारदाही गृहत् १६		अण्यो माना विनाशिन्य ५		अधस्तातोपदध्याय	८९
अगारादभिनिकातम् ..	१४४	अत ऊर्ध्वं तु छन्दसि ९५		अध्यायिका विभिन्नायै	२२६
अगुप्ते क्षत्रियावैदये .	२३६	अत ऊर्ध्वं यनोन्वेते ...	२१	अध्यायार्थो नरो यो हि	१०४
अभिदम्बानसिद्धघात् ७३		अत सख्यपीयसि द्रव्ये ३०६		अधितिष्ठेन केशास्तु ..	९२
अभिदान्मकदाक्षेन .	२७८	अतपास्त्वनशीयान् ...	१०७	अधियज्ञं प्रज्ञ जपेत्	१५०
असिपकाशयो वा स्यात् १४१		अतस्तु विपरीतस्य ...	१५६	अधिषिणा तु या नारी	२५२
असिवायुरविन्मस्तु ...	४	अतिक्रान्ते दद्याद्दि च १२६		अधीत्य विधिर्वैद्वेदात्	१४४
असि वाहारयेदेनम् २००		अतिक्रान्तेऽप्यनत्त या ३५२		अधीयीरंरुणो वर्णा	२४१
असिहोम च ऋडुवात् १३९		अतिथिं चाननुज्ञाय ९८		अथोद्यत्तैर्गृह्युतिका	१०८
असिहोर्न समादाय ..	८६	अतिवाद्यास्तित्थेत् .	१४५	अथ्यक्षान्दिविधान्कुर्वात्	१६३
असिहोर्न यपविष्यामीन् ३११		अतीजसानि पात्राणि .	१४६	अथ्यश्चध्यावाह्निकम् २६७	
अमीनालग्नि नैतानाम् १४२		अतोऽन्यतममास्थाय ३१७		अथ्यास्वरतिरासीन् ...	१४५
अमीन्धन भैक्षधर्मात् ..	२९	अतोऽन्यतमया वृश्या ८४		अथ्यापन ब्रह्मयज्ञ	५५
अतो सोमयमान्या च ७३		अत्युष्य सर्वमग स्यात् ७६		अथ्यापनमध्ययनम् ..	२९७
अतो सोमस्य वैवादी .	५७	अद्य माथा वायुगीता २४७		अथ्यापनमध्ययनम् .	१४
अतो सोमस्य वैवादी .	५७	अद्य मूलमनाहार्यम् २१२		अथ्यापनमाद्य पितृत् .	५३
अतो मास्ताहुति सम्पकू ५६		अदृग्गन्धान्दण्डयज्जाना २०२		अथ्येभ्यमाणस्त्वाधान्त	२५
अभ्यनाये तु विमस्य ...	७३	अदृष्टानास्तुपादानम् .	३४१		
अभ्यगारे गवा गोष्ठे ...	९०				
अभ्यायैर्ष्यं पाक्यज्ञात् ३४					

श्लोकाः	पृष्ठं	श्लोकाः	पृष्ठं	श्लोकाः	पृष्ठं
अध्वेष्यमार्गं तु युक्तं ...	२५	अनेन नारीवृत्तेन ...	१३८	अपुत्रोऽनेन विधिना ...	२५८
अनश्रीं क्षीयपतिं	२६८	अनेन विधिना नित्यम्	१३९	अपुत्र्या फलवन्तो धे .	७
अनशिरनिकेतं स्वात्	१४४	अनेन विधिना यस्तु ..	२२१	अप्रणोद्योऽतिभि स्यात्	५९
अनुधीत्य द्विशो वेदान्	१४४	अनेन विधिना राजा ..	२३१	अमयस्य सुजायैषु	१४२
अनुपस्य सपिण्डाद्य	२६६	अनेन विधिना राजा ...	२०९	अमणितिर्यक्तव्यते .	२७१
अनन्तरमरिं विद्याद्य	१७४	अनेन विधिना आद्रम्	८२	असु प्रवेक्ष्य त दृष्टम्	२७४
अनन्तराद्य वातानाम्	२८७	अनेन विधिना सवर्गम्	१५०	असु भूमिवदित्याहु	१९८
अनपस्यस्य पुत्रस्य	२७०	अनेन विधौ वृत्तेन ...	११६	अथीलविक्रयी चैव .	२८०
अनपेक्षितमर्यादाय्	२२६	अन्तर्गतधवे माने ...	९६	अथर्धमिन्द्रमित्येतत्	३३९
अनप्राप्तेन वेदानाम्	११७	अन्तर्दशाहे स्याता चेत्	१२७	अत्राद्वाणः समग्रणे	२३३
अनार्थं वृत्त्यामातम्	११०	अन्धो जन् पीठसर्पा ...	२३८	अत्राद्वाणादध्वयनम्	४५
अनानुर स्वानि खानि	१०१	अन्धो मत्स्यानिवासाति	१९७	अमयस्य हि यो दाता	२७५
अनादेयं नाददीत	२०८	अश्वमेधा पराधीनम्	२९४	अभिचारेषु सर्वेषु ...	२८०
अनादेयस्य चादानात्	२०८	अश्वहतामयावित्त्वम्	३१२	अभिपूजितलामास्तु ...	१४७
अनामानेषु धर्मेषु	३५४	अश्वहीनो दहेद्वाह्नं	३११	अभियोक्ता न चेद्भूयात्	१९२
अनारोग्यमनादुष्यन्	२३	अश्वदि शृणुहा मादिं	२२७	अभियादनशीलस्य	३१
अनार्यता नियुक्ता	२९४	अश्वध्वजाना सञ्चवानाम्	३२४	अभियादयेषु ङ्काश्च	१०५
अनार्यमार्यकर्माणम्	२९७	अश्वदुस्त जातमन्यत्	२४६	अभियादात्पर विप्र .	३१
अनार्याया सयुत्पन्न	२९६	अश्वान्यासेन वेदाना	११७	अभिषक्तस्य पण्डस्य	११०
अनादितामिता स्तेयम्	३१४	अश्व्या चेद्दर्शयित्वाश्व	२१२	अभिपक्ष तु प कन्याम्	७४४
अभिल्यो विजयो यस्वात्	१८१	अश्व्या नपि प्रकुर्वति	१६०	अभोऽथमत्र नात्तम्यम्	३२६
अभिन्दते श्रीविद्याहे	५२	अश्व्ये कृतयुगे धर्मा	१२	अभोग्याना तु पुत्रवत्याप्रम्	३२६
अनिष्टकाम्युतशैव	२६०	अश्व्येषां चैवमादीनाम्	२२९	अश्व्यङ्गमजन चाश्वो	३८
अनिर्देश्या गो क्षीरम्	११७	अश्व्येष्वपि तु फालेषु	१७८	अश्व्यङ्गं रथापन च ...	४२
अनिर्देश्यायां वा सूताम्	२१८	अश्व्येष्वप्यस्याप्यमीचार	२५५	अश्वत्था का प्रदास्यामि .	२५८
अनुकमिच्छतीना तु	३३३	अश्व्याथेष च यद्दत्तम्	२६७	अग्निं कार्णायवीं दद्यात्	३२३
अनुगम्येच्छया प्रेतम्	१३०	अपः शस्त्र विप नासम्	२९८	अमलैतानि पश्च जग्ध्वा	११५
अनुपपन्नपितृद्रव्यम्	२६९	अप सुरामाजनस्था	३२५	अमन्त्रिका तु कार्यम्	२४
अनुबन्ध परिहाय	२०२	अपस्य धर्मकार्याणि	२४५	अमन्त्रा प्राङ्निवाको वा	२७३
अनुवाची तु य कश्चित्	१९४	अपस्यलोभाया तु स्त्री	१७३	अमालसुरस्यं धर्मज्ञम्	१८१
अनुमन्ता विशसिता	१३३	अपदिश्यापदेश्य च	१९१	अमाल्यराष्ट्रदुर्गाभि	१७४
अनुपपत्ताः शुचिर्दक्षाः	१६०	अपराजिता वारत्याम्	१४३	अमाल्ये दृष्ट आमत	१६१
अनुपपन्निरकेनाभिः	२४	अपराहृत्तया दर्गाः	७८	अमालुपीषु पुरुष	३०८
अनुत्तं च सङ्कल्पैर्	३१३	अपराहृत्तया मर्याः	७४	अमाल्यैव वर्तते	१६६
अनुत्तं तु सङ्कल्पेभ्यः	१८९	अपस्यमर्या कृत्वा	७४	अमाल्यात्वा गुर हन्ति	९७
अनुत्ताद्युक्तफाले च	१३६	अपस्यैवधर्मणस्य	१९१	अमाल्यास्वामद्वर्गं च	९२
अनेकानि सहास्रानि	१३७	अपरां समीपे निवसत	५९	अमेष्ये वा पदेऽमत्त .	३१८
अनेन क्रमयोगेन	३६	अपाङ्गयो यावतः पाङ्गुयान्	६९	अय द्विजैर्दि निद्रिदि	२५०
अनेन क्रमयोगेन	१५०	अपाङ्गुद्वाने यो दासुः	६८	अयस्युक्तो धिमागो च	२७१
अनेन तु विधानेन	२५८	अपाङ्गुयोपहृता पदि	७०	अयान्ययजान्तेऽथ	५५
		अपामनेश्च सयोगात्	१३१	अयुज्यमानस्योत्साद्य	१०३
		अपि नः स कुले जायात्	८१	अरक्षिता शूदे वङ्गा	२४३
		अपि यत्सुकर कर्म	१५९	अरक्षितार राजानाम्	२२६
		अपुत्रायां मृत्यायां तु	३५२		

श्लोकः	पृष्ठं	श्लोकः	पृष्ठं	श्लोकः	पृष्ठं
आत्मनश्चित्ताऽवैर्यम्	३३५	इदं शास्त्रमधीयान् ...	१३	उत्पद्यते गृहे वस्य ...	२६३
आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थ		इदं स्वस्त्वयन श्रेष्ठम् ...	१३	उत्पद्यन्ते स्वयन्ते च ..	३५३
सम् ...	२१३	इदं तु वृत्तिवैकल्यात् ..	२९८	उत्पादकमज्जदानी ...	३३
आर्द्रपादस्तु मुञ्जीत ...	९२	इन्द्रत्यार्कस्य वायोश्च ...	२८२	उत्पादनमपत्यस्य ...	३१
अङ्गुलीः कुलमित्र च	११५	इन्द्रानिरुधमाफाणाम्	१५२	उत्सादनं च यात्राणाम्	३५५
आयता पुरुषज्ञानम् ...	१८२	इन्द्रियाणां च सर्वेषाम्	२८	उदकं निनयेच्छेषम् ...	७३
आर्षं धर्मोपदेशं च ...	३५३	इन्द्रियाणां जये योऽपि ..	१५८	उदकुम्भं हुमनस्य ...	३८
आर्षे गोमिश्रणं शुक्लम्	५३	इन्द्रियाणां निरोधेन .	१३७	उदके मध्वराजे च	९६
आशुताना उरुकुलात्	१६३	इन्द्रियाणां मसङ्गेन ...	२८	उदितेऽनुदिते चैव ..	१८
आश्रमादाश्रमं गत्वा ...	१३३	इन्द्रियाणां मसङ्गेन ...	३३७	उदितोऽप्य विस्तरस्य	२७५
आश्रमेऽपि द्विजातीनाम्	२३७	इन्द्रियाणां विचरताम्	२७	उद्धारो न दृग्गलक्ति	२७६
आ वोडशाद्वाद्याणस्य ..	२१	इन्द्रियाणि यथा स्वर्गम्	३१०	उद्धृते वक्षिणे पाणी ...	२३
आत्मेन चैव बानं च .	१७५	इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु ...	८५	उद्धवहर्त्मानश्रिये ...	३
आत्मनावसथी शय्याम्	६०	इन्धनार्थमशुष्काणाम्	३१३	उद्दिग्वा श्यावराः सर्वे	७
आत्मनाशनश्चर्यानि .	८६	इमं लोकं मातृममत्या	३३	उद्यतैराह्वये शस्त्रे .	१७९
आत्मनेपुपकुलेषु ...	७३	इमं हि सर्ववर्णानाम् ...	२३२	उद्गर्तनमपस्मानम् .	९९
आत्मनिष्ठाऽक्रियाकर्म ..	७७	इमानित्यननध्यायात्	९५	उन्मत्तं पतितं हीनम् .	२७७
आ समाप्ते शरीरस्य ...	३५	इयं श्रुतिर्नूतानाम्	२३६	उपचारक्रिया केशि ..	२३२
अथ चमुद्राच्छ वै पूर्वात्	१९	इयं विशुद्धिक्रिस्ता ...	३१७	उपच्छन्नानि चान्यानि	७१८
आसा महर्षिचर्याणाम्	१३३	इष्टि वैश्वानरीं नित्यम्	३०८	उपलब्धाऽनुपलभ्येत् ...	१८०
आसीतामरणात्सान्ता	१३७	इष्टं दुष्कृतैः केषिचि	३१२	उपघामिभ्यः यः कश्चित्	७११
आसीदिद् तमोभूतम् ...	१	इष्टं चासुप्तं वा चान्यम्	३५२	उपनीयं गुरुः शिष्यम् ..	७५
आसीनस्य स्थितं कुर्यात्	३०	इष्टं		उपनीयं तु यः शिष्यम्	३३
आर्त्तघ्नीणि वा द्वे वा	३०६	इष्टो वृष्टस्य वरणं .	७७३	उपनीयं तु तत्सर्वम् ...	७७
आर्त्तेषु मिथोऽन्योन्यम्	१६३	उ		उपपन्नो गुणैः सर्वै	७६०
आह्वताभ्युद्यता मिक्षाम्	१३५	उपस्था चेवागृतं साक्ष्ये	३१७	उपपातकघृष्टुषः .	३७०
आह्वैव चनयोभिन्त्यः ...	३६	उपस्थाचेषु भूतेषु ..	१३९	उपरुष्कारिमासीत .	१८०
इ		उच्छिद्यन्म दातव्यम् ...	३०३	उपवासकृद्यं तं तु	३३१
इच्छयान्योन्यसधोग ...	५०	उच्छिद्येन तु सगृष्ट ...	१३५	उपवेद्यं तु तान्विद्यम्	७३
इतरानपि सख्यादीन् ...	६१	उच्छिप्येके अथै कुर्यात्	५७	उपसर्जनं प्रधानस्य ...	२५०
इतरे कृतवन्तस्तु ...	२७८	उच्छेषणं श्रुमिगतम् ...	७७	उपसम्पुदरं निह्ना ..	२०१
इतरेषां तु पुण्यानाम्	२९९	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपसृष्टुश्चिपणम् ..	१३२
इतरेषु स्वपाङ्गयेषु	६७	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपसृष्टव्यं द्विवो नित्यम्	७३
इतरेषु सधर्म्येषु ...	५०	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपाकर्मणि चोत्तरे ..	९८
इतरेषु तु शिष्टेषु ...	१२	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपाध्यायाद्वाध्याचार्यः	३३
इतरेष्वामात्रमर्म्	११	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपाध्यायी वा वासश्च ...	९१
इत्येतत्तपनो देवा .	३३७	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपासते ये गृहस्था	५९
इत्येनदेवनासुजयम्	३३८	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपेनाऽनुपेन च ...	१८३
इत्येनन्मानव श्रावणम्	३५७	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपयोर्ल्लभ्योऽनुकम् ...	७५
इष्ट-शरणमज्ञानात्	१५०	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपान्यायमन्यवीरस्तु ...	२०८
इष्टं शास्त्रं तु कुलासौ,	८	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपायपि तु साधेत्	७३५
	३१	उच्छेषणं तु तत्तच्छेत् ...	८०	उपयानं समारम्भ	३३२

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
एव कर्मविशेषेण ...	३१२	एव शीघ्रस्य व- प्रोक्तः	१३१	कर्मणा च विवेकार्थम्	४
एव गृहाभ्रमे दिशत्वा	१३९	एव सर्वं समुद्दिष्ट	३५१	कर्मणापि समं कुर्वीत	२०९
एवं शरति यो विम	३६	एव सर्वं समुद्दिष्ट	३४७	कर्मालम्बना च देवानाम्	४
चरुचदा युक्तः	२८५	एव सर्वोणि मृतानि	३५७	कर्मारस्य निपादस्य	११०
द्विष्टमतो नित्यम्	३१६	एव त्रीपुत्रस्योरुक्त	३५५	कलविद्धं क्वचं हिंसन्	११८
वै शर्म्याणि कार्याणि	२७५	एषा घर्मस्य शो योनिः	१९	कलि मसुतो भवति	२८२
वं निर्वेषणं कृत्वा	७९	एषा पापकृतामुक्ता	३२९	कल्पयित्वास्य वृत्तिं च	३०८
वं प्रयत्नं कुर्वीत	३८४	एषामन्यतनो यस्य	६५	काण वाप्ययथा सञ्जग्	२२०
वं य सर्वमृतानि	५८	एषामन्यतने स्थाने	३०१	कानीनश्च सहोदरश्च	२६३
एव य सर्वमृतेषु	३५७	एषा विधिनाभिहिता	३१८	काम भाद्रेऽज्यवेभियम्	६२
एवं यथोक्त विप्रणाम्	११७	एषु स्थानेषु भूमिष्ठम्	१८५	कामकोषौ तु सवन्म	२०८
एवं यथोक्तानिष्ठेषु	२८४	एषोऽखिल कर्मविधि	२८५	कामनेषु प्रसक्तो हि	१५८
एवविजयनानस्य	१६६	एषोऽखिलेनाभिहित	३२१	कामतु रेतस वेकम्	३७१
एवविनाशुपो देशात्	२७७	एषोऽखिलेनाभिहित	३२५	काम तु क्षयवेदेहम्	१३७
एववृत्तस्य नृपते-	१५६	एषोदिता गूरुस्यस्य	११६	कामं तु गुरुर्मानाम्	४०
एववृत्तां सवर्णां स्त्रीम्	१३८	एषोदिता लोकयात्रा	२४४	कामदानरणात्पिच्छेत्	२५३
एवं स धामत्समाम्भ्याम्	८	एषोऽनाघादनस्योक्त	३२७	काममुत्थाद्य कृत्वा तु	२९९
एव सचिन्त्य मनसा	३३६	एषोऽनापदि वर्णानाम्	२८६	कामालम्बता न प्रशस्ता	१६
एवं सत्यस्य कर्मणि	१२२	एषोऽनुपलभ्युक्तः श्लोकः	१६५	कामाद्वैशुण्य पूर्वम्	२०१
एवं स भगवान्देव	३५६	एष्वर्थेषु पद्महिंसम्	१३०	कामान्नात्ता पिता चैनम्	३४
एव समुद्रतापारे	३५७			कामिनीषु विधातेषु	२००
एवं सन्मग्दविह्वल्वा	५७			कारावरो निपादाड	२९१
एवं सर्वं स सङ्घेदम्	७			कारुकाञ्छिद्विपनर्षी	१७०
एव सर्वं विवापेदम्	१७१			कारुकाञ्च मना हन्ति	१११
एव सर्वमिदं राजा	१८३			कार्पास्युपधीत स्यात्	२२
एव सर्वानिमात्राजा	२४१			कार्पासिकीटलीर्णानाम्	३०८
एवं सह षष्ठेषुर्वा	२५६			कार्यं सोऽज्येऽस्य शक्तिं च	१५२
एव स्तनाय हात्वाघात्	२४३			कार्यापणं मवेद्वेऽप्य	२३७
एवमाभारतो बद्धा	१५			कार्णौरैरववास्तानि	२९
एवमादीनिजानीयात्	२७६			काल कालविमर्शश्च	४
एवमेतैरिदं सर्वम्	६			कालश्याक माराश्रस्ता	८१
एवमप्युक्तानि श्लोकाः	२२२			कालेऽद्भुता पिता वाच्यः	२४२
एव घर्मविधिः कृत्वा	३०४			किंचिदेव तु दास्य स्यात्	२३३
एव घर्मोऽनुशुद्धो व	१५०			किंचिदेव तु विनाय	३२०
एव घर्मोऽखिलेनोक्त	२१४			कितवान्कुशीलवान्गुरुराज	२७१
एव घर्मो गवाधस्य	२४९			किं रान्वा नरान्मत्स्याम्	६
एव नीमायिनायुक्त	२४०			कीटाश्चाद्विपनर्शश्च	३३७
एव श्लोको द्विजातीनाम्	२५			कीनाशो गोषुपो पानम्	२६१
एव वै प्रथमः कल्पः	६५			कुडुम्बाधेऽज्यधीनोऽपि	२७७
एव योऽभिरितो घर्म	१५२			कुस्येव च मत्स्याश्च	१८
एव योऽविधिः कृत्वा	३१५			कुरवैयाश्च मत्स्याश्च	१८०
		रेन्द्र स्थानमभिमिम्सु	२३१		
		ओ			
		ओषधिविद्या	२४८		
		ओषधिविद्या	२६		
		ओषधिविद्या	१२२		
		औ			
		औरत्रिको माहिक	६७		
		औरसः क्षेपणश्चैव	२६२		
		औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ	२६३		
		औषधान्यगदो विधा	३९७		
		क			
		कान्या गच्छयेद्वन्द्वम्	३१८		
		कान्या भजन्तीमुत्कृष्टम्	२३४		
		कान्याया दूषणं चैव	३१४		
		कान्यायां दक्षशुक्लायां	२५४		
		कान्यैव कान्या या कुर्वात्	२३३		
		कपाल क्षुद्रमूलानि	१४५		
		कर्णश्लेजनिसे रामी	२५		
		कर्णं चर्न च यात्राश्च	२१६		

श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ
कुपयित्तुयश्चु सदे ...	१२१	कपयित्तुयमश्चान् ...	१६९	मपयित्तुयमश्चान् ...	११९
कुर्वादिदरहः आङ्गम् . .	५७	कम्पादन्कुरोऽनाम् . .	१२६	रा	
कुन्ने वृत्तसपते ...	२०२	कम्पादागु गुणादरहम् . .	१२९	रा कथाम्पद मन्पद . .	१८१
कुले मुरचेऽपि जानस्य	२९५	कवादान्दुगा रवाग् . .	११८	रथ्यां सुदन्ना वागा . .	१८२
कुत्रिकाट्टे क्रियालोपैः . .	५४	क्रियाभ्युपगतापोनम् . .	२४८	रुदभापरिश्वातां सु ...	२१९
कुशीलवोऽथकीर्त्तिं च ...	६६	कीर्त्तनीयात्प्रत्ययाभ्यम्	२६४	सम्भवेऽप्यु कुर्वाते . .	२०
कुम्भस्थानको वा स्यात्	८३	कीर्त्तया विकीय वा रिगित्	२१५	सन्निधिं तु द्विभागादि . .	२३९
कुचीद्वयुद्धिर्द्वयुष्पम् ...	२०५	कीर्त्तया वय वागुत्तात्	१२१	नञ् चापमुवात्तान् ...	११०
कुक्षे वैवाग्मस्यै च ...	५७	कुम्भ्यात् त मन्तिष्पेत्	१४५	सन्निधिर्द्विभागात् . .	१८
कुट्टशामनकर्तृश्च	२७२	क्षान्तिस्तथाभोलायात् ...	२०२	तिरिपुष्ट समानम् . .	१०२
कुम्भाण्डेऽपि त्रुण्मात्	१९९	क्षत्रप्रमुक्त्तानां तु	२९४	त्रुण्छन्तुं तु रिगित्	७
कृतदारोऽपरान्दारान्	३०५	क्षत्रयिद्वत्तद्विभिनो ...	२०२	त्रुण्क्षेत्रे सुप्रमाकापान्	७५
कृत वेत्तासुमं चैव	२८१	क्षत्रस्तानिमवृद्धस्य . .	२८४	त्रु वा वाक्कुक्षीं गा ...	२३२
कृतवापनो निवसेत् . .	३१६	क्षत्रियं चैव स्यं च ...	१००	त्रुणात्तान् । आत्तम् ...	४०
कृतसुखारादधिका . .	२०५	क्षत्रियं भेन वैश्यं च	२४०	त्रुण्त्वन्यभिभाष्येन . .	३१९
कृतोपनयनस्यास्य . .	३७	क्षत्रियस्य परो धर्मः ...	१७१	त्रुण्त्वन्यं कुर्वाणु . .	३२८
कृत्वा पाप हि प्रतप्य	३३६	क्षत्रियाच्छूद्रकन्यावात्	२८७	त्रुण्त्वे भ्याः कार्यः . .	२७३
कृत्वा मूत्र पुरीष वा	१२४	क्षत्रियाश्मिन्नुवावापम् ...	२८८	त्रुण्णोऽनु सुगतिः . .	३२
कृत्वा विधान मूत्रे तु . .	१७८	क्षत्रियायामनुत्तापात् . .	२३६	त्रुण्त्वन्यं त्रुणात् सु . .	३९१
कृतैवेतद्भूलिकर्मैवम् . .	५८	क्षत्रियो वाग्दुषीर्षेण ...	२१०	त्रुण्त्वे स्वभतीषु ...	११५
कृत्वा चाष्टविध कर्म . .	१७३	क्षत्रस्तस्यं प्रमुखा नित्यम्	२२७	त्रुण्त्वेत्याधोऽतिरीर्षेत्	११५
कुम्भिकीऽप्यनद्राश्च . .	६	क्षत्रति सर्वा येद्विषयाः . .	२६	त्रुणोः कुले त मिथेन ...	३८
कुम्भिकीऽप्यतप्तानाम् . .	३४८	क्षत्रत्या सुष्पतिं विद्वांसः	१३१	त्रुणोः प्रेतन्य विष्यत्तु	१२५
कुम्भिकीऽप्यमोहत्या . .	३१५	क्षत्रस्य चैव क्रमणः	१७६	त्रुणोर्द्वौ सतिरिति	३१
कुम्भि सध्विनि मन्वन्ते	२९८	क्षत्रकाणा परस्तां तु . .	२२५	त्रुणोर्षेन वरीवात् . .	३०
कुम्भानामोपधीनाम् . .	३२५	क्षत्रार्तैश्चाशुभभागात् . .	३०१	त्रुणान्वेष्यैश्च शिविभान्	२१६
कुम्भपक्षे दशम्यादौ ...	८१	क्षेत्र हिरण्यं गामश्वम्	४६	त्रुणान्श्च दधापयेदात्तान्	१७५
कुम्भधारस्तु चरति	१९	क्षेत्रकूपतज्जागानाम् . .	२२०	त्रुण्त्वे तदगममात्तानम् . .	२२०
कुम्भेऽप्यनक्षत्रमष्ट . .	८७	क्षेत्रवादींस्तनितान् . .	२६५	त्रुण्त्वेऽस्तु यदा पश्येत्	१३९
कुम्भेऽप्यनक्षत्रमष्टः ...	१४६	क्षेत्रभूता स्तृता नारी . .	२४६	त्रुण्त्वेऽस्तु पुदिनी सौरा	१९२
केतितस्तु यथान्यायम्	७१	क्षेत्रनियत्सात्ये दृष्ट . .	२१८	त्रुण्त्वेऽस्तु सुखल रापा . .	३१६
केचमहात्म्यदराश्च ...	९३	क्षेत्रेष्वन्येऽपि तु पशु . .	२१७	त्रुण्त्वे उरावरण्ये वा . .	१२२
केचान्त पोतये वेपे ...	२४	क्षेत्र्या सत्यमदा नित्यम्	१८२	त्रुण्त्वेऽपि जनयितु . .	२६०
केचान्तिफो माद्वजस्य ...	२३	क्षेत्र्याऽप्यच्छत्राङ्गणान्	१३२	त्रुणोः क्षीरशुतो यस्तु . .	२१६
केचेषु शुद्धतो हस्ती . .	२२३			त्रुण्त्वेऽपि मन्वन्तं वा . .	३१८
कोष्ठागारासुधागार . .	२७९			त्रुण्त्वेऽपि गोमय क्षीरम् . .	३३२
कोटसाक्ष्यं तु कुर्वाणात्	२०१			त्रुण्त्वेऽपि गोमयक्षीरिकात्	१९८
कोत्स जल्प्य इलेतत्	३३८			त्रुण्त्वेऽपि गोमयसंयम्य . .	३१२
कोत्सेय तित्तिरिहृत्वा . .	३४५			त्रुण्त्वेऽपि गोमयानमासात् . .	३१५
कोत्सेयाविकयोर्द्वयः ...	१३३			त्रुण्त्वेऽपि गोमयसंयम्य . .	२२८
				त्रुण्त्वेऽपि गोमयक्षीरम् . .	३१८
				त्रुण्त्वेऽपि गोमयक्षीरिकात्	१९८
				त्रुण्त्वेऽपि गोमयसंयम्य . .	३१२
				त्रुण्त्वेऽपि गोमयानमासात् . .	३१५
				त्रुण्त्वेऽपि गोमयसंयम्य . .	२२८
				त्रुण्त्वेऽपि गोमयक्षीरम् . .	३१८

ख

खञ्जो वा यदि वा काण ७७
 खट्वाङ्गीं चौरवासा वा ३१९
 खराधोऽप्युपमानाम् ३१४
 खलात्वेयादगाराद्वा . . ३०७
 ख सन्निवेशयेत्सेषु ... ३५६

श्लोकः	पृष्ठं	श्लोक	पृष्ठं	श्लोकः	पृष्ठं
प्रहीता यदि नष्ट स्यात्	२०७	धारणाश्च सुपर्णाश्च	३४६	वाल्मन्तरगते मानौ	२०२
ग्रामघते हितान्ने	२०८	धारणीरसाहयोगेन	२८१	वित्वा संपूजयेद्देवान्	१८१
ग्रामस्याधिपतिं कुर्यात्	१६७	चिकित्सकस्य सूत्रयो	११०	वीनफासुं कथं छावीन्	३२४
ग्रामदाहस्य वाशीयात्	१४२	चिकित्सकान्देवक्याम्	६५	वीर्णोद्यानान्यरण्यानि	२७६
ग्रामदीपास्त्रमुत्पनात्	१६८	चिकित्सकानां सर्वेषाम्	२७९	वीवन्तीना तु तासां ये	१८८
ग्रामीयककुलानां च	२१९	चिररिधतमपि त्वाद्यम्	१२०	वीवस्रशोऽन्तरात्मान्य	३४२
ग्रामेऽपि च ये केचित्	२७७	शूडार्कनं द्विजातीनाम्	३०	वीथितास्यपमापः	३०१
ग्रीष्मे यथतपास्तु स्यात्	१४२	वैश्वदुमदमशानेषु	२९३	वीथिदेतेन राजन्यः	२९९
घ		वैजयमर्षेणा शुद्धिः	१३२	व्रातित्यो द्रविण दत्त्वा	५०
श्रुतकृन्म वराहे तु	१२३	चौरैरपश्रुते ग्रामे	९७	व्रातित्वन्विषरिख्येते	२७३
ग्रामेन सूकरो हन्ति	७७	चोदितो गुरुणा नित्यम्	३९	व्राननिष्ठा द्विजा केचित्	६३
च		चौरैर्द्वैत जलेनोदम्	२१०	व्राननिष्ठेषु कन्यानि	६३
चक्रपूर्वैः समारूढ	२०६	छ		व्रान तपोऽतिराहारः	१३०
चक्रिणो दशमीस्थस्य	३३	छत्राक विद्वराह च	११९	व्रानेनैवानरे क्रियाः	८५
चण्डालश्चपशानां तु	२९४	छायायामन्वकारे वा	८९	व्रानोत्कृष्टम् देवानि	६३
चण्डालत्वापङ्कचोपाक	३९२	छान्यान्वोदासवर्गंश्च	१०६	व्यायासमनयोर्विघात्	६४
चण्डालान्प्रक्षियो गत्वा	३२८	छिन्ननास्ये भद्रगुणे	२२४	ज्येष्ठ पय तु गृहीयात्	२५५
चण्डालेन तु घोषाकः	२९२	सुष्ठुन्दरीः शुभान्गन्धार	३४९	ज्येष्ठः कुलं धर्यति	२५६
चतुर मातरश्रीयात्	३३३	छेदने चैव यज्ञाणाम्	२२४	ज्येष्ठता च निवर्तेत	३३०
चतुरोऽग्रान्हरोद्विम-	२६२	ज		ज्येष्ठसु जातो ज्येष्ठायात्	२५८
चतुरो ग्राहणस्याधाम्	४९	जगतश्च समुत्पत्तिम्	१५	ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च	२५६
चतुर्णामपि वर्णानाम्	४९	जटिल चानधीयानम्	६५	ज्येष्ठस्य विश्व उद्धारः	२५६
चतुर्णामपि चैतेषाम्	८४	जठमूकान्वयधिरात्	१७२	ज्येष्ठेन जातमात्रेण	२५५
चतुर्णामपि चैतेषाम्	२७३	जनन्या सरिप्रताया तु	२६७	ज्येष्ठो यधीयते भार्याम्	७४९
चतुर्थकालमश्रीयात्	३२०	जन्मज्येष्ठेन चाद्धानम्	२५८	ज्योतिषश्च विदुर्माणाम्	११
चतुर्थनाद्युपोऽपि	३०३	जन्मममृति यदिकथिय	१९६	झ	
चतुर्थमाद्युपो चागम्	८३	जपन्यान्वतम वेदम्	३१५	झडा मज्ञा नदोद्येव	२४६
चतुर्थे मासि कर्तव्यम्	२०	जपदोमैरपेलेन	३०१	झडो मज्ञश्च राजन्यात्	२८९
चतुर्थैरपि चैवैतेः	१५१	जपित्वा श्रीणि सविन्ध्याः	३३१	ञ	
चतुर्थैरेवम पुण्यं	३५७	जपोऽनुतो हुतो होमः	५६	ञिमाहहातातः च	१२९
चतुष्पात्मफलो धर्मः	११	जय्येनैव तु छिद्येत्	२७	ट	
चैत्रावापुः सहासिणि	१०	जरा चैवापतीकाराम्	३५१	तं वरु ष्टेष्टि संतोरात्	१५३
चराणामपमचराः	१२०	जराशोकतमाविष्टम्	१७९	तं राजा मलकगन्धक	१५५
चरितन्यमतो नित्यम्	२१३	गाह्वर्कं सत्यसंपन्नम्	१६१	तं हि स्वयम्भू उवादास्यत्	१३
चरुणां सुकृपवाणां च	१३२	जातिज्ञानपदाप्यमार्त्तम्	१९०	तं थय हि नयो सोनाः	४४
चर्मचार्मिकमाष्टेषु	२२३	जातिज्ञानकरं कर्म	३२२	तं वेदन्मुद्रियात्सुदं	३३
चाण्डालश्च वराहश्च	७७	जानिमानोपजीवी या	१८७	नद्यापनेदकं एष्यात्	३०८
चातुर्वर्ण्यं भयो लोकाः	३५६	जानो नार्थमनार्थयाम्	२९६	नद्यागमुत्पापानि	२१८
चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयम्	३७१	जातो निपादाः पूदायाम्	२८९	नन मद्रुनि नो मोरात्	२९७
चातुर्वर्ण्यं वा भीष्माद्या	३१९	जानबोन्तरतां लोके	१०६		
चात्रायणधियोर्वा	१४१	जानसो याति गेहानि	५४		

श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ
ततः स्वयम्भूर्भगवान् .	५	तमोऽथ तु समाश्रित्य	८	सुरीषो ब्रह्महत्याया	३०२
ततस्तथा स तिनोक्तः	९	त मतीत स्वधर्मेण	१०	सुखाभानं प्रतीमानम् .	३१९
ततो हुर्गं च राष्ट्रं च .	१५६	तयोनिस्त मिथ कुर्वीत	१००	शुणकाशुभुमाणां च	३२७
ततो मुकुवतां तेषाम्	१०८	तस्माद्विद्वान्निभियात्	१००	शुण्डलमल्लाना च	३३८
तस्याहंन विनीतेन	१०७	तस्मादेताः सदा पूज्या	५४	शृणानि भूमिरुदकम् .	३४८
तत्र मुक्त्वा पुनः किपित्	१०८	तस्माद्धर्मं सहायार्थम्	११४	ते चापि चाक्षान्मुषहृत्	३५०
तत्र यत्पीतिसुयुक्तम्	११४	तस्माद्धर्मं यामिष्टेयु	१५४	ते तमर्भमपृच्छन्त	३५०
तत्र यद्ब्रह्मज्ञान्मास्य	११७	तस्माद्यम इव त्यामी	१०८	तेन यद्यत्सुख्येन	१५७
तत्र ये भोजनीया स्युः	६२	तस्मिन्देये य आचार	१८	तेनाद्युभयता यामी	३४३
तत्र शिवतः प्रजाः सर्वा	१७१	तस्मिन्नण्डे स भगवाण्	२	ते पृष्टान्तु यथा ह्यु	२१९
तत्रात्मवृत्तैः काकृष्टै	१८३	तस्मिन्वपति सुरथे तु	८	ते पृष्टान्तु यथा ह्युः	२२०
तत्रापरिवृत्त धाम्पम्	२१७	तस्य कर्मविवेकार्थम्	१४	तेऽभ्यासात्कर्मणा तेषाम्	३५०
तत्रासीमः स्थितो वापि	१८५	तस्य भूत्वजन ह्यस्ता	३०८	तेभ्योऽभिगच्छेन्नियम्	१५७
तत्रासुहृत्सो हि कोकृत्य	२३२	तस्य मत्पे सुपथात्तम्	१६२	तेभ्यो लभ्येन भिक्षेण	३२२
तत्रासुहृत्सुगुणैः	२७०	तस्य सर्वाणि भूताणि	१५४	तेषां वेदविदो ब्रुव	३१७
तस्यादाशुभसपत्नम्	१६२	तस्य सौवर्हर्निशस्यन्ते	१०	तेषां सततमह्वानाम्	३११
तथा च हृतयो बह्वथ	२४४	तस्यार्थं सर्वभूतानाम्	१०४	तेषां स्व स्वमभिप्रायम्	१५९
तथा धरिर्मनेयानाम्	२२८	तस्याहुः क्षमगतारम्	१५५	तेषां भ्राम्याणि कार्याणि	१६८
तथा मित्त यतेयाताम्	२५५	सत्येद् विविचस्थापि	३४१	तेषां तु क्षमयेयानाम्	३३
तथा फलेन युज्येत .	१६९	ता विवर्जयतस्तस्य	८८	तेषां नयाणां शुभ्र्या	४४
तथैव सप्तमे भक्ते	३०७	साहमित्वा तृणेनापि	१०४	तेषां त्वययथास्तुहानाम्	३
तथैवाक्षेपिणो बीजान्	२४८	साहमित्वा तृणेनापि	३३२	तेषां दत्त्वा तु हस्त्रेषु .	७५
तदपञ्चममवर्द्धेयम्	२	ताम्प्रजापतिराहस्य	११२	तेषां क्षोणानिख्याप्य	१०६
तदप्यास्योद्भेदार्थम् ...	१६२	ताम्बिदित्वा सुचरिते	१०६	तेषां न दद्यादपि तु	२१०
तदप्य सर्ववर्णानां	३०९	ताम्सर्वाणामिषदत्त्वात्	१०४	तेषामनुपरोधेन	४५
तदप्यविश्रुति भूतामि	३	तापसा यतसो विद्या .	३५७	तेषामर्थं नियुञ्जीत	१६०
तद्दन्धमंतोऽर्धेषु	१५८	तापसेष्वेव विधेयु	१४२	तेषामाद्यशुणादानम्	१८५
तद्वि कुर्वन्मथाशक्ति	४२६	ता-या स नृकला-या च	२	तेषामारशुभृतु तु	७०
तद्वि सुगमदसान्तम्	१०	तामिषमन्धतामिषम्	९४	तेषामिदं तु क्षतानाम्	३
तन्नुयायो दशपलम् ...	२३८	तामिषादिषु चोमेयु	३५०	तेषामुदकभानीय	७३
त देशफालौ शक्ति च	१५४	ताम्रायःफोस्वरेत्वानाम्	१३१	तेषु तेषु तु हस्त्रेषु	२८१
तपः पर कृतयुगे	१२	तायुभायमनस्कार्मां	२२६	तेषु सम्बन्धु वर्तमान	१३५
तपस्यादित्ययचैव	१५३	तायुनी भूतसपृक्तौ	३४२	ते पोटश्च स्वाङ्गरणम्	२०३
तपसापुनःपुनःपुनः	३१९	तासां क्रमेण सर्वांशाम्	५५	ते सर्वां चित्तयेतिष्ठम्	१५५
तपसैव विद्वान्दस्य	३४०	तासां चेदयश्चानाम्	२१७	तेष्वानां सृणीना च	१३१
तपसप्याहृत्तद्य तु	५	तामामासाद्यतनस्यु	५२	तेषु तु जतौ परसेने	६५
तपोवीजमभवेत्तु	२२२	तिरस्कृत्योचरेत्काण्ड	८९	तेषां चर्म पदतस्तस्य	३४३
तपोमूलमिदं सर्वं	३३६	तिष्ठैर्वाहियैर्नोपैः	८०	स्वपेदाशुभयुजे नाक्षि	१४१
तपो याच रति पिय	४	तिष्ठन्तीत्युत्तिष्ठेयु	३०	श्रय परार्थे हिंसावन्ति .	२०८
तपो विद्या च निमस्य	३६६	तीक्ष्णयैव मृदुया स्यात्	१०१	नयाणामपि चैतेषां	३४४
तपोविधेयोर्विधि	३६६	तीरित चानुशिष्ट च	२७२	नयाणामपि चैतेषां ...	३४५
तप्तकृष्ण चरन्विम	३३४	तीरित चानुशिष्ट च	२७२	नयाणामप्युपायानाम्	१८१
तप्तया भद्ररूपेण	७				
तप्तसो लक्षण कामः ...	३४५				

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
द्वौ तु यो विवदेयाताम्	२६७	न कूटेरायुधैर्हन्यात् ...	१६४	न भोजनार्थे स्त्रे विम	६०
द्वौ दैवे पितृकार्ये वीर	६२	न क चान्न समश्रीयात्	१४१	न आतरो न पितर ..	२६६
द्वौ मातौ मत्स्यमासेन	८०	नरो नगरे वैकम् ...	१६८	न मासमक्षणे दोषः ..	१२४
ध,	-	नसौ शुष्क कपालेन ..	१९७	न माता न पिता न स्त्री	२३७
धन यो विजुषाद्भ्रातृ	२६१	न च वैश्यस्य काम स्वात्	२८५	न मित्रकारणाद्भावा ...	२३१
धनतनि तु यथाशक्ति	३०५	न च हन्यात्स्यकारुण्यम्	१६४	न मृष्टोष्ठ च मृद्धीयात्	९१
धनु शत परीहार	२१७	न चोत्पातनिमित्ताभ्याम्	१४६	न यज्ञार्थे धन शूद्रात्	३०८
धनु धराणा कर्ता च	६७	न ज्ञातु काम कामानात्	२८	नरको हि पतन्त्येति ..	३१०
धनुष्युर्ग महीदुर्गम् ...	१६१	न ज्ञातु ब्राह्मण हन्यात्	२३६	न राज्ञः प्रतिपृष्टीयात्	९६
धरणा नि द्रव्य हेयः	२०३	न स स्त्रेण न चामिनाः	१६३	न राज्ञामघदोषोऽस्ति	१२९
धर्म दाने सचिनुयात्	११३	न त्रभैतानि शक्यन्ते ...	२८	नर्क्षदृक्षनदीनार्त्ता	४७
धर्म एव हतो हन्ति	१८६	न सस्मिन्धारयैहपण्डम्	३०८	न लक्ष्मणैस्त्वतश्रीम्	८८
धर्मज्ञ च कृतज्ञ च	१८२	न तादृश मयजेनः ...	१२१	न लोकेवृत्त वर्तेत	८४
धर्मस्थनी सदा शुभ्यः	१०८	न तापवैश्रीद्विणीया	१४६	न वर्णवैदधाहानि ...	१२७
धर्मप्रधान पुत्रपत्	११४	न तिष्ठति तु य पूर्वा ...	२९	न वारपेक्षा धन्यन्तीम्	९०
धर्मस्य ब्राह्मणो मूलम् ..	३१६	न तेन धृद्धो भवति ...	३५	न वार्षिणि भयच्छेषु	१०७
धर्मार्थे येन दत्त स्वात्	२१३	न ते समममन्विच्छेत्	२९६	न विगर्ष कथा कुर्वात्	९२
धर्मोर्धो यत्र न स्वाताम्	३०	न त्वेषापी सोपकारे ...	२०४	न विम खेषु तिष्ठत्सु	१२०
धर्माशुभ्यते अथ	४३	न वरणा कल्पवित्कन्याम्	२५१	न विवादे न फलहे ..	१९८
धर्मोभनमधिष्ठाय	१८७	नदीशूल यथा वृक्ष ...	१४४	न विरुष्येत तपसा	११५
धर्मेण च द्रव्यवृद्धौ	२८६	नदीषु देवखातेषु ..	१०९	न वृष्या शपथ कुर्वीत्	१९९
धर्मेण व्यवहारेण ..	१९१	न द्रव्याणः शोषणाय	१०७	न वेदबलमाभित्य	३५४
धर्मैर्नाधिगतो वैश्व	३५५	न धर्मस्वापदेशेन	१०८	न भेषानार्थितामस्य	८६
धर्मैस्तपसु धर्मज्ञा	१०४	न निर्होर द्विव कुर्वु	२६८	न ये कन्या न सुवति	३१०
धर्मोपदेश दर्पण	२२१	न निष्कमधिसर्गाभ्याम्	२४७	न वैताम्ब्रातर्गणिवधात्	३०५
धर्मो विद्वत्सर्वमेण	१८६	न मृष्टेदधवा सायेत् ..	९१	न ये सद्य तदश्रीयात्	६०
धान्य ह वा भवलातु	३४८	न पाणिपादचपल ..	१०५	न शूद्राभ्ये निवसेत्	९०
धा यकृष्णमशुखेयम्	३१४	न पादौ धायसेत्कास्ये	९१	न शूद्राय भर्ति वृषात्	९३
धान्य दशम्य कुन्नेभ्यः	२२८	न पूर्वे शुरवे फिचिव	४६	न शूद्र पातक फिचिव	३०४
धान्या न धनचीर्षाणि	३२७	न पेटुपक्षियो वज्ञः ..	८२	न दयतीपुर्वमया विद्व	२४७
धायेऽहम मित्रा शुल्कम्	३०३	न फालकृष्टमश्रीयात् ..	१४१	न दयन्ति हव्यपात्र्यानि	५८
धृति क्षमा दमोऽस्त्रेयम्	१५१	न फालकृष्टे न जले ...	८८	न आद्रे भोजयेन्मिमम्	६४
ध्यानिक सर्वमेवेनत्	१५०	न ब्राह्मणस्रिययोः ...	४८	नष्ट विनष्ट कुमिभि	२१६
ध्यायत्वनिष्ट शर्तिकचिव	२४४	न ब्राह्मणोऽभेदयेत्	३०९	न सर्वेषु च पतिते ..	९३
धियमाने तु वितरि	१७	न ब्राह्मण परीक्षेत् ...	६५	न सहाभ्या पाणिभ्याम्	९३
ध्वजाह्वतो भक्तदासः ...	२४०	न ब्राह्मण वप्राङ्गुयात्	२३६	न सभाया परस्त्रीभिः	२३३
न		न ब्राह्मणस्य त्वतिथिः	६०	न सप्तयेषु गर्तेषु ..	८८
न कदाचिद्द्विषे तसात्	१०४	न बह्वयति यो मासम्	१२३	न छाडी वृपतिः कार्ये	१९३
न कन्यायाः पिता मित्रान्	५३	न मद्ययेदेकचरान् ..	११९	न सीदन्पि धर्मेण	१०४
न कश्चिदोपितः शुक्रः	२४२	न मुञ्जीतोद्धतजेहम् ..	९०	न सीदेत्सातको विमः	८७
न कुर्वीत धृथाषेटान् ...	९०	न भोजन्यो वरादाभिः	२०४	न मुस न पिशपाहम्	१६४
				न हकृदन्ते न ध्ययते ..	१६३

श्लोक	पृष्ठं	श्लोक	पृष्ठं	श्लोक	पृष्ठं
न खाननाचरेद्भुक्त्वा ...	१९९	नामधेयस्य ये केचित्	३१	निमेषा दश चासौ च	९
न स्त्रोश्यागिनोऽपिष्ट	१०१	नासुत्र हि सहस्रायम् ..	११३	नियुक्तसु यथान्यायम्	१२१
न खामिना निघण्डोऽपि	२३०	नासुध्वयघनमासम् ...	१६३	नियुक्तायामपि पुमान् ..	२६०
नृणां नैर्न परिते ...	३५	नार सृष्टारिष्य षष्ठेहम्	१२८	नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा	२५०
नृणां दण्डादते यव्य-	२७६	नास्नुदु स्वादातोऽपि	३६	निरस्य तु पुमान्भुक्तम्	१२५
न हीदशमनासुप्यम् ...	१००	नार्तो न यतो नोन्मत्त	१९३	निरादिष्टघनक्षेत्र	२०७
न होदिन विना चौरम्	२७७	नार्थसवन्विनो नाता .	१९३	विघतिं भूमिचक्षणे ...	९६
नाडूला प्राणिना हिंसां	१२३	नाविनीर्गमैर्भुजैः ...	९१	विदेशं ज्ञातिमरणम् ...	१२६
नाथे क्रीडित्कदापिष्ट	५२	नाविस्पष्टमपीपीत ...	९५	निर्मयं तु मधेद्यस्य ...	२७५
नाभे तु नैनोपधमेत् ...	८९	नाश्रान्ति पितरत्सस्य ..	११५	निर्लेपं काचय माण्डम्	१३१
नाश्रयन्दी स्वके नेत्रे ...	८८	नाश्रीयाद्भयियां चार्थम्	८८	निर्लेपं तास्य वाचकिं .	१६०
नासतापिषधे दोष .	२३२	नाश्रीयात्सधिबेलायाम्	८९	निर्वर्तेद्य तसाद्यु	३३०
नातिफल्य नातिसायम्	१००	नाश्रीयानियते यज्ञे ...	१०९	निपादको तु चण्डाला	२९२
नातिवावत्सरी बुद्धिम्	२०५	नास्ति क्वपि वेदनिन्दा च	१०३	निपादो नार्थय स्ते ...	२९१
नात्ता दुष्प्रत्यक्षनाद्याम्	१२०	नास्ति स्त्रीणा क्रिया मन्त्रे	२३३	निषेकादिश्मयानान्त ...	१८
नात्मानमयमन्यन्ते ...	१००	नास्ति स्त्रीणा घृमयज्ञः	१३७	निषेकादीनि कर्माणि ..	३३
नाथिवर्यम् कर्तव्या ..	१२५	नास्य कार्योऽग्निसंस्कारः	१२५	निघण्टवे च सत्यानि	२७३
नाददीत वृष षायु ...	२७३	नास्य किञ्च परो विद्यात्	१६६	नीचं शय्यासनं चास्य ...	३०
नाद्याच्छूद्रम्य पक्वाधम्	१११	नास्यमापातयेज्यासु ...	७५	नीहारे क्षणशब्दे च ...	९३
नाद्यादविधिना मासम्	१२१	निक्षिप्तस्य घनसैवम् ..	२११	शूणामकृतपूजानाम् ..	१२५
नाधर्मभरिणो लोके ...	१०३	निक्षेपस्यापहरणम् ...	३१३	नेलेतोघन्तमादित्यम् ...	८७
नाधार्मिके वषेद्धाने ...	९७	निक्षेपस्यामहर्नारम् ...	२११	नेष्टेयार्थान्यसङ्गेन ...	८३
नाधीयीत दमयानान्ते	९७	निक्षेपेऽप्येव सवेपु ...	२१०	नेऽभेयसनिदं कर्म ...	२५३
नाधीयीताश्चमात्स्यः ...	९८	निक्षेपोपनिषी नित्यम्	२१०	नैकं स्वय्याच्छूद्रमेहे ...	९०
नाध्यधीनो न वक्तव्य	१९३	निक्षेपो य कृतो येन ...	२११	नैकप्राणीणमतिथिम् ...	५९
नाध्यत्यनाद्याननाद्या	३०१	निशुभं दापयेथैवम् ...	२१३	नैता रूपं परीक्षन्ते ...	२३३
नाधिष्ठा नवसत्येष्टया ...	८६	निश्रमं प्रकृतीना च ...	१७७	नैतैरसूतैर्विधिवत् . .	२१
नासुशुभं जालेतत् ...	२५५	निश्रमेण हि यापानाम्	२२७	नेत्येके नाप्यनव्याय ...	२९
नाशनघादेकवासः .	८८	नित्यं शुद्धं कालहस्त	१३३	नैव चारणदारिणु ..	२३०
नान्यदन्वये सद्युष्ट	२१२	नित्यं क्रात्वा शुचिः कुर्या	३८	नेषिचन्यादात्मनो मूले	१७१
नान्यमितिचधवा नारी	२५०	नित्यं तसिन्धनाशक्त	१६०	नेषिचष्टं कर्मविद्ययात्	२३
नान्योत्पना भवालीह	१३८	नित्यमास्य शुचि स्त्रीणा	१३३	नेषिचष्टं कुर्वन्ते सुत्या	१६५
नारुष्ट- कस्याचिद्भूयात्	३०	नित्यमुद्धतमाणि स्यात्	३९	नेत्यादयेत्स्य कार्यम्	१९०
नासु मृतं पुरीष वा ...	९०	नित्यमुद्धतदण्डः स्यात्	१६६	नेदाहरेदन्म नाम ...	३०
नासन्नं क्षम्यतेति ...	२८३	नित्यमुद्धतदण्डस्य ...	१६६	नेदाहरेत्कपिना कन्याम्	३३
नास्राक्षणे उरौ शिष्य	३५	नित्यमुद्धतदण्डस्य एव स्यात्	९६	नेन्मत्ताया न कुटिन्या	२१२
नासिनन्देत मरणम् .	१३५	निशीर्षो तु पुराणानाम्	१८९	नेपम"उत्पन्नतोऽपि ..	८८
नागिन्याहारयेद्भक्ष ...	३३	निन्दितेभ्यो भनादानम्	३१५	नेष्टाहिकपु मनेपु	२५०
नामजातिप्रदं लैयाम् ...	२२१	निन्दारत्नस्य चान्यासु	५३	न्युन्य पिण्डांलनत्सासु	७३
नामधेयं द्यन्या तु . .	२०	निन्दितो द्विव पिण्डे	७०		
		निन्दितोऽपि पितर . .	७०		
		निक्षेपस्यापहर्तारं ...	३०२		

श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ
प		परिवितिः परिवेष्टा ...	६८	पित्रा मश्रां हुतैर्वापि ...	१३६
पश्चिमं च गवात्रातम् ...	१३३	परिविस्ततापुत्रेऽनुदे ...	६१३	पित्रा विवदमानश्च .	६६
पश्वं पश्ववृत्ते हन्ति ...	१९८	परीक्षिता खिपञ्चैनम्	१८३	पिते न दद्यात्पुत्रकं तु	२५४
पश्वभ्य एव मायाभ्यः	३४३	परीयादात्सरो भवति ..	४०	विष्णु वा भजते शीलम्	२५५
पश्वरादे पश्वराते ...	२३९	परेण तु दद्यात्स्य ..	७१५	विष्णे रात्र्यधनी भाव	१६
पश्वं सूना गृह्णत्यस्य ..	५५	पल्लु सुवर्णाश्चत्वार	२०३	विष्णे स्वदितमित्येव .	७८
पश्वाना तु त्रयो धर्म्याः	५०	पश्वश्च मृगाश्चैव	७	विश्वानु पौतिनासिकयम्	३१७
पश्वाना त्रिषु क्लेषु ..	३३	पशुमण्डूकानां च	९९	विश्वानावृत्तिनोऽप्यन्नम्	११०
पश्याशङ्कादणो दण्ड्य	३२१	पशुपु स्वामिना चैव	२१६	पौतनानि च सर्वानि	२८१
पश्याशतस्त्वभ्यधिक ...	२२८	पशूना रक्षण दानम्	१२	पुण्यान्व्यानि कुर्वीत .	३१०
पश्याशङ्का भादिभः ...	१६९	पांडुवर्षे दिशा दाहि	९७	पुत्र कनिष्ठोऽप्येष्टायाम्	२५७
पशैतान्यो महापुङ्गवम्	५५	पांडीनरोहितावाद्यौ	११९	पुत्र मस्यदितं चक्षि	७४७
पशुं नान तरे दाप्यम्	२३९	पाणिमहणसस्कारः ..	५२	पुत्रात्प्रादंशु पात्राह .	२६८
पशुनां द्वे श्रुते सार्धे .	२०३	पाणिमहणिका मन्त्राः .	२१५	पुत्रा येऽनन्तराऽप्यजा	२८८
पशो देवोऽनकृष्टस्य .	१६९	पाणिमहणिका मन्त्राः ..	२१५	पुत्रिकाया कृतायां तु	२५९
पतिं वा नाभिचरति	१६८	पाणिप्राहस्य साध्वी छी	१३७	पुत्रेण लोकाञ्जयति .	७६०
पतिं वा नाभिचरति	२४५	पाणिन्या तृपसपूत्र	७५	पुनाति पतिं वर्यांश्च .	१४
पतिं हिल्वापकृष्टं स्वम्	१३८	पाणिमुद्यम्य दण्डं वा	२२२	पुनाद्भौ नरकाद्यन्तः .	७६७
पतितस्त्रोदकं कार्यम्	३२९	पापस्य हि विशेषेण	१६३	पुनाद्यं दाहयेत्तापम् ..	२३५
पतिभार्या समविश्य	३४३	पादोऽनर्जस्य कर्तारम्	१८७	पुनान्पुत्रोऽधिकं शुक्रे ..	५६
पतिभ्रता धर्मपत्नी ...	७९	पापं हुर्जनससर्गं ..	२४३	पुराणं नामधो धर्मः	३५५
पत्नी जीवति धर्मं शोभि	२६८	पापमन्त्रा खिपञ्चैव	१५८	पुरयस्य खिपञ्चैव ...	२४१
पत्रश्याकतृणाना च	१७७	पापपञ्चमवृत्तं चैव	३४५	पुरुषाणा कुलीनानाम्	२२८
पथि श्रेते परिवृत्ते	२१७	पाप्यमाह च समेह्य ..	१८२	पुरोहितं च कुर्वीत ..	१६२
पथ विवेचिराज वा	३२३	पापपञ्चमाभिताना च	१८२	पुर्यम्पुत्रकलेर्वापि ..	१४१
परकीयपिपात्रेषु .	१०८	पापपिठनो विकर्मस्थान्	८६	पुर्येषु हरिते धान्ये ..	२२९
परदारानिर्जेषु ...	२३२	पिण्डविधेयण केचित्	७९	पुर्येषु तु छद्वा क्रुयात्	९७
परदारेषु ज्ञापिते ...	६८	पिण्डेभ्यस्त्वल्पिका मात्रा	७४	पुत्रयेदशानु नित्यम् ..	२३
परद्रव्येष्वभिष्वानम् ...	३४१	पिताचार्यं शुद्धन्माता	२३०	पुत्रितं ब्रह्मण नित्यम्	२३
परपत्नीति या स्त्री स्यात्	३२	पितामहो वा तच्छ्राद्धम्	७४	पुत्र चिकित्सकस्याजम्	१११
परन यत्नमातिष्ठेत्	२२५	पिता यस्य निवृत्तं स्यात्	७४	पूर्वां सन्ध्यां जपतिष्ठेत्	७२
परश्रियं योऽभिषदेत्	२३३	पिता यस्य निवृत्तं स्यात्	७४	पूर्वां सन्ध्यां जपतिष्ठेत्	७२
परस्परविकृद्धानाम् ..	१७२	पिता रक्षति कौमारि .	२४२	पूर्वेषु परेषुवा . . .	३३
परस्य दण्डं नोऽप्येष्टेत्	१०३	पिता वै गार्हपत्योऽग्निः	४३	पुत्रकृश्यात्वा मिश्रो वा	५०
परस्य पत्न्या पुरय .	२३२	पितृर्नगिन्या मातृश्च ..	३२	पुत्रस्तु विनयाद्वायम्	१५७
पराद्भुत्सस्यामिष्टस्य .	४०	पितृदेवमनुष्याणाम् ..	३५३	पुत्रोऽपीमा श्रुतिवीम्	२४७
परामन्यापदं मास	३८३	पितृमित्रांस्तुमिष्टैता	५३	पुत्रोऽप्यव्ययमानस्तु	१९२
परिष्ठादेर्भकार्मी .	१०५	पितृयश्च तु निर्बल	६२	पुत्रस्तु स्वदितमित्येव ...	७८
परिष्ठापु धान्येषु ...	२२९	पितृयश्चमनि कन्या तु	२६४	पुत्रस्तु शरीरस्य ...	२२५
परिष्ठापु यथा चन्द्रम्	२८२	पितृया नासिकं भाद्रम्	६२	पुत्रवास्तुनि कुर्वीत .	५८
		पितृयश्च मालयेत्पुत्राम्	२५६	पुत्रकं तु पिता इष्टयम्	१६६
				पुत्रोऽप्यसौमि भगिनीम्	३२८

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
पैशुन्यं चाहं न द्रोह	१५८	माह् नागिष्वर्धनात्पुत्र-	३०	बहवो दिनयात्राः	१५७
पोषकाभौभूद्रविडा	२९३	माचीनावीतिना सम्यक्	८१	बहुत्वं परिग्रहीयात्	१९४
पौनर्दीहिनचोर्लोकै	२५९	मालकक्षेत्रवेदात्	२७४	बहून्परिगणायोर्यात्	४४७
पौनर्दीहिनचोर्लोकै	२६०	मालापलनदत्त्वाभ्याम्	३१०	बाह् समानजन्मा वा	४१
पुत्रवर्ती स सरक्षातिम्	१०७	मालापलना निरुच्येष्टिम्	१४४	बालप्राक् कृतप्राक्	२३१
पौष्यस्याषाढचिन्ता	३४३	मार्त्तं कुलीन शूद्र च	१८२	बालदावादिक् रिषधम्	१८८
प्रकल्पया तस्य तैर्दृष्टि	३०३	माणस्यान्ननिर्दं सर्वम्	१२०	बाल्या वा युवत्या वा	१९६
प्रकाशमेतत्तत्कार्यम्	२७७	माणायामा माह्नगस्य	१४८	बालवृद्धात्पराणा च	१९४
प्रकाशवधकास्तेषाम्	२७६	माणायामेर्देहेदोषाम्	१४८	बालातप मेनधूमः	९१
प्रक्षाल्य द्वावाचन्य	८०	माणि वा यदि साऽभाणि	९७	बाले देशान्तरभ्ये च	१२७
प्रच्छन्न धा प्रकाश वा	२०२	मातिभाष्य वृथादानम्	२०६	बालोऽपि नावमन्तस्य	१७२
प्रजनार्थं महानागाः	२४५	मातिवेद्यानुवेदयो च	२४७	बाह्ये पितृव्यो लिष्टिम्	१२६
प्रजनार्थं क्षिय सृष्टाः	२५४	माहुष्कृतेष्वपिपु पु	९६	बाह्यैर्विवादेवहिन्दै	१८८
प्रजाना रक्षणं दानम्	१२	मायश्चित्तं तु कुर्वाणा	२७३	बिडालकाकावृष्टिष्टम्	३२६
प्रजापतिरिदं शास्त्रम्	३३७	मायश्चित्तं चिन्तार्पन्ति	३२१	विपत्तिं मयमृताणि	२५३
प्रजापतिर्हि वैदवाय	२८५	मायश्चित्तीयता प्राप्य	३१७	वीजमेके मयासन्ति	२९६
प्रणष्टस्वामिक रिषधम्	१८८	मायश्चित्ते तु ऋग्ति	३३०	वीमस्य चिन योन्माध	२७६
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यम्	१८९	मायोनाम तप प्रोक्त	३१७	वीजानासृष्टिविष न्यात्	२८७
प्रस्तापयुक्तेजसो	२८३	मियेषु क्षेपु मुकुलम्	१२९	बुद्धिबुद्धिकराण्याश्च	८६
प्रतिफलं वर्तमाना	२९९	मेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि	१२४	बुद्धीन्द्रियाणि पथैषाम्	२७
प्रतिगृह्य द्विजो विद्वाद्	९६	मेने राजनि संयोनि	१२७	उक्ता च सन् तत्त्वेन	१६१
प्रतिगृह्यामतिप्रादम्	३३९	मेत्सेह चेटया विमा	१०८	मदप्रो ये स्मृता लोके	१९६
प्रतिगृह्येष्ठित दण्डम्	२३	मेयो त्रामस्य राहक्ष	६६	ऋक्षारो गुरुस्थश्च	१५०
प्रतिमहत्समर्थोऽपि	१०६	मोक्षणात्पुणकाष्टं च	१३७	मदवाची तु योऽभीयात्	३२६
प्रतिमहाहालनाडा	३०१	मोक्षितं मध्येन्मामम्	१२०	मदण मणव कुर्यात्	२७
प्रतिपातेऽनुवाते च	४१	मोक्षितो धर्मकार्थार्थम्	२७१	मद यत्स्वननुहितम्	३०
प्रतिश्रवणसभाये	४०			मदयत्सैस्वकामस्य	२१
प्रतिषिद्धापि वेद्या तु	२५२			मदरत्वा सुरापानम्	३१३
प्रतुदाडात्पादाश्च	११८			मदरात् च सुरापक्ष	२७३
प्रत्यक्षं श्वातुता च	३५४			मदरात् श्लोभसमा	३१५
प्रत्यक्षं प्रतिमूर्त्यं च	८९			मदरमेऽवसति च	३५
प्रत्यक्षं देहदेह्य	१८५			मदा विश्वस्यो धर्मः	३४७
प्रतिभता मेतकृत्यया	६२			मदोऽग्राहा वेदिनिन्दा	३१३
प्रमु मथमकल्पस्य	३०६			मदण मयवेदेव	३१७
प्रमाणानि च जुवीत	१८१			मदण सविधो मियः	२८७
प्रविश्य सर्वमृतानि	२८२			मदणः धनिनो वापि	३०३
प्रवृत्तं धर्मं ससेव्य	३५२			मदणस्यधिमियिगम्	२८२
प्रयासितार सर्वेषाम्	३५६			मदणस्यधिमियिगम् तु	२४२
प्रसाधनोपचारम्	२९१			मदणं बुद्धं पूजयेत्	३२
प्रार्थयेद्बलं व्यूष	१८०			मदणं दद्यात्पुं तु	३३
प्रापारस्य च भेत्तारम्	२८०				
प्राप्त्याप्युपासीना	३५				
		फ			
		फलं फलकवृक्षस्य	१४८		
		फलं त्वनभिचयाय	२४८		
		फलदाना तु वृक्षाणाम्	२३४		
		फलमूलाग्नेर्मय्यै	१२३		
		घ			
		घकं चैव धराता च	११८		
		घकश्चिन्त्येदध्याम्	१६६		
		घको मयनि हृत्वापिम्	२४९		
		घण्यतानि च सध्यानि	२८०		
		घण्टमिया त्र्योर्गंध	३७५		
		घण्टुहिं पुरोऽगना	१२०		
		घण्टस्य स्थानिनैव	१०६		
		घण्टार्थं बहून्कम्	२८८		

श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ
श्राद्धे भिक्षुकं वापि ... ७७		मर्तुं पुत्र विगानन्ति .. २४५		मत्तकृद्भ्रूराणां च .. १०९	
श्राद्धात् सुप्रासव .. ३२५		मर्तुं शरीरशुभ्रूपात् २५३		मत्तोन्मत्तात्पर्यधीनिः २०७	
श्राद्धात्स्वन्नधीमात् .. ६८		भाण्डपूर्णादि यानानि .. २३९		मत्स्यघातो निपादानाम् २६३	
श्राद्धास्य चतुःपदि .. २३०		भार्या पुत्रश्च दासश्च .. २२५		मत्स्याना पक्षिणा चैव .. ३३०	
श्राद्धास्य तपो ज्ञानम् ३२६		भार्या पुत्रश्च दासश्च २३०		मद्यया साधुदत्ता च ... २५१	
श्राद्धास्य रत्नकृत्या .. ३१४		भार्यायै पूर्वमारिण्ये १३८		मद्यैर्मुदे पुरीषिर्वा ... १३३	
श्राद्धास्य सुपुण्येण ... २६१		विधामच्युत्पान वा . ५८		मद्युपेकं च यज्ञे च १२२	
श्राद्धास्यैव कर्मनत् . ३९		भिक्षुका घन्दिनक्षौच ... २३३		मध्यदिनेऽर्घरात्रे वा . १०२	
श्राद्धास्य न हर्तव्यम् .. ३०७		मिन्दन्त्यवमता मनम् १७२		मध्यदिनेऽर्घरात्रे वा .. ९९	
श्राद्धाग्राहकन्यायात् .. २८८		मिन्धास्यैव तढागानि . १८०		मध्यमस्य मन्वारं च १७४	
श्राद्धाग्राहकन्यायात् २८७		मुक्तवारस्य विप्रसु .. ६१		मनस्वीनु दिव्य भोगे ३५६	
श्राद्धाग्राह्यसुपाधीन ... १५७		मुक्तवात्पिदरेषैव १८४		मनं वृष्टिं विक्रुते . १०	
श्राद्धनामाधमान तु ... २७४		मुक्तत्वातोऽन्यतमस्याम् १११		मनुमेकान्तमासीनं १	
श्राद्धनाम भद्रोपनिष्याः २९७		भूतानां माणिक्यं भेष्टा १३		मनुष्यमारणे क्षितम् .. २२४	
श्राद्धाग्राह्यस्यैव ... १०४		भूमावत्येककेदारे . २४६		मनुष्याणां तु हरणे ३२७	
श्राद्धार्थं वार्षिकं वा ... ३१६		भूमिदो भूमिमाप्नोति ... ११२		मनुष्याणां यज्ञानां च .. २२३	
श्राद्धार्थं मरार्थं वा ... २९५		भूसौ विपरिवर्तत .. १४२		मनुःस्नायनस्यो देव .. ३५७	
श्राद्धनीं यद्युक्ता तु २३५		भूतकाभ्यापको यश्च ... ६६		मनोहिष्याभ्यांस्व ... ७१	
श्राद्धेणु च विद्राघ . १३		भूतो नातो न कुषांघ २१४		मन्त्रतस्तु समुद्धानि . ५५१	
श्राद्धो जायमानो हि १३		भूत्वानामुपरीधेन ३०६		मन्त्रे श्राकलहोमीनि ३३९	
श्राद्धो वैवपालासौ ... २२		भूत्वानां च मृतिं विघात २८६		मन्यन्ते ये पापकृताः .. १९६	
श्राद्धं वैवपारणां चर्षं . २६७		भिक्षेण वतयेतिव्यम् ... ३९		मन्वेतारिं यदा राजा १७७	
श्राद्धं मतिनं सप्तरात् १५२		भोऽप्य कर्तयेदन्ते .. ३१		मन्वन्तराण्यसह्यानि ११	
श्राद्धस्य चमनं कर्त्तुं ... ३४		भोजनान्म्यजनादानात् २९९		मनायमिति यो भूयात् १८९	
श्राद्धस्य तु क्षपाहस्य .. ९		भ्रातृर्ष्येष्ठस्य भार्या वा २४९		मनिदमिति यो भूयात् . १८८	
श्राद्धादिषु विवरेषु ... ४१		भ्रातृभार्योपसमासा .. ३२		मरीचिमभ्यङ्गिरसौ .. ६	
श्राद्धेन मिमर्षिता .. २३		भ्रातृर्ष्येण्यस्य भार्यात्वात् . ६८		मरुज्य इति तु द्वारे ... ५७	
श्राद्धं सुहृतेः सुप्येत .. ९४		भ्रातृभूमिकलातानाम् २६५		मरुपिपिटुदेयानाम् .. १६६	
श्राद्धो देवस्यैवार्थं .. ४९		भ्रातृणां यस्तु नेहेत . २६९		मरुपिभिश्च देवैश्च . १९९	
श्राद्धीति श्राद्धात् सुप्येत १९६		भ्रातृणानपिमक्त्तानाम् २७०		महान्तमेव चालानम् ३	
श्राद्धं सुप्येत न हृष्यात् १९२		श्रावरी गन्धमाली च ६७		महान्तपिपि सभृद्धानि ५६	
		भ्रातृभार्योपसिक्तं चैव ११०		महापद्मना हरणे .. २९४	
				महापद्मकससुकम् . ३३९	
				महापद्मकिन्मक्षौच ... ३३७	
				महापद्माद्भिर्होनाः .. ३३५	
				मानं यज्ञो यथा महु ३४९	
				ज्ञात्वाभयमिच्छन्तु . १२४	
				मानर वा मन्वारं वा ... २७	
				मानर विनर पायम् .. २२२	
				मानां पितृ वा दद्यात् ३६६	
				मानां पितृभ्यां शान्तिं १०६	

भ

म.

मह्यमोष्यान्देश ... २७७
 मह्यमोष्यान्देशे .. ३३७
 मह्यं मोष्यं च विवेषम् ७५
 मह्यं चपयानाम् .. १
 मह्यं चपयानाम् .. १००
 मह्यं चपयानाम् .. ३०१
 मह्यं चपयानाम् .. २७
 मह्यं चपयानाम् तु ... २३४

मक्षिका त्रिमुषरहाया .. १३४
 मङ्गलाचारसुक्तं स्यात् १०१
 मङ्गलाचारसुक्तानाम् . १०१
 मङ्गलार्थं एतद्व्ययनम् १२६
 मङ्गलस्य मङ्गलस्य स्यात् १३६
 मङ्गलस्य मङ्गलस्य २८७
 मङ्गलस्य मङ्गलस्य ३२७
 मङ्गलस्य मङ्गलस्य ३४८

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
मातापितृभ्यामुत्सृष्टम् ...	७६३	य		यत्कारणमभ्यक्तम् ...	३
मातापितृविहीनो वः	२६५	यं प्राक्षणस्तु द्वात्रिंशत्	३७१	यश्च तु वसमायुक्तम् ...	१३३
मातामह मातुल वः ...	६५	य वदन्ति तमोयुताः	३५६	यश्च वागिनिके दत्तम् .	६९
पितृन्तु मौनके यत्स्यात्	२७९	य कश्चित्कल्पचिद्धर्म .	१७	यश्च स्वाम्नीहस्तयुक्तम् ..	१३३
मौन प्रथमतः पिण्डम्	२६०	यः विद्वो मर्यादत्वात् .	२२७	यत्प्रस्थाः स्याद्भन विद्यम्	२६८
मातृभ्रमेऽभिजननम् .	३७	य सगतानि क्रूरते .	६४	एतेन मोक्षयेच्छास्त्रे ...	६५
मातुलाद्य पितृव्याऽद्य	३२	य साधयन्त छन्देन .	२०९	यत्सुष्यफलमामोति . .	५८
मातृपुत्रा मातुलानी ..	३२	यः स्वयं साधयेदर्शनम्	१९१	यत्प्राग्द्विद्विद्याहस्तम् ...	११
भाषा सखा दुहित्रा वा	३२	यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दम्	२०	यत्र दवेते परिश्रयत् .	२९५
भानस मन्त्रेवायम् .	३३१	य स्वामिनामनुष्ठातव .	२०५	यत्र धर्मो ह्यधर्मेण . .	१८६
भाणशीर्षं शुभे भाषि ..	१७८	य भ्रातृगोत्रवितम् . .	३३	यत्र नार्यस्तु पूर्यन्ते ...	५३
भार्येण यत्र पात्राणाम् . .	१३५	य एते तु गणा सुख्या .	७२	यत्र सर्वयते राधा . .	२७४
भार्जारनकुली हत्वा ..	३२३	य एतेऽन्ये स्वभोग्याश्च	१११	यत्र श्यामो लोहिताद्य	१५५
मारुत पुच्छत व . .	३२१	य एतेऽनिहिता पुत्रा	२६५	यवानिवहोऽपीषेत .	१९५
साक्षिकां तु योऽश्रीयात्	३२६	यश्चरश्च पिशाचाद्य .	६	यथायवतेतु सुगम्	२३३
मियो दामः कृनो येन	२११	यश्चरश्चपिशाचाद्यम् ...	३१८	यत्सर्वेण्येच्छति ज्ञानम् ..	३३५
सुखवाहू रूपजानाम्	२९३	यस्मी च यशुपालव्य . .	६६	ययत्तुलिङ्गान्युत्तव . .	५
सुखालाने तु कर्तव्या .	२१	यथास्य द्रुकृतं किंचित्	१६५	यथाकथंचित्पिण्डानाम्	३३३
सुपेडो वा जटिलो वा स्यात्	३३	यजेत राधा कश्चिः . .	१६२	यथा काष्ठमयो हस्ती ...	३५
सुप्यजानि पयः सोम ...	७२	यजेत वाश्वनेधेन .	३१५	यथा सनन्धनिशेण .	३२
सुप्यसैपिधैर्मध्ये ...	१३९	यज्ञयेत्यतिरुद्ध स्यात् . .	३०६	यथा गोऽश्वोऽपवासीषु .	२४८
सूत्रोचारसमुत्सर्गम् . .	८९	यज्ञाय जतिधर्मसत्य . .	१२१	यथा वैवाचर पक्ष ...	८१
सूत्रयाद्या दिवास्वम . .	१५८	यज्ञार्थं प्राज्ञैर्वध्या . .	११९	यथा छातवली षड्विः ...	३५३
सूत्र क्षरीरमुत्सृज्य ...	११४	यज्ञार्थे पश्य सृष्टा . .	१२२	यथा यवाणा वर्णानाम्	२९०
सूत्रयज्ञभुक्तु नारीषु . .	२९१	यज्ञार्थमर्थं मिक्षित्वा	३०८	यथा हुणोभित्तानेताम् ...	१६२
सूत्रे भर्तृरि स्यामी ह्री .	१३७	यज्ञे तु वितते सन्त्यह .	५०	यथा नदीनदाः सर्वे ...	१५१
सूत्रोचै शुभ्यते शोष्यम्	१३१	यज्ञोऽनूतेन क्षरति . .	११६	यथा नमस्तृषपात् . .	१९०
सूत्र ग देवत विमर्द् .	८८	यज्ञान क्षपयो देवा	३३७	यथा ध्रुवेनोपलेन . .	१०३
सूत्रमन्त्रि वै चोपपत्तिम्	१११	यतश्च भयमायज्ञेय	१७९	यथा महाहृद प्राय . .	३३०
सूत्रमन्त्रमिन् दण्डम् .	२४	यतामनोऽममत्तव .	३३३	यथा यथा नरोऽधर्मम् .	३३५
सूत्र प्रसाधन कानम् . .	१०२	यत्कारोलेकरागेण . .	३२९	यथा यथा निशेयन्ते .	३५०
सूत्राह्नमौक्तिका प्रेताः	३५०	यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्	१०३	यथा यथा मनुकस्य ...	३३६
सूत्रेयवक्तु वैदेर	२९१	यत्कर्म दृष्ट्वा कुर्वन्	३३५	यथा यथा हि पुण्य ...	८५
सूत्रेयुन तु समस्येव . .	३२८	यत्किंचित्प्रितरि प्रेते ...	२६८	यथा यथा हि सङ्घत्तम् .	३०४
सूत्रेयद्रामा न्वराष्ट्र य .	१६७	यत्किंचित्प्रेहयुक्तम् ...	१२०	यथा यन मियज्येभ्यो ...	३८२
सूत्रेयी विद्वत्समा श्रुत्या	२१	यत्किंचिदपि दत्तव्यम्	११२	यथाईमेताऽन्यथ . . .	२३७
सूत्रेयव्यवृत्तमा श्रुत्या	२१	यत्किंचिदपि वर्षस्य .	१७०	यथात्वात्पमदन्त्याद्यम्	१६९
सूत्रेयव्यवृत्तमा श्रुत्या	२१	यत्किंचिदपि कुर्वन्ति ...	३३७	यथा वायु सगाक्षित	५६
सूत्रेयव्यवृत्तमा श्रुत्या	२१	यत्किंचिदपि वर्णानि . .	२०५	यथाविषयविषयानाम् ...	२५०
सूत्रेयव्यवृत्तमा श्रुत्या	२१	यत्किंचिदपि मित्रम्	८१		

श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ
यादृश फलमाप्नोति ..	२६३	येनास्य पितरो याता ...	१०५	योऽनमन्येत ते मूले ..	१७
यादृशा घनिभिः कार्या-	१९३	ये नियुक्तास्तु कार्येषु ..	२७२	यो वैश्यः स्याद्ब्रह्मपुत्रः	१०६
यादृशेन तु मावेन ...	३५१	ये पठन्ति द्विजा केचित् ३५७		योऽस्यशुभ्योऽर्थमादाय	३०७
यादृशोऽस्य भवेदात्मा	११५	ये पाकयज्ञाभ्रत्वार ..	२७	योऽज्ञावतीन्द्रियमाह	२
यादृश्यास्रनान्मस्य ...	१०९	ये वक्रगतिनो विप्राः ..	१०८	योऽस्यात्मन कारयिता	३४२
यानशय्यामदो भार्याम् .	११३	ये शूद्रादधिगम्यार्मन् .	३११	योऽहिंसकानि भूतानि ...	१२३
यानस्य वैव धातुर्ध्व .	२२४	येषा ज्यैष्ठ कनिष्ठो वा .	२६९	यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे ...	९३
यानि वैवंशकाराणि ...	२१९	येषा तु मादृशं कर्म ...	६		
या निवृत्तान्मत् पुत्रम्	२६१	येषा द्विजाना चाथिवी ...	३३१	र	
यानि राजप्रदेयानि .	१६८	ये स्तेनपतितछोषा ..	६५	रक्षयादार्यवृत्तानाम् ...	२७५
यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति ...	२८३	ये कर्मणि प्रचरिते ...	३००	रक्षन्मरणं भूतानि ..	२२६
या पत्न्या वा परिल्लक्ता	२६४	ये कृत सर्वनश्योऽग्निः	२८३	रक्षसाभिभूता नारीन् ...	८८
यानीस्ता यातनाः प्राप्य	३४३	यैरभ्युपायैरेनाधि ...	३६३	रथ हरेत माध्वर्युं ..	२१३
या रोगिणी स्याद्य हित्वा	२५२	यैर्यैल्याथैर्यं स्त्रम् ...	१९१	रथाम् हृत्तिन छत्रम् ...	१६५
यावत् सस्पृशेदङ्गैः ...	६९	योऽकामा दूषयेत्कन्याम्	२३३	रथा रथैर्निमतस्याम्	२९९
यावतो प्रसते आघात् ...	६३	योगाघमनविप्रीतम् . .	२०७	राजकर्मसु युक्तानाम् ...	१६९
यावतो धान्धवान्यसिग्	१९७	यो ग्रामदेशशुभानाम् . .	२१४	राजतेर्नाल्पवैरीयाम् . .	७२
यावन्नपत्ने जीवेयुः . .	४१	यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यात्	२५६	राजतो धनमन्विच्छेत् ..	८७
यावदुष्ण भवत्यजम् ...	७६	यो ज्येष्ठो विनिर्कुर्वति .	२७०	राजधर्माग्नवध्यानि .	१५२
यावदेकाशुदिष्टस्य ...	९७	योऽद्वादायिनो ह्यहात्	२३०	राजनि कृतदण्डहात् ..	२२७
यावन्ति यशुरोनाणि ...	१२१	यो द्रवा सर्वमृतेभ्य .	१४४	राजनिर्विषकालतक्यस्त्र . .	६१
यावन्नपैल्येनध्याक्तात् . .	१३३	योऽधीतऽहन्महन्धेताम्	२६	राजा कर्मसु युक्तानाम् . .	१६९
यावानयम्यस्य ध्वे . .	२७५	योऽनधीत्य द्विजो घेदात्	३७	राजा च श्रोयिष्यध्वे ...	६१
या वेदवादा स्मृतय . .	२५३	यो न वैश्वभियादस्य ..	३२	राजान- क्षत्रियाक्षिव ...	३४६
या वेदविहिता हिंसा .	१२२	योऽनाहिताभि शतयुः .	३०७	राजान् तैज आदत्ते ...	१११
यासा नाद्वते शुक्लम् .	५३	यो निक्षेप याच्यमान . .	२०९	राजान् भवक्षनेनास्तु ...	१८७
यासासा स्तुर्द्विहर-	२६७	यो निक्षेप नार्पयति .	२११	राजा स्तेनेन गन्तव्य . .	२२७
युक्तं कुर्वन्दिनशेषे	८१	योऽन्यथा सन्तमानानम्	११६	राह कोपापहर्तृश्च ...	२७८
युगपद्य मलीचनैः ..	८	यो बन्धनवधेच्छानम् .	१२२	राह मर्यातमागृह्यानि ..	२३८
युग्माह पुत्रा जायन्ते ...	५७	यो यथा निक्षिपेद्दत्ते .	२०९	राहश्च दशरुद्धारम् . .	१६५
ये कार्षिकेभ्योऽर्धमेव .	१६९	यो यद्वैषा शुभो देहे .	३४४	राहो महात्मिके स्थाने ...	१२९
येऽक्षेत्रिणो योजवतः	२४८	यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य ..	४९	राहो हि रथाधिकृताः	१६९
ये तत्र नोपसर्षेयुः ..	२७७	यो यस्य प्रतिशुक्तिष्ठेत् .	२०६	राक्षिर्निर्मासतुस्यानिः . .	१२५
ये द्विजानामपसदा ...	२९३	यो यस्य मांसमश्नाति .	११८	रात्रौ आह न कुर्वति ...	८२
येन केनचिदग्नेन ...	२२२	यो यत्पैर्वा विवाहानाम्	५१	राहस्य समहे निस्यम् .	१६७
येन यस्तु गुणैर्नैयाम् . .	३४६	यो यावन्निदुर्वीतार्मन् . .	१९२	राहस्ये रथाधिकृतान् ..	२७७
येन वेन तु भावेन .	११३	यो येन पतितेनैयाम् . .	३२९	स्मृतस्त्वुणोपेताः ...	५१
येन मेन यथाग्नेन . .	९२९	योऽरक्षन्धलिमावत्ते ...	२२६	रेत श्रेक स्वयोनीयु ...	३१३
येनासिन्कर्मना लोके ...	३४५	योऽर्धत मतिगृह्यानि ...	११३		
		यो राहः प्रतिगृह्यानि ...	९४	रु	
		यो लोभादधमो आसा	३०७	रुह्यं शब्दशून्यं वा स्यात्	३१५

रु

रुह्यं शब्दशून्यं वा स्यात् ३१५
रुह्यं शून्यं वैव ... ११७

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
स्त्राहिरटाना च ...	३४८	वाच्येके उद्धति माणम् . .	८५	विधिवज्ञानपयज्ञ . .	२७
लोकस्वयपहारार्थम्	२०२	वागिष्य कारयेद्वैश्यम् ...	२४०	विधिवत्प्रतिगृह्यापि . .	२५१
लोकान्वान्स्वजेयुर्मे	२८३	वानस्पत्य मूलफलम् ...	२३०	विद्युमे सप्तसुक्ते	१४६
लोकानां तु विद्युद्वयम्	५	वाग्नास्त्युक्तासुख भेत	३५०	विनाक्षिरप्यु वाप्यार्त	३३२
लोकेश्याधिष्ठितो राजा .	१२९	वाग्नो विरिक्त क्रात्वा तु	१३५	विनीतेस्तु प्रजेनित्यम्	३३३
लोकः समोऽवृत्तिः श्रौतम्	३४५	वायोरेपि विदुर्वाणात् ...	११	विमः शुष्यत्यप सृष्ट्वा ..	१२९
लोभात्सहस्र दण्डधरः	२०१	वाय्वमिधिमभादित्यम् . .	८९	विमदुष्टा क्रिय भर्ता ..	३२९
लोभान्मोहाद्भवान्मैत्रात्	२००	वारिदस्तृप्तिमाप्नोति . .	११२	विमयोगे विधैशैव . .	१४७
लोष्ठमर्वां गुणश्रेयसी	९२	वार्षिकाम्यपुरो मासान् . .	२८३	विमसेवैव शूद्रस्य ...	३०३
लोट्टकुमुदीप च . .	९४	वाद्यन्तशारदैर्मन्थै	१४०	विमस्य त्रिपु धर्मेणु ...	२८८
लोहितान्द्रुहनिर्वासाम्	११७	वासासि मृतचेलानि . .	२९४	विमाणं वेदविदुषाम् . .	२८६
लौकिक वैदिक यापि . .	३१	वाचो दधात्यु दत्त्वा ...	३२३	विमाणो ज्ञानतो व्येष्टधम्	३५
		वाचोदांभ्यंन्द्रसालोपयम्	११२	विमोष्य पाषमाहणम् ...	४२
				विमक्षा सत् जीवन्तः	२६९
				विराद्भुक्ता सोमसद ...	७१
				विविधाशैव सपीडा ..	३५०
				विशिष्ट कुनपिद्वीजम् ..	२४६
				विशीलः कामदृष्टो वा	११७
				विशम्भ ब्राह्मणः शूद्राम्	२४१
				विशेष्यशैव वैषम्य ..	५८
				विशेष्य देवे साधैश्च . .	३०९
				विषभैरगद्वैद्यास्य . .	१८३
				विषाद्वयमृत माहम् . .	४५
				विषय्य ब्राह्मणांसास्तु	७०
				वीक्ष्याचो नयतेः कालः	६९
				वृको गृहणे व्यागोऽश्वम्	३४९
				वृष्टिं तत्र प्रकुर्यात् ...	२१७
				वृशीनां रक्षण भैव ...	१५
				वृषाशुसरसमायम् ...	११७
				वृषासकरजातानाम् . .	१२८
				वृद्धाश्च निल संथेत ...	१५७
				वृद्धो च मातापितरौ . .	२६६
				वृषीकादद्या गावः	३२१
				वृष्यकीनपीतस्य . .	४९
				वृषो ि मगवाभ्यम्	१८६
				वृषुदेवशाशानाम् ...	२०९
				वेतनस्यैव चादानम् . .	१८५
				वेदः स्मृतिं यदाचार ...	१७
				वेदमदावावाचार्यम् ...	३७
				वेदमिवाभ्यश्रेष्ठितम् ...	१०१
				वेदमेव सदान्ययेत् ...	३६
वत्सस्य इतिशस्यस्य . .	२००	विशतीशस्य तत्सर्गम् ...	१६८		
वधेनापि यदा स्वेताम् . .	२०२	विकपाचो घन किञ्चित्	२१२		
वध्याय ह्यपु सनतम्	२९४	विनीकृति परस्य खम् . .	२११		
वाप्यतीना सर्वपाप्	३२३	विनोशत्यो यस्य राष्ट्रत्	१७१		
यनेपु च प्रिह्वैवम् ..	१४३	विगतं तु विदेशस्थम् . .	१२६		
वाप्याहमेऽपिवेद्यान्दे	२५२	विघ्नघाती भवेन्नित्यम् . .	८२		
यवन मेगहादण्डी . .	३२५	विपुष्य तु हत चैरि . .	२१६		
यवराः कर्मणोऽर्धम् . .	८५	विदूशूद्रचोरैश्चमेय . .	२२२		
यर्ह दार्षणं विगुणः . .	३००	विद्वाराहरोद्गामम् . .	३२६		
यश्चेत् यथा प्रायेः . .	२८२	विष्मनोत्सर्गशुष्यभर्ग	१३७		
यर्षिये मधु गांध च	३८	विद्य यशुसैव कर्म ..	३२		
यर्षयेमापु मांन च	१४१	विदुषा माहमेऽदम्	१४		
यर्षानामासुर्हर्षेण . .	३२४	विद्यमेय सम कामम् . .	३०		
यर्षापिनविक्षानम् . .	२९४	विद्याशुभ्वेतदेः . .	४१		
यर्षयश्च शिलोऽपान्याम्	८४	विद्यातप सन्मदेषु . .	५९		
यर्षं यर्षेऽश्वमेधेन	१२३	विद्याधनं तु वचस्य ..	२६०		
यर्षाशुवासु भैव म्यात् . .	१८८	विद्या ब्राह्मणोत्साह ...	३०		
यर्षं वृर्षाऽश्वमागम् . .	२८	विद्या शिष्य मुनि सेषा	३०७		
यश्च शुभमगृह्णन्त्या ...	३३४	विद्युतोऽशनिमेघाद्य . .	६		
यमिष्टविरिक्तं वृद्धम्	२०३	विद्युत्कानितवर्षेणु . .	९६		
यसौ तर्षं शीर वा	१३९	विद्वद्भिः सेविताः मङ्गि	१६		
यस्युद्वर्त्तं तु रिसृम् . .	८२	विज्ञानु गार्हणे हृद्वा ...	१८९		
यश्च परममकारम्	२७०	विद्यवायां विद्युक्तम् . .	२४९		
यश्चद्वर्त्तं मधन कुर्वात्	२०२	विद्यजायां नियोगार्थं ..	२४९		
यश्चद्वर्त्तं मधन कुर्वात्	२०२	विद्यताता शाखिना यका ..	३१०		
यश्चद्वर्त्तं मधन कुर्वात्	२०२	विद्याय मोषिणे वृत्तिम्	२७१		
यश्चद्वर्त्तं मधन कुर्वात्	२०२	विद्याय वृत्तिं मार्वाणाः	२५१		

श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ
श्रेयसु गुरुवद्भित्त्वा .. ४१		सकरापात्रकृत्यासु .. १२२		सपिण्डता तु सुगमे ... १२४	
श्रेयसश्च श्रेयसोऽलाभे ... २६६		सकरो जातयस्त्वेता .. २९२		ससकम्पास्य यगैस्य .. १५९	
श्रेयसं लब्ध्वा चक्षुषी जिह्वा २७		सकल्पमूलाः कामो ये . १६		सस विद्यागमा धर्म्या ... १०२	
श्रेयसि श्रेयसि साधुसु २३७		सकीर्णयोनयो ये तु .. २९०		ससद्गच्छेत् राग्यस्य .. २८१	
श्रेयसि व्याधितातौ च २३८		सकनमध्यजयष्टीनाम् २७९		ससाता मङ्गुलीना तु ... २८६	
श्रेयसस्य कदर्यस्य ११२		सप्रामेयनिवर्तित्यम् . १६४		ससद्गच्छारिष्येकारम् ... १२६	
श्रेयसिवाथैव देशानि ६२		स चेद्भ्र पथि सरुद्धः . २२४		समान्तः साक्षिणा प्राप्ताम् १९५	
श्रेयसि तु सुसवने . १२०		सजातिजानन्तराजः . २९२		समाप्रयाप्युपशालाः .. १०६	
श्रीमतीदी क्षेपनजीवी च . ६७		सजीवन महावीरिणम् ... ९४		सभा या न प्रवेष्टव्यम्... १८६	
श्रमिर्हृतस्य यन्मासम् १३४		स ताननुपरिक्रामेत् . १६८		समक्षदर्शनस्ताक्ष्यम् . १९४	
श्रमासमिच्छनातोऽयुम् ३०१		स तादृवाच धर्मात्मा . ११७		सममब्राह्मणे दानम् .. १६३	
श्रयता शौचिष्ठयानां च १११		स तादृवाच धर्मात्मा . ३४१		समवर्णास्तु ये जाताः . २६२	
श्रयगालक्षरैर्दृष्टः .. ३३१		स तौ पृष्टस्तथा सम्यक् .. १		समवर्णे द्विजातीनाम् ... २२१	
श्रयस्करसरोद्गणाम् .. ३४८		सत्क्रिया देशकालौ च . ६९		स महीमन्त्रिको मुखम् .. २५०	
श्राविष शस्त्यक गोषाम् ११९		सत्त्वं ज्ञान तमोऽज्ञानम् ३४४		समानयानकर्मा च .. १७५	
		सत्त्वं रजस्तनश्चैव .. ३४४		समाहस्य तु तद्वैश्वम् .. २२	
		सत्त्वं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी . १९५		समीक्ष्य स घृत सम्यक् १५४	
		सत्यधर्मोर्ध्वकृतेषु .. १०५		सञ्जल्पति च भासस्य . १२३	
		सत्य इयादित्य क्षुपात् . १००		सञ्जल्पेद्ब्राह्मणार्थो ... २७८	
		सत्यमर्थे च सपदमेत . १९०		सञ्जल्पयानकुशलाः ... २०६	
		सत्यमुपस्था तु विमिषु . ३३१		सर्गेर्हि विषम यस्तु .. ३७९	
		सत्या न भाषा भवति २०७		सर्मोत्तमान्ने राना . १६४	
		सत्यावृत तु चागिष्यम् ८३		समासाय त्वतिथये ... ५९	
		सत्येन पूरते साक्षी १९५		समीक्ष्य सुग्यमानानि ... २०४	
		सत्येन शाययेद्विमम् २००		समवाक्य विमोनीषु .. ३५०	
		स त्वन्सु त घट प्रास्य .. ३३०		समूय स्वानि कर्माणि . २१३	
		सदा महद्वया मान्यम् १६६		सभोगो हृदयते यत्र . २१२	
		सदृश तु मङ्गुलीयम् २६४		सभोजनी साभिहिता . ६४	
		सदृशक्रीपु जातानाम् . २५८		समानाद्ब्राह्मणो नित्यम्... ३६	
		सद्भिराचरित यत्स्यात् १९०		समानोपाशनेन . १३४	
		सद्यः पतति मासेन २९९		सम्बद्दर्शनसपन्नः . १४५	
		सद्यः प्रक्षालको वा स्यात् १४१		सम्बन्धि विष्टदेशस्तु ... २७५	
		सन्नुष्टो भार्यया मर्ता ५४		स यदि प्रतिपद्येत . २०९	
		सन्तोष परमास्थाय . ८४		सरलतीक्ष्णद्वयो . १८	
		सत्यज्य भ्राम्यमाहारम् १३९		स राजा पुरुषो दण्ड .. १५४	
		सर्षि च विग्रह चैव . १७५		सर्व एव विकर्मस्थाः २७०	
		सर्षि छित्रा तु ये चौर्मन् २७८		सर्वलक्षणहीनोऽपि . १०३	
		सर्षि तु द्विविध विद्यात् १७५		सर्वे यानि चरेद्ब्राम्णम् .. ३९	
		सर्ष्यां शोपास्य श्रुत्यात् १८४		सर्वे वा रिषभजात तत् १	
		सर्षिणावेष वै कल्पः . १२६		सर्वे स्व ब्राह्मणस्येवम् ... १४	
		सन्त्यस्य सर्वकर्माणि ... १५२			

५

पद्मकर्मको भवलेपान् ... ८४

पद्मनिशुद्धिद्विक्रमयम् ४६

पद्मसुपुष्पो विषस्य ... ४९

पद्मना तु कर्मणास्य . २९७

पद्मनामेपा तु सर्वेषाम् . ३५२

पद्मनासाच्छागमासेन . ८०

पद्म तु क्षेपनस्यांशम् २६३

पद्मनाकाशता मासम् . ३३२

स

सयोग पतितैर्गत्या ३४८

सरक्षणाधै जन्तूनाम् . १४८

सरक्ष्यमाणो राज्ञाय १७०

सवत्सर तु गव्येन ... ८०

सवत्सर मतीक्षेत . २५१

सवत्सरस्यैकमपि . ११९

सवत्सरानिश्चलस्य २६५

सवत्सरेण पतति . ३०९

संज्ञोच्य त्रिविध मार्गम् १७८

संज्ञागमन चैव . १५

संश्रितस्यानपलस्य .. ३६७

संश्रान्तोऽप्येदंरुपान् . १७९

सकामा दूषयस्तुल्य . २३४

सकुलन्वात्यपामीषम् ३२८

सकुद्वयो निपतति . २४७

श्लोकः	पृष्ठं	श्लोकः	पृष्ठं	श्लोकः	पृष्ठं
सर्वद्वन्द्वकथाविष्टम् ...	२८०	स विद्यादस्य कृत्स्नेषु ...	१६१	सीमाविवादधर्मश्च ...	१८५
सर्वे कर्मदमायत्तम् ...	१८१	सव्याट्तिपणवकाः ...	३३०	सीमावृत्ताश्च कुर्वीत ...	२१८
सर्वे स ज्ञान्तव रक्षम् ...	२८८	स सन्धार्य प्रयत्नेन ...	५६	सुखं प्रयत्नतं श्रेते ...	३६
सर्वे च तिस्रसंरक्षम् ...	९२	सत्यान्ते नवसत्वेष्टया ...	८६	सुजाभ्युदयिकं चैव ...	३५२
सर्वे च प्रतिगृहीयात् ...	२००	सहविण्डक्रियायां तु ...	७८	सुता भग्ना प्रमत्ता या ...	५१
सर्वतो धर्मपदनां ...	७२६	सह वापि भवेद्युक्ताः ...	१८१	सुत्वां कुत्वा च मुक्त्वा च ...	१३५
सर्वे तु समनेस्वेदम् ...	१७	सह सर्वाः समुत्पन्ना ...	१८३	सुवीन चैव हुषेने ...	२९६
सर्वे परवशं तु सन् ...	१०३	सहस्रं हि सहस्रानाम् ...	६३	सुरा पीत्वा द्विजो मोहात् ...	३१७
सर्वेभ्योऽपि आत्मानम् ...	३५३	सहस्रशृत्परत्नभ्यस्य ...	२६	सुरा वै मरुतभ्रानाम् ...	३१८
सर्वमात्मानि सपरस्परम् ...	३५६	सहस्रं प्राज्ञो दण्ड्याः ...	५३५	सुवर्णचौरः कौनरुवम् ...	३१२
सर्वरत्नानि राजा तु ...	३०५	सहस्रं प्राज्ञो दण्डम् ...	२३६	सुवर्णस्तेयकृत्विमः ...	३१९
सर्वकक्षणहीनोऽपि ...	१०३	सहास्रनमनिमेषुः ...	२२२	सुवापिनी कुमारीश्च ...	६१
सर्वेभ्योऽपि सुख्यात् ...	२८७	सहोमी चरता धर्मम् ...	५०	सुदमता चाचक्षेते ...	१७८
सर्वस्वास्त्यं तु सर्वस्य ...	१२	सर्वस्वरिकमासैश्च ...	१६३	सुहृन्म्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः ...	२७२
सर्वस्य वैद्विषुषे ...	६५६	साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा ...	१९२	सुतानामभ्युत्थानम् ...	२९३
सर्वाङ्करैः स्वर्णकाराः ...	३१४	साक्षिप्रभविधानं च ...	१५	सुतो वैदेहकथीय ...	२९५
सर्वान्परित्यजेद्व्या ...	८५	साक्षी इष्टशुभान्दम् ...	१९४	सुवर्णस्य सकिष्णानाम् ...	२२९
सर्वान् रसानयोद्वेह ...	२९८	साक्ष्यभावे तु चम्बारा ...	२२०	सूर्येण इमिनिर्मुक्ताः ...	४३
सर्वेषामेकपत्नीनाम् ...	२६५	साक्ष्यभावे प्रणिधिभिः ...	२०९	सेनापतिवलाक्यञ्चै ...	१७९
सर्वेषु तु प्रयत्नेन ...	१६१	साक्ष्येऽप्युत वदन्पारै ...	१९५	सेवेतिमास्तु लिखन्तम् ...	३७
सर्वे तस्यादता धर्मा ...	४४	सा चैत्युनः प्रदुष्येत् ...	३२९	सेनापस्य च राज्यं च ...	३५३
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेने ...	१५१	सा चैवद्यतयोनिः स्यात् ...	३६५	सोऽभिर्नवति वायुश्च ...	१५३
सर्वेषां प्राज्ञो मिषात् ...	२८६	सात्त्वानिक सक्ष्यभाणम् ...	३०५	सोऽर्धमा विनयेत्स्वम् ...	३६९
सर्वेषां श्रावमाशौचम् ...	१२४	साम्बन्धनाद्युपद्रुपी ...	९८	सोऽद्भुतप्राप्तान्श्लोकार्थ ...	३४३
सर्वेषां तु स नामानि ...	४	सामन्ताश्चेन्मृषा ब्रूयुः ...	३०	सोऽभिध्याय शरीरतत्त्वात् ...	४
सर्वेषां तु विधिष्टेन ...	१६०	सामन्तानामभावे तु ...	२३०	सोऽनया नाम निरामानम् ...	७१
सर्वेषां तु विदित्विनाम् ...	७८१	सामादीनामुपामानात् ...	१६७	सोऽनयास्तु कथं पुत्राः ...	७२
सर्वेषां धनजातानाम् ...	२५६	साम्ना दानेन भेदेन ...	१८०	सोऽनयिप्रियेणे मिष्टा ...	६९
सर्वेषामपि चैतेषाम् ...	३५१	साय त्वजस्य सिद्धस्य ...	६१	सोऽनयिप्रियेणे मिष्टा ...	१२९
सर्वेषामपि चैतेषाम् ...	३५१	सारासारा च शङ्खानाम् ...	२८५	सोऽनयिप्रियेणे मिष्टा ...	३२९
सर्वेषामपि तु स्यामम् ...	२६८	सर्ववर्गिकमयाद्यम् ...	७७	सोऽनयिप्रियेणे मिष्टा ...	१५६
सर्वेषामप्यभावे तु ...	२६६	सावित्री च जपत्रित्यम् ...	३१५	सोऽनयिप्रियेणे मिष्टा ...	१८६
सर्वेषामपिनोऽश्रुत्या ...	२१३	सावित्रीनामसाराऽपि ...	३११	सन्धेयानादाय सुखसम् ...	२२७
सर्वेषामेव धानानाम् ...	११३	साहस्रे वर्तमानं तु ...	२३१	सन्धेयानामयोऽक्षयम् ...	११०
सर्वेषामेव धौचानाम् ...	३३०	साहस्रेषु च सर्वेषु ...	१९४	शिवः सृष्ट्वेद्वेदे य ...	२३३
सर्वे दण्डवितो लोकाः ...	१५५	साहस्रेषु च सर्वेषु ...	१९४	शिव्या तु रोचमानायात् ...	५४
सर्वोपर्यलया क्रुयात् ...	१७७	सीताद्वय्यापहृत्ये ...	२८०	शिव्याप्यसभवे कार्यम् ...	१५४
सर्वेषां पट्टं यनो मध्यं ...	३०३	सीदङ्गिः क्रुव्यमिच्छति ...	३०२	शिव्या तु सद्भवेद्वित्तम् ...	२६८
सर्वेषां द्विजार्त्तानाम् ...	३८	सीमा प्रति सङ्कल्पे ...	२१८	शिवोऽप्येतेन कल्पेन ...	३४९
		सीमायामविपदायाम् ...	२२०	शिवो रत्नान्यथो विद्या ...	४५

श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ	श्लोकः	पृष्ठ
स्त्रीणां सुनोपमभूरम् ..	२०	स्वयं वा शिश्रयुषणौ	११०	एतां विपत्तां च भित्तिं च	५०
स्त्रीणामसकृतानां तु	१२६	एवमृतस्य काषांभम्	१०५	एतां स्त्रीणापीनांटीन्	१२०
स्त्रीणां साक्ष्यं द्विषः कुर्यात्	१९३	एवमेव तु यो दद्यात्	२१०	एतां ह्यष्ट वशाणां च ..	१३३
स्त्रीषानि तु ये मोहात्	५३	एतच्छ्रेयसापयुक्तः स्यात्	१५६	एतित जातानांतांश्च ..	१३३
स्त्रीषर्मयोगं तापस्यम्	१५	एवर्गार्भमुपयार्भं वा	३०३	हरिषान् विगुक्तावात्	२६१
स्त्रीपुषर्मो विभागस्य	१८५	एववीर्याश्रानवीर्याप	२०९	हरिष्यद्वाहनां पुष्टः ..	७६
स्त्रीषालो मत्तयुद्धानाम्	७०२	एवदानार्द्रार्द्रसर्गात्	२०८	हरिष्यद्विररागात्	८०
स्त्रीष्वनन्तरजातासु	२८७	एवाप्याय मायपेत्सिपये	७६	हरिष्यन्तीषमभ्यस्य	२१८
स्वल्पजौदकशक्ताणि	१४०	एवाप्याये नित्ययुक्तः स्यात्	५६	हरिष्यन्तुवाऽपुष्टरेत्	२१६
स्वधानासनाभ्यां विहरितः	३३५	एवाप्याये विष्ययुक्तः स्यात्	१४०	हस्तिगोश्लोष्टदमकः	६७
स्वधारः कृमिपीटाश्च	२४६	एवाप्यायेन त्रतर्होमिः	१९	हस्तिगश्च सुरक्षाश्च	२४६
सृष्टान्ति भिन्द्वः पादौ	१३५	एवाप्यायेनाभयेदपीन्	५७	हिनगत्रिन्पयोर्मप्यम्	१९
सृष्ट्या दत्त्वा च भदिराम्	३२५	एवानि कर्माणि कुर्याणाः	१९०	हिरण्यभूमिमश्च गाम् ..	१०७
सृष्टेतामशुचिर्मित्यम्	१०१	एवात्म्यमालौ पुर राद्गम्	२८०	हिरण्यभूमिपुरां च ..	१०७
स्यन्दनाभौ समे सुप्येत्	१८०	एवा मसृतिं चरितं च	२४२	हिरण्यभूमिपुरादाः	३४८
स्यात्सार्धं स्वन्वयवत्	२२९	एवायमुषस्यास मनोः ...	९	हिरण्यभूमिसमाहवा ...	१८२
स्रोतसां भेदको यश्च	६७	एवायमुवापां संक्षेपे	९	हिरण्यभूमि शृङ्गहरे	५५
सद्येने सस्कृताया तु	२६३	एवारोधिपश्वोत्तमस्य	९	हीमक्रिय निष्पूरणम्	४७
स्वधर्मो विजयस्तस्य	३०३	एवेदञ्च ददमशकम् ..	७	हीनजातिधिय मोहात् ..	४८
सञ्जातिस्वलेव त भूयु	७८	एवेभ्योऽश्रेभ्यस्तु कान्याभ्याः	२५७	हीनाज्ञातिरिणादात्	१०१
स्वमे सिक्त्वा मद्राचारी	३८	एवेभ्याः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्याः	३५०	हीनासवप्रविषः स्यात् ..	४०
स्वभाव एव नादीणा	४२	एवे स्वे धर्मं निविष्टानाम्	१५६	हुत्वासौ विधिवद्भोगान्	३२१
स्वभावेनैव यद्भूयुः ..	१९५	हृ		हुकारं प्रादणस्योक्त्या	३३२
स्वमाद्य परमासेन	१२३	हृत्वा गर्भमविज्ञातम् ..	३१७	हृद्गामि पृथते विमः	२४
स्वमेव मादणो भुङ्क्ते ..	१४			होमे प्रदाने नोभ्ये च ..	७७